



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2008 (श्रावण 25, 1930)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2008 (SRAVANA 25, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 13 मई 2008

सं. 20-7/2008-के.पं. (जम्मू एवं कश्मीर)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारत के राजपत्र भाग III—अनुभाग 4 अधिसूचना 48 दिनांक 01 दिसम्बर, 1990 में प्रकाशित प्रारम्भ से 1985 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय परिषद् जम्मू एवं कश्मीर की प्रारम्भ से सितम्बर, 2005 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ अधिसूचित करती है।

टिप्पणी— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन प्रारम्भ से सितम्बर 2005 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (जम्मू एवं कश्मीर) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/गलती, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्टर, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61—65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय पंजिका

जम्मू - कश्मीर

भाग - प्रथम आयुर्वेद

क्र. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
102137	आदर्श प्रकाश शान्ती प्रकाश	बी० ए० एम० एस० कानपुर वि० वि०, कानपुर 1975	334 23.04.84	उधमपुर
102138	अजीत कुमार शान्ता राम	बी० ए० एम० एस० सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि० वि०, वाराणसी 1989	454 06.01.04	गांव व पोस्ट दयाल चक तहसील हीरानगर जिला कठुआ।
102139	अखिल गुप्ता यश पाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2003	416 19.07.03	गांव व पोस्ट कोहाग, तहसील बिल्लावर जिला कठुआ।
102140	अमन गुप्ता दर्शन कुमार गुप्ता	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	561 03.10.05	सलहन तहसील हीरानगर, ए०/पी० डब्लू नम्बर 9, परलीवांड कठुआ।
102141	अमनप्रीत कौर स्जीत सिंह	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1996	436 24.11.03	127/3, त्रिकुटा नगर, जम्मू।
102142	अमर नाथ शर्मा भगत राम	वैद्य वाचस्पति डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, अमृतसर / जालंधर 1953	148 16.03.73	सुध महादेव तहसील, उधमपुर।
102143	अमरजीत सिंह त्रिलोक सिंह	बी० ए० एम० एस० पंजाब वि० वि०, चण्डीगढ़ 2005	543 22.06.05	गांव बुहामा बीरु बुड़गम कश्मीर, ए/पी अलोचनी बाग, श्रीनगर।
102144	अमृत कपूर बाल राज कपूर	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	522 11.01.05	अमृत मेडिकल हाल, पुच्छ, वार्ड, नम्बर 6, पुच्छ।

102145	आनन्द अश्वनी कुमार रोमेश कुमार आनन्द	बी० ए० एम० एस० राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	528 22.02.05	टोंडवाह डोडा सिटी, तहसील व जिला डोडा।
102146	अनिल गुप्ता सत्यपाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1984	509 16.10.04	वार्ड नम्बर 3, सम्बा, जिला जम्मू।
102147	अनिता कुमारी सजीव भारद्वाज	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	371 28.04.03	57, बी/डी गोंधी नगर, जम्मू।
102148	अंजलि डोगरा ब्रिश्म्वर दास डोगरा	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2001	461 07.01.04	ईपी 169, उस्ताद मोहल्ला, जम्मूतवी एपी 184-ए, गोंधी नगर, जम्मू
102149	अनुपमा शर्मा वेद प्रकाश शर्मा	बी० ए० एम० एस० कनॉटक वि० वि०, धारवाड़ 2000	453 06.01.04	क्वाटर नम्बर 158, सरवल कालोनी जम्मू।
102150	अर्चना टंगलू वीआर पडिता	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1999	491 08.01.04	मकान नम्बर 180/1, दुर्गा नगर रूप नगर, जम्मू।
102151	अरूण भट बीएल भट	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1998	466 07.01.04	एपी मकान नम्बर 505, सैक्टर 1, विनाविया नगर अपर मुथी, जम्मू।
102152	अरविन्द भारद्वाज रामा कान्त भारद्वाज	जी० ए० एम० एस० पंजाब राज्य आयु एवं युवानी चि. पं. संकाय, चण्डीगढ़ 1968	160 26.04.72	भारद्वाज फार्मसी, पीर मिठा, जम्मू।
102153	अशोक कुमार बलदेव सिंह	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1990	404 03.05.03	मकान नम्बर 163/3, संजय नगर, जम्मू।

102154	अशोक कुमार अजीत राम भान	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2002	434 15.11.03	पुरोमाना पोस्ट . आर एस पुरा जिला जम्मू।
102155	अशोक शर्मा सल पाल शर्मा	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1983	417 07.08.03	लेन नम्बर 10, ग्रेटर कैलाश, जम्मू।
102156	अनुपम शर्मा जमदीश राज	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	521 21.12.04	गांव. हथल . तहसील सुन्दरवानी जिला राजौरी।
102157	बद्री नाथ साधु कंठ साधु	आयुर्वेद भिषक निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1983	108 23.10.71	54, कर्ण नगर , श्रीनगर
102158	बलविन्दर सिंह मंगल सिंह	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	497 01.03.04	कठीर मनवाल , जम्मू।
102159	बलवंत राय शर्मा मल्लिका राम शर्मा	वैद्य विशारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन , प्रयाग 1964	125 08.02.72	पवन मेडिकल गौधी नगर, जम्मू।
102160	बशी लाल शर्मा ब्रज लाल शर्मा	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1965	132 08.02.72	दूमी भालपुर . जम्मू।
102161	बीना म्यान प्रमोद सिंह	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि० वि०, दिल्ली 1989	486 08.01.04	बेरिल बिल्लावर तहसील बिल्लावर जिला कठुआ।
102162	भारती कौशल मट के के मट	बी० ए० एम० एस० कर्नाटक वि० वि०, धारवाड़ 1998	415 18.07.03	70-ए, अमा कालोनी गोले , गुजराल रोड़ तलाब टिल्लो जम्मू।



102163	भारती कौल एसएल कौल	बी० ए० एम० एस० पुना वि० वि०, पुणे 1999	473 07.01.04	जवान पथ चौक, श्रीनगर।
102164	भवानी शर्मा गोपाल राम	बी० ए० एम० एस० भारती विद्यापीठ पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2003	493 15.01.04	70ए, पी, द्वितीय प्रसार गोंधी नगर, जम्मू
102165	भावना गुप्ता एस के गुप्ता	बी० ए० एम० एस० राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	507 16.09.04	नगर भादरवाह जिला, डोडा।
102166	बिमला हान्डा गंगा राम	बी० आई० एम० एस० बोर्ड आफ इण्डि. मेडि., उत्तर प्रदेश, लखनऊ 1984	159 08.02.72	ताल्लाब खाटिकन, जम्मू।
102167	बिपन चन्द्र यशपाल	बी० ए० एम० एस० राजस्थान वि० वि०, जयपुर 2005	531 10.03.05	जेडीए, प्लॉट नम्बर 2, न्यू रेहारी जम्मू।
102168	बुद्ध पाल मोहिन्द्र पाल	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2000	370 26.04.03	वार्ड नम्बर 1, नजदीक बी. डी. आफिस कठुआ।
102169	बृजबाला सुनील दत्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1986	474 07.01.04	गाव/पो० देवीपुर, तहसील अखनूर जिला, जम्मू।
102170	चन्दा गुप्ता राधेश्याम	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	537 26.04.05	एव/पी वार्ड नम्बर 2, कठुआ।
102171	दर्शन कुमार शर्मा कालीदास शर्मा	बी० ए० एम० एस० मुम्बई वि० वि०, मुम्बई 2003	525 04.02.05	गांव धाली, पो० दयाल चक तहसील, हीरानगर।

102172	देवेन्द्र मोहन शर्मा देव राज शर्मा	बी० ए० एम० एस० पंजाब वि० वि०, चण्डीगढ़ 1999	468 07.01.04	गांव. चक दौलत, पोस्ट विजयपुर सम्बा।
102173	दीपक कुमार देव राज	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	498 01.03.04	टाटा पानी पडडार तहसील, किष्टवार जिला, डोडा।
102174	दीपक रैना मोती लाल रैना	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1998	358 23.03.04	363ए, कासिम नगर, गुरहा बकशीनगर, जम्मू।
102175	दीपक शर्मा चमन लाल शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2005	526 22.02.05	वार्ड नम्बर, 3, कृष्णा कालोनी, कटुआ।
102176	दीपिका वजीर आर आर वजीर	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1998	469 07.01.04	भादरवाह तहसील, भादरवाह जिला, डोडा।
102177	देव राज शर्मा ईश्वर दास शर्मा	जी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1983	394 03.05.03	ईश्वर मेडिकेट मोती बाजार, जम्मू।
102178	ध्रुव सिंह जगदीश सिंह	आयुर्वेद भिषक निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1979	330 30.03.83	गांव० पो० आफिस. पराले कटुआ।
102179	डिम्पल गुप्ता के० एल० गुप्ता	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2003	413 14.07.03	94, एम.आई.जी. हाऊसिंग कालोनी पी.एचए-1, ऊधमपुर।
102180	द्वारका नाथ शर्मा अमर नाथ शर्मा	वैद्याचार्य निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1963	156 24.04.072	मकान. नम्बर. 202, मोहल्ला जोगी गेट, जम्मू।

102181	ज्ञान धन्ध शर्मा करतार चन्द	बी० ए० एम० एस० राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2004	516 19.11.04	नगरोटा पंजगर्सेन पोस्ट रननगर जिला, ऊधमपुर।
102182	गौरव वैद अमृत लाल वैद	बी० ए० एम० एस० राजस्थान वि०, वि०, जयपुर 2003	412 16.06.03	2/102, विकास नगर, सरवाल जम्मू तवी।
102183	हितेन्द्र महाजन मंगत राम महाजन	बी० ए० एम० एस० राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2004	518 03.12.04	दैनिक पंजाब केसरी पटेल नगर, कटुआ।
102184	हरबंस लाल शर्मा गोपाल दत्त शर्मा	आयुर्वेद रत्न हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1964	126 08.02.72	सुदेश फार्मसी, मकान नम्बर 40, वार्ड नम्बर 5, ऊधमपुर।
102185	हरबंस लाल शर्मा गोपाल दास शर्मा	आयुर्वेद रत्न हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1964	159 12.08.72	सुदेश फार्मसी, मकान नम्बर 40, वार्ड नम्बर 5, ऊधमपुर।
102186	हरप्रीत कौर हिमत सिंह	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि०, वि०, दिल्ली 2001	427 30.08.03	मकान नम्बर 601, ईपी, मोहल्ला पीरमिठा टिपटाप गली,
102187	हितैषी वर्मा टी आर. शर्मा	बी० ए० एम० एस० राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2004	508 15.10.04	मकान नम्बर 34, मोहल्ला, पाहेन, गीता भवन, जम्मू।
102188	इस्तिआज अहमद मेकरू हाजी गुलाम नबी	बी० ए० एम० एस० गुलबर्गा वि०, वि०, गुलबर्गा 2003	560 30.09.05	अरवानी तहसील बिजबेहरा, जिला, अनन्तनाग।
102189	इन्दू बाला ब्रह्म कुमार	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	547 18.04.05	वार्ड नम्बर 3, कृष्णा कालोनी, कटुआ।

102190	जंगर नाथ भट्ट कंठ राम भट्ट	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1964	146 21.12.72	गांव वनगाम, पोस्ट शागास, तहसील अनन्तनाग।
102191	जगदेव सिंह कृष्ण चौहान	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बि०, बंगलौर 2004	504 07.06.04	जनता मेडिकल हॉल, द्यलेन पोस्ट मण्डल, जिला जम्मू।
102192	जगदीत कौर कमलजीत सिंह कौर	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बि०, बंगलौर 2003	445 18.12.03	मकान नम्बर 543, एक्स भवानी विहार त्रिकुटा नगर।
102193	जय गोपाल शर्मा रूप लाल	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1965	114 11.02.72	गांव पो. आफिस सतवारी, जम्मू।
102194	जयदेव खजुरिया मन मोहन दत्त खजुरिया	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	554 22.08.05	गांव.बो. घघवाल (हरसाथ) तहसील हिरियानागा।
102195	जानकी नाथ जझासू आनन्द कौल	वैद्याचार्य निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1962	116 11.02.72	सफरियार हब्बा काडल श्रीनगर।
102196	जोनीड इकबाल मोहम्मद इब्राहिम	बी० ए० एम० एस० छत्रपति साहूजी महाराज वि०, बि०, कानपुर 2003	431 11.11.03	अख्याराहद किशवार, जोडा।
102197	ज्योति जमवाल बीएस जमवाल	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	524 02.02.05	मकान नम्बर 159, कची छावनी, जम्मू।
102198	ज्योति शर्मा रतनी कान्त शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि०, बि०, रोहतक 2003	344 10.04.03	ग्राम बुद्धी, जिला, कटुआ।

102199	कमल किशोर दुबे ओम प्रकाश	बी० ए० एम० एस० का. सि. द. स. वि०, दरभंगा 1998	475 07.01.04	गांव. फलोरा नागबानी पोस्ट डोमना तहसील व जिला, जम्मू।
102200	कंचन हिंजुरा महाराज कृष्ण	बी० ए० एम० एस० कर्नाटक वि०, धारवाड़ 2000	440 04.12.03	गांव हिंजुरा तहसील चदूरा, जिला. बुडगाव
102201	कपूर शाश्विता बी सी. कपूर	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि०, कोल्हापुर 2002	488 08.01.04	अबरोल संस. जेवेल्लरस, 15, अपर बाजार, धोवनठली।
102202	कवि राज काशी नाथ कौल श्री नाथ कौल	आयुर्वेदाचार्य निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1941	109 14.08.72	आर/ओ. कर्ण डिगम, पोस्ट देरी वाया, बिजबेहेरा, कश्मीर।
102203	कोमिला अजीत राज	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	546 15.07.05	पोस्ट अनिया तहसील बिश्नेह जिला. जम्मू।
102204	कृष्ण दत्त शर्मा अमर नाथ शर्मा	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1957	155 24.04.72	मकान नम्बर. 2002, मोहल्ला जोगी गेट, जम्मू।
102205	लक्ष्मण दास गोपाल दास	आयुर्वेदाचार्य सनातन धर्म प्रेमगिरि आयु. कालेज (लाहौर) 1940	232 05.10.076	न्यू कालोनी, कठुआ।
102206	लता महाजन मंगत राम	बी० ए० एम० एस० कुवेम्पू वि०, शंकरघट्टा 2000	428 30.08.03	पटेल नगर, कठुआ।
102207	मधु गुप्ता बंसी लाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2005	559 10.09.05	सेहल, तहसील रामनगर, जिला. ऊधमपुर।

102208	मधु शर्मा सुरेश शर्मा	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	562 30.09.05	मकान नम्बर. 157, लेन नम्बर. 8 शिव विहार जानीपुर कालोनी, जम्मू।
102209	महेश कुमार प्रीतम दत्त	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2004	502 10.04.04	ग्रीन एन्कलेव पीछे शिक्षा बोर्ड मकान नम्बर. 281, रेहारी, जम्मू।
102210	महाराज कृष्ण जानकी नाथ घर	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1964	119 25.04.07	आर/ओ. छोटा बाजार, श्रीनगर।
102211	ममता शर्मा कृष्ण लाल शर्मा	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 2002	352 23.04.03	सैक्टर डी. मकान नम्बर. 351, सैनिक कालोनी, जम्मू।
102212	मनीषा गुप्ता सुशील गुप्ता	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1996	410 03.06.03	मकान नम्बर. 310, मोहल्ला उस्ताद, जम्मू।
102213	मंजीत सिंह सोधी संत सिंह आजाद	बी० ए० एम० एस० छत्रपति साहूजी महाराज वि० वि०, कानपुर 2004	552 22.08.05	ए/पी सैक्टर ए. सैनिक कालोनी, समीप रेलवे ब्रिज, जम्मू
102214	मनोहर लाल अशचार्य लाल	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1967	157 08.02.72	पलानवाला, तहसील अखनूर।
102215	मीना गुप्ता तिलक राज गुप्ता	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	512 10.11.04	मकान नम्बर. 37, ए. व. ब. लेन नम्बर. 3., कर्ण नगर, जम्मू।
102216	मेला राम पंडित ज्ञान चन्द	आयुर्वेदाचार्य निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1956	124 10.02.72	तलाब टिल्लो, जम्मू।

102217	मोहिन्दर सिंह रजीत सिंह	बी० ए० एम० एस० छत्रपति साहूजी महाराज वि० वि०, कानपुर 2003	418 07.08.03	खुरार, पोस्ट. चन्दवान, तहसील हीरानगर
102218	मोहित शर्मा तरसेन लाल शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2005	539 26.04.05	वार्ड नम्बर. 4, कृष्ण कालोनी, कटुआ।
102219	मोना पाराशर ईश्वर देव शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2004	553 22.08.05	वार्ड नम्बर.4, हीरानगर जिला. कटुआ।
102220	मोनिका महाजन सुख देव राज गुप्ता	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2000	419 27.08.03	क्वॉटर नम्बर. 180, सरवाल कालानी, जम्मू
102221	मोनिका राठौर विजय कुमार कोतवाल	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2001	444 11.12.03	ए/पी. मुंशीपाल फ्लेट नम्बर.1, पास्स डंगा।
102222	नजदीप कुमार वेद प्रकाश	जी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि. वि०, शिमला 1982	324 20.08.82	रानी तलाब, जम्मू।
102223	नलनि शर्मा अशोक शर्मा	बी० ए० एम० एस० अमरावती वि० वि०, अमरावती 2000	362 25.04.03	उदराना भादरवाह, जिला डोडा।
102224	नमिता कपूर राज कुमार कपूर	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	438 24.11.03	मकान. मनबर. 798. सुभाष पगर, जम्मू तवी।
102225	नर्मता भट सीएल भट	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1997	484 08.01.04	एस. 110. पुच्छ हाऊस, फ्लेट तलाब टिल्लो, जम्मू।

102226	नन्नी जसरोटिया	बी० ए० एम० एस०	405	वार्ड नम्बर 2, कटुआ।
	कंवल सिंह जसरोटिया	महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1995	03.05.03	
102227	नरंजन नाथ कौल	वैद्य विशारद	167	मटन, पोस्ट, मार्तण्ड, कश्मीर।
	तारा चन्द कौल	निखिल भारतवर्षीय आयु विद्यापीठ, दिल्ली 1963	16.10.73	
102228	नारायण शर्मा	वैद्य विशारद	233	गांव पोस्ट परोले, कटुआ।
	कर्ण चन्द शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1967	16.12.76	
102229	नरेन्द्र शर्मा	बी० ए० एम० एस०	376	बलुनी पो. जटवाल, तहसील हीरानगर जिला कटुआ।
	खरैती राम शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1997	02.05.03	
102230	नीतू हांडू	बी० ए० एम० एस०	425	जनता स्टेशनरी रेहारी कालोनी, जम्मू।
	एम. के. हांडू	महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2001	29.08.03	
102231	विधी महाजन	बी० ए० एम० एस०	501	चन्द नगर, जम्मू।
	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 2004	08.04.04	
102232	निकिता	बी० ए० एम० एस०	541	गांव/पो. बरनोती जिला कटुआ।
	शीतल कुमार	हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 2000	28.04.05	
102233	निष्ठांक शर्मा	बी० ए० एम० एस०	424	29/1, चन्नी हिम्मत, जम्मू
	सूरज प्रकाश शर्मा	शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2000	29.08.03	
102234	नित्तन शर्मा	बी० ए० एम० एस०	349	मकान नम्बर 70, वार्ड नम्बर 3, इन्दिरा कालोनी, कटुआ।
	के. एल. शर्मा	नागपुर वि० वि०, नागपुर 1996	17.04.03	



102235	ओम प्रकाश शर्मा	आयुर्वेद रत्न	143	पलौरा, जम्मू जिला जम्मू।
	विद्या धर शर्मा	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1964	26.02.73	
102236	पारिक श्री धर	बी० ए० एम० एस०	393	38, भगवती नगर, जम्मू।
	रमेशचाम पारिक	राजस्थान वि० वि०, जयपुर 1996	03.05.03	
102237	प्रहलाद शर्मा	बी० ए० एम० एस०	387	जे.आई.ए.आर. नरदानी रायपुर, बनतलाब
	एन. के. शर्मा	राजस्थान वि० वि०, जयपुर 1997	03.05.03	रोड़, जम्मू।
102238	पाशी पंडिता	बी० ए० एम० एस०	462	235, रैना निवास, बोहरी हजरी बाग,
	एस. एन. पंडिता	कनाटक वि० वि०, धारवाड़ 2001	07.01.04	पोस्ट तलाब टिल्लो, जम्मू।
102239	पवन शर्मा	बी० ए० एम० एस०	447	गांव. गांडली पोस्ट सालेहर तहसील
	योग राज शर्मा	नागपुर वि० वि०, नागपुर 2002	20.12.03	आर. एस. पुरा जम्मू।
102240	पूजा गुप्ता	बी० ए० एम० एस०	429	पहाडियन मोहल्ला, जम्मू।
	राम कुमार गुप्ता	पूना वि० वि०, पुणे 2002	09.10.03	
102241	पूजा गुप्ता	बी० ए० एम० एस०	452	सामने. पुलिस स्टेशन, बिशनाह
	संजीव कुमार गुप्ता	गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 2001	06.01.04	जिला. जम्मू।
102242	पूजा कोहली	बी० ए० एम० एस०	530	सुन्दर बानी तहसील सुन्दर बानी
	सुशील रत्न कोहली	महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2004	09.03.05	तहसील. राजौरी।
102243	पूजा मखनोत्रा	बी० ए० एम० एस०	448	175/ए. कृष्णा नगर, डोंगरा जम्मू।
	एस. पी. मखनोत्रा	हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1998	20.12.03	

102244	प्रगति चोपड़ा वी. के. चोपड़ा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1999	397 03.05.03	मकान नम्बर 14, नियर डेंटल अस्पताल बी. सी. रोड़, रेहारी, जम्मू।
102245	प्रियका कुमारी आर. सी. प्रसाद	बी० ए० एम० एस० छत्रपति साहूजी महाराज वि० वि०, कानपुर 2004	548 21.07.05	कृष्णा नगर कटुआ, तहसील कटुआ जिला कटुआ।
102246	पूनम कुरहन के. डी. कुरहन	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2003	414 17.07.03	गांव. सिया मेहरी तहसील रामनगर ऊधमपुर।
102247	रैना अंजना जगननाथ रैना	बी० ए० एम० एस० कर्नाटक वि० वि०, धारवाड 1999	472 07.01.04	सीट जागीर सोपोस्टे, कश्मीर।
102248	राजा राम शर्मा गौरी दत्त	आयुर्वेदाचार्य सनातन धर्म प्रमगिरि आयु. कालेज (लाहौर) 1939	127 08.02.72	481ए, गंधी नगर, जम्मू।
102249	राजेश गुप्ता मदन लाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	551 22.08.05	14/एफ. भागवती निवास, नगर गुरुद्वारा रेहारी चुंगी, जम्मू।
102250	राजेश कुमार पंजाब चन्द	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2001	365 25.04.03	नियर राधा कृष्ण मन्दिर, पटेल नगर, कटुआ।
102251	राजिन्दर कुमार राम सागर	बी० ए० एम० एस० बंगलौर वि० वि०, बंगलौर 1990	411 16.06.03	पुरचु अखनूर, जम्मू।
102252	राजिन्दर प्रकाश गुप्ता पन्ना राम	ए०. एम०. बी०. एस० बोर्ड आफ इण्डि. मेडि. उत्तर प्रदेश, लखनऊ 1959	160 01.05.73	खोग, तहसील. बिल्लावर, जिला कटुआ।

102253	रजनीत कौर उजागर सिंह	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ़ हैल्थ साइंसिस , फरीदकोट 2004	520 15.12.04	वार्ड नम्बर 13, कठुआ।
102254	रजनी साहनी एच. एल. साहनी	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि०. वि०, शिमला 2001	451 06.01.04	क्वॉटर नम्बर 297, रेहारी कालोनी , जम्मू
102255	राकेश कुमार कोतवाल वेद प्रकाश कोतवाल	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०, बंगलौर 2005	544 26.06.05	गांव. गजोथ तहसील भाटरवाह जिला. डोडा।
102256	रोकेश कुमार रैना बी. एन. रैना	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि०, वि०, दिल्ली 1995	483 08.01.04	तारागम तहसील डोरू जिला. अनन्तनाग।
102257	राकेश कुमार शर्मा ओम प्रकाश शर्मा	बी० ए० एम० एस० अमरावती वि०. वि०, अमरावती 1998	355 23.04.03	गांव. कुल्लेरवास, तहसील किशवार जिला. डोडा।
102258	रामा कान्त द्विवेदी गौरी शंकर द्विवेदी	वैद्य विशारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन . प्रयाग 1964	125 21.12.72	द्वारा आदर्श रासयान , शाह कृष्ण नगर कैनाल रोड, जम्मू।
102259	रमेश चन्द्र तिलक राज शर्मा	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि०. वि०, कोल्हापुर 1998	422 29.08.03	मकान नम्बर 34, सुभाष नगर. जम्मू।
102260	रंजन गुप्ता सतपाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि०. वि०, रोहतक 2005	550 22.08.05	धीर (फिन्टर) तहसील बिल्लावर , जिला. कठुआ।
102261	रजना माह प्रकाश सिंह	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०, बंगलौर 2004	513 10.11.04	गांव. कोट मैरा, गांव. पवन वाला तहसील अखनूर, जिला. जम्मू।

102262	रंजु वेहरान करतार सिंह	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि०, वि०, दिल्ली 1998	421 28.08.03	गांव. पो. आफिस. डुरंग बिल्लावर, तहसील जिला कठुआ।
102263	राष्ट्र पति शर्मा यागया वालकक्या वैद्य	वैदाचार्य निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1972	119 11.08.72	श्री कल्यान आयर्वेद . फार्मसी पक्का डुंगा जम्मू।
102264	रवि दत्त शर्मा लाल चन्द शर्मा	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि०, वि०, शिमला 1995	481 08.01.04	बडयाल ब्रह्मण तहसील आर. एस. पुरा, जम्मू।
102265	राविन्द्र कुमार ज्ञान चन्द	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि०, वि०, रोहतक 2000	433 15.11.03	मोहल्ला पोस्ट., तहसील व जिला. डोडा।
102266	रीतू जमवाल एच. एस. जमवाल	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, वि०, बंगलौर 2004	510 03.11.04	1828 एफ. शास्त्री नगर , डोगरा लेन, जम्मू।
102267	रेखा सलाथिया एच. एस. सलाथिया	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, वि०, बंगलौर 2004	511 03.11.04	गांव गुरहा सलाथिया, तहसील सम्बा जिला. जम्मू।
102268	रेनू गुप्ता टी आर. गुप्ता	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि०, वि०, कोल्हापुर 2000	356 23.04.03	मकान नम्बर. 42, वार्ड नम्बर.4, पक्का डुंगा , अखनूर, जम्मू।
102269	रेतू बाला सैन दास टाडिया	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस , फरीदकोट 2004	535 20.04.05	वार्ड नम्बर.16, शिवानगर, कठुआ।
102270	रितिका रैना जे. के. रैना	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि०, वि०, रोहतक 1999	477 07.01.04	द्वारा एम.सी. खजुरिया पक्का तलाब बाहु फोर्ट , जम्मू।

102271	रूपाली मेहता नारिन्द्र मेहता	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	439 24.11.03	176, काची छावनी टंगा वाली गली, जम्मू।
102272	रुबेय शर्मा विकास	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 2000	459 07.01.04	वार्ड नम्बर. 1, कठुआ।
102273	रुची गुप्ता सतपाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	538 26.04.05	वार्ड नम्बर. 3, कर्ण नगर, जम्मू।
102274	साक्षी गुप्ता दीपक गुप्ता	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2001	458 07.01.04	486ए., गाँधी नगर, जम्मू।
102275	समता गुप्ता के.के. गुप्ता	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1996	505 07.06.04	मकान नम्बर, 84, सैक्टर, 3, नानक नगर, जम्मू।
102276	संदीप चार्क एच. एस. चार्क	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	514 13.11.04	नगर भादरवाहा, जिला. डोडा।
102277	संजय चड्ढा सुभाष चन्द्र सुधा	बी० ए० एम० एस० नागपुर वि० वि०, नागपुर 1997	396 03.05.03	प्लॉट नम्बर. 215, सॉपिंग सेन्टर, रेहारी कालोनी।
102278	संजीत कुमार बुइ लाल रैना	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 2002	442 11.12.03	गांव. पोस्ट. आफिस. हमीरपुर, तहसील हीरानगर जिला, कठुआ।
102279	सारिका खजुरिया मानू प्रसाद	बी० ए० एम० एस० अमरावती वि० वि०, अमरावती 2002	432 12.11.03	मकान नम्बर. 174, सैक्टर 3, त्रिकुट नगर, जम्मू।

102280	सरिता गुप्ता सुनील नरगोत्रा	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1995	470 07.02.04	मकान नम्बर. 355, सैक्टर 2, जे.डी.ए. हाऊसिंग कालोनी, रूप नगर, जम्मू।
102281	सरोज शर्मा राबिन्द्र रतन पाल	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1987	408 03.05.03	22बी/बी. गौधी नगर, जम्मू।
102282	सीमा रैना कृष्ण रैना	बी० ए० एम० एस० कर्नाटक वि० वि०, धारवाड 2002	353 23.04.03	मकान नम्बर. 86, लेन नम्बर 3, आदर्श नगर, बनतलाब, जम्मू।
102283	शाफली बक्शी अभिषेक शर्मा	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2004	527 22.02.05	75, ए. त्रिफुटा नगर, जम्मू।
102284	शाहीन अहमद मीर अब्दुल. मजीद मीर	बी० ए० एम० एस० यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 1997	506 17.07.04	बुमथमन तहसील कुल गंगम, जिला अनन्तनाग।
102285	शम्भू नाथ तुले राम दास	आयुर्वेद अलंकार आयुर्वेदा कॉलेज, गुरुकुल यूनि. 1956	139 24.01.73	14, चोगन फल्तू, जम्मू।
102286	शर्मिला शर्मा चमन लाल शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2003	345 10.04.03	कूटह.तहसील हीरानगर, ए/पी डबलू, नम्बर 3, कृष्णा कालोनी, कठुआ।
102287	शशी कान्त नानक चन्द शर्मा	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1985	536 25.04.05	मकान नम्बर. 138/9, लम्बी गली, नियर महाजन स्पोर्ट, ऊद्यमपुर।
102288	श्वेता साहनी जे. के. साहनी	बी० ए० एम० एस० राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	563 30.09.05	मकान नम्बर. 178, शास्त्री नगर, नियर राम मन्दिर, जम्मू।

102289	शाविता टिक्कू	बी० ए० एम० एस०	471	बुटा नगर, लेन नम्बर. 2, मकान नम्बर. 3,
	पी. एल. टिक्कू	दिल्ली वि०, वि०, दिल्ली 2000	07.01.04	पलौरा, जम्मू।
102290	शीतल कुमार	बी० ए० एम० एस०	369	बरनोती, जिला. कठुआ।
	कृष्ण चन्द	हिमाचल प्रदेश वि०, वि०, शिमला 2000	26.04.03	
102291	शीतल शर्मा	बी० ए० एम० एस०	456	15.ए. कर्ण नगर, एक्स. जम्मू।
	पी. एम. शर्मा	शिवाजी वि०, वि०, कोल्हापुर 2001	15.01.05	
102292	शीतल शर्मा	बी० ए० एम० एस०	515	गाँव. बसोली, तहसील, जिला. कठुआ, ए/पी,
	पुष्प राज शर्मा	महर्षि दयानन्द वि०, वि०, रोहतक 2004	16.11.04	कठुआ वार्ड नम्बर. 4, कृष्णा नगर कठुआ।
102293	शिव दत्त शर्मा	आयुर्वेदाचार्य	161	गाँव. पोस्ट. आफिस. राजपुरा।
	राम दास वैद्यी	निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1967	11.02.72	
102294	श्री नाथ बारू	श्री वैद्य कविराज	155	श्री शंकर औषद्यायला, बाजार धोनथिल
	देव राज जी	सनातन धर्म प्रमगिरि आयु. कालेज (लाहौर) 1939	29.03.73	जम्मूतवी।
102295	शिवानी गुप्ता	बी० ए० एम० एस०	532	मकान नम्बर. 199, सरवाल कालोनी,
	ओम प्रकाश गुप्ता	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, वि०, बंगलौर 2005	11.03.05	जम्मू।
102296	शिवानी गुप्ता	बी० ए० एम० एस०	542	पी. डबलू. डी. कालोनी. कठुआ।
	भरत भूषण गुप्ता	हिमाचल प्रदेश वि०, वि०, शिमला 2004	21.06.05	
102297	शिवानी महाजन	बी० ए० एम० एस०	435	वार्ड नम्बर. 4, कठुआ।
	नरेश गुप्ता	बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	17.11.03	

102298	शिवानी पाद्या इकबाल नाथ शर्मा	बी० ए० एम० एस्० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	465 22.01.04	54ए. बसंतनगर, पोस्ट रूप नगर, जम्मू जिला. जम्मू।
102299	शरुति आर.के. गुप्ता	बी० ए० एम० एस्० कुरुक्षेत्र वि०, वि०, कुरुक्षेत्र 1999	464 07.01.04	प्लॉट नम्बर. 215. शोपिंग सेंटर रेहारी कालोनी, जम्मू।
102300	सोनिका गुप्ता यश पाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस्० हिमाचल प्रदेश वि०, वि०, शिमला 2000	420 27.08.03	मकान नम्बर. 395.बी.ब्लॉक ए, गौधी नगर, जम्मू।
102301	सोनिका खजुरिया हरी राम खजुरिया	बी० ए० एम० एस्० राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, वि०, बंगलौर 2002	437 24.11.03	वार्ड नम्बर.3, कृष्णा कालोनी, कटुआ।
102302	सोनिका शर्मा के. एल. शर्मा	बी० ए० एम० एस्० नागपुर वि०, वि०, नागपुर 2003	350 17.04.03	मकान नम्बर. 70, वार्ड नम्बर. 3, इन्दिरा कालोनी, कटुआ।
102303	सुमन भट अशोक कुमार भट	बी० ए० एम० एस्० कर्नाटक वि०, वि०, धारवाड़ 2000	446 20.12.03	लेन नम्बर.4, आदर्श नगर, बमई रोड बनतलाब।
102304	सुमन वैद एस. एन. गुप्ता	बी० ए० एम० एस्० राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, वि०, बंगलौर 2005	556 26.08.05	वार्ड नम्बर. 16, मकान नम्बर. 198, सामने जे.एवं के. बैंक वीनस चौक धार रोड ऊधमपुर
102305	सुमेधा खन्ना मधन लाल खन्ना	बी० ए० एम० एस्० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	519 08.12.04	वार्ड नम्बर. 1, आर. एस. पुरा, जम्मू।
102306	सुनयना महाजन सत्या वर्त मेहता	बी० ए० एम० एस्० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	494 17.01.04	26, आशा कुंज मोहिन्द्र नगर, केनाल रोड, जम्मू।
102307	सुनयना गुप्ता साहिल गुप्ता	बी० ए० एम० एस्० महर्षि दयानन्द वि०, वि०, रोहतक 2005	545 15.07.05	हाऊसिंग कालोनी, फेस 2, ऊधमपुर।



102308	सुनील कुमार अशोक कुमार	बी० ए० एम० एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	555 25.08.05	वार्ड नम्बर 41, सम्बा तहसील सम्बा जिला जम्मू।
102309	सुपिया ठाकुर सुधा राम ठाकुर	बी० ए० एम० एस० अमरावती वि० वि०, अमरावती 2000	354 23.04.03	गांव देस्ता, गऊ, डोडा।
102310	सूरज प्रकाश गुप्ता लाला लामू राम	वैद्याचार्य निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1961	131 08.02.72	मकान नम्बर 45, वार्ड नम्बर 6, रामनगर ऊधमपुर।
102311	सुरेख पंडिता बी. एल. पंडिता	बी० ए० एम० एस० यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 1993	485 08.01.04	मकान नम्बर 433, लकड़ मण्डी, जानीपुर जम्मू।
102312	सुरेश कुमार जगदीश कुमार	जी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1981	328 08.03.83	गांव पो. आफिस, जाख, तहसील सम्बा, जिला, जम्मू।
102313	सुरेश शर्मा मारू राम शर्मा	बी० ए० एम० एस० गुरुनानक देव वि० वि०, अमृतसर 1991	402 03.05.03	गांव पो. आफिस, लोहेट तहसील, व जिला कठुआ।
102314	सुरजीत शर्मा प्रेम नाथ शर्मा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1983	384 03.05.03	गांव पो. आफिस परनाला, तहसील बिल्लावर।
102315	सुशील कुमार शर्मा बंशी लाल शर्मा	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1969	153 12.04.72	बी. डी. 30, गाँधी नगर, जम्मू।
102316	सुष्मा जे. एल. मट	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 2000	476 07.01.04	गांव हादुबानी तहसील, गुलमार्ग जिला, बारामुल्ला
102317	स्वर्ण सिंह बंशी लाल चौधरी	बी० ए० एम० एस० कर्नाटक वि० वि०, धारवाड़ 2001	426 30.08.03	प्रहलादपुर मेंटल फाल्लन, जम्मू।

102318	स्वाति महाजन सत्या व्रत मेहता	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	493 17.01.04	26, आशा कुंज मोहिन्द नगर, केनाल रोड, जम्मू।
102319	तरुन रैना कर्म चन्द	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2005	549 22.08.05	बिल्लावर तहसील बिल्लावर, जिला. कठुआ।
102320	तेजिन्द्र सिंह चत्तर सिंह	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	496 28.01.04	जी. टी. रोड गांव. करथोली, पोस्ट, बरी. ब्राह्मण तहसील सम्बा. जिला. जम्मू।
102321	उत्तम कुमार मोहन प्रकाश	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1997	482 08.01.04	वार्ड नम्बर. 8, मकान नम्बर. 13, गीता भवन, स्ट्रीट ऊधमपुर।
102322	वैद देवी दास शर्मा गंगाधर	वैद्य विशारद निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1988	142 22.02.73	गांव. मंसार, तहसील रामनगर, जिला ऊधमपुर।
102323	वैशाली आनन्द विनोद कुमार आनन्द	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	500 26.03.04	क्वैटर. नम्बर. 109, रेहारी. कालोनी, सरवाल चौक, जम्मू।
102324	वंदना डोगरा राकेश मंगोत्रा	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1991	460 07.01.04	वार्ड नम्बर. 2, सम्बा, जम्मू।
102325	वंदना गुप्ता शिव लाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2001	457 07.01.04	एफ. 766. बी. भारत नगर, रेहारी कालोनी, जम्मू।
102326	वनिका गुप्ता आज्ञा पाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 2005	540 28.04.05	295/जे/2, दुर्गा नगर, तलाब टिल्लो बोहरी, जम्मू।
102327	वरुणा अरोरा अरुण आनन्द	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि० वि०, दिल्ली 2000	455 07.01.04	मकान नम्बर. 57, देवी द्वारा पीरमिठा बाजार, जम्मू।

102328	वेद राज सीता राम	श्री वैद्य कविराज सनातन धर्म प्रमगिरि आयु, कालेज (लाहौर) 1942	122 10.02.72	कोटीपुरान बाया पारोले, जिला, कठुआ।
102329	वीनु गुप्ता यश पाल गुप्ता	बी० ए० एम० एस० हिमाचल प्रदेश वि० वि०, शिमला 1997	398 03.05.03	गांव. मटटी, तहसील, बिल्लावर जिला, कठुआ।
102330	विजय कुमार बी. एन. बारू	जी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1979	259 13.09.08	154, जवाहरनगर, तालाब टिल्लो, जम्मू।
102331	विजय कुमार बक्शी विश्व नाथ	बी० आई० एम० एस० परीक्षा निकाय, आयु व यूनानी चि. प. दिल्ली 1972	196 07.12.74	पुरानी मण्डी, जम्मू।
102332	विजेन्द्र पाल गैड़ एस. पी. गैड़	बी० ए० एम० एस० राजीव गौंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	529 22.02.05	1/125, संजय नगर, जम्मू।
102333	विकास कौल टी. के. कौल	बी० ए० एम० एस० दिल्ली वि० वि०, दिल्ली 2000	423 29.08.03	25 ए. लेन नम्बर 5, कर्ण नगर, जम्मू।
102334	विकास शर्मा टी. आर. शर्मा	बी० ए० एम० एस० शिवाजी वि० वि०, कोल्हापुर 2002	443 11.12.03	गांव चाक आगरा वर्तमान आर. एस. पुरो 1051ए, सैक्टर-8, नानक नगर, जम्मू।
102335	विकास शर्मा जगदीश चन्द्र	बी० ए० एम० एस० राजीव गौंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	557 03.09.05	वार्ड नम्बर 2, मकान नम्बर 150, कठुआ।
102336	विकास शर्मा विनोद कुमार शर्मा	बी० ए० एम० एस० राजीव गौंधी स्वास्थ्य वि० वि०, बंगलौर 2005	564 30.09.05	गांव पो. आफिस सिओट, तहसील सुन्दरबानी, जिला. राजौरी।
102337	विक्रम सिंह जसवंत सिंह	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	368 28.01.04	पानिग्राम, जम्मू।

102338	विक्रम वीर भूषण वेद भूषण गुप्ता	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2005	533 23.03.05	127/6, पटेल नगर, तालाब जम्मू।
102339	विरिन्दर खोसला जें के. खोसला	बी० ए० एम० एस० भारतीय विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2003	430 10.11.03	68, ए. एक्स. कर्ण नगर, जम्मू।
102340	यश पाल कर्म चन्द	बी० ए० एम० एस० बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	489 08.04.04	पटेल नगर, कठुआ।
102341	यज्ञ वाल्लुगा दुर्गा दत्त शर्मा	आयुर्वेदाचार्य निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1941	110 24.04.72	श्री कल्याण आयुर्वेद फार्मसी पक्का डुंगा, जम्मू।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका  
जम्मू एवं कश्मीर  
भाग II यूनानी

के.पं. नाम व पिता का नाम संख्या	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
9465 अब्दुल अजीज जरगर अब्दुल कादिर जरगर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1964	151 12.05.81	ग्राम बोमई, सोपूरा कश्मीर ।
9466 अब्दुल हमीद खान्दे मोहम्मद खान्दे	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	209 26.04.03	हंगवीरा, पाटन, जिला बारामूला, कश्मीर ।
9467 अब्दुल हमिद एच. नूरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	171 5.7.72	ग्राम पिंगलान, पुलवामा, कश्मीर ।
9468 अब्दुल हमीद खान्दे गुलाम मोहम्मद खान्दे	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	335 4.11.03	ग्राम हांगल, वीराह, पाटन, बारामूला ।
9469 अब्दुल हमीद पारें अब्दुल रजाक पारें	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	170 12.02.03	पेठसखामा, तहसील वीरवाह, जिला बुडगाम, कश्मीर ।
9470 अब्दुल हमीद सोफी मोहम्मद अकबर सोफी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	721 27.07.03	अश्तारगू, बान्दीपुरा, जिला बारामूला ।
9471 अब्दुल जलील मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2002	818 15.12.03	हरियत नगली, तहसील हवेली, जिला पुच्छ ।
9472 अब्दुल मजीद खान अब्दुल अजीज खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	363 16.10.03	पंजीगाम, तहसील बान्दीपुरा, जिला कश्मीर ।

9473	अब्दुल मजीद खान अली मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	505 16.10.03	खुजवासा, चूदा, जिला बुङगाम ।
9474	अब्दुल मजीद नजाज अब्दुल खालिद नाजर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	499 09.07.03	गोसीबुग, तहसील पाटन, जिला बारामूला ।
9475	अब्दुल मजीद सोफी गुलाम अहमद सोफी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2003	792 17.10.03	राट्टपोरा, ईदगाह, श्रीनगर ।
9476	अब्दुल कयूम कार मोहम्मद अब्दुल्लाह कार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	795 16.10.03	उमर मस्जिद, कानिल बाग, जिला बारामूला ।
9477	अब्दुल रशीद मसूदी सफीउद्दीन मसूदी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1989	148 28.07.79	नरवारा, श्रीनगर, कश्मीर ।
9478	अब्दुल रशीद राठेर अब्दुल गुलाम राठेर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	493 23.06.03	हंजाम, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग ।
9479	अब्दुल रशीद तेली अकबर तेली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	490 26.06.03	ग्राम हंजाम, सोनावरी, जिला बारामूला ।
9480	अब्दुल रशीद टोरे मोहम्मद इकबाल तुरे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	985 04.11.03	शलगाम, बेजबेहरा, जिला अनन्तनाग ।
9481	अबास अहमद नायक गुलाम रसूल नायक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	432 23.06.03	रजनीपोरा, पुलवामा ।
9482	अब्दुल मोहम्मद खान राज मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	595 22.07.03	ग्राम कानपुरसू, वर्तमान इकबालबाद, आर.पी. रोड अनन्तनाग कश्मीर ।

9483	अब्दुल अली वली भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	77, 23.10.71	सोगाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9484	अब्दुल बशीर शाह शरीफुद्दीन अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2000	508 16.10.03	ग्राम दुरू, सोपोर, जिला बारामूला।
9485	अब्दुल हमीद सुल्तानपुरी मोहम्मद अहसान	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2003	929 25.12.03	निमीन बाग करमुहीवा सोपोर, जिला बारामूला।
9486	अब्दुल लतीफ नूर मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1982	700 25.06.03	ग्राम सत्वा, तहसील मधेर, जिला पुच्छ।
9487	अब्दुल मजीद फरीद शेख	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	638 27.06.03	म.नं. 82, इकबाल चौक, गुजर नगर, जम्मू।
9488	अब्दुल माजीद भट्ट सोनाउल्लाह भट्ट	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1965	4 23.10.71	खरयु निकट सीमेन्ट फैक्ट्री, श्रीनगर कश्मीर।
9489	अब्दुल राशिद गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1962	11 23.10.71	चरी शरीफ, श्रीनगर कश्मीर।
9490	अब्दुल राशिद गुलाम मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1996	586 24.09.93	कोर्ट रोड, श्रीनगर कश्मीर।
9491	अब्दुल रशीद मीर मोहम्मद गुलाब	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	594 22.10.03	हुनीपोरा वनीपोरा, पुलवामा, कश्मीर।
9492	अब्दुल रशीद शाह अब्दुल आहद शाह	बी.यू.एम.एस. भारतीय चिकित्सा बोर्ड, जयपुर 1982	561 22.07.03	रोहमा, रफिया, सोपोर, जिला बारामूला।

9493	आबिद मोहम्मद खान राज मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	320 16.10.03	ग्राम कंगसू, तहसील एवं जिला अनन्तनाग ।
9494	अफरोज रहमान अब्दुल रहमान शेख	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2003	1059 02.07.04	कनिनी बाग, बारामूला ।
9495	अफशाह मुजफ्फर मोहम्मद मुजफ्फर शाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2005	1256 05.04.05	रोज इन्कलेव, शिवपोरा बी, सोनावर, श्रीनगर ।
9496	अफशान रसूल गुलाम रसूल	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2002	834 17.12.03	भगत बरजुला, श्रीनगर ।
9497	अहद उल्लाह वनी अब्दुल गुलाम वनी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	167 08.07.72	ग्राम अशमुजी तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर ।
9498	अहमीम अब्दुल परे अहद परे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	429 24.06.03	बन जैनगम, तहसील वीरवा, जिला बुदगाम ।
9499	एजाज अहमद राठौर बशीर अहमद राठौर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2002	247 14.08.03	ग्राम सलकाडल, वर्तमान में पुराना चनपुरा, श्रीनगर ।
9500	एजाज अहमद गुलाम मोहिउद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	416 01.07.03	चरादे, शरीफ, जिला बुडगाम, कश्मीर ।
9501	एजाज अहमद महबूबी नजीर अहमद महबूबी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2002	623 23.06.04	ग्राम पंजम, पुलवामा ।
9502	एजाज अहमद वार गुलाम मोहिउद्दीन वार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	618 22.07.03	वरपोरा, सोपोर, जिला बारामूला ।



9503	एजाज हुसैन भट्ट अब्दुल रहीम भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	418 01.07.03	काटसु, तहसील पहलगाम, जिला अनन्तनाग ।
9504	एजाजुल हक अब्दुल रशीद शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	709 24.06.03	नदीहाल, सोनावरी, जिला बरामूला ।
9505	एसफा गुलाम अब्दुल गुलाम मीर	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	446 14.08.03	न्यू कालोनी, लाल बाजार, श्रीनगर ।
9506	अजय कुमार डार बाजी दास	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	546 23.06.03	इदीपोरा, बोमई सोपोर द्वारा 53, आनन्द विहार, जम्मू ।
9507	अजय रैना काशीजू रैना	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	207 25.04.03	म.नं. 88, लेन नं.3, आदर्श नगर, बनतालाब, जम्मू ।
9508	अजाज अहमद अजाज मोहम्मद इस्माईल ठोकुर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	239 07.09.03	ग्राम हीरपुरा, पाटलीपदाना, तहसील शोपियान, जिला पुलवामा, कश्मीर ।
9509	अली मोहम्मद अहंगर हबीब उल्लाह अंगेर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	202 05.07.72	खरयु तहसील एवं जिला श्रीनगर, कश्मीर ।
9510	अली मोहम्मद लोन खजिर लोन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	124 18.09.73	उदीपोरा लंगेट हन्डवाड़ा, कुपवाड़ा, कश्मीर ।
9511	अली मोहम्मद राठेर अब्दुल अहमद राठेर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1988	321 23.06.03	हंजूरा, तहसील गदुरा, जिला बुदगाम ।
9512	अल्ताफ हुसैन मोहम्मद यूसुफ शाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1989	187 21.04.03	लाथु पम्पोरा, कश्मीर ।

9513	अल्ताफ हुसैन अब्दुल गुलाम शेख	बी.यू.एम.एस. डा. एम.जी.आर.मेडि. यूनि., चेन्नई 1997	324 14.08.03	विलागम, हन्दवाड़ा, जिला कुपवाड़ा ।
9514	अल्ताफ हुसैन सोना उल्लाह शेख	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1998	682 18.09.03	बोन नाबल, जिला अनन्तनाग
9515	अल्ताफ हुसैन भट्ट गुलाम अहमद भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	793 24.09.03	हादुशीवा, सोपोर, जिला बारामूला ।
9516	अल्ताफ हुसैन शाह वली मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	951 25.12.03	सोपोर, जिला बारामूला ।
9517	अल्ताफ हुसैन शाह गुलाम हसन शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	1223 15.01.03	बिजबहेरा, बाबा मोहल्ला, निकट स्थान शरीफ बेजबहेरा, अनन्तनाग ।
9518	अमीन पमपुरी मोहम्मद खलील पमपुरी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	2 23.10.71	बापोरा, हबाकाडल, श्रीनगर कश्मीर ।
9519	अमीर हुसैन शाह खादिस हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1997	530 22.07.03	ग्राम संगल तहसील सुरिनकोट, जिला पुंछ
9520	अमजद यूसुफ रहमान यूसुफ	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2001	326 31.10.03	ग्राम उस्मानाबाद, माल्लबाग, श्रीनगर ।
9521	अनायत अली राठौर गुलाम रसूल राठौर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1998	565 22.07.03	ग्राम चंगु, भलेसा, जिला डोडा ।
9522	अनायत उल्ला अब्दुल गुलाम	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2005	1248 18.03.05	बारी मेहा गोका, तहसील डोडा, जिला डोडा ।

9523	अनिल रैना सरूप नाथ	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1996	208 25.04.03	320, मुंशी कैम्प, जम्मू ।
9524	अंजलि जान गुलाम मोहम्मद, रुशो	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	657 23.10.03	टाउन हाल, सोपोर, जिला बारामूला, कश्मीर ।
9525	अरफात हुसैन मल्ला अब्दुल अजीज	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	390 09.07.03	दीलिना घाट, बारामूला ।
9526	अरिफत मीर गुलाम नबी मीर	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	714 26.06.03	न्यू कालोनी, लाल बाजार, श्रीनगर ।
9527	अरजुमुन्द शाह गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2001	395 09.07.03	अवन्ती भवन, सौरा, श्रीनगर ।
9528	अरशद हुसैन सलाउद्दीन शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2003	696 26.05.03	ग्राम कुईल मुकाम, बान्दीपोरा, जिला बारामूला ।
9529	अरशद हुसैन शाह अब्दुल मजीद शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	825 16.12.03	गडियाहल चौक, अवन्तीपोरा, जिला अनन्तनाग ।
9530	अरशद हुसैन ठोकर गुलाम मोहम्मद, ठोकर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1997	338 14.06.03	गदूरा, तहसील एवं जिला पुलवामा ।
9531	अरशद इकबाल भट्ट गुलाम रसूल भट्ट	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	479 04.11.03	बटपोरा, हजरतबल, श्रीनगर ।
9532	अरशद इकबाल मीर गुलाम मोहम्मद मीर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2004	1027 23.03.04	मगसेयपोरा, अछवाल, जिला अनन्तनाग

9533	असद उल्लाह बट्टू अजीज बट्टू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	112 02.11.72	हरी भट्ट रैनावाड़ी, श्रीनगर ।
9534	आशिक हुसैन मशी जी कादिर	बी.यू.एम.एस. श्री वैकटेश्वर वि.वि., तिरुपति 1991	1173 29.10.04	सफापोरा, तहसील सोनावाड़ी, बारामूला
9535	आशिक हुसैन बेग मोहम्मद अयुब बेग	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2005	1229 18.01.05	हुबी कालोनी, भस्जिद शरीफ, सिखबाग लाल बाजार, श्रीनगर ।
9536	आशिक हुसैन भट्ट मोहम्मद सुभान भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	754 13.08.03	असगम, बन्दीपोरा, जिला बारामूला ।
9537	आशिक हुसैन शाह गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	823 16.12.03	मोनगेल अनन्तनाग, कश्मीर ।
9538	आसिया जीलानी नूर मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2000	585 24.09.03	सनन्तनगर, श्रीनगर, कश्मीर ।
9539	आसिया-उल-सराम मंजूर अहमद मलिक	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	312 21.10.03	ग्रीन लैन्ड आजाद बस्ती, नलिपोरा, श्रीनगर ।
9540	असरार अब्दुल वनी मोहम्मद यूसुफ वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	428 26.06.03	रतनीपोरा, जिला पुलवामा ।
9541	आसिया मोहम्मद गुलाम मोहम्मद उन्टू	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2004	1015 01.06.03	नूर बाग, सोपोर, जिला बारामूला ।
9542	औतर कृष्ण रैना सर्वानन्द रैना	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	105 25.10.72	ग्राम व पो.आ. चोगाम, काजी गुन्द, अनन्तनाग, कश्मीर ।

9543	अजहर अजीज अब्दुल अजीज पारा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	423 14.08.03	ग्राम अरिहल, जिला पुलवामा ।
9544	अजहर हैसन जनवार	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि. पुणे 1999	953 08.06.04	मोह. मुमकाक, सोपोर, जिला बारामूला ।
9545	अजहर जबीर शरीफ दीन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1999	957 25.12.03	नूर बाग, सोपोर, जिला बारामूला ।
9546	अहमत जौन कावा बशीर अहमद कावा	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2005	1335 01.10.05	ग्राम हरदीब शिवा, सोपोर, बारामूला ।
9547	बहार अहमद भट्ट मोह. रमजान भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	948 25.12.03	सुल्तानपोरा, कान्डी, बारामूला ।
9548	बाल जी पंडिता प्रसाद राम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	203 05.07.72	चोगु हन्दवाड़ा, तहसील कुपवाड़ा, जिला कश्मीर ।
9549	बाल कृष्ण भट्ट शामलाल भट्ट	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1983	15 23.10.71	करण नगर, श्रीनगर, कश्मीर ।
9550	बंशी लाल पंडिता जियालाल पंडिता	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1982	45 23.10.71	सिरू डांगरपोरा, तहसील पाटन, जिला बारामूला ।
9551	बशीर अहमद बेग मोहम्मद अयूब बेग	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	122 06.09.73	देवी आंगन, हरिपर्वत, श्रीनगर, कश्मीर ।
9552	बशीर अहमद डार अब्दुल खालिक डार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	277 22.10.03	ग्राम कै. कल्लान, तहसील बिजबेहरा, जिला अनन्तनाग ।

9553	बशीर अहमद लोन नबी लोन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	248 26.06.03	ग्राम हफशिमल, तहसील शोपियान, जिला पुलवामा, कश्मीर।
9554	बशीर अहमद कुरेशी मस्टर गुलाम मोहउददीन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	123 11.09.73	ग्राम कलाम छाकला, तहसील हन्दवाड़ा, जिला कुपवाड़ा, कश्मीर।
9555	बशीर अहमद शाह गुलाम शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1984	68 23.10.71	डांगरपोरा, नवकादल, श्रीनगर, कश्मीर
9556	बशीर अहमद सोफी इस्माईल सोफी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	491 26.06.03	ग्राम जहामा, जिला बारामूला।
9557	बशीर अहमद तिल्ली अब्दुल अहद तिल्ली	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1998	349 16.03.03	नरवा, तहसील तराई, जिला, पुलवामा।
9558	बेमफेर मकबूल मोहम्मद मकबूल	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2004	1074 03.08.04	शेरी भट, आलमगरी बाजार, श्रीनगर।
9559	बेनजीर अली अली मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2005	1257 05.04.05	गांव. वागुब, सोपोर, जिला बारामूला।
9560	भूषण लाल कर जानकी नाथ कर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	201 05.07.72	करापोरा रैनावारी श्रीनगर, कश्मीर।
9561	बिग परवेज अहमद मोहम्मद अशरफ बेग	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2004	1114 29.10.04	बड़वारी अंगन, श्रीनगर।
9562	बिलास अहमद शेख अब्दुल कयाम शेख	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	449 02.09.03	गांव. कचवारी, शोपियान, जिला व तहसील पुलवामा।

9563	बिलाल अहमद मोहम्मद मकबूल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	804 16.10.03	जलाल साहिब, वर्तमान जे. के. रोड खोज बाग, बरामुल्ला।
9564	बिमला कौल निरंजन नाथ कौल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	99 20.09.72	नाजुक मोहल्ला अनन्तनाग, कश्मीर।
9565	बिशेश अहमद अब्दुल रहमान	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	199 05.07.72	शाह मोहल्ला नवा बाजार, श्रीनगर, कश्मीर।
9566	बोद्ध राज भट्ट पृथ्वी नाथ भट्ट	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1966	9 23.10.71	शलायेर द्वितीय पुल, श्रीनगर कश्मीर।
9567	बृज नाथ भट्ट तारा चन्द भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	101 06.10.72	मकान नम्बर. 48, बालगार्डन, श्रीनगर, कश्मीर।
9568	भूषण लाल फोतेदार गणेश दास फोतेदार	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	34 23.10.71	मकान नम्बर. 433, कनखान, चालपान कूचा, श्रीनगर कश्मीर
9569	चादुरी गुलजार हुसैन मोहम्मद अनवर	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2000	531 22.07.03	गांव. नौका मुनयहाम, तहसील मनधार, जिला. पुच्छ।
9570	चमन लाल प्रेम नाथ खजांची	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	154 07.09.82	20, शास्त्री नगरी इकबालाबाद, सामने डिग्री कालेज, श्रीनगर।
9571	चमन लाल जाड विष नाथ जाड	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	53 23.10.71	नाजकी मोहल्ला, अनन्तनाग, कश्मीर।
9572	चुन्नी लाल टिकू जानकी नाथ टिकू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	14 23.10.71	शाशयार हब्बा कदाल, श्रीनगर कश्मीर।

9573	चमन सिंह एस. ज्ञान सिंह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2004	1061 20.07.04	मकान नम्बर 204, लालनगर, चंपोरा श्रीनगर।
9574	सुनी लाल रैना शम्भू नाथ रैना	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	325 01.06.03	गंडेससाल, श्रीनगर, कश्मीर।
9575	दया कृष्णा कौल गोविन्द कौल	बी.यू.एम.एस. जम्मू एवं कश्मीर वि.वि. 1989	1212 27.12.04	शादीपोरा, बुडगाम, ए/पी मकान नम्बर.416, जे.एम.सी. सेक्टर 3, भागवती नगर, जम्मू।
9576	देश राज कौल पंडित दिनानाथ कौल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1974	128 02.08.74	सैकदाफर, साफा कादल, श्रीनगर, कश्मीर।
9577	दिल अख्तर गुलाम नबी बा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	458 09.07.03	महमूद अबद डोरी, जिला, अनन्तनाग कश्मीर।
9578	दिलशाद गुलाम अहमद हन्तरे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	628 23.06.03	नैदखाई, सेनावरी, जिला बारामुल्ला।
9579	दिलशाद बानू अली मोहम्मद राठौर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1997	293 19.08.03	डारुसा, बान्दीपोरा, जिला, बारामुल्ला।
9580	एहतेशम उददीन गुलाम मोहम्मद खुरू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	302 23.09.03	दोआबगढ़ खुरू पार्क, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9581	इलियश अहमद अब्दुल राशिद भट्ट	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	327 21.10.03	मांव. पुह, आशाजीपोर, अनन्तनाग।
9582	फराह अहमद खान नूर अहमद खान	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2003	397 09.07.03	मोहल्ला, दरीबुल, खानयार श्रीनगर।



9583	फरहात उन. निस्सा कौल नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	342 16.03.03	मालारत्ता, श्रीनगर, कश्मीर।
9584	फरीद अहमद अंजान मोहम्मद रहमान अंजान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	500 17.12.03	गांव. साई. डोडी सिटी, जिला. डोडा।
9585	फरीद अहमद अब्दुल रहमान अंजान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	949 25.12.03	डोडा सिटी, जिला डोडा।
9586	फरीद हुसैन अब्दुल सुमान नजर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1970	135 09.10.74	मोहल्ला, सराफन, पोस्ट भदरवाह जिला. डोडा।
9587	फारुक अहमद गुलाम नबी राठौर	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि० वि०, सागर 1995	300 23.09.03	गांव. डंगरपोरा सोपोर, जिला. बारामूला।
9588	फारुक अहमद गुलाम मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1987	226 22.10.03	गांव. डलिना जिला, बारामूला।
9589	फारुक अहमद हबीब उल्लाह वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	604 02.09.03	कुलगाम, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9590	फारुक अहमद शेख मोहम्मद. सुल्तान शेख	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	560 22.07.03	अद्याबल, अनन्तनाग, कश्मीर।
9591	फारुक अहमद. डार अहमद. अहद डार	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2000	521 16.10.03	आजादगंज, जिला. बारामुल्ला।
9592	फारुक बडाकशान मोहम्मद. मकबूल भट	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2004	1039 17.06.04	नूरबाग, सोपोर, जिला बारामूला।

9593	फैयाज अहमद अली मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2001	555 17.10.03	दुरबाग, चदुरा, जिला. बुङगाम
9594	फैयाज अहमद मीर मोहम्मद इकबाल मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	636 14.08.04	सेहपोरा, मगम, जिला. बुङगाम।
9595	फैयाज अहमद वनी मोहम्मद अहसान वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	434 22.07.03	रामोड्ड, पुलवामा।
9596	फाजिल सुमैरिया मोहम्मद अर्शफ	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2000	916 25.12.03	62, आर्मपोरा, बुटाकादल, लाल बाजार श्रीनगर।
9597	फिरोज अहमद डार सोना उल्लाह डार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	925 25.12.03	वारीपोरा, गुलामपोरा, हंदवारा, जिला कुपवारा।
9598	फिराज अहमद वनी अब्दुल गुलाम वनी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1998	345 16.03.03	नरवाह, पुलवामा, जिला पुलवामा।
9599	फियाज अहमद शेख मोहम्मद यूसुफ शेख	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	932 25.12.03	धानौ, चावलराम, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9600	फिदा अब्दुल क्ययूम मलिक अब्दुल अजीज मलिक	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	803 21.10.03	सिहपोरा, पाटन, जिला. बारामुल्ला।
9601	फिदाह हुसैन अब्दुल रहीम मीर	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि०, सागर 2001	369 16.10.03	गुंडी रेह, घडूरा, जिला, बुङगाम, काश्मीर।
9602	फिरदौस अहमद नजर गुलाम रसूल नजर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	1225 14.01.05	संगम ईदगाह श्रीनगर।

9603	फिरदौस अहमद सोना उल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	412 17.10.03	गांव. काड़ीपोरा, सैयद साहिब, अनन्तनाग कश्मीर।
9604	फिरदौस अहमद डार गुलाम मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	685 17.10.03	वाथोरा, तहसील चडूरा, जिला, बुडगाम।
9605	फिरदौस अहमद खान अब्दुल. क्यूम खान	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि० वि०, सागर 1994	554 17.10.03	नूरबाग, सोपोर, जिला बारामूला।
9606	फोजिया जावेद जावेद इकबाल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	740 31.07.03	172, लाल नगर समीप पोस्ट चनूरा, श्रीनगर।
9607	गुलाम मोही उददीन पीर हबीब उल्लाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	146 24.10.78	ग्राम नूरपोरा, तराई, जिला. पुलवामा कश्मीर।
9608	गुलाम कादरी पीर मोहम्मद. अकबर	बी.यू.एम.एस. आयु एवं युनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली 1937	35 23.10.71	पाटन पुष्पवनी जिला. बारामुल्ला, कश्मीर।
9609	गुलाम हसन मलिक गुलाम मोहम्मद. मलिक	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1982	157 11.04.83	गांव. आशाबल, तहसील सोपोर, जिला बारामुल्ला कश्मीर।
9610	गुलाम जीलानी मोहिउद्दीन जीलानी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	465 23.06.03	डंगरपोरा, शादीमार्ग, पुलवामा, कश्मीर।
9611	गुलाम मोहम्मद वनी गुजाम कदीर वनी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	104 23.10.72	कादी. कादल, श्रीनगर, कश्मीर।
9612	गुलाम मोहम्मद जाकिर अली. मोहम्मद जाकिर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	6 23.10.71	जादीबाल, श्रीनगर (कश्मीर)

9613	गुलाम. मोहम्मद रैना अब्दुल अजीज रैना	फाजिले - तिब्ब - ओ जराहत बोर्ड आफ आयु एवं युनानी चि. प., दिल्ली 1963	110 31.10.72	होशपुरा, तहसील चडुरा, जिला. बुडगाम कश्मीर।
9614	गुलाम. मोहम्मद यातो गुलाम. अहमद. तातो	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	605 09.07.03	नगम, डोलीपोरा, तहसील चडुरा, बुडगाम
9615	गुलाम. मोही-उददीन गुलाम. हसन वनी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	130 29.09.74	गांव. जुंगुल्लापुरा, तहसील कुलगाम, जिला, अनन्तनाग।
9616	गुलाम. नबी मीर अब्दुल गुलाम. मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	475 26.06.03	केवारीगाम, अनन्तगांव, कश्मीर।
9617	गुलाम नबी. पारै गुलाम अहमद. पारै	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1974	127 01.08.72	गांव. उडजान, पोस्ट डायलगाम, जिला. अनन्तनाग कश्मीर।
9618	गुलाम नबी वनी मोहम्मद. अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2000	322 14.08.03	बरवाह, तहसील पुलवामा, जिला. पुलवामा।
9619	गुलाम नबी वनी मोहम्मद. अब्दुल्लाह वनी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	920 25.12.03	रारवाह लजुरान, पुलवामा, जिला. पुलवामा
9620	गुलाम कदीर खान. मोहम्मद. रमजान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1965	132 09.10.74	खौनावारी. 3 ब्रिज, श्रीनगर कश्मीर।
9621	गुलाम. रसूल वनी अनवर जूवानी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1963	113 23.10.71	गरातबल, पोस्ट सलपोरा, कश्मीर।
9622	गुलाम हसन सुल्तानपुरी अब्दुल अहद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1961	59 23.10.71	मोहल्ला सोफी हमाम सोपोर, कश्मीर।

9623	गुलाम हुसैन गुलाम अहमद, शापू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	173 05.07.72	डुगाम, तहसील कुलगाम, कश्मीर।
9624	गुलाम मोहम्मद भट्ट मोहम्मद शबन भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	19 23.10.71	तराल साईगूह पुलवामा कश्मीर।
9625	गुलाम मोहम्मद किना रसूल जी किना	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1965	44 23.10.71	बिजबेहरा, कश्मीर।
9626	गुलाम मोहम्मद पारे गुलाम कदीर पारे	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	5 23.12.71	डुह मखाना, पोस्ट रतसुन, बीरुआ कश्मीर।
9627	गुलाम मोही उददीन हबीब शाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	20 23.10.71	नुतमूसा, पोस्ट. हंदवारा, कश्मीर।
9628	गुलाम नबी रंगरेज गुलाम रसूल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	60 23.10.71	द्वारा. हाजी गुलाम मोहम्मद. पटार मस्जिद श्रीनगर (कश्मीर)
9629	गुलाम नबी तेली अली मोहम्मद. तेली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	455 23.06.03	वनीगाम पाथीन, बारामुल्ला, कश्मीर।
9630	गिरधारी लाल बमजई जानकी नाथ बमजई	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	131 09.10.74	मकान. नम्बर. ए०. के०. कौल, सामने स्टेशन कन्ना कदाल, श्रीनगर, कश्मीर।
9631	गिरधारी लाल पंडिरा पृथ्वी नाथ	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1980	152 04.08.81	कुलगाम, कश्मीर।
9632	गिरधारी लाल राजदान पंडित राधा कृष्ण राजदान	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	142 16.05.77	मकान. नम्बर 25, बेटयार अलीकादल, श्रीनगर, कश्मीर।

9633	गोपी नाथ धर कृष्ण जू धर	हाजिक-उल- हुकमा भूपिन्दर तिब्बी कालेज, पटियाला 1940	101 23.10.71	मातीयार रैना वारी कश्मीर।
9634	गुल मोहम्मद लोन गुलाम मोहम्मद लोन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1964	70 23.10.71	नवपारा, खानयार, पोस्ट रैनावारी, कश्मीर।
9635	गुलाम मोहिउद्दीन सोफी अब्दुल अहद सोफी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1997	535 22.07.03	गांव. शीरवान, थागपोरा, करीरी, पाटन जिला, बारामुल्ला।
9636	गुलजार अहमद. जरगर मोहम्मद. युसुफ जरगर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2003	809 03.12.03	चेवर, जिला. बुडगाम।
9637	गुलजार अहमद भट्ट गुलाम. हसन भट्ट	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	365 16.10.03	डोडूरा, तहसील पुलवामा, जिला पुलवामा, कश्मीर।
9638	एच. जियाउद्दीन हकीम गुलाम.हसन	हाकिम- ई. हाजिक तिब्बिया कालेज, लाहौर 1945	89 23.10.71	लटेर चाडौरा तहसील बुडगाम, जिला. कश्मीर।
9639	हबीब उल्लाह अलाकबन्द के. अब्दुल्लाह जै	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1961	161 08.09.83	न्यू बस्ती अनन्तनाग, कश्मीर।
9640	हबीब उल्लाह कुमार अब्दुल रहीम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	69 23.10.71	अरहम, तहसील गंधरबाल, श्रीनगर कश्मीर।
9641	हबीब उल्लाह शाह अब्दुल अहद शाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1999	323 14.08.03	वदवान, पोस्ट सोलबुग, जिला. बुडगाम।

9642	हाफिजुल रहमान मीर अब्दुल गुलाम तेवहीदी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1996	581 24.09.03	मोहल्ला. मीर साहिब, जिला. बारामुल्ला।
9643	हकीम शबिरुल हसन गुलाम हसन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	573 22.07.03	कादीपारा, अनन्तनाग, कश्मीर।
9644	हकीम शौकत कुरेशी हकीम नूरउददीन कुरेशी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	254 09.07.03	गांव. घाटटन, चकपुरा, तहसील बोरु, जिला बुडगाम।
9645	हमदानी अनिल्लायसिम मोहम्मद यासीन हमदानी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	710 26.06.03	समीप कालोनी लाल बाजार, श्रीनगर।
9646	हरि कृष्ण पंडित रघुनाथ पंडित	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	177 05.07.72	बाटगुंड, तहसील हंडवारा, जिला. कुपवारा कश्मीर।
9647	हरमुख सिंह सुरजीत सिंह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	813 14.12.03	मकान. नम्बर 332, शीरवनी कालोनी, खुजबाग, बारामुल्ला।
9648	हसन डार गुलाम अली डार	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	174 05.07.72	खाण्डा, पोस्ट नेहामा, वयाय पमपोरा कश्मीर।
9649	हिलाल अहमद वनी मोहम्मद एके वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	425 26.06.03	गांव. करीमाबाद, पुलवामा।
9650	हिलाल अहमद लोन गुलाम कादीर लोन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	309 23.06.03	गांव. उदीपुर, तहसील हण्डवारा, जिला. कुपवारा।

9651	हिलाल अहमद, माला गुलाम मोहिउद्दीन माला	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	492 14.08.03	सोनिम, जिला. बारामुल्ला।
9652	हीरा लाल पंडित शबादी पंडित दामोदर पंडित	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	76 23.10.71	काजीथार जैनाकादल, श्रीनगर कश्मीर।
9653	हृदय नाथ धर पंडित मुकंद राम धर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	172 05.07.72	मन जावा, पोस्ट मुस्तद अनन्तनाग, कश्मीर।
9654	हुमरा मुनीर मुनीर हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	805 16.10.03	मोह. उस्ताद जम्मू वर्तमान जी. टी रोड खोजा बाग, बारामुल्ला।
9655	इजिया वकील मोहम्मद. अशरफ वकील	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 202	437 22.10.03	हाजी बाग, ससपोरा, श्रीनगर।
9656	इफ्तक कवोसा मुजफ्फर. अहमद कवोसा	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1999	571 22.07.03	फिरोदौस कालोनी, बंसपोरा, श्रीनगर।
9657	इफ्तिखार अहमद गुलाम. मोहम्मद मलिक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2001	558 17.10.03	गांव. बी०. ए०. नून किस्तवार, जिला डोडा।
9658	इफ्तिखार हुसैन मीर गुलाम. एम. मीर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2000	518 07.09.03	रामपोरा, गुंड पोस्ट, नदीहाल, बान्दीपोरा।
9659	इफ्तिखार खजीर खजीर मोहम्मद. डार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	402 30.07.03	मरजीगुंड, बारामुल्ला, कश्मीर।



9660	इलियास अहमद भट्ट गुलाम अहमद भट्ट	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2005	1337 01.10.05	गांव. नैद खाई, सोनावारी, जिला. बारामुल्ला।
9661	इमरान शफी मोहम्मद शफी वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2004	1155 29.10.04	माटहन, जिला. अनन्तनाग, कश्मीर।
9662	इन्द्रा जाडू एन. एल. जाडू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	32 23.10.71	पुरुषार, हब्बा काडल, श्रीनगर कश्मीर।
9663	इकबाल अहमद कर गुलाम नबी कर	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड वि०. वि०, सागर 1995	1038 08.06.04	तरल बल्ला जिला. पुलवामा।
9664	इकबाल सिंह लोव एस. बेअन्त सिंह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1996	381 09.07.03	खावजा बाग, मकान नम्बर. 144. बारामुल्ला, कश्मीर
9665	इर्फान बशीर बशीर अहमद खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1998	839 17.12.03	गुलशनाबाद, अनन्तनाग, ए/पी. के.पी. रोड, अनन्तनाग।
9666	इरफान हुसैन बंदे गुलाम हसन बंदे	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	494 19.01.04	ओनगाम, बान्दीपारा, जिला. बारामुल्ला।
9667	इर्फान सिद्दीकी मोहम्मद जाकी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	352 16.01.03	बाबुआ युसूफ सोपोर, जिला. बारामुल्ला
9668	इर्फान गुंडरू गुलाम अहमद गुंडरू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	329 07.09.03	दरीवाल, खानयार, श्रीनगर।

9669	इरफत आरा गुरकू गुलाम मोहम्मद गुरकू	बी.यू.एम.एस. श्री कैटेश्वर वि०. वि०, तिरुपति 1992	1322 03.08.05	प्राइवेट कालोनी, लाल बाजार, श्रीनगर।
9670	इरशाद अहमद वनी अब्दुल गुलाम वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1997	497 23.06.03	गांव. जानगुलपारा कुलगाम, जिला. अनन्तनाग
9671	इरशाद हुसैन डार मोहम्मद हुसैन डार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	648 23.09.02	गांव. मंगोल, तहसील और जिला अनन्तनाग।
9672	इश्फाक अहमद राठेर अब्दुल गुलाम राठेर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	689 01.08.03	गांव. पंजथ, वानपोरा, तहसील डोरू (अनन्तनाग) कश्मीर।
9673	इश्फाक मजीद काकरू अब्दुल मजीद काकरू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	391 09.07.03	शिरवनी कालोनी, बारामुल्ला।
9674	इश्रात आरा भट गुलाम नबी भट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	385 07.09.03	गांव. संगमपोरा, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9675	इश्रात रसूल गुलाम रसूल भट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	472 14.08.03	भगत बरजुल्ला श्रीनगर, कश्मीर।
9676	इश्रात सुल्तान मोहम्मद सुल्तान वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	466 22.07.03	टाऊन अवंतीपोरा, जिला. अनन्तनाग कश्मीर।
9677	जगननाथ देवान मधु राम देवान	हकीम-उल- हुकमा भूपिन्दर तिब्बी कालेज, पटियाला 1947	98 23.10.71	देवनी निवास दूदगंगा रोड़ कर्ण नगर, श्रीनगर कश्मीर।

9678	जहानारा ईशाक मोहम्मद. ईशाक	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1997	1014 22.02.04	चनापोरा, श्रीनगर।
9679	जहाँगीर अहमद शेख अहमद शेख	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	218 04.01.03	रेड़ कास रोड़ गोआ. कादल, श्रीनगर।
9680	जानकी नाथ कौल तारा चन्द कौल	हाजिक-उल- हुकमा भूपिन्दर तिब्बी कालेज, पटियाला 1950	95 23.10.71	वासू जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9681	जमाल सिंह दामोदर सिंह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	578 24.09.03	गांव. चतूसा, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9682	जावेद अहमद भट्ट अब्दुल मजिद भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	440 09.07.03	गांव. धारू, गंडरबल, श्रीनगर, वर्तमान में अलीयालपोरा, शोपियान।
9683	जावेद अहमद वनी गुलाम रसूल वनी	बी.यू.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडिकल यूनि. चेन्नई 1994	448 07.09.03	कुलगाम, जिला. अनन्तनाग, कश्मीर
9684	जावेद अहमद गुलाम हसन बुल्ला	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	510 16.10.03	नागीन बाग, बोनगाम, सोपोर, जिला बारामुल्ला, कश्मीर
9685	जावेद अहमद लोन अब्दुल. मना लोन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	474 09.07.03	गांव. लारू. जिला, अनन्तनाग।
9686	जावेद अहमद शिरिफुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	431 14.08.03	पछार, रजपोरा, जिला. पुलवामा।

9687	जावेद अहमद डार गुलाम मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2000	392 09.07.03	काजीपुर, बान्दीपुरा, जिला. बारामुल्ला।
9688	जावेद अहमद मीर हमीद उल्लाह मीर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	198 24.04.03	फारिस्तान, खानपोरा, जिला. बारामुल्ला, कश्मीर।
9689	जावेद हुसैन जरगर गुलाम हसन जरगर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	683 17.10.03	बेगुड़, कुलगाम, जिला. अनन्तनाग।
9690	जावेद इकबाल गुलाम अब्दुल वनी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	332 16.10.03	जोगरीपोरा, कुलगाम, जिला. अनन्तनाग।
9691	जावेद इकबाल लोन मोहम्मद. रमजान लोन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	708 26.03.06	दुरुगमुल्ला, जिला. कूपवारा
9692	जवाहर लाल पंडिता काशी नाथ पंडिता	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1974	129 07.08.74	गांव. चित्रराम तहसील कुलगाम, जिला. अनन्तनाग कश्मीर
9693	जवाहर लाल दुदू विश्व नाथ दुदू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	111 01.11.72	शशिगार द्वितीय ब्रिज, श्रीनगर।
9694	कश्मीरी लाल गोपी नाथ भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	107 31.10.72	160, जवाहर नगर, श्रीनगर।
9695	काजी तुफैल हबीब काजी हबीब उल्लाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1986	372 18.09.03	गांव. वरवान, तहसील सोडबुग, जिला बुडगाम, कश्मीर।

9696	खालिद युसुफ कोका मोहम्मद. युसुफ कोका	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2002	420 14.06.03	गांव. सीरहमदन, अवतीपुरा, जिला. अनन्तनाग।
9697	खुरशीद अहमद. डार गुलाम. हसन डार	बी.यू.एम.एस. उस्मानिया वि०. वि०, हैदराबाद 1992	1200 19.10.04	आशमुजी, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9698	खुरशीद अहमद. मीर अब्दुल मजिद मीर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	593 14.08.03	गांव. बुमथान, जिला. अनन्तनाग।
9699	खुरशीद अहमद. मीर गुलाम मोहम्मद. मीर	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड वि०. वि०, सागर 1996	837 17.12.03	तरल बाला, जिला, पुलवामा।
9700	खुरशीद अहमद अब्दुल खालिक डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	562 30.07.03	सीर जागीर, सोपोर, जिला. बारामुल्ला
9701	खुरशीद अहमद अब्दुल माजिद शाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2002	633 24.06.03	मोहल्ला. कादलबल, पम्पोरा, जिला. पुलवामा।
9702	खुरशीद अहमद गुलाम मोहम्मद. भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	641 29.05.03	गांव. सीर, हंदवारा, जिला. कुपवारा।
9703	लियाकत अली मोहम्मद सिददीक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	758 13.08.03	डोडासन बाला, तहसील थानामण्डी राजौरी।
9704	लियाकत अली सोना उल्लाह मलिक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	613 01.08.03	गांव. कलहसना, तहसील हण्डवारा जिला. कुपवारा।

9705	मधुसदन रैना तारा खन्द रना	बी आई.एम.एस. बोर्ड आफ आयु एवं युनानी चि. प., दिल्ली 1959	10 23.10.71	वगम, तहसील चौदुरा, कश्मीर।
9706	महमूद अहमद राठेर गुलाम राठेर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1979	153 13.08.81	गांव. गोहिंद पोस्ट हरमन शोपियान जिला. पुलवामा कश्मीर।
9707	महाराजउददीन मसूदी मोहम्मद शारीफउददीन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	707 28.05.03	द्रागुरा, रोहामा, जिला बारामुल्ला
9708	मांजीद अहमद डार अब्दुल अहद डार	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2002	253 14.08.03	गांव चादूरा, जिला बुडगाम।
9709	मखन लाल कौल श्रवणनन्द कौल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	168 05.07.72	खारपोरे, बांडीपोरे, बारामुल्ला।
9710	मलिक तस्सादुक हुसैन गुलाम हुसैन मलिक	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	318 14.08.03	गांव. अल्लूसा, तहसील बान्दीपुरा, जिला बारामुल्ला।
9711	मंजूर अहमद अब्दुल खालिक मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	250 24.06.03	गांव. वामनू, जिला. पुलवामा, कश्मीर।
9712	मंजूर अहमद अब्दुल अहद खान्डे	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	488 14.08.03	गांव. हाजीवारा, पातन, जिला. बारामुल्ला।
9713	मंजूर अहमद गुलाम. मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	283 22.10.03	माजीपोरा, तहसील बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला, कश्मीर

9714	मंजूर अहमद वनी गुलाम नबी वनी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	316 26.03.98	गांव. नारवा बगली (त्रिची)पोस्ट रतनी पोरा, जिला पुलवामा।
9715	मंजूर अहमद जरगर गुलाम हसन जरगर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1999	330 16.10.03	गांव. बाबा ताजा, सोपोर, कश्मीर।
9716	मंजूर अहमद हैदर भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	640 17.08.03	मोहल्ला सोलिना, श्रीनगर।
9717	मंजूर अहमद भट्ट गुलाम मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	378 09.07.03	हंजुरा, तहसील चाडुवा, जिला बुडगाम कश्मीर।
9718	मंजूर हुसैन कुरैशी, बदरदीन कुरैशी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	380 09.07.03	चाकिरू, तहसील हवेली, जिला पूच्छ जम्मू प्रान्त।
9719	मंजूर कदीर राठौर कमालुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	271 26.06.03	गांव. लोडोरा, तहसील बान्दीपोरा, जिला. बारामुल्ला।
9720	मरिया अंसारी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2003	789 23.09.03	गांव. बेजबेहेरा, जिला अनन्तनाग।
9721	मासूद अहमद नूर अहमद	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	37 23.10.71	गांव. कोराल, तहसील कुलगाम, पोस्ट नसनूर, शोपियान कश्मीर।
9722	मसूद एम. नाजीकी मुपती जिया उल - हक	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	821 15.12.03	बिजबेहेरा, अनन्तनाग।

9723	मसरत शाहीन गुलाम कादिर पंडित	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1999	495 23.03.06	मोहल्ला सैयद कुचाहवेली, श्रीनगर।
9724	मस्सरत फातिमा अब्दुल रहीम भट्ट	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2004	1068 20.07.04	मुनार, गंडरबल, श्रीनगर।
9725	मेहराजउददीन गुलाम मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	713 07.09.03	सुल्तानपोरा, सुमबले, सोनवरी, बारामुल्ला, कश्मीर
9726	मिद्यात चेस्ती एम. चेस्ती	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	348 16.03.03	रावलपोरा, श्रीनगर।
9727	विमल शर्मा देशराज शर्मा	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1999	180 17.04.03	रेलवे लाईन गडामा, आरएस. पुरा, जम्मू।
9728	मीर गोवहेर अमीन मोहम्मद. अमीन मीर	बी.यू.एम.एस. एन.टी.आर.यूनि.आफ हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 1995	399 30.07.03	सादरबल, श्रीनगर।
9729	मीर हिस्सामउददीन मीर अब्दुल खालिक	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1964	52 23.10.71	चरारे शारिफ, जिला. बुडगाम कश्मीर।
9730	मीर लतीफ हस्सानी गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	357 16.10.03	हाऊसिंग कालोनी, संगरी कनलीबाग जिला. बारामुल्ला।
9731	मीर मुजफ्फर हुसैन निस्सार सोनाउल्लाह	बी.यू.एम.एस. उस्मानिया वि०. वि०, हैदराबाद 1982	842 17.12.03	50, एसआईसीओपी रोड बिजबेहरा, कश्मीर।



9732	मीर जामरुदा अली अली मोहम्मद मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	257 24.06.03	गांव. गुलशनपुरा तराल, जिला. पुलवामा
9733	मियान इफ़तिखार गुलाम नबी वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2001	430 14.08.03	खु. तहसील पुलवामा, जिला. पुलवामा
9734	मोहम्मद अहमद मुबारक अहमद लाने	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि० वि०, सागर 1996	822 15.12.03	नूराबाद तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9735	मोहन लाल फोटेदार जिया लाल फोटेदार	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	178 05.07.72	साहपोरा, पोस्ट कपिया, तहसील कुलगाम, जिला. अनन्तनाग कश्मीर।
9736	मोहन सिंह हाकिम सिंह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	103 23.10.72	गांव. हुतमुरा, पोस्ट माटन, अनन्तनाग, कश्मीर।
9737	मोहम्मद अब्दुल्लाह गनी गुलाम हसन गनी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1976	141 30.03.77	गांव. पावी नोन सैमल जिला, अनन्तनाग, कश्मीर।
9738	मोहम्मद अकबर शाह मोहम्मद अब्दुल्लाह शाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	175 5.07.72	तोतलीपोरा, चरारे शरीफ, बुडगाम, कश्मीर।
9739	मोहम्मद अमीन गोदी अबुल. खालिक गोदी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	572 22.07.03	इकबाल, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9740	मोहम्मद अमीन हेल्ला गुलाम मोहम्मद हेल्ला	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	249 26.06.03	आलम गर्ग, पोस्ट हरमान शोपियान, जिला. पुलवामा।

9741	मोहम्मद अमीन कावा हबीबउल्लाह कावा	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	301 23.09.03	बोटिंगू सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9742	मोहम्मद अमीन मसूदी पीर खलील शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1971	107 23.10.71	नरवारा, श्रीनगर, कश्मीर।
9743	मोहम्मद अमीन मीर भार अहमद मीर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	481 01.08.03	गांव. लोगरीपोरा, सोपोर, जिला बारामुल्ला
9744	मोहम्मद अमीन कुरैशी मोहम्मद कुरैशी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1958	1 23.10.71	गांव. मनीगाम, गंदरवाल, श्रीनगर कश्मीर।
9745	मोहम्मद अशार मगरे गुलाम अहमद मगरे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	791 23.09.03	गांव. बटपोरा, कनिहामा जिला बुडगाम।
9746	मोहम्मद अशरफ अब्दुल गफ्फार डार	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1996	576 02.09.03	गांव. वदवन, बुडगाम, जिला बुडगाम।
9747	मोहम्मद अशरफ गुलाम रसूल वागेय	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	614 23.06.03	मोहल्ला जलाल, सोपोर, जिला बारामुल्ला
9748	मोहम्मद अशरफ पारे अब्दुल गुफ्फार पारे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	176 16.04.03	पथ मकामा, पोस्ट ऑफिस मेगम, तहसील बारू, जिला बुडगाम, कश्मीर।
9749	मोहम्मद अशरफ राठेर मुल्तान राठेर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	315 23.06.03	गांव. चन्द्रहामा, जिला बारामुल्ला।

9750	मोहम्मद अशरफ शाह गुलाम मोहिउद्दीन शाह	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि० वि०, सागर	924 25.12.03	तरल पाईन, पुलवामा, कश्मीर।
9751	मोहम्मद अशरफ वनी अब्दुल गनी वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर	436 22.07.03	मलिक मोहल्ला, शोपियान।
9752	मोहम्मद असलम गुलाम नबी शाह	2001 बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर	625 14.08.03	गांव. चन्दहारा, पम्पोरा, जिला. पुलवामा।
9753	मोहम्मद असलम बैग ईहाक बैग	2002 बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़	91 23.10.71	खानोपुरा, पोस्ट चन्दुसा, बारामुल्ला कश्मीर।
9754	मोहम्मद अस्सादुल्लाह मीर हाजी अब्दुल्लाह मीर	1964 बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़	40 23.10.71	गांव. लंगेट, हण्डवारा, कश्मीर।
9755	मोहम्मद अयूब खान गुलाम मोहम्मद खान	1962 बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर	1035 28.05.04	बारामुल्ला टाऊन, जिला. बारामूला।
9756	मोहम्मद अयूब वनी मोहम्मद सुल्तान वनी	1992 बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर	668 02.09.03	गांव. नैदीहाल, जिला. बारामुल्ला।
9757	मोहम्मद अयूब सोफी मोहम्मद अब्दुल्ला सोफी	1997 बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर	398 30.07.03	गांव. आष्टागू, बान्दीपोरा, बारामुल्ला।
9758	मोहम्मद बकीर मीर गुलाम कादिर मीर	1998 बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर	780 17.09.03	गांव. संजीपोरा, तहसील चौदूरा, बुडगाम, कश्मीर।
		2003		

9759	मोहम्मद भट्ट रसूल भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	143 08.02.72	गांव. मनिगाम, तहसील और जिला. गंदरबल कश्मीर।
9760	मोहम्मद फारुक डार अली मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	287 22.10.03	वदवान, जिला. बुडगाम।
9761	मोहम्मद हाबी अहमद हाबी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	100 06.07.72	चैरार शारीफ बुडगाम, कश्मीर।
9762	मोहम्मद हमीद बेग हनीफ बेग	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	114 06.02.72	गांव. बलकोटा, तहसील. उरी, जिला. बारामुल्ला कश्मीर।
9763	मोहम्मद हनीफ गनई अब्दुल रहमान गनई	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	506 16.10.03	गांव. अदिना. मगाम, जिला. बुडगाम।
9764	मोहम्मद हक नवाज मोहम्मद. अकबर नजर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1974	139 14.04.76	किष्टवार जिला. डोडा।
9765	मोहम्मद इब्राहिम भट्ट गुलाम रसूल भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	722 27.06.03	अर्चगम, बानीपोरा, एट.वर्तमान में नावशेरा श्रीनगर
9766	मोहम्मद इकबाल भट्ट गुलाम रसूल भट्ट	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1964	125 05.03.74	मस्जिद मोहल्ला. बदरमाह, जिला. डोडा।
9767	मोहम्मद इकबाल वनी अब्दुल रहमान वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	759 13.08.03	गंसेरेना, कुलगाम, वर्तमान में न्यू कालोनी, वेजवेहरा, अनन्तनाग।

9768	मोहम्मद इकबाल वनी बशीर अहमद वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	815 14.12.03	बबपोरा, खरेव, पमपोरा, जिला पुलवामा।
9769	मोहम्मद ईशाक वनी अली मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1998	557 17.10.03	गांव. छावा, पोस्ट आर्थ, बुडगाम, जिला अनन्तनाग।
9770	मोहम्मद जमाल भट्ट मोहम्मद सिकन्दर भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	670 14.08.03	सेट. नम्बर 3, ओल्ड बिल्डिंग कटबाग, तहसील हण्डवारा।
9771	मोहम्मद खालिक अंजाम नजीर हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	396 09.07.03	जिला पूछ।
9772	मोहम्मद मारुफ मोहम्मद फारुक	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2003	1237 10.03.05	दरहल, मलकान (होप्प), जिला राजौरी।
9773	मोहम्मद मुनवर अब्दुल रहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	629 09.07.03	मटलौंग, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9774	मोहम्मद मुजफ्फर जान गुलाम मोहिउददीन	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1999	534 22.07.03	पोलीपोरा, साफापोरा, सोनावारी जिला बारामुल्ला।
9775	मोहम्मद रफी ठोकुर अब्दुल अहद ठोकुर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	498 09.07.03	वगूरा, जिला बारामुल्ला।
9776	मोहम्मद सफउददीन मोहम्मद अमीन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	169 05.07.72	गांव. वड़वन, पोस्ट सोईबग बुडगाम, कश्मीर।

9777	मोहम्मद सलीम गादू गुलाम रसूल गादू	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि.पुणे 2005	1323 10.08.05	कर्णशुका कालोनी नागीन बाग सोपोर बारामुल्ला।
9778	मोहम्मद शफी नूर मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.कानपुर 2002	611 01.08.03	गांव. रुस्सू बीरवा, जिला. बुडगाम।
9779	मोहम्मद शफी भद गुलाम अहमद भद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	725 09.07.03	गांव. चेयेरा, मैगम, जिला बुडगाम।
9780	मोहम्मद शफी डार गुलाम मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	296 27.06.03	हथलांगू सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9781	मोहम्मद शाहनीज मकदूमी गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2002	252 14.08.03	गांव. तुजार, शारीफ, सोपोर।
9782	मोहम्मद शरीफ देवनी जियाउददीन	हाकिम -ई- हाजिक तिब्बिया कालेज, लाहौर 1941	65 23.10.71	गांव कानन, बान्दीपोरा, कश्मीर।
9783	मोहम्मद शारिफउददीन कुरैशी मोहम्मद सईद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1958	111 23.10.71	मनिगाम गंदरवाल श्रीनगर (कश्मीर)।
9784	मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद मकबूल शेख	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	384 16.10.03	गांव. डोयान, तहसील, चडूरा, जिला. बुडगाम।
9785	मोहम्मद सुल्तान पारे मोहम्मद सुल्तान पारे	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	676 02.12.03	वादीपोरा, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।

9786	मोहम्मद सैयद राठेर गुलाम कादिर राठेर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	620 25.06.03	आरामवाड़ा, वाया यारीगामा, शोपियान, जिला. पुलवामा।
9787	मोहम्मद तयूब शाह पीर मोहम्मद अरसादुल्लाह	फाजिले- तिब्ब- ओ जराहत आयु. एवं युनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली 1946	50 23.10.71	आश- मुकाम अनन्तनाग, कश्मीर।
9788	मोहम्मद याकूब भट्ट गुलाम मोहम्मद. भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	424 22.07.03	गांव. नायरा, पूराहबा, पुलवामा, जिला. पुलवामा।
9789	मोहम्मद यासिन गनई अब्दुल सलाम गनई	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	644 24.06.03	पंजगाम, मुगुड, जिला बारामुल्ला।
9790	मोहम्मद युसूफ डिंदू अब्दुल रहीम डिंदू	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	699 27.05.03	चंकीपोरा, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9791	मोहम्मद युसूफ हुसैन बशीर बहुदीन हकीम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	919 25.12.03	शेरवनी कालोनी, खुजाबाग, बारामुल्ला।
9792	मोहम्मद युसूफ लागू गुलाम मोहिउददीन लागू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1969	142 08.02.72	मोहारान सोपोर, कश्मीर।
9793	मोहिउददीन मोहम्मद. सादिक वनी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1972	118 03.08.73	बिजबेहेरा जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9794	मुप्ती मोहम्मद. ताहिर मुप्ती मोहम्मद. कयामुददीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1960	133 4.02.76	बचपुरा सौरा-2, श्रीनगर कश्मीर।

9795	मुख्तियार अहमद हबीब उल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	1332 26.08.05	बेजगांव, केल्लान, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग ।
9796	मुमताज पारे अहद पारे	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	768 02.09.03	गांव. सालूस, पोस्ट करिरी जिला बारामुल्ला ।
9797	मुन्तवर आरिफा अब्दुल रहीम भट्ट	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	937 25.12.03	नुनार गंदरबाल, श्रीनगर ।
9798	मुनावर इकबाल मोहम्मद इकबाल	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2004	1263 20.04.05	मीर ब्रोदर्स हाऊस फिरदौस्स आवाद, सुंजवान रोड, समीप मस्जिद, जम्मू ।
9799	मुनीर अहमद वनी अली मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	753 13.08.03	गांव. पंजान, जिला. कुपवारा ।
9800	मुनीरा अख्तर गुलाम नबी वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	476 26.06.03	गांव. श्रीपोरा, तहसील कुलगाम, कश्मीर ।
9801	मुनीष कुमार कौल एन एन. कौल	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	559 22.07.03	संग्रामपोरा, तहसील सोपोर, वर्तमान में जीवन श्रीनगर ।
9802	मुंशी शाबम अमीन मुंशी मोहम्मद अमीन	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2004	1290 03.06.05	जारीमोहल्ला, अर्मपोरा, ताल बाजार, श्रीनगर
9803	मुरासलीम हसन गुलाम. हसन	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2001	588 17.09.03	मोहल्ला, जादी मस्जिद, सफाकाडल, श्रीनगर ।



9804	मुश्ताक अहमद अली मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	742 30.07.03	छौंटीपुरा, मवार, हण्डीपोरा, जिला. कुपवारा।
9805	मुश्ताक अहमद भद गुलाम कादिर भद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	841 17.12.03	चंगा, तहसील भालेस्सा, जिला. डोडा।
9806	मुश्ताक अहमद मलिक मोहम्मद युसूफ मलिक	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	1321 29.07.05	तुजेर फातिहार, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9807	मुश्ताक अहमद गनई गुलाम नबी गनई	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	471 14.08.03	गांव. धारिगुंड, श्री गुफफारा, तहसील बेजबेहरा, जिला. अनन्तनाग।
9808	मुश्ताक अहमद नैकू गुलाम हसन नैकू	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	786 17.09.03	कदीम ईद-गाह, जिला. बारामुल्ला।
9809	मुश्ताक अहमद वनी मोहम्मद. अब्दुल्लाह वनी	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि० वि०, सागर 1995	409 01.08.03	गांव. वदवान, सोईबुड, जिला. बुडगाम।
9810	मुश्ताक अहमद बशीर अहमद आगा	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	646 16.10.03	गांव. कुलनगाम, तहसील हण्डवारा जिला. कुपवारा।
9811	मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	166 08.07.72	मोहल्ला जामिया मरिजद भदरवाह जम्मू प्रोविंसे।
9812	मुश्ताक अहमद डार अली मोहम्मद डार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	439 22.06.03	गांव. समबूरा, तहसील पुम्पोरा, जिला. पुलवामा।

9813	मुस्ताक अहमद भट्ट मोहम्मद ईस्माइल	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	406 14.08.03	गांव. सालू सोपौर, बारामुल्ला।
9814	मुस्ताक नैकू गुलाम हसन नैकू	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1994	515 14.08.03	मोहल्ला. कदीम, ईदगाह, बारामुल्ला।
9815	मुस्ताक— उल अहमद भट्ट नबी भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	258 24.06.03	गांव. नोइडोरा, करालमौड़, तहसर डूक जिला अनन्तनाग।
9816	मुस्ताक अहमद कुमार अब्दुल अहद. कुमार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2004	1062 20.06.04	मौगम, तहसील चडुरा, जिला बुडगाम।
9817	मुजफ्फर अहमद मलिक गुलाम हसन मलिक	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	735 01.08.03	गांव. लोवहेरी, चेक बीरवा, जिला बुडगाम।
9818	मुजफ्फर अहमद वनी गुलाम मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	575 17.10.03	गांव. पलहालन, पाटन, जिला. बारामुल्ला।
9819	मुजफ्फर अहमद अब्दुल अजीज मीर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	687 17.10.03	गांव.. गुंड रंगच, चंडूरा, जिला. बुडगाम।
9820	मुजफ्फर अहमद गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2005	1235 01.03.05	चिनागुंड, कनेलवान, तहसील बेजबेहेरा जिला अनन्तनाग।
9821	मुजफ्फर अहमद कुरैशी बशीर उददीन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	317 14.08.03	नैद खाई तहसील सुनावरी, जिला बारामुल्ला।

9822	मुजफ्फर दीन अहमद गुलाम अहमद भट्ट	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	1231 03.02.05	ऐजास बाजीपोरा बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला।
9823	मुजफ्फर हुसैन निजिमुद्दीन मिन्दू	बी.यू.एम.एस. नागपुर वि० वि०, नागपुर 1998	661 16.10.03	अथोली, पड्डार, तहसील किष्टवार, जिला डोडा।
9824	मुजफ्फर हुसैन नाजिमुद्दीन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1998	661 16.10.03	अथोली, पड्डार, तहसील किश्तावर, जिला डोडा।
9825	मुजफ्फर हुसैन खान मोहिसुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	294 01.08.03	गांव अचाबल सोपोर,
9826	मुजामिल जीलानी गुलाम जीलानी जारगर	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2004	986 04.02.04	लाल बाजार, श्रीनगर।
9827	मुजामिल मुबारक मुबारक अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2004	1055 01.06.03	गुरु बाजार, श्रीनगर, ए/पी.लाल नगर चंपोरा, श्रीनगर।
9828	मुजामिल शफी मोहम्मद शफी वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	513 16.10.03	चांतीपोरा, वरीनाग, जिला अनन्तनाग।
9829	मुजामिल सलाम अब्दुल सलाम वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	645 14.08.03	गांव शारी शरीफ, जिला बुडगाम।
9830	नदीम नाजीर अहमद नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2005	1241 10.03.05	टाऊन हल्ले, सोपोर, जिला बारामुल्ला।

9831	नसीर अहमद पीरजादा गुलाम अहमद पीरजादा	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	739 01.06.03	गांव. नईदरवे, सोनावारी, जिला बारामुल्ला।
9832	नयामा अहमद मोहम्मद. शाफी वनी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	306 16.10.03	गांव. तरालबाग, जिला पुलवामा।
9833	नाजिमा तब्बसुम अब्दुल मजीद जरगर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	746 01.08.03	गांव. भाल्ला, तहसील थाथरी, जिला डोंडा
9834	नजीर अहमद गनई गुलाम नबी गनई	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	502 14.08.03	गांव. अदिना, मगम, जिला बुडगाम।
9835	नजीर अहमद वनी गुलाम मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	980 08.01.04	लावर्स चक सुपनेन, मगरम, जिला बुडगाम।
9836	नजीर अहमद सत्तार राठेर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	619 22.07.03	गांव. तराल जिला. पुलवामा।
9837	नजीर अहमद हुसैन हाकिम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	170 05.07.72	डायलगों, जिला. अनन्तनाग, कश्मीर।
9838	नजीर अहमद मोहम्मद मकबूल	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2000	511 16.10.03	गांव. चेकखामतहसील, पाटन, जिला बारामुल्ला।
9839	नजीर अहमद गुलाम रसूल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	177 17.04.03	रावल पुरा. बाई पास, श्रीनगर कश्मीर।

9840	नजीर अहमद अब्दुल रहीम भट्	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	777 07.09.03	अगलार, गोशबाग, पाटटन, जिला बारामुल्ला।
9841	नजीर अहमद भट् अब्दुल अहद भट्	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	1338 01.10.05	गांव. मूसा तहसील बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला।
9842	नजीर अहमद कुन्दरु गुलाम मोहम्मद. कुन्दरु	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	141 08.02.72	बरगम, पोस्ट डुरू तहसील अनन्तनाग कश्मीर।
9843	नजीर अहमद मीर गुलाम कादिर मीर	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1998	350 16.03.03	गुडीपोरा, पुलवामा, कश्मीर।
9844	नजीर अहमद नकाश अमीन नकाश	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	67 23.10.71	मलिक साहिब सफाकादल, श्रीनगर कश्मीर।
9845	नीलम सलाम अब्दुल सलाम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	427 27.06.03	पोडगामपुरा, अनन्तनाग, कश्मीर।
9846	नीलोफर अकरम डार मोहम्मद. अकरम डार	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1999	264 22.07.03	टाऊन पुलवामा, जिला. पुलवामा, (गाव.डिलीपोरा) कश्मीर।
9847	निघात जाबीन गुलाम. मोहम्मद जाज	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	278 22.10.03	मोहल्ला, साबून कुचा जनकादल, श्रीनगर।
9848	निघात नस्सरीन बशीरुददीन शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	715 23.06.03	नागीन बाग, बोनागम, सोपोर, जिला बारामुल्ला।

9849	निघात रशीद अब्दुल रशीद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	632 16.10.03	गांव. आडरू, मगाम, जिला बुडगाम।
9850	नील कंठ भट्ट सर्वानन्द भट्ट	हाजिक उल- हुकमा भूपिन्दर तिब्बी कालेज, पटियाला 1940	97 23.10.71	रालियार हव्वाकादर, श्रीनगर, कश्मीर।
9851	निरिन्द्र सिंह एस. उत्तम सिंह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	596 07.09.03	गांव. सरगसू, फुलटम, अनन्तनाग
9852	निर्मला कुमारी मौगजिन शिव जी मौगजिन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	110 23.10.71	द्वारा. 04. गली खिलोनियान, पसरा डगा, जम्मू।
9853	निसार अहमद लागू मोहम्मद यासीन लागू	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	697 27.05.03	बिलातकालोनी, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9854	निसार अहमद मीर मोहम्मद. दिलावर मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	971 01.01.04	अहमाबाद, कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9855	निसार अहमद कर गुलाम. नबी कर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1997	308 16.10.03	तरल्ल भल्ला, जिला. पुलवामा।
9856	निसार अहमद अब्दुल रशीद बैग	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1997	654 16.10.03	खोजपोरा, नोवसहेरा, रीनगर।
9857	निसार अहमद भट्ट मोहम्मद. अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	310 23.06.03	अवन्तीपोरा, जिला. पुलवामा।

9858	निसार अहमद वागे अब्दुल अहद वागे	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1997	467 22.07.03	गौधी मुजगुंड, श्रीनगर, कश्मीर।
9859	निसार अली मीर मोहम्मद रमजान मीर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	751 14.08.03	अबुद्रस चौक, सफडोन, जिला. बुडगाम।
9860	नूसरत बशीर बशीर अहमद बैग	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	231 14.08.03	देवी आंगन, हरि पर्वत श्रीनगर, कश्मीर।
9861	नूसरत जीलानी गुलाम. जीलानी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2003	451 14.08.03	लाल बाजार, श्रीनगर कश्मीर।
9862	नूसरत कावोसा मुजफ्फर अहमद. कावोसा	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	597 20.07.03	डरमोलेय पुलवामा वर्तमान ग्राम फिरदुस कालोनी, बसपारा, श्रीनगर।
9863	नुजहत मंजूर मंजूर अहमद	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1999	314 23.06.03	हमामबल, खिनियार परसेटली रायटेंग खानयार श्रीनगर।
9864	नुजहत रशीद अब्दुल. रशीद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1998	303 23.09.03	मोहल्ला. नर्सिंग गढ़, श्रीनगर।
9865	पन्ना लाल निहाल चन्द	हाजिक उल- हुक्मा भूपिन्दर तिब्बी कालेज, पटियाला 1950	134 20.03.76	मुठी मिरान तहसील, अखनूर, जम्मू।
9866	प्रवीर अहमद गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1990	959 25.12.03	सोपौर, जिला. बारामुल्ला।

9867	प्रवीज अहमद शाह गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर	240 23.06.03	गांव. उस्सायन सोइपोरा कुंजेर, तहसीलटेहग मार्ग जिला बारामुल्ला।
9868	परवेज अहमद राठेर गुलाम अहमद राठेर	2002 बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर	832 17.12.03	शीरपोरा, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9869	परवेज अहमद गुलाम मोहम्मद तिल्ली	2001 बी.यू.एम.एस. सागर वि.वि. 0 वि.0, सागर	711 24.06.03	मनिगम, गंदरबल, श्रीनगर।
9870	परवेज मीर मोहम्मद शारीफ मीर	1996 बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर	741 30.07.03	सोती बलेस्सा गोंधु डोडा।
9871	परवेज वनी प्रोफेसर पी. एम. वनी	2002 बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली	701 28.05.03	निशाब बाग, पारे पोरा, भागती बरजुल्ला श्रीनगर।
9872	पीर अब्दुल कयूम पीर नूरउददीन	2003 बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़	7 23.10.71	बरजुल्ला-5, श्रीनगर कश्मीर।
9873	पीर अल्ताफ हुसैन पीर कुतुबदीन	1982 बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर	587 17.09.03	फुरेह कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9874	पीर शमसुदीन परसा पीर गुलाम अहमद पारस	1999 बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर	108 31.08.72	गांव. पाचन, पोस्ट डंडीपुरा, जिला बारामुल्ला कश्मीर।
9875	पीर जादा इफ्तीखार अहमद पीर जादा गुलाम अहमद	1972 बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर	524 16.10.03	गांव. काननगुंड, बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला।
		1998		



9876	पीरजादा निसार अहमद मोहम्मद रफीक	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि०. सागर 1995	564 28.10.04	गांव. फिरसल, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग ।
9877	पीरजादा सज्जाद हुसैन पीरजादा अब्दुल अन्ता जहोरा	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	480 26.06.03	सिमानी कालोनी, जिला अनन्तनाग ।
9878	प्राण नाथ द्यर पंडित मधुजु द्यर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	30 23.10.71	द्यर निवास, बाग-आई- सुन्दर चात्ताबल, श्रीनगर (कश्मीर) ।
9879	प्राण नाथ पंडिता राधा कृष्ण	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	1028 23.03.04	मकान नम्बर. 121/5, शान्ती निवास, मुठी चौक, जम्मू ।
9880	प्रिन्स आशाक नबी मीर गुलाम. वबी मीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	456 23.06.03	केल्लार, पुलवामा, कश्मीर ।
9881	पुष्कर नाथ कैलाश राम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	16 23.10.71	लाजुरा पुलवामा श्रीनगर कश्मीर ।
9882	पुष्कर नाथ माधो राम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	139 08.02.72	गोव.पोस्ट तरेहगाम, जिला. कुपवारा, कश्मीर ।
9883	पुष्कर नाथ मधु राम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	162 13.09.83	गोव.पोस्ट तरेहगाम, जिला. कुपवारा, कश्मीर ।
9884	कयूम शाह मोहम्मद सरवर शाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	115 06.02.72	ग्राम. दुर्गमुल्ला, पोस्ट दुर्गमुल्ला, जिला कुपवारा कश्मीर ।

9885	काजी अब्दुल घानी काजी गुलाम. मोहिउददीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1962	116 18.06.73	द्वारा सरकारी औषधालय वासु, जिला अनन्तनाग।
9886	कुदसिया निजामी गुलाम मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	935 25.12.03	गुरीवार, बेजबेहेरा, अनन्तनाग।
9887	कुरातउल एन नजीर अहमद वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1999	651 24.01.03	बसपौर, श्रीनगर कश्मीर।
9888	रफी अहमद भट्ट अब्दुल रशीद भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	639 27.06.03	अरागराम बान्दीपौर, जिला बारामुल्ला।
9889	रफिया अजीज अजीजउददीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	723 09.02.03	वगोरा, जिला. बारामुल्ला।
9890	रफीक अहमद सोफी मोहम्मद. सुल्तान सोफी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	464 23.06.03	बाजार बटमातू, श्रीनगर, कश्मीर।
9891	रफिका बानू गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	634 26.06.03	डुददीपौरा, हण्डवारा, जिला कुपवारा।
9892	राज कुमार किलाम प्रेम पाथ किलाम	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	120 08.08.73	करफाली मोहल्ला और ब्रिज श्रीनगर, कश्मीर।
9893	राजीव परवेज मोहम्मद यूसुफ	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1999	577 14.08.03	बाजार मस्जिद, नोहरी कादल, श्रीनगर कश्मीर।

9894	राकेश कुमार पंडित मोहन कृष्णा पंडित	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	529 22.07.03	गांव. जलपोरा, सोपोर (ए/पी), मकान नम्बर. 128, लेन नम्बर. 4, आनन्द नगर, पाटोली ज
9895	रलीमा फारुक मोहम्मद फारुक वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2005	1266 16.05.05	गुप्त गंगा ईश्वर, निशात, श्रीनगर।
9896	राकिया अख्तर गुलाम मोहम्मद मलिक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	256 24.06.03	आशाबल, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9897	रसूल अहंगर रशीद अहंगर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1964	204 05.07.72	भादेरवाह, जिला डोडा, जम्मू राज्य
9898	रसूल भट्ट आनन्द भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	112 23.10.71	322. जवाहीर नगर, श्रीनगर कश्मीर।
9899	रसूल मीर अब्दुल अजीज मीर	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	197 05.07.72	गांव. बुगम. तहसील कूलगाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9900	रतन लाल कौल भागवान दास कौल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1971	33 23.10.71	गाव.हरदुठोरू, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9901	राविन्दर कुमार पंडिता बंशी लाल पंडिता	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1991	172 16.04.02	मकान नम्बर. 83, लेन नम्बर. 3, आर्दश नगर, बनतलाब जम्मू।
9902	रीना जुतशी ओतार कृष्ण	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	319 16.10.03	विद्यासाग, नोसहेरा, श्रीनगर।

9903	रफत नजीर नजीर अहमद शाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1998	601 25.07.03	गांव. आशालीपोरा, अनन्तनाग, कश्मीर।
9904	रहाना फारुक फारुक अब्दुल. गनई	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2003	1033 17.05.04	बोग.आई.अली मर्दन खान, नऊ शेरा, श्रीनगर।
9905	रेहाना गनई अब्दुल गुलाम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1995	720 27.06.03	न्यू कालोनी सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9906	रेहाना मकसूद मकसूद अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2003	717 23.06.03	आजाद बस्ती, नतीपोरा, श्रीनगर।
9907	रियाज अहमद डार अब्दुल रहमान डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	279 22.10.03	गांव. वरवान, जिला बुडगाम।
9908	रियाज अहमद डार मोहम्मद शहवान डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	313 23.06.03	रांजू सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9909	रियाज अहमद खान अब्दुल माजीद खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	757 18.08.03	इकबाल कालोनी, बारामुल्ला।
9910	रियाज अहमद तान्त्रे गुलाम रसूल तान्त्रे	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	703 28.05.03	बोलीपोरा, जिला. कुपपारा।
9911	रियाज अहमद वनी अती मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	435 22.07.03	शोपियान, तहसील व जिला. पुलवामा।

9912	रियाज अहमद, डार अब्दुल समद डार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	452 09.07.03	गांव. वाघुला, जिला. बारामुल्ला, कश्मीर।
9913	रियाज अहमद, डार गुलाम रसूल डार	बी.यू.एम.एस. एस.वी.वि० वि०, तिरुपति 1992	716 09.07.03	बोनापोरा, बातामालू, श्रीनगर।
9914	रियाज अहमद टेले अब्दुल गुलाम टेले	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2001	724 09.07.03	नूर बाग, भागवानपोरा, श्रीनगर।
9915	रियाज अहमद मेहबूबी नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	410 01.08.03	गांव. पंजगोम, पुलवामा, जिला पुलवामा कश्मीर।
9916	रियाज अहमद वनी अब्दुल अहद वनी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	747 14.08.03	हरदुशिइल, पोस्ट डायलगॉव, अनन्तनाग।
9917	रियाज— उल— हसन गुलाम. हसन भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	373 09.07.03	हजिवारा, पाटन, जिला. बारामुल्ला।
9918	रियाज— उल—रहमान लोन गुलाम मोहम्मद. लोन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	376 09.07.03	वार्ड नम्बर.7, बान्दीपोरा, बारामुल्ला, कश्मीर
9919	रोहीउल निसा गुलाम मोहिउद्दीन बैग	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	775 01.09.03	मकान नम्बर. 8, रोज लेन, न्यू कालोनी, बसपोरा, श्रीनगर।
9920	रुली बशीर बशीर अहमद हजनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1999	415 01.08.03	गांव. आंगीडोरू, जिला कपवारा, कश्मीर।

9921	रूप कृष्ण किंकू शंकर नाथ टिकू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	196 05.07.72	गांव. रतनीपुरा, पुलवामा, कश्मीर।
9922	रोशन लाल नन्द लाल लाहौरी	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1970	137 08.02.72	शोपियान, पोस्ट शोपियान, कश्मीर।
9923	रोशन लाल चार बिशम्बर नाथ चार	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1963	8 23.10.71	करफाली मोहल्ला श्रीनगर श्रीनगर,
9924	रजफ अहमद बैग जफर उल्लाह बैग	बी.यू.एम.एस. गुरिजम वि.वि., अलीगढ़ 2002	421 14.08.03	भारा शाह और कम्पनी तरी जिला बारामुल्ला।
9925	रजफ सलीम खान मोहम्मद सलीम खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2001	371 01.09.03	हाफिज बाग, नरीम बाग, श्रीनगर, कश्मीर
9926	रुबीना मुस्तफा गुलाम मुस्तफा खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	346 16.03.03	बसपुरा, श्रीनगर।
9927	रुबिया खातून शौकत अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1998	341 14.08.03	नरोराबाद, खानपोरा, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
9928	रुबिना आजीमी गुलाम मोहम्मद. कबाबी	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नारिक 2005	1302 21.06.03	नागीन बाग, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9929	रुहेल जोन मोहम्मद. युसूफ	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	563 22.07.03	40, ए०. न्यू कालोनी, बेटमालू, श्रीनगर।

9930	रुही जॉन जी० एम० मीर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2003	164 08.04.03	रावलपोरा, श्रीनगर कश्मीर।
9931	रुकुइया करीम अब्दुल करीम	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2002	379 09.07.03	बाघीसुन्दर पैन, घाट्टाहल, श्रीनगर।
9932	साबिया जॉन शेख गुलाम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	311 22.10.03	लाल बाजार, श्रीनगर।
9933	साबिया कावोसा गुलाम नबी कावोसा	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2002	442 02.09.03	फिरदोस कालोनी, बसपोरा, श्रीनगर।
9934	साबिया याशमीन गुलाम मोहम्मद कीना	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	259 09.07.03	एस.आई.सी.ओ.पी. रोड बिज बेहरा, जिला अनन्तनाग कश्मीर।
9935	साबिहा हमीद सैयद हमीद उल्लाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	796 17.10.03	गाव. अगलेर शोपियान, काजी बाग, रावलपोरा, श्रीनगर कश्मीर।
9936	सादफ यासीन मोहम्मद. यासीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	270 18.06.03	मोहल्ला आजाद गुंज जिला बारामुल्ला।
9937	साहिना खुशीद खुशीद अहमद लोलू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2003	163 08.04.03	बक्शीबाग, अनन्तनाग, कश्मीर।
9938	साहिदाकरीम अब्दुल कराम भट्ट	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2002	275 09.07.03	बाघीसुन्दर वर्तमान में मकान नम्बर 19ए, जवाहर नगर, श्रीनगर।

9939	साहिता बशीर बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	273 09.07.03	यासीन कालोनी, आराम पोरा, सोपोर, जिला बरामुल्ला।
9940	सहमरी अहमद भट्ट गुलाम नबी भट्ट	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2003	798 17.10.03	वानगनपोरा, ईद-गाह, श्रीनगर।
9941	साइमन शाबनम गुलाम मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2003	712 26.06.03	कादलाबल पामपोर, जिला पुलवामा।
9942	सजाद अहमद मलिक अब्दुल सत्तार मलिक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2003	774 01.09.03	पीर बाग, हेदेरपोरा, जिला बुडगाम।
9943	सजाद अहमद भट्ट नबी भट्ट	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 1997	501 16.10.03	पोषवारा, खन्नाबल जिला अनन्तनाग कश्मीर।
9944	सजादअहमद शेख हमीद शेख	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	463 04.04.03	गांव, शालपोरा, पोस्ट अच्छाबल, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9945	सजादअहमद शेख अब्दुल हमीद शेख	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	831 17.12.03	शहालीपोरा अच्छाबल, अनन्तनाग।
9946	सजाद अहमद गुलाम नबी खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	649 21.10.03	गुलाहन अवाद सामस सरमाई ए/पी केपी, रोड़, अनन्तनाग
9947	सजाद बशीर बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. सागर वि.वि., सागर 2001	551 23.06.03	मगडूम मोहल्ला, तरल, जिला पुलवामा



9948	सजाद हुसैन रिशो नजीर अब्दुल. रिशो	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	698 23.06.03	बरशेल्ला, जिला डोडा ए/पी अपर सौरा, श्रीनगर।
9949	सजादुल रहमान अब्दुल. रहमान शेख	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	255 27.06.03	जडईद नोवशेरा उरी जिला. बारामुल्ला।
9950	सजाफ बशीर बशीर अहमद गजू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	347 16.03.06	अहमद नगर., बसपोरा, श्रीनगर।
9951	सलमा गुलजार गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	1026 29.07.04	ईदगाह कादिम, बारामुल्ला।
9952	समीन अहमद अहमद खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2003	165 08.04.03	मोहल्ला लाल बाजार, (बुडशाह मोहल्ला) श्रीनगर, कश्मीर।
9953	समीना अमीन मोहम्मद. अमीन काजी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	359 16.10.03	गुलशन नगर, नवगाम, जिला बुडगाम।
9954	समीना गुलाम नबी शेख गुलाम नबी शेख	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2005	1240 10.03.05	नगीन बाग, करंक शिवम कालानी, सोपोर, जिला. बारामुल्ला।
9955	संजय दार ओमकारनाथ	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	509 16.10.03	वर्तमान में, मकान नम्बर 5, जलाब टिल्लो जम्मू।
9956	संजय गुंजू शिबाल लाल गुंजू	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	806 17.10.03	मोहल्ला. मालपोरा, श्रीनगर ए/पी, गुडूहा बनतलाब, जम्मू।

9957	संजय कुमार कौल एम एल कौल	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	810 07.12.03	मकान नम्बर. 26, लेन नम्बर.1, लक्ष्मी नगर मुठी, जम्मू।
9958	संजय कुमार पंडिता चमन लाल पंडिता	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	194 23.04.03	84, आदर्श नगर, बनतलाब, जम्मू।
9959	संजय कुमार पंडिता हृदेय नाथ पंडिता	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	602 25.07.03	701, सुभाष नगर, जम्मू।
9960	संजय रैना जे एन. रैना	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	512 16.10.03	सीरजागीर, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
9961	संजीव कुमार कौल राधा कृष्ण कौल	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	516 14.08.03	कचवा मुलन, बारामुल्ला, कश्मीर, ए/पी 442, गोगवीतीव, तोपशारखांजा, जम्मू
9962	सारीर अहमद जॉन निजामउददीन खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	843 17.12.03	अचाबल, सोपोर, जिला बारामुल्ला
9963	सरताज अहमद अब्दुल सरताज खान्दे	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	621 14.08.03	लोलन, मोनघाली, अनन्तनाग, कश्मीर।
9964	सरवन नाथ माया दास	कामिल - तिब्ब ओ10 जराहत आयु एवं युनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली 1928	23 23.10.71	द्वारा. आफताब क्लीनिक, पुच्छ, जम्मू।
9965	सतीश कुमार लास्सा काक रेना	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	544 23.06.03	बनतलाब, जम्मू।

9966	सैयद अली असगर शाह अली हैदर शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1999	940 25.12.03	गुरसाई, तहसील मंदार, जिला पूछ।
9967	सायका मुस्ताक मुस्ताक अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	797 17.03.03	शेखनी कालोनी, जिला. बारामुल्ला।
9968	सीमा मुस्ताफा गुलाम मुस्ताफाशाह	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2002	484 14.08.03	अमिदा कादल, नवशेरा, श्रीनगर।
9969	सीमा शाह अमन उल्लाह शाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	356 16.10.03	तरल पैन, जिला. पुलवामा, कश्मीर।
9970	सगफाक अहमद रेगू मोहम्मद शाबिर रेगू	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	454 09.07.03	मोहल्ला जलाल, साहिब, जिला. बारामुल्ला
9971	शाबाना गुंदरू गुलाम अहमद गुंदरू	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2002	447 02.09.03	जादीबल, खानयार, श्रीनगर।
9972	शाबाना खान आसिफ मोहम्मद. खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	706 28.05.03	गांव. ओनगाम, बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला।
9973	शाबिर अहमद अब्दुल गफ्फार	बी.यू.एम.एस. उस्मानिया वि० वि०, हैदराबाद 1998	1016 25.02.04	बाटापोरा, रजसोइन, कानिहामा, मगाम जिला. बुडगाम।
9974	शाबिर अहमद भट्ट मोहम्मद शाबिर भट्ट	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	533 22.07.03	गांव. हजिवारा, तहसील पाटन, जिला बारामुल्ला।

9975	शाबिर अहमद डार अब्दुल अहद डार	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	377 09.07.03	काजीपोरा, पुदुशेय, बान्दीपोरा, जिला बारामुल्ला।
9976	शाबिर अहमद डार गुलाम कादिर डार	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2003	744 30.07.03	गांव. शानोव, तहसील हण्डवारा, जिला. पुलवामा।
9977	शाबिर अहमद पारे गुलाम मोहम्मद पारे	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	704 28.05.03	हण्डीपोरा, जिला बारामुल्ला।
9978	शाबिर अहमद कुरैशी अब्दुल रशीद कुरैशी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	401 30.07.03	बाहराबाद, हाजन सोनवारी, बारामुल्ला कश्मीर।
9979	शाबिर हुसैन शाह मुनीर हुसैन शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1996	958 25.12.03	सलवाह, पूच्छ।
9980	शादी लाल पंडिता प्यारा लाल पंडिता	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1996	206 25.04.03	मकान नम्बा. 79, गोला पुल्ली, लेन नम्बर 4, शाम विहार, तालाबटिल्लो, जम्मू
9981	शाफाकत सलीम अहद सलीम तुरेय	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	972 01.01.04	न्यू कालोनी, शोपियान, जिला पुलवामा।
9982	शफी अहमद. शाह गुलाम. मोहिउद्दीन शाह	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गोड़ वि०. वि०, सागर 1995	553 23.06.03	संगम, तहसील बेजबेहरा, जिला अनन्तनाग।
9983	शाहीन शफी मोहम्मद शफी मीर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	836 12.12.03	न्यू कालोनी, बेजबेहरा, कश्मीर।

9984	शाहीना अख्तर लस्सा शहिख	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2002	612 01.08.03	के. काला , बाजबहेरा, जिला अनन्तनाग।
9985	शाहीना काजी मोहम्मद अली काजी	बी.यू.एम.एस. जमिया हमदद, दिल्ली 2003	167 08.04.03	बादामवारी, हवाल, श्रीनगर, कश्मीर।
9986	शाहीना शबनम मोहम्मद अशरफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2003	799 16.10.03	कथामा, जिला बुडगाम।
9987	शाही जाजन वनी गुलाम मोहम्मद वनी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि.,पुणे 1999	973 20.06.03	मोहल्ला ममखाली, सोपोर, बारामूला।
9988	शहिद हुसैन भट्ट गुलाम मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2001	934 25.12.03	खारवाराई, पोस्ट बजगाम, कुलगाम अनन्तनाग, कश्मीर।
9989	शाहिदा हसन गुलाम मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2001	450 25.06.03	गांव खारहराई, पोस्ट भूगाम, तहसील भूगाम, जिला अनन्तनाग।
9990	शकील अहमद लोन हसन लोन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराज अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	938 25.12.03	दरसीपोरा, बनीहाल, डोडा।
9991	शकील अहमद गुलाम अहमद रातेर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2002	631	चाकरू, तहसील और जिला, पुलवामा।
9992	शमसउददीन जलालदीन	कामिल -तिब्बिया-ओ जहांगीर आयु एवं युनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली 1939	121 08.02.72	नरपरिस्तान, फतेह कादल, श्रीनगर, कश्मीर।

9993	शामीम अहमद. शौतू गुलाम शोन्दू	बी.यू.एम.एस. एस.वी.वि०. वि०, तिरुपति 1994	783 17.09.03	मोहल्ला. चाईपन कोच, कै.के. मोहल्ला, श्रीनगर, वर्तमान, मकान नम्बर 337-38, बाग आई-मेहताब, कै.के. मोहल्ला, श्रीनगर, गांव. सोई. शीरमल, तहसील शोपियान, जिला पुलवामा।
9994	शामीम अहमद. भट्ट अली मोहम्मद. भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	419 31.07.03	
9995	शामीम अहमद राठेर गुलाम अहमद राठेर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	394 09.07.03	गांव. वाटरगम, सोपोर, कश्मीर।
9996	शान्ती स्वरूप कपाही भागत राम	हाजिक उल- हुक्मा तिब्बिया कालेज, लाहौर 1944	13 23.10.71	18, रेहारी एक्सचेंज रोड जम्मू।
9997	शरीफउददीन अब्दुल. अहमद. शाह	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1974	126 01.08.74	गांव. बुगाम., तहसील कड़गाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
9998	शाजिया मुजीब मुजीब अली खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2001	680 02.12.03	भगती शोरा, श्रीनगर कश्मीर।
9999	शाजिया मुख्तार मुख्तार अहमद वान्दे	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	653 16.10.03	वर्तमान गोरीपारा, संत नगर, श्रीनगर।
10000	शेख मोहम्मद गुलाम अहमद. शेख	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2000	517 22.03.03	सोंगराम, डूरू, जिला अनन्तनाग।
10001	शेख मोहम्मद अशरफ गुलाम मोहम्मद शेख	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2003	626 07.09.03	इकबालकालोनी, डीलगांव, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।

10002	शेख मुनी मजीद शेख अब्दुल मजीद	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1998	166 08.04.03	शरवनी कालोनी, खुजा बाग, बारामुल्ला। कश्मीर।
10003	शहनाज रसूल गुलाम रसूल खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1999	331 16.10.03	श्रीनाहर।
10004	शहनाज अल्ताफ पीर जादा अल्ताफ अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	1236 07.03.05	मोलवा मोहल्ला कादलवग, पमपोरा, जिला पुलवामा।
10005	शिवन लाल गंजू विश्वनाथ गंजू	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1973	113 28.01.73	माल्लापोरा, हब्बा कादल, श्रीनगर, कश्मीर।
10006	शिविना रसूल गुलाम रसूल सोफी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	694 25.06.03	बरेलंग, सोपोर, जिला बारामुल्ला।
10007	शौकत अहमद वनी गुलाम हसन वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2002	460 14.08.03	गांव. मनचोवा, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
10008	शौकत अहसान वागे मोहम्मद अहसान वाग	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	718 26.06.03	हरदू मंधा गुसी, पोओडीएच, पोरा, तहसील कुलगाम अनन्तनाग।
10009	शौकत अली अब्दुल गुलाम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1965	54 23.10.71	खु, श्रीनगर, कश्मीर।
10010	शौकत अली अली मोहम्मद भट्ट	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1999	583 29.09.03	बाबा राजा नीगम, सोपोर, बारामुल्ला।

10011	शौकत अली शाह अब्दुल नबी शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	788 18.09.03	नैना संगम, तहसील कुलगाम, जिला अनन्तनाग कश्मीर।
10012	शौकत अली अहमद मलिक अब्दुल रशीद मलिक	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	403 30.07.03	वाराणसी, सोपौर, जिला बरामुल्ला।
10013	सिमा अहमद गुलाम अहमद खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 1999	286 22.10.03	बड़शाह मोहल्ला, लाल बाजार, श्रीनगर।
10014	सिराजुददीन एच. सैफुद्दीन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	98 18.09.72	धोबी पोरा, गंधारबल, श्रीनगर कश्मीर।
10015	सोफी मेहबोबा गुलाम कादिर सोफी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	930 25.12.03	न्यू कालोनी सोपौर, जिला बरामुल्ला।
10016	सोफिया अहमद गुलाम अहमद नजर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	175 16.04.03	बिह बेहेरा, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
10017	सूस नाथ कौल बिशम्बर नाथ कौल	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1960	102 12.10.72	डादी कादल, टेकीपोर, श्रीनगर।
10018	सोशन आरा गुलाम हसन यातू	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	426 27.06.03	कादीपोरा, अनन्तनाग।
10019	सुगत हुसैन शुजा अब्दुल रशीद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	1054 30.06.03	सिंगपोरा कालन, तहसील और जिला बरामुल्ला।



10020	सुहेल अंजम पीरजादा बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2001	276 09.07.03	कैदी कादल, पोस्ट एस आर गंज, श्रीनगर।
10021	सुनील छार बंसी लाल छार	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1996	527 23.06.03	पालहालन, पाटन, जिला, बारामुल्ला, द्वारा मकान नम्बर. 53, पटोली चौक जम्मू।
10022	सुनील कौल तेज बहादुर कौल	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	203 25.04.03	137 एफ. जानीपोरा, जम्मू (ए/पी)
10023	सुनील कौल तेह. बहादुर	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1994	528 23.06.03	गांव. बांगर, चौधरा, जिला बुडगाम।
10024	सुनील कुमार महाराज कृष्ण	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	569 22.07.03	गांव. हाजीवारी, पाटन, कश्मीर वर्तमान में दीना नगर, जम्मू।
10025	सुरेश कुमार पंडिता माखन लाल पंडित	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1992	543 23.06.03	गांव. सिरौन, डंगरपोरा, पाटन, द्वारा 53, कालोनी बोहरी, जम्मू।
10026	सुरेश कुमार टिक् सूसनथ टिक्	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	542 23.06.03	गांव. रोहमा, तहसील सोपोर, जिला बारामुल्ला।
10027	सुरेश कुमार टिक् सोम नाथ टिक्	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1993	811 13.12.03	लेन नम्बर. 11, सूर्या विहार, बोहरी, जम्मू।
10028	सुरिन्दर कृष्णा पंडित महेश्वर नाथ पंडित	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1985	943 25.12.03	डी. 1/19, सेक्टर, दुर्गनगर, जम्मू।

10029	सुशील कुमार भट्ट ब्रिज नाथ भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	568 22.07.03	गांव. अदीना बीरवा, वर्तमान में गौधीनगर, जम्मू।
10030	सैयद अब्दुल हुसैन सैयद रशीद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	433 23.06.03	रजनीपोरा, पुलवामा।
10031	सैयद अबुल हसन सैयद अहमद शाह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2000	732 25.07.03	डाब वाकोरा, गनडेरबल, श्रीनगर।
10032	सैयद अल्ताफ हुसैन सैयद मोहम्मद अब्बास	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	745 01.08.03	वहाबपोरा, जिला. बुडगाम।
10033	सैयद आशिक हुसैन शाह सैयद फारुक अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1999	486 14.08.03	धोबी पोरा, गंधडरबल, श्रीनगर कश्मीर।
10034	सैयद बशात गुलाम जीलानी	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1999	366 16.10.03	बडूबाग, खानयार, श्रीनगर (कश्मीर)
10035	सैयद गुलाम, हैदर शाह अली हैदर शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1995	567 22.07.03	गांव. गुरसाई, तहसील मंधार, जिला पुंच।
10036	सैयद हैदर सैयद रसूल	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	195 05.07.72	घटटरगाम, तहसील चोधुसा, जिला बुडगाम कश्मीर।
10037	सैयद हुसैन शाह मुस्तफा शाह	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	782 17.10.03	चायरा, पोस्ट मगम, जिला बुडगाम।

10038	सैयद इरफान लतीफ अब्दुल लतीफ	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1995	672 01.08.03	लाल बाजार श्रीनगर, कश्मीर।
10039	सैयद मोहम्मद युसूफ सैयद मोहम्मद जफर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	305 16.10.03	गांव. ग्रैन्ड कालन, जिला बुडगाम।
10040	सैयद मुजफ्फर शाह सैयद रसूल शाह	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	693 14.08.03	मठीपोरा, पाटन, जिला बारामुल्ला।
10041	सैयद शमीम परवेज सैयद मोहम्मद मीर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	489 14.08.03	कुमनेल, तहसील हण्डवारा, जिला कुपवारा।
10042	सैयद ताहिर कादरी मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2002	235 08.07.03	गांव. कारी, तहसील पाटन, बारामुल्ला कश्मीर।
10043	सैयद तस्सदूक जीलानी महराजउददीन	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1999	337 23.06.03	रैतग, खनियांर श्रीनगर।
10044	सैयद तहसीन सैयद मोहम्मद सैयद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	615 07.09.03	गांव. कपरान, सोपियान, जिला पुलवामा।
10045	सैयद जहोरा रजवी सैयद हुसैन रजवी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1998	923 25.12.03	डब गनडरबल, श्रीनगर।
10046	सैयद मोहम्मद शफी मोहम्मद अभीन	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	80 23.10.71	दाना माजार साफाकादल, श्रीनगर कश्मीर।

10047	ताहिरा शारिफ शारिफउददीन शाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	174 16.04.03	उहौनाशाल, हण्डवारा, जिला कुपवारा, कश्मीर।
10048	ताहिया कुआरी गुलाम जीलानी कुआरी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2002	445 14.08.03	लाल बाजार, मैन स्टॉप, श्रीनगर।
10049	तेजाल्ली जुनूरुन गुलाम गुलाम, हसन मसरूर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	438 09.07.03	संग्राम, सोपोर।
10050	तमिना मुस्ताक मुस्ताक अहमद हारुन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2004	1034 17.05.04	शाजिपोरा, हेवन कालोनी, अनन्तनाग, कश्मीर।
10051	टंकौरा यासीन मोहम्मद यासीन बैग	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2001	444 22.10.03	देवी आंगन, हरिपर्वत, श्रीनगर।
10052	तनवीर अहमद नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2003	981 19.01.04	नीयर गर्ल हायर सेकेंडरी, स्कूल डोडा।
10053	तनवीर बहमद जरजर मोहम्मद इश्क जरजर	बी.यू.एम.एस. नागपुर वि० वि०, नागपुर 1998	678 02.12.03	ईदगाह रोड, डोडा सिटी, जिला डोडा।
10054	तनवीर बशीर बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	272 09.07.03	यासीन कालोनी, आराम पोरा, सेपोर, जिला बारामुल्ला।
10055	तनवीर फातिमा तारिक रहीम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	1017 25.02.04	मांजगॉव, हण्डवारा, जिला कुपवारा।

10056	तनवीर रियाज मकदूमी रियाज अहमद मकदूमी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	1234 22.02.05	डुंगीवचा, राफियाबाद, जिला, बारामुल्ला।
10057	तनवीरा युसूफ मोहम्मद युसूफ भट्ट	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2001	457 23.06.03	भगत, सोपौर, जिला बारामुल्ला।
10058	तकिदिस गुलजार गुलाम अली गुलजार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	743 01.08.03	हसनाबाद, रैनावारी, श्रीनगर।
10059	तारिक अहमद भट्ट गुलाम हसन भट्ट	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	817 14.12.03	शेरवनी कालोनी, खुजबाग, बारामुल्ला।
10060	तारिक अहमद जान अब्दुल अजीज जान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2000	519 07.09.03	अलोसा, तहसील बान्दीपोरा, जिला, बारामुल्ला।
10061	तारिक अहमद अब्दुल रशीद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1982	155 11.11.82	गांव, चिकालरा, पोस्ट मगम, जिला बारामूला, कश्मीर।
10062	तारिक अहमद एच. अब्दुल वाहिद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2000	355 16.10.03	गांव. खाजा इलिजीट सोपौर, जिला बारामुल्ला।
10063	तारिक अहमद कालू अब्दुल. रहमान कालू	बी.यू.एम.एस. डा. हसिसिंह गोड़ वि०. वि०, सागर 1995	299 29.05.03	सैयद सुल्तापुर सोपौर, जिला बारामुल्ला।
10064	तारिक हुसैन मोम्मिद रमजान अहंगर	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2001	558 22.07.03	गोव. डूल, किस्टवार, जिला डोडा।

10065	तारिक हुसैन भट्ट कादिर भट्ट	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	251 31.07.03	गांव. लीवर, तहसील पहलगाम, जिला अनन्तनाग, कश्मीर।
10066	तारिक राही ए. आर. राही	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1997	168 12.04.03	हादीपौरा, सोपौर, कश्मीर।
10067	तारिक रहीम मलिक अब्दुल रहीम मलिक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2001	265 22.07.03	गांव. मजगाम, तहसील हण्डवारा, जिला कुपवारा।
10068	तस्वीर फातिमा खादमहुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1996	545 23.06.03	गांव. गुस्सान, तहसील मनधार, जिला पूंछ।
10069	तेज कृष्णा भट्ट सूम नाथ भट्ट	बी.यू.एम.एस. कश्मीर वि.वि., श्रीनगर 1972	106 26.10.72	गांव. नगम, तहसील चौधुरा, जिला बुडगाम कश्मीर।
10070	तेजामुई मलिक गुलाम मलिक	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 2005	1267 16.05.05	मारवल, पम्पोरा, जिला पुनवामा
10071	तकहा नादीम मुनावरदीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	1224 14.01.05	थाथरी, जिला डोडा।
10072	उमर मजीद गुलाम रसूल गनई	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	453 30.07.03	गांव कोलहिना, तहसील करेली, जिला बारामुल्ला।
10073	विजय पंडित शाहवी पंडिता	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	193 23.04.03	167, सैक्टर 1, दुर्गनगर, बनतलाब, जम्मू।

10074	वाहिद उल-हसन गुलाम हसनमीर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2000	333 14.08.03	बुदशाहनगर, नातीपोरा, श्रीनगर
10075	यासिर एजाज शाह अजीज अहमद शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2001	422 14.08.03	राशि बाजार, अनन्तनाग, कश्मीर
10076	यासिर लतफ अब्दुल लतीफ शेख	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	790 24.09.03	गांव. भाल्ला, तहसील भादवाह, जिला डोडा।
10077	युसूफ सलीम अहद उल्लाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1999	950 25.12.03	न्यू कालोनी, न्यू रोड पुलवामा, जिला पुलवामा।
10078	जाहिद हुसैन गुलाम मोहिउद्दीन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2002	684 17.10.03	गोपालगोरा, कुलगाम, जिला अनन्तनाग
10079	जाहिदा नसीर नसिरुल्लाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	473 09.07.03	नोवपोरा, श्रीनगर।
10080	जाहूर अब्दुल डार गुलाम अहमद डार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	459 01.08.03	गांव रागम ईदगाह, श्रीनगर।
10081	जाहूर अहमद वन्दे अली मोहम्मद वन्दे	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	507 16.10.03	गुलशनबाद, सुमेल, पौन, अनन्तनाग।
10082	जहूर अहमद शाह गुलाम मोहम्मद शाह	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	503 14.08.03	नई बस्ती, खन्नाबल, जिला अनन्तनाग।

10083	जहूर अहमद खान अब्दुल खालिद खान	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2002	705 28.05.03	हिमाहेरना,संगम,जिला कुपवारा,
10084	जहूर अहमद खान सफ़फ़दार अली खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2000	719 27.06.03	गोपालपोरा, कालन पाटन जिला अनन्तनाग
10085	जहूर अहमद सोफी मोहम्मद अब्दुल सोफी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	344 16.03.03	गांव. ओनागम, बंदीपोरा, बारामुल्ला।
10086	जहूर हुसैन बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2002	630 27.06.03	मगम, कुलगाम, जिला अनन्तनाग।
10087	जहूर इकबाल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2003	622 23.10.03	गांव. मंजगाम, हण्डवारा, जिला कुपवारा।
10088	जाकिर हुसैन हाकीम शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1999	540 23.06.03	गांव. गोसाई,तहसील मनधेर, जिला पुच्छ।
10089	जाकिर हुसैन शमसुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि०. वि०, बंगलौर 1998	584 24.09.03	गांव. चन्द ,जिला डोडा।
10090	जाकिर हुसैन फाजुल हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.,कानपुर 2002	764 14.08.03	डाडासन बाला, तहसील थानामण्डी, जिला राजौरी
10091	जाकिर हुसैन शाह नूर हुसैन शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1998	541 23.06.03	गांव.गुसाई ,जहसील मनधेर, जिला पूच्छ



10092	जाकिर हुसैन शाह नूर हुसैन शाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 1998	1003 16.02.04	गुरसाई, तहसील मनघार, जिला पूछ
10093	जमीर अहमद खोटा अब्दुल गफफार खोटा	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2004	1029 07.04.04	मोमिनाबाद, आशाजीपोरा, जिला
10094	जरमीना मुनीर मुनीर हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2002	969 01.01.04	अनन्तनाग, कश्मीर । जेटी रोड़, खुजाबाग, बाराबाग,
10095	जीनक रूबिना शारिफदीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि. कानपुर 2002	731 22.07.03	टाऊन हण्डवारा, जिला कुपवारा
10096	जिलहुमे नजीर अहमद वनी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, दिल्ली 2001	360 24.11.03	हाजी बाग, न्यू कालोनी, बास्सापोरा, श्रीनगर।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

सं. 20-5/2008 -के.पं. (हरियाणा) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 ( 1970 का 48 ) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो हरियाणा राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पत्रिका में हरियाणा राज्य रजिस्टर में 1<sup>st</sup> अप्रैल 2005 से 31<sup>st</sup> मार्च 2007 तक क्रम संख्या 902382 आयुर्वेद एवं 90059 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 902484 आयुर्वेद एवं 90902 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 1<sup>st</sup> अप्रैल 2005 से 31<sup>st</sup> मार्च 2007 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (हरियाणा) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

(प्रेमराज शर्मा )  
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका  
हरियाणा  
भाग I आयुर्वेद

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
102342	अभिषेक भारद्वाज विश्व कीर्ति भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21673 17.02.06	276, सेक्टर 9, अम्बाला शहर ।
102343	अभिषेक शर्मा नरेश चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21588 08.04.05	म.नं. 41/7, माडल टाउन, बहादुरगढ़, जिला झज्जर ।
102344	अछरू राम बंसल नरथू राम बंसल	वैद्य विशारद नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1971	19021 18.09.90	11-सी, हीरा नगर, पटियाला ।
102345	आदेश कुमार सुन्दर लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21591 25.04.05	सामने पुलिस थाने गली, खरखोद, जिला सोनीपत ।
102346	अजय कुमार जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21718 14.03.06	सराय अग्रवाल, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102347	अजय कुमार पांडे अख्तावर पांडे	बी.ए.एम.एस. स.स.वि.वि., वाराणसी 2004	22000 20.10.06	एस.सी.ओ. 72/73, सेक्टर-20-सी, चंडीगढ़ ।
102348	अमन सिंगला गणेश दत्त सिंगला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21747 28.03.06	सिंगला नर्सिंग होम, गुहला रोड, चीका कैथल ।
102349	अमित अरोड़ा रत्न लाल अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21642 03.11.05	807 बी/23, लक्ष्मी गार्डन, गुडगाँव ।
102350	अमित बत्रा सुभाष चन्द्र बत्रा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21729 20.03.06	बत्रा अस्पताल चौक, जीन्द ।
102351	अमित गुप्ता सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2003	21644 11.11.05	म.नं. 2555, एच.बी.सी., फरीदाबाद ।
102352	अमित कुमार विनोद कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21636 14.10.05	हरगोबिन्दपुरा कालोनी, रेलवे रोड बरारा, जिला अम्बाला ।

102353	अमित कुमार द्विवेदी बाबू लाल द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वाल्हिर 2004	21987 12.10.06	द्वारा अमन सिंह शास्त्री, 1116/37, फरीदाबाद ।
102354	अमित नाकरा के.जी. नाकरा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2000	21837 01.06.06	म.नं. 1974/7, करनाल ।
102355	अमित सांगवान धर्मपाल सांगवान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2001	21765 12.04.06	जनता क्लिनिक, निकट रेलवे स्टेशन, अतेली मण्डी, जिला महेन्द्रगढ़ ।
102356	अमित शर्मा ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22093 23.03.07	878/8, कल्याण नगर, सोनीपत ।
102357	अनिता कुमारी पत्नी विपिन कुमार	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21865 05.07.06	444, सुभाष कालोनी, करनाल ।
102358	अनिता मोड राम करम सिंह मोड	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22076 23.03.07	म.नं. 611/29, तिलक नगर, रोहतक ।
102359	अनिता सपरा आर.डी. वाधवा	बी.ए.एम.एस. गुरुनानक देव वि.वि., अमृतसर 1981	21937 24.08.06	नोहर रोड, एलनाबाद, सिरसा ।
102360	अंजलि फकीर चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21714 09.03.06	80/12, नामौन्द, हिसार ।
102361	अंजलि राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1998	21886 17.07.06	803, सैक्टर-14, रोहतक ।
102362	अंजू अनिल कुमार स्याल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	21938 24.08.06	म.नं. 2238, सैक्टर-8, फरीदाबाद ।
102363	अंजू बाला राम मेहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21998 03.05.05	म.नं. 2/98, आर्य नगर, सोनीपत ।
102364	अंजू बाला पत्नी अनु कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21626 25.08.05	द्वारा श्री सीता राम फोरसैन, ग्राम व पो.आ. बापो ।
102365	अंजू बाला कृष्ण कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21838 02.06.06	म.नं. 1117/1, दयानन्द कालोनी, गुडगाँव ।

102366	अंकिता बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुलक्षेत्र वि.वि., कुलक्षेत्र 2005	म.नं. 95/27, जवाहर नगर वाली गली, सोनीपत ।	22049 15.03.07
102367	अंकिता सिंह रामपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुलक्षेत्र वि.वि., कुलक्षेत्र 2005	861, बुरिया गेट, जगाधरी, यमुना नगर ।	22042 14.03.07
102368	अनु शर्मा पवन कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	578, सैक्टर-48, चंडीगढ़ ।	22009 10.11.06
102369	अनुज कुमार रमेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	आर.के. विला, चार्ड नं.10, मनु मार्किट, जुलाना मण्डी, जिला जीन्द ।	21922 04.08.06
102370	अनुजा एल.एल. बुन्देला	बी.ए.एम.एस. कुलक्षेत्र वि.वि., कुलक्षेत्र 2004	म.नं. 1949, सैक्टर-13, भिवानी ।	21830 11.05.06
102371	अनुराग कैलाश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	म.नं. 1818, न्यू बस्ती, रेवाड़ी ।	21594 28.04.05
102372	अनुराग गौतम हरि कुमार गौतम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	53, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, बबयाल रोड, अम्बाला छावनी ।	21677 20.02.06
102373	अर्चना गर्ग रोजिल गर्ग	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2000	म.नं. 292, सैक्टर-4, एम.डी.सी. पंचकूला ।	21888 17.07.06
102374	आरती गुप्ता सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2003	241, सैक्टर-25, पंचकूला ।	21912 21.07.06
102375	आरती सिंगला रामदास	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	म.नं. 614, सैक्टर-17, पंचकूला ।	21893 17.07.06
102376	अरुण कुमार आर.बी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2004	भिवानी मेमोरियल अस्पताल, महेन्द्रगढ़ ।	22032 09.03.07
102377	अरविन्द कुमार दुबे अनिरुद्ध दुबे	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहू महाराज वि.वि., कानपुर 2004	साहिब एडवर्टाइजर्स, निकट मिनाली इंडस्ट्रीज, मैन जोरासी रोड, समालखा ।	22026 13.02.07
102378	अरविन्द डांगी अलख प्रकाश डांगी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2001	बर्सी गेट, हांसी हिसार ।	21597 05.05.05

102379	आशीष परमानन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22097 23.03.07	म.नं. 431/17, सुभाष नगर, झज्जर ।
102380	आशीष अत्री तरसेम लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21890 17.07.06	म.नं. 57, सेक्टर -14, एच.एस.ए.एम.बी. कालोनी, पंचकुला ।
102381	आशीष मिश्रा शिवकान्त मिश्रा	बी.ए.एम.एस. स.स.वि.वि., वाराणसी 2004	21998 20.10.06	एस.सी.ओ. 72/73, सेक्टर-20-सी, चंडीगढ़ ।
102382	अशोक कुमार राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21834 19.05.06	ग्राम व पो.आ. भामनेव, जिला झज्जर ।
102383	अशोक कुमार सांगवान ओम प्रकाश सांगवान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21690 21.02.06	वार्ड नं. 2, किसान चौक, छोटूराम नगर, चरखी दादरी, जिला भिवानी ।
102384	अश्विनी गोयत ईश्वर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21640 27.10.05	ग्राम किशनगढ़, पो.आ. मेहम, जिला रोहतक ।
102385	अश्विनी खेतान श्री कृष्ण खेतान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21666 07.02.06	खेतान क्लीनिक, झज्जर रोड, चरखी दादरी, जिला भिवानी ।
102386	अश्विनी कुमार सुरेश सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21777 27.04.06	ग्राम व पो.आ. सामवना, जिला रोहतक ।
102387	अश्विनी कुमार सत्यपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22058 15.03.07	जगदीश कालोनी, हांसी, हिसार ।
102388	अतुल वर्मा एस.पी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	21705 08.03.06	टाईप-11/27, एम.डी.यू. कैम्पस, रोहतक ।
102389	अतुलेश कुमार पूरन चन्द	बी.ए.एम.एस. पंजाब राज्य आयु एवं यूनानी वि.प.संकाय, चंडीगढ़ 1989	22027 13.02.07	सी-ब्लॉक, फ्लैट नं.306, रेल विवर, एम.डी.सी. सेक्टर-04, पंचकुला ।
102390	बबिता किशन चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21764 12.04.06	म.नं. 1282, गली नं.10, हाफेड रोड, प्रेम नगर, रोहतक ।
102391	बबिता खर्ब राम कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	21870 12.07.06	म.नं. ए-543/19, निकट भाई जी होटल न्यू एडवोकेट कालोनी, हांसी हिसार ।

102392	बलकार सिंह रामफल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22072 23.03.07	ग्राम वजीरपुर तिताना, पो.आ. दिडवारी, पानीपत ।
102393	बलराम सिंह ईश्वर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21721 14.03.06	ग्राम व पो.आ. महमूदपुर, जिला सोनीपत ।
102394	बलवन्त सिंह भाग चन्द	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	22021 04.01.07	शोप नं. 149, ओटो मार्किट, हिसार ।
102395	बन्दना बी.आर. जोशी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21657 19.01.06	म.नं. 1359, सैक्टर — 15, पंचकूला ।
102396	बरखा वत्स अजय वत्स	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21810 03.05.06	द्वारा नवल किशोर अस्पताल, बेरी जिला झज्जर ।
102397	भजन लाल धनंभत सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21858 28.06.06	ग्राम व पो.आ. मोतिया कलौ, जिला रेवाड़ी ।
102398	भावेश कुमार रामेश्वर दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21637 14.10.05	ग्राम रामलयास, दी दादरी, भिवानी ।
102399	भावेश कुमार वर्मा कमल कुमार वर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21605 20.05.05	501, बार की गली, जगाधरी, यमुना नगर ।
102400	भावना जीतराम खोखर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21749 04.04.06	336, सामने पावर हाउस, निकट ओ.बी.सी. बैंक माडल टाउन, रोहतक ।
102401	भावना महाजन श्याम लाल	बी.ए.एम.एस. गुरुनानक देव वि.वि., अमृतसर 1992	21880 14.07.06	50, देवी मूर्ति कालोनी, पानीपत ।
102402	भूपेन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21638 20.10.05	1088, परवतिया कालोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद ।
102403	भूपेन्द्र सिंह ओमल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22063 23.03.07	ग्राम व पो.आ. रानिला, जिला भिवानी ।
102404	बिरेन्द्र जीत कौर जितेन्द्र सिंह दूर	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21616 14.07.05	निकट न्यू बस स्टैण्ड, भूना, फरीदाबाद ।

102405	ब्रिजेश त्रिवेदी बी.डी. त्रिवेदी	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2002	21915 21.07.06	शोप नं. 568, अपर बाजार, शिमला रोड, कालका, पंचकूला ।
102406	चन्दर कान्त मुकेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21621 27.07.05	एफ.सी.ए. 737-ए, भीम सेन कालोनी, बी.एल.बी. फरीदाबाद ।
102407	चारू शीला चावला हरिश चन्द्र चावला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21704 06.03.06	नन्द अस्पताल, सामने कृष्णा फाउण्ड्री, नरायणगढ़ रोड, अम्बाला शहर ।
102408	डेजी प्रिंजा स्वराज प्रिंजा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2000	21933 11.08.06	274, निकट दुर्गा स्वीट्स, जान्डी अम्बाला शहर ।
102409	दलीप कुमार मिश्रा भृगुनाथ मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि. मुजफ्फरपुर 2004	21985 11.10.06	हाऊस नं. 385, सैक्टर-2, रोहतक ।
102410	दीपा जैन पत्नी-विक्रम जैन	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2003	21910 18.07.06	द्वारा शिवा सीमेंट स्टोर, निकट न्यू सब्जी मण्डी, कैथल ।
102411	दीपक जय भगवान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	21876 12.07.06	1501/21, प्रेम चौक, रोहतक ।
102412	दीपक बंसल सुनिन्द्र कुमार बंसल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21711 08.03.06	मेवा मोहल्ला, मुस्तफाबाद जिला यमुना नगर ।
102413	दीपक भाटिया सीताराम भाटिया	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22082 26.03.07	सी-11-1429, हनुमान गेट, जगाधरी, यमुना नगर ।
102414	दीपक नन्दलाल धर्मवीर सिंह नन्दलाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21641 27.10.95	245/29, राम गोपाल कालोनी, सोनीपत रोड, रोहतक ।
102415	दीप्ति बैस सोहन लाल बैस	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21896 17.07.06	म.नं. 1187, सैक्टर-04, पंचकूला ।
102416	दीप्ति गोयल जतिन्द्र कुमार गोयल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21780 02.05.06	म.नं. 442/9, शिवपुरी, गुड़गाँव ।
102417	धर्मपाल जसवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21596 02.05.05	ग्राम व पो.आ. रहारा, तहसील आसस करनाल ।



102418	धर्मवीर सिंह जयपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21719 14.03.06	ग्राम घुसकानी, पो.आ. तिगराना, जिला भिवानी ।
102419	धर्मेन्द्र कौशल कर्ताराम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21867 11.07.06	स्ट्रीट लाल जी निकट पंजाब बस स्टैंड, खाबवाली सिरसा ।
102420	धर्मेन्द्र सिंह दनखर महिपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	21595 02.05.05	ग्राम व पो.आ. छीतरौली, महेन्द्रगढ़ ।
102421	धीरज चावला ब्रज मोहन चावला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22061 15.03.07	म.नं. 164, रामपुरा कालोनी, यमुना नगर ।
102422	धीरज सेनी ओम प्रकाश सेनी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21841 02.06.06	372/16, गली हरि किशन वकील गली, बड़ौदा रोड, काठ मण्डी, गोहाना ।
102423	धीरज शर्मा यश अत्री	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2002	21916 21.07.06	कुमार क्लीनिक, भिवानी रोड, जीन्द ।
102424	डिमल मनोहर लाल सिंगला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21693 21.02.06	168/11, मार्केट कमिटी वाली गली, नाईवाना, जीन्द ।
102425	डिमल चौधरी विनय चौधरी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2002	21980 22.09.06	म.नं. 136, सैक्टर-11, पार्ट ए- सामने डा. जी.सी. गुप्ता अस्पताल, पानीपत ।
102426	दीवान राम सरूप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	21808 03.05.06	म.नं.108, महेश नगर, कैमरी रोड, हिसार ।
102427	एकता गर्ग सौरभ	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21963 04.09.06	42, शादी राम बिल्डिंग, स्टेट बैंक के पीछे, यमुना नगर ।
102428	एकता सेनी दीपक राज	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21709 09.03.06	म.नं. 1460, अर्बन इस्टेट, जीन्द ।
102429	गंजा विष्णु चौधरी अन्ना राम	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	21981 06.10.06	द्वारा अशोक कुमार भट्टी नारनौल महेन्द्रगढ़ ।
102430	गौरव प्रेम मेहता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21758 07.04.06	मेहता अस्पताल, मैन रोड, बरवाला, हिसार ।

102431	गौरव बत्रा देनेन्द्र बत्रा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21741 24.03.06	ए/820, सदर बाजार, करनाल ।
102432	गौरव गौधी ओ.पी. गौधी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21802 03.05.06	893/13, न्यू ब्रह्म कालोनी, पुराना डी.सी. रोड, सोनीपत ।
102433	गौरव मोहन तोखी एम.एल. तोखी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21900 17.07.06	म.नं. 281, सैक्टर-10, पंचकूला ।
102434	गौरव सिंगला कृष्ण कुमार सिंगला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22064 23.03.07	म.नं. 08, माडल टाउन, पड़ोवा, कुरुक्षेत्र ।
102435	गौतम नान अंतर सिंह मान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	21775 27.04.06	म.नं. 55, ग्राम व पो.आ. इशहेरी बहादुरगढ़ जिला झज्जर ।
102436	गीतिका नरोत्तम कुमार	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2002	21955 28.08.06	सुशील कुमार अग्रवाल, 5, माडल टाउन अम्बाला शहर ।
102437	गीतिका अरोड़ा के.एल. अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21590 25.04.05	108/8, शिवाजी कालोनी, रोहतक ।
102438	गुरमीत कौर सिदाना सुखविन्द्र	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	21853 16.06.06	सतनाम सिंह, लडवा रोड, बबैन, कुरुक्षेत्र ।
102439	गुरप्रीत पाल सिंह मजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21600 05.05.05	गुरू नानक अस्पताल, पुराना बस स्टैंड रानिया जिला सिरसा ।
102440	गुरू शरन पाल गौरी शंकर पाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	21992 18.10.06	नन्द लाल, 234-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़ ।
102441	गुरविन्द्र कौर अमरजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21974 21.09.06	म.नं. 694, सैक्टर-8, अम्बाला शहर ।
102442	हरि ओम सतबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22095 23.03.07	ग्राम व पो.आ. मतिन्दु, सोनीपत ।
102443	हरिश कुमार शर्मा सोम दत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21692 21.02.06	चौक मोहल्ला, महेन्द्रगढ़ ।

102444	हरकिरण कौर कौमल प्रीत सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2004	21647 22.11.05	म.नं.33, लक्ष्मी गार्डन, निकट आई.टी.आई. यमुना नगर ।
102445	हरलीन कौर जसपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2003	21925 07.08.06	म.नं. 3254, सैक्टर 27-डी, चंडीगढ़ ।
102446	हेमन्त कुमार लाल चन्द	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2005	22008 10.11.06	1689, सैक्टर-16, फरीदाबाद ।
102447	हितेन्द्र वशिष्ठ रामदिया वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1993	21935 24.08.06	म.नं. 7/38, गली नं. 2, माडल टाउन, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102448	इला गौयल पुनीत गौयल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2003	21582 04.04.05	1790, सैक्टर-16, फरीदाबाद ।
102449	इन्दु गुप्ता जनिद्र कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22030 01.03.07	385/2, रामबीर सिंह कालोनी, जीन्द ।
102450	ईशा ठकराल आत्म प्रकाश ठकराल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	21782 02.05.06	854/17, गांधी नगर, हांसी हिसार ।
102451	जगदीश प्रसाद शिव चन्द	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2002	21930 11.08.06	जी-303, रेल विहार, सैक्टर-04, एम.डी.सी. पंचकूला ।
102452	जय भगवान जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22029 27.02.07	बुध खेरा गेट, उकलाना मण्डी, हिसार ।
102453	जय दीप ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21671 09.02.06	दीप नर्सिंग होम, सामने तनेजा डेयरी रानिया रोड, सिरसा ।
102454	जय प्रकाश कल्याण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21625 04.08.05	ग्राम व पो.आ. तिगाँव, फरीदाबाद ।
102455	जय प्रकाश वर्मा धारा सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1981	21715 09.03.06	द्वारा प्रेमचन्द वर्मा, गली नं. 02-के.डी. नगर, गनौर मण्डी, सोनीपत ।
102456	जिम्मी विजय कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22050 15.03.07	425/7, माडल टाउन, नरवाना, जीन्द ।

102457	जितेन्द्र कुमार राजपाल सुहाग	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21687 21.02.06	सिविल लाईन, आर्य नगर, सामने कैनाल सेक्ट हाऊस, झज्जर।
102458	जितेन्द्र कुमार मौर्य राम सूरत मौर्य	बी.ए.एम.एस. स.स.वि.वि., वाराणसी 2003	22002 24.10.06	म.नं. बी-4078, रिफाईनरी टाउनशिप, दाडियन्ड, जिला रायचूर।
102459	ज्योति बाला किशोरी लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21792 02.05.06	खुराना भवन, न्यू जवाहर नगर, मण्डी आदमपुर, हिसार।
102460	ज्योति चौधरी राजिन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	21960 04.09.06	डी.बी. 36, अशका कालोनी, करनाल।
102461	ज्योति मेहता फतेह चन्द मेहता	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2004	21954 24.08.06	प्लॉट नं. 761, वार्ड नं.3, हिसार रोड, तोशाम, जिला भिवानी।
102462	ज्योति सिहाग जगें राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21667 07.02.06	ग्राम व पो. आ. हरसोला, कैथल।
102463	ज्योतिरादित्य एस.सी. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21898 17.07.06	एस.सी.ओ. 06, सेक्टर-16, पंचकूला।
102464	ज्योत्सना राठी एच.सी. राठी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2000	22005 07.11.06	930, सेक्टर-1, रोहतक।
102465	कमल कुमार गुप्ता राजकुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	21863 05.07.06	758/38, जनता कालोनी रोहतक।
102466	कमलेश डिलोन महावीर प्रसाद डिलोन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22086 26.03.05	1186/30, छोटू राम कालोनी, कन्हेली रोड, रोहतक।
102467	कमलेश कुमार पांडे महेन्द्र नारायण पांडे	बी.ए.एम.एस. स.स.वि.वि., वाराणसी 2003	21996 20.10.06	एस.सी.ओ. नं.72-73, सेक्टर 20, चंडीगढ़।
102468	कंवल प्रीत विक जगतार सिंह विक	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21793 02.05.06	किसन राईस मिल, ताराओरी, करनाल।
102469	कपिल विजय कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22060 15.03.07	लच्छी राम विजय कुमार, अनाज मण्डी चरखी दादरी, भिवानी।

102470	कपिल देव बंसल सतीश कुमार बंसल	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	21968 07.09.06	108/6, सेक्टर-13, कुरुक्षेत्र ।
102471	करुणा सूरजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21737 23.03.06	2110, सेक्टर 04, गुडगाँव ।
102472	कौशल कुमार उमराव सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21611 30.06.05	ग्राम व पो.आ. वजीराबाद, जिला गुडगाँव ।
102473	कविता आर्य ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21750 04.04.06	1570/31, छोदू राम कालोनी, सोनीपत ।
102474	कविता गोयत जयपान सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21707 08.03.06	ग्राम किशनगढ़, पो.आ. मेहम, जिला रोहतक ।
102475	कविता गुलानी संजीव	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	21926 07.08.06	2-एच.बी.1, राम नगर जगाधरी गेट, अम्बाला शहर ।
102476	कविता रानी राम कुमार खर्ब	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2004	21726 20.03.06	म.नं. 711/18, वकील कालोनी, हांसी जिला हिसार ।
102477	कविता सहगल अमित सहगल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21857 26.06.06	यू. 46/27, डी.एल.एफ. फेस-III, सोनिया फिजियोथेरेपी क्लीनिक, गुडगाँव ।
102478	कविता सिवाच कृष्णा सिवाच	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22044 14.03.07	2841, माडल टाउन, आस्था काटेज, भूना फतेहाबाद ।
102479	किरण दीप एस.मोनिन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2002	21839 02.06.06	ग्राम व पो.आ. पंजोखरा साहिब, निकट कैना बँक, अम्बाला शहर ।
102480	किरणजीत कौर यादविन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	21778 01.05.06	ग्राम व पो.आ. चौटाला, जिला सिरसा ।
102481	किरण कौर ओम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21742 28.03.06	56, जमैली कालोनी, करनाल ।
102482	किरणपाल सिंह बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21701 06.03.06	1885/83, रणजीत नगर, अम्बाला शहर ।

102483	कोकिला मेधा रामेश्वर दयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22097 26.03.07	प्लॉट नं. 60, सज्जन कालोनी, झज्जर रोड, रेवाड़ी ।
102484	कोमल कंकरण अशोक रांगा	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1997	21982 11.10.06	ग्राम व पो.आ. धामर रोहतक ।
102485	कोमल प्रकाश ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22046 15.03.07	22. डिफेंस कालोनी, हिसार ।
102486	कृष्ण कान्त चन्द किरण त्यागी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22080 26.03.07	52. भूदत्त कालोनी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद ।
102487	कृष्ण दहिया मेजर आई.एस. दहिया	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2002	21668 07.02.06	309, गौधी नगर, कमल ।
102488	कृष्ण कुमार बाबू राम राठौर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहू महाराज वि.वि., कानपुर 2000	22025 13.02.07	म.नं. 774, सैक्टर-07, पंचकूला ।
102489	कुलदीप जयपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	21948 24.08.06	257, सैक्टर 16-ए, फरीदाबाद ।
102490	कुलदीप शर्मा रविन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	22094 23.03.07	बृजवासी कालोनी, निकट राजिन्द्र क्लीनिक, भिवानी ।
102491	कुलदीप सिंह मनफूल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21806 03.05.06	ग्राम बहोरी अकबरपुर, पो.आ. उकलाना हिसार ।
102492	ललित कुमार रोहतास कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21776 27.04.06	कोठी नं.2.33 केवी सब स्टेशन, पावर हाउस कालोनी, माडल टाउन, रोहतक ।
102493	ललित मोहन भागीरथ प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1997	21995 18.10.06	ग्राम व पो.आ. नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ़ ।
102494	लतिका अकाश दीप बावा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंस, फरीदकोट 2005	22010 10.11.06	213, सैक्टर 10, पंचकूला ।
102495	लतिका मान गौतम मान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक भारतीय 2004	21774 27.04.03	कोठी नं.2.33 केवी सब स्टेशन, पावर हाउस कालोनी, माडल टाउन, रोहतक ।

102496	लतिका मारवाह शिवलाल मारवाह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21730 20.03.06	जीएच-51, प्लैट नं. 501, सैक्टर 20, पंचकूला ।
102497	लीनू पुरी मोहिन्द्र पुरी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21953 24.08.06	म.नं. 1007, सैक्टर 12-ए, पंचकूला ।
102498	माधवी यादव शमशेर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21751 04.04.06	4118, डिफेंस कालोनी, जीन्द ।
102499	ममता राम कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22070 23.03.07	487/15, जतवारा, बहादुरगढ़ झज्जर ।
102500	ममता मित्तल सूरतभान मित्तल	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21969 07.09.06	एससीएफ नं. सैक्टर 27, डी चंडीगढ़ ।
102501	मन्दीप कश्यप मदन लाल कश्यप	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21789 19.04.06	1080, सैक्टर 05, यूई, कुल्लूखेत्र ।
102502	मांगे राम रूपचन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22098 23.03.07	ग्राम व पो.आ. सतनाली, महेन्द्रगढ़ ।
102503	मनिन्द्र पाल कौर स्वर्ण सिंह	बी.ए.एम.एस. कुल्लूखेत्र वि.वि., कुल्लूखेत्र 2005	22043 14.03.07	160, हमिदा कालोनी, यमुना नगर ।
102504	मनीष बंसल राममज बंसल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21761 12.04.06	1282, गली नं. 10/एल, हफेड रोड, प्रेम नगर, रोहतक ।
102505	मनीष शर्मा नरिन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21675 20.02.06	3123/19, सती कालोनी, निकट अहिर कालेज, रेवाड़ी ।
102506	मनीष शर्मा देवराज शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21748 03.04.06	1426, सैक्टर 15, सोनीपत ।
102507	मनीष शर्मा बी.एस. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	21887 17.07.06	ग्राम व पो.आ. छारा, झज्जर ।
102508	मनीषा धीरज सैनी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21835 19.05.06	159, डब्ल्यू नं. पावर हाउस, गोहाना, सोनीपत ।

102509	मनीषा राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2003	21975 22.09.06	ग्राम व पो.आ. जसौर खेरी, झज्जर ।
102510	मनीषा गुप्ता संदीप गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	21943 24.08.06	564, सैक्टर 13, हुडा, कुरुक्षेत्र ।
102511	मंजीत कौर रविन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21909 18.07.06	एयरपोर्ट के पीछे, आथेरिटी आफिस लोहारू रोड, दादरी, जिला भिवानी ।
102512	मंजीत सिंह अजमेर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21971 20.09.06	149, सैक्टर 10, यूई, अम्याला शहर ।
102513	मंजू राजबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21791 02.05.06	ग्राम व पो.आ. भाममेवम, जिला झज्जर ।
102514	मंजू गुप्ता मधुसूदन गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1987	21882 17.07.06	86-एल, माडल टाउन, रोहतक ।
102515	मंजू कौशल नन्दलाल चावला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1989	21868 11.07.06	181, शास्त्री कालोनी, यमुना नगर ।
102516	मंजूला उप्पल शाम उप्पल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21763 12.04.06	68, सैक्टर-4, गुडगाँव ।
102517	मंजूषा खुराना संजीव कुमार खुराना	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1990	21928 10.08.06	7ई, दुगल कालोनी, करनाल ।
102518	मनोज कुमार चन्द्रभान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21688 21.02.06	109, विकास नगर, भिवानी ।
102519	मनोज कुमार शोपत राम	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	21746 28.03.06	ग्राम व पो.आ. अबूब शहर, सिरसा ।
102520	मनोज कुमार आनन्द राम	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	21949 24.08.06	ग्राम व पो.आ. करौठा व रोहतक ।
102521	मनोज कुमार भारद्वाज उमा शंकर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21773 27.04.06	कोठी नं.2.33 केवी सब स्टेशन, पावर हाउस कालोनी, माडल टाउन, रोहतक ।



102522	मनोज पवार जय प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22040 14.03.07	1585, सैक्टर-7, कुरुक्षेत्र ।
102523	मनोज विरमानी हरिचन्द विरमानी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21654 03.01.06	ए-128/एल, न्यू कालोनी, पलवल, फरीदाबाद ।
102524	मनोरमा शर्मा अश्विनी शर्मा	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि. कोल्हापुर 1998	21964 04.09.06	शर्मा अस्पताल, सफीदोन रोड, असम, कर्नाल ।
102525	मानसी नागपाल सुभाष नागपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21752 04.04.06	556/7, सुभाष नगर, घोबी घाट के पीछे, गुड़गांव ।
102526	मीनाक्षी शर्मा कृष्णदेव शर्मा	बी.ए.एम.एस. हि.प्र. वि.वि., शिमला 2004	21957 29.08.06	म.नं. 2145, सैक्टर-42, सी- चंडीगढ़ ।
102527	मीनू अनिल पायल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21994 18.10.06	85, बी. बसेलवा कालोनी, गली नं.03, फरीदाबाद ।
102528	मीनाक्षी राजपाल विकास	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21772 14.03.06	14/296, दयानन्द नगर, न्यू लिटल अंगेल स्कूल, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102529	मीनाक्षी बलविन्दर कुमार	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21734 23.03.06	54/2, सुभाष नगर, निकट पुलिस लाईन, मणि माजरा, चंडीगढ़ ।
102530	मीनाक्षी शर्मा दलीप चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22050 15.03.07	म.नं. 1267/15, मोहन नगर, लायलपुर वस्ती, कुरुक्षेत्र ।
102531	मीनाक्षी जैन चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21622 27.07.05	एफसीए-737-ए, भीमसेन कालोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद ।
102532	मिस मनीषा विनोद कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21894 17.07.06	1187/ए, सैक्टर-04, पंचकूला ।
102533	मिस निधि शमलाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21608 23.06.05	77-ई, प्रोफेसर कालोनी, यमुना नगर ।
102534	मोहनदीप कौर कुलविन्दर सिंह चहल	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21988 16.02.06	599, सैक्टर-38, वेस्ट, डी.एम. कालोनी, चंडीगढ़ ।

102535	मोनिका दयाल सिंह मलिक	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21785 02.05.06	584, सैक्टर-15-ए, हिसार ।
102536	मोनिका रविन्द्र	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21852 16.06.06	ग्राम झांवरी, तहसील तोशाम, भिवानी ।
102537	मोनिका जसवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	21945 24.08.06	101, फ्रैन्ड्स कालोनी, एम. डाबवाली, सिरसा ।
102538	मोनिका अलियास इशा गर्ग गगन दीप गर्ग	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	21827 10.05.06	कल्याणी नर्सिंग होम, रटिया रोड, तोहाना, फतेहाबाद ।
102539	मोनिका चौहान आर.एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21634 20.09.05	1601, सैक्टर 17, जगाधरी, यमुना नगर ।
102540	मोनिका गर्ग उमेश गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21788 02.05.06	437/7, आदर्श नगर, न्यू कालोनी, कुरुक्षेत्र ।
102541	मोनिका गिल धरम सिंह गिल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21844 02.06.06	म.नं. 1989, अर्बन इस्टेट, बी-ब्लाक, जीन्द ।
102542	मोनिका गिरधर हेमन्त गिरधर	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1997	21907 18.07.06	178, एडवोकेट एन्कलेव, सैक्टर 49, ए, चंडीगढ़ ।
102543	मोनिका गुलिया इन्द्रजीत गुलिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21883 17.07.06	14, सुगर मिल्स कैम्पस, रोहतक ।
102544	मोनिका शर्मा मनोज शर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1999	21942 24.08.06	188-ए, न्यू कालोनी, गुडगांव ।
102545	मोनिका त्यागी रविकान्त त्यागी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21627 30.08.05	584, सैक्टर 11, पंचकूला ।
102546	मोनिका यादव सुनेर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21845 02.06.06	ग्राम व पो.आ. खटोद, महेन्द्रगढ़ ।
102547	मोनू यादव धर्मपाल यादव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22052 15.03.07	1527, अर्बन इस्टेट, जीन्द

102548	मृडू गुप्ता एस.के. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	614, सैक्टर-17, पंचकुला ।	21897 17.07.06
102549	मृदुला डगर राजेन्द्र सिंह डगर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	1108/1, दयानन्द कालोनी, गुड़गांव ।	21843 02.06.06
102550	मुकेश कुमारी रत्न सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	ग्राम दालनवास, सैलंगा, जिला झज्जर ।	22090 26.03.07
102551	मुकुल मणि मिथलेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	युगल फार्मसी एण्ड कैमिकल्स वर्क्स औरंगाबाद, यमुना नगर ।	21824 10.05.06
102552	नमिता भारद्वाज विजय कुमार भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	232, केवी सब स्टेशन, डीएचवीपीएनएल कालोनी, हांसी हिसार ।	21786 02.05.06
102553	नरेन्द्र गुप्ता सुभाष चन्द गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	4-बी, कैनल कालोनी, करनाल रोड, कैथल ।	21812 03.05.06
102554	नरेश कुमार रघुबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	ग्राम धनदुर बीर, पोस्ट सैक्टर 2, सिरसा रोड, हिसार ।	21728 20.03.06
102555	नवीन छत्तर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	11एच/1, ओल्ड कैम्पस, सीसीएसएचएचएयू, हिसार ।	22099 23.03.07
102556	नवीन कुमार यादव बलवीर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2003	ग्राम व पो.आ. दुन्डाहेरा, गुड़गांव ।	21851 08.06.06
102557	नवीन राम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	ग्राम सेकन्दपुर, पो.आ. मलिकपुर-2, तहसील बदानी खेड़ा, भिवानी हरियाणा ।	21689 21.02.06
102558	नवीन कुमार ढिलोन हरिशियार सिंह ढिलोन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2003	गणेश मार्किट, फारूख नगर, गुड़गांव ।	22003 06.11.06
102559	नवीन स्वामी रामचन्द्र स्वामी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	8 ए, वार्ड नं.1, शिव कालोनी, बड़ी गेट, झज्जर ।	21659 07.02.06
102560	नवनीन कौर त्रिवेदी ब्रजेश त्रिवेदी	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2002	शोप नं. 568, अपर बाजार, शिमला रोड, कालका, पंचकुला ।	21914 21.07.06

102561	नवनीत दिनोडिया राजकुमार दिनोडिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21699 06.03.06	65-66, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सिरसा रोड, हिसार ।
102562	नवनीत कौर बलदेव सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21768 19.04.06	715/8, प्रताप नगर कालोनी, कुरुक्षेत्र ।
102563	नीलम धरम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2001	21632 20.09.05	म.नं. 45-46, जीवन नगर, बैंक कालोनी, करनाल ।
102564	नीलम बागड़ी महावीर लाल बागड़ी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22045 14.03.07	म.नं. 85, सैक्टर-1, रोहतक ।
102565	नीलम कुमारी रविन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21941 24.08.06	ग्राम व पो.आ. झोझु कलौ मिवानी ।
102566	नीलम रानी शर्मा सोमदत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21869 12.07.06	813, सैक्टर-9, पंचकूला ।
102567	नीरज कुमार मनोहर लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21613 04.07.05	ग्राम व पो.आ. निजामपुर मण्डी, महेन्द्रगढ़ ।
102568	नीरू शमशेर सिंह चहल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21745 28.03.06	51/3, छोटू राम कालोनी, नरवाना, जीन्द ।
102569	नीतू सिंह राम बाबू	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21822 08.05.06	म.नं. 1356, सैक्टर 3, फरीदाबाद ।
102570	नीतू यादव मोती लाल यादव	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21651 08.12.05	3095/1, सैक्टर-22-डी, चंडीगढ़ ।
102571	नेहा मंगला एन.सी. मंगला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21820 03.05.06	म.नं. 933, सैक्टर-13, कुरुक्षेत्र ।
102572	नेहा सरदाना मदन सरदाना	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2005	21767 18.04.06	वार्ड नं.2, निकट पुलिस स्टेशन बरवाला हिसार ।
102573	निधी बजाज के.सी. बजाज	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21766 12.04.06	133/4, शिवाजी कालोनी, रोहतक ।

102574	निधी मित्तल शिव कुमार मित्तल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	म.नं. 3118, सैक्टर-47-डी, चंडीगढ़ ।	22054 15.03.07
102575	निर्मल यादव अशोक यादव	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1994	471, सैक्टर-14, रोहतक ।	21962 04.09.06
102576	निशा वर्मा रूपचन्द वर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	542/6, कैथल, पिहोवा, कुरुक्षेत्र ।	22092 23.03.07
102577	निशा रानी शमलाल	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1991	म.नं. 1263, सैक्टर 13, यू.ई. कस्बाल ।	21864 05.07.06
102578	नितिन धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	निकट पोस्ट आफिस, बादशहपुर, गुड़गांव ।	21754 04.04.06
102579	नितिन पराशर जगदीश प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	म.नं. ए-6, सैक्टर-5, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद ।	21801 03.05.06
102580	नितिन शर्मा मनीष शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	ग्राम ओम नगर, पो.आ. बुधेश, गुड़गांव ।	21977 04.10.06
102581	ओम प्रकाश जगदीश सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	ग्राम भवान, तहसील मेहम, रोहतक ।	21700 06.03.06
102582	पंकज मदन गुलाटी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	क्वार्टर नं. 2, ओल्ड पुलिस लाईन, सामने ग्रीन पार्क, हिसार ।	21683 21.02.06
102583	पंकज कंसल श्याम लाल कंसल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	1306, सैक्टर 05, कुरुक्षेत्र ।	21753 04.04.06
102584	पंकज शर्मा गोबिन्द राम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	म.नं. 290, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जीन्द ।	22015 15.12.06
102585	परमजीत राय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	1713, यू.ई. जीन्द ।	22067 23.03.07
102586	प्रमोद अमृत लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	निकट एन.एफ.एल. कालोनी, विकास, पानीपत ।	21825 10.05.06

102587	पारूल बुध सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21744 28.03.06	म.नं. 43, सरस्वती कालोनी, जगाधरी, यमुना नगर ।
102588	प्रवीण जितेन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21607 16.06.05	संगम चैरिटेबल अस्पताल, टोहाना, फतेहाबाद ।
102589	प्रवीण छत्तर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22096 23.03.06	356/2, धिकारा रोड, निकट हरिओम आसरा, चरखी दादरी, भिवानी ।
102590	प्रवीण कुमार सतपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21623 03.08.05	म.नं. 1315, सैक्टर-1, रोहतक ।
102591	प्रवीण कुमार सुभाष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21874 12.07.06	म.नं. 1080, सैक्टर-5, यू.ई. कुरुक्षेत्र ।
102592	पवन कुमार देसवाल राजबीर सिंह देसवाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21818 03.05.06	ई-6, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, सोनीपत रोड, रोहतक ।
102593	पवन राजयन उमेश सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21846 05.06.06	बस स्टैण्ड रोड, झज्जर ।
102594	पायल प्रीत मनमोहन	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21908 18.08.06	नालागढ़ रोड, रेलवे रोड, पिंजौर, पंचकूला ।
102595	पायल यादव लक्ष्मण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22062 23.03.07	म.नं. 1022, सैक्टर-03, पार्ट-2, रेवाड़ी ।
102596	प्यारी सोमनाथ	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21679 21.02.06	150/3, आर.एस.डी. कालोनी, जनता अस्पताल रोड, सिरसा ।
102597	पूजा खेत्रपाल कमल खेत्रपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	21771 19.04.06	55, कृष्णा कालोनी, बाई पास चौक, यमुना नगर ।
102598	पूजा शर्मा राकेश शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साईंसिस फरीदकोट 2002	21648 23.11.05	एस-1, नाहर कालोनी, अम्बाला रोड, पहोवा, कुरुक्षेत्र ।
102599	पूजित मेहता अशोक मेहता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21612 04.07.05	मेहता अस्पताल, रानिया सिरसा ।

102600	पूनम बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21743 28.03.06	247, दया नन्द कालोनी, माडल टाउन, करनाल ।
102601	पूनम एस.पी. डबास	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1994	21965 05.09.06	260, सुन्दर नगर, हिसार ।
102602	पूनम भट्टी रामपाल भट्टी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21694 27.02.06	म.नं. डी.सी. 717, शिव कालोनी, रेलवे रोड, पलवल, फरीदाबाद ।
102603	पूनम डगार प्रताप सिंह डगार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1990	21929 11.08.06	म.नं. 691/28, सुभाष नगर, रोहतक ।
102604	पूनम वर्मा सुधीर वर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2002	21850 08.06.06	1582, सैक्टर 7-सी, चंडीगढ़ ।
102605	पूनम यादव सही राम यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21681 21.02.06	ग्राम भिन्डावास, पोस्ट विलोचपीरा, झुज्जर ।
102606	प्रदीप कुमार राम नयन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22035 14.03.07	म.नं. 77, राम नगर, जगाधरी शोप, यमुना नगर ।
102607	प्रतिभा जिन्दल अरविन्द जिन्दल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1999	21936 24.08.06	म.नं. 108-ए, सैक्टर 21, पंचकूला ।
102608	प्रयाग शर्मा जगदीश शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21635 20.09.05	द्वारा राम निवास यादव, यादव कालोनी, लियो चौक, रेवाड़ी ।
102609	प्रीती रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21639 26.10.05	म.नं. 1305, यू.ई.-2, हिसार ।
102610	प्रीती पहवा ए.पी. पहवा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21780 02.05.06	म.नं. 731, न्यू एच.बी.सी. करनाल ।
102611	प्रेणा तारा दयानन्द तारा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1999	21592 25.04.05	68/1075, बलदेव नगर, अम्बाला शहर ।
102612	प्रिस जुनेजा देसराज जुनेजा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21665 07.02.06	जुनेजा क्लीनिक, बरनाला रोड, गोहाना, सोनीपत ।

102613	प्रीती शर्मा एच.आर. शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21586 08.04.05	157. सैक्टर 17, पंचकूला ।
102614	प्रिया गुप्ता जय कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22084 26.03.07	139. सैक्टर 8, पंचकूला ।
102615	प्रियंका गोयल दीपक गोयल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21756 07.04.06	गोयल अस्पताल एवं मैटरनिटी होम, अप्पटोशवह रोड, उकलाना मण्डी हिसार ।
102616	प्रियंका यादव राम निवास यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21593 25.04.05	म.नं. 3126/1, कांसीवास रोड, जगन गेट, रेवाड़ी ।
102617	प्रियंका सिंह आर.पी. सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2004	21849 08.06.06	ग्राम व पो.आ. सतनाली, महेन्द्रगढ़ ।
102618	पुनीत कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22059 15.03.07	म.नं. 963, राम नगर, जगाधरी शोप, यमुना नगर ।
102619	रबिना देवी जगदेव सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	22016 15.12.06	जनता अस्पताल, निकट पो.आ. अतेली मण्डी, जिला महेन्द्रगढ़ ।
102620	राहुल बत्रा बीरपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21684 21.02.06	निकट पोस्ट आफिस, पटौडी, गुड़गांव ।
102621	राहुल कुमार अग्रवाल आर.एम. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21614 04.07.05	म.नं. 1622 (जी.एफ.), हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सैक्टर-26, पंचकूला ।
102622	राजकुमार रामानन्द यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21662 07.02.06	ग्राम तिगरा, पो.आ. अतेली, महेन्द्रगढ़ ।
102623	राजकुमार ज्ञानवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22034 14.03.07	579, स्ट्रीट नं.10, आदर्श कालोनी, पलवल फरीदाबाद ।
102624	राजा तंवर भगवान सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2002	21924 07.08.06	वार्ड नं.8, लौरू नुह ।
102625	राजेश कुमार धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21736 23.03.06	महावीर मार्केट, उकलाना मण्डी, हिसार ।



102626	राजेश कुमार रण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22073 23.03.07	वार्ड नं. 6, कोटला मोहल्ला, बरवाला, हिसार ।
102627	राजेश कुमार भित्तल सोहन लाल भित्तल	बी.ए.एम.एस. पंजाब राज्य आयु एवं यूनानी चि.प.संकाय, चंडीगढ़ 1992	21620 21.07.05	1073, सेक्टर-13, यू.ई. करनाल ।
102628	राजेश शर्मा सोमदत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2003	21826 10.05.06	चौक मोहल्ला, महेन्द्रगढ़ ।
102629	राजेश तंवर टेकचन्द तंवर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21735 23.03.06	500/20, ओम नगर, खण्डसा रोड, गुड़गांव ।
102630	राजेश यादव शोभनाथ यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21821 08.04.06	आई.सी.55 एन.एच. फरीदाबाद ।
102631	राजीव मेहता विद्या मेहता	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस्, फरीदकोट 2003	21920 01.08.06	मेहता क्लीनिक, बरवाला, पंचकूला ।
102632	रजनीश खुरी राम यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22071 23.03.07	न्यू कालोनी, जमालपुर, नमौल, महेन्द्रगढ़ ।
102633	रजनी बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21706 09.03.06	54/ए, सरदारों वाली गली, निकट जाट कालेज, सोनीपत ।
102634	रजनी मदनपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21861 29.06.06	385, सेक्टर-2, रोहतक ।
102635	रजनी बंसल विजय बंसल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	21879 13.07.06	सिविल अस्पताल कैम्पस, अम्बाला शहर ।
102636	रजनीकान्त जोगिन्दर सिंह रोहिल्ला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22048 15.03.07	847, सेक्टर-15, सोनीपत ।
102637	रजनी ठाकुर गगन ठाकुर	बी.ए.एम.एस. हि.प्र. वि.वि., शिमला 2000	21956 28.08.06	1112, सेक्टर-15, सोनीपत ।
102638	राजपाल अजमेर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21733 22.03.06	मोगा वाला अस्पताल, भट्टू कलां, फतेहाबाद ।

102639	राजपाल नैन नफेसिंह नैन	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22077 23.03.07	म.नं. 226/19, गली नं. 3, हनुमान नगर, नरवाना, जीन्द ।
102640	राजविन्द्र कौर अवतार सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21789 02.05.06	ग्राम मेहलावली, तहसील जगाधरी, यमुना नगर ।
102641	राकेश जैन नेम चन्द जैन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21803 03.05.06	शेखर चन्द करमचन्द जैन, अनाज मण्डी, गोहाना, सोनीपत ।
102642	राकेश कुमार सुशील कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	12797 03.05.06	68-ए, पीछे हरि पैलेस, अम्बाला शहर ।
102643	राकेश कुमार श्याम लाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2002	21979 22.09.06	ग्राम नगला मोहनपुर, पो.आ. रसूलपुर, महेन्द्रपुर ।
102644	राकेश कुमार बलवान सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22039 04.03.07	म.नं. 110/1, शेखरपुर, पोस्ट नांगल तेजु, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी ।
102645	राम निवास राजपाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22047 15.03.07	ग्राम व पो.आ. बादली, झज्जर ।
102646	रामा सोनी रमेश सोनी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21695 21.02.06	म.नं. 712, सैक्टर 28, फरीदाबाद ।
102647	रमणजीत सिंह ज्ञान सिंह गिल	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21606 30.05.05	ग्राम व पो.आ. मिसिम्बल, यमुना नगर ।
102648	रमेश कुमार यादव भैया राम यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22075 23.03.07	1931, जवाहर कालोनी, एयर फोर्स रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद ।
102649	रमणिक सांगवान एन.आर.सांगवान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22051 15.03.07	म.नं. 741/5, मोहन नगर, थानेसर, कुरुक्षेत्र ।
102650	रण सिंह ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21814 03.05.06	ग्राम जनघेरा, पो.आ. लडवा, कुरुक्षेत्र ।
102651	रणधीर सिंह लक्ष्मी चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	1661 07.02.06	ग्राम व पो.आ. सच्चा खेरा, तहसील, नरवाना जीन्द ।

102652	रंजना गर्ग दीदार सिंह गर्ग	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साईंसिस,फरीदकोट 2005	22028 26.02.07	811, सैक्टर 11, अम्बाला शहर ।
102653	रणजीत कौर कश्मीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21629 14.09.05	विषी नगर, निकट बस स्टैण्ड, हिसार ।
102654	रसिमा रोहिला रणबीर सिंह रोहिला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21696 02.03.06	231/17, राम गली, मोहाना, सोनीपत ।
102655	रश्मि प्रभा संदीप आर्य	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21848 08.06.06	ग्राम व पो.आ. कासन्दी तहसील मोहाना, सोनीपत ।
102656	रश्मि सरोहा नरेन्द्र सरोहा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21740 23.03.06	सामने रघु गैस गोदाम, सासई रोड, कृष्ण नगर, गुडगांव ।
102657	रवि दिवान सुरिन्द्र प्रकाश दिवान	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1995	21983 11.10.06	689, सैक्टर-21, पंचकूला ।
102658	रविकान्त छाबड़ा सुभाष चन्द्र छाबड़ा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21809 03.05.06	ग्राम व पो.आ. रायसन तहसील, निलोखेरी, करनाल ।
102659	रवि रंजन प्रसाद देवेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	21991 18.10.06	नन्द लाल, 234, ए. संजय कालोनी, औधोगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ ।
102660	रविन्द्र रामनाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21798 03.05.06	ग्राम व पो.आ. धनी गोयल, वाया भूना, फतेहाबाद ।
102661	रविन्द्र काशनिया सतबीर सिंह काशनिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21655 03.01.06	निकट आस्था सिंथेटिक्स, कीर्ति नगर, भिवानी ।
102662	रविन्द्र सिंह धनखर ओम प्रकाश धनखर	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21899 17.07.06	1240, सैक्टर-11, पंचकूला ।
102663	रविन्द्र कुमार जय किशन	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21931 11.08.06	26/2, नानौन्द, हिसार ।
102664	रविता अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. पंजाब राज्य आयु. एवं यूनानी चि.प.संकाय, चंडीगढ़ 1990	21923 07.08.06	ए-21, एच.एम.टी. कालोनी, पिंजोर, पंचकूला ।

102665	रीना राजबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21680 21.02.06	चिन्ता वाला, मेहम, रोहतक ।
102666	रीना गोयल हनुमान गोयल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21628 08.09.05	1072, अर्बन इस्टेट-2, हिसार ।
102667	रीना चौहान रणविन्द्र चौहान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21783 02.05.06	ग्राम व पो.आ. सुल्तानपुर, करनाल ।
102668	रीतू मलिक महेन्द्र सिंह मलिक	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21685 21.02.06	म.नं. 3420, यू.ई. जीन्द ।
102669	रेखा रानी धर्मपाल गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	12779 02.05.06	धर्मपाल मसाला कम्पनी, निकट विश्वास पब्लिक स्कूल, उकलाना मण्डी, हिसार ।
102670	रेनू उत्तम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21723 14.03.06	म.नं. 158/8, जवाहर नगर, हिसार ।
102671	रेनू गुप्ता मनीज बिन्दल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21631 14.09.05	म.नं. 31-बी, निकट टेलिफोन एक्सचेंज, चीका कैथल ।
102672	रेनू लता अजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21698 02.03.06	380/16, गली नं.03, उत्तम नगर, निकट रोहिला धर्मशाला, गोहाना, सोनीपत ।
102673	रेनू शर्मा राजेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22089 26.03.07	375, सैक्टर 13, हिसार ।
102674	रेनूका निकेश भगत	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	22006 06.01.06	म.नं. 51, शिव कालोनी वाली गली, ग्राम रतनगढ़, अम्बाला शहर ।
102675	रेणु त्रेहन अमोलेंद्र त्रेहन	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21873 12.07.06	104, प्रीत नगर, पो.आ. महेश नगर, अम्बाला छावनी ।
102676	रिमा बडवाल कंवल दीप सिंह बडवाल	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	22017 15.12.06	सी-12, ओल्ड कैम्पस, सी.सी.एस.एच.ए.यू. हिसार ।
102677	रितेश बंका श्याम सुन्दर बंका	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21921 03.08.04	3121, सैक्टर-20, डी. चंडीगढ़ ।

102678	रितेश शर्मा एम.एल. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21645 11.11.05	265-बी. न्यू सुखदेव नगर, पानीपत ।
102679	रीतू गुप्ता प्रवीण कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21619 21.07.05	संतसा देवी मेमोरियल अस्पताल, पीछे स्मूनीसिपल कमेटी, महेन्द्रगढ़ ।
102680	रीतू दहिया ओम प्रकाश दहिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21686 21.02.06	1209/21, गली नं.09, प्रेम नगर, रोहतक ।
102681	रीतू वर्मा एन.के. वर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21656 19.01.06	म.नं.4, जगत कालोनी, निकट गर्वमेंट सेन्ट हाउस, भिवानी ।
102682	रीतू यादव अमय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	21585 08.04.05	सन्दरोज, पो.आ. पिथरवास, जिला रेवाड़ी ।
102683	रोहित मोहिन्द्र पाल मोंगा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2005	21990 16.10.06	म.नं. 88, लाल द्वारा, यमुना नगर ।
102684	रोहित वालिया जय कुमार वालिया	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21903 17.07.06	23, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बलदेव नगर, अम्बाला शहर ।
102685	रोजी पाण्डेय सुनील पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस,फरीदकोट 2003	21989 16.01.06	1545, सेक्टर 10-ए, गुडगांव ।
102686	रूचि यादव अतर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22083 26.03.07	गांधी नगर, निकट बोटरा स्कूल, रेवाड़ी ।
102687	रूपा माकन सुभाष चन्द्र माकन	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21833 19.05.06	838, न्यू हमिदा कालोनी, यमुना नगर ।
102688	सचित मनोपति मनोहर लाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21717 14.03.06	छबिल दास कालोनी, उकलाना मण्डी, हिसार ।
102689	साधना सैनी बी.एल. सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22041 14.03.07	सैनी भवन, हंस नगर, भरवास फाटक, रेवाड़ी ।
102690	सहदेव गुरदियाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21816 03.05.06	ग्राम व पो.आ. धींगसारा, फतेहाबाद ।

102691	साकेत शर्मा आशुतोष शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21682 21.02.06	द्वारा बी.डी. शर्मा अस्पताल, सैनियन मोहल्ला हिसार ।
102692	सलीम अहमद रशीद अहमद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21601 16.05.05	ग्राम कांगरका, पो.आ. तावरू गुडगांव ।
102693	समीधा शर्मा कीर्ति शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21966 06.09.06	1607, काचा बाजार, अम्बाला छाबनी ।
102694	संदीप कुहर बी.के. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1995	21906 18.07.06	1470, सैक्टर 4, पंचकूला ।
102695	संदीप कुमार सुरेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21663 07.02.06	द्वारा राखी क्लोथ हाउस, जीन्द रोड, बस स्टैण्ड, नरानोन्द, हिसार ।
102696	संदीप सांगवान रणबीर सांगवान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21643 08.01.05	म.नं. 886/21, गीता कालोनी, ओल्ड सर्कुलर रोड, डबल फाटक, रोहतक ।
102697	संदीप कालरा डी.डी. कालरा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21702 06.03.06	51/5, सेतान मोहल्ला, निकट आर्य समाज मन्दिर, कैथल ।
102698	संदीप दुआ शिव राम दुआ	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21609 23.06.05	ग्राम व पो.आ. अजरावर, निकट इसैलाबाद, कुरुक्षेत्र ।
102699	संगीता गुलशन कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	21630 14.09.05	निकट दुर्गा मन्दिर, बीरबल नगर, नरवाना जीन्द ।
102700	संगीता विश्नोई राजेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2001	21859 28.06.06	म.नं. 670/20, प्रेम नगर, रोहतक ।
102701	संगीता राम किशन	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22053 15.03.07	म.नं. 120-ए, स्कीम नं. 19, जीन्द ।
102702	संजय बिन्देश्वरी सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2004	21832 12.05.06	हुडा कालोनी, श्री नगर, दिल्ली रोड, सोनीपत ।
102703	संजय पंवार रामजी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21703 06.03.06	248/22, मटनागर कालोनी, रोहतक रोड, जीन्द ।

102704	संजय राम जय राम	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2004	22024	द्वारा नन्द लाल, 234-ए, संजय कालोनी, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, चंडीगढ़ ।
102705	संजीव कौशिक राजिन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	21951 24.08.06	709, सैक्टर-37, फरीदाबाद ।
102706	संजीव कुमार सत्यपाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22081 26.03.07	ग्राम व पो.आ. बस्तारा, तहसील धनौदा, करनाल ।
102707	संजीव बैसला डी.एस. बैसला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21856 21.06.06	म.नं. 270, सैक्टर 21-ए-एन.आई.टी, फरीदाबाद ।
102708	सपना गोदरा धर्मपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21633 20.09.05	म.नं. 16/834, डाबवाली रोड, सिरसा ।
102709	सरिता सरोहा जिले सिंह सरोहा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21762 12.04.06	ग्राम व पो.आ. हर्सना कलौ, सोनीपत ।
102710	सतेन्द्र देवी सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21664 07.02.06	54-ए, सरदारो वाली गली, जवाहर नगर, सोनीपत ।
102711	सविता दिनोडिया नवनीत दिनोडिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2002	21770 19.04.06	म.नं. 65-66, एच.बी.सी. सिरसा रोड, हिसार ।
102712	सीमा दलीप सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21697 02.03.06	ग्राम गढ़ी उजले खान, पानीपत रोड, दरियापुर, गोहाना, सोनीपत ।
102713	सीमा तनेजा दीनानाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21784 02.05.06	म.नं. 11790, सैक्टर-14, हिसार ।
102714	सीरू देवधर बालू राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21862 03.07.06	म.नं. डी/674, चावला कालोनी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद ।
102715	शैलेन्द्र चौहान कहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21589 11.04.05	ग्राम व पो.आ. पटौडी, गुडगांव ।
102716	शैली ज्ञानेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21712 09.03.06	म.नं. बी-15/223, बसल कालोनी, सिरसा ।

102717	शकीना बानू शरबती खान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21794 03.05.06	म.नं. 2246, सैक्टर 7, कुरुक्षेत्र ।
102718	शाक्षी ओम प्रकाश बागरी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21781 02.05.06	म.नं. 367, सैक्टर-3, रेवाड़ी ।
102719	शक्ति सिंह यादव यादराम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21772 27.04.06	ग्राम खामपुरा, पोस्ट सिहमा, तहसील, नारनौल महेन्द्रगढ़ ।
102720	शालिनी राठी एस.एस. राठी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21602 16.05.06	एल-204, माडल टाउन, रोहतक ।
102721	शालिनी शर्मा महेश शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21617 21.07.05	252, बी-11, शास्त्री नगर, अम्बाला शहर ।
102722	शालू जेरेथ सौरभ जेरेथ	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	22007 10.11.06	376, सैक्टर-18, हुडा जगाधरी, यमुना नगर ।
102723	शशि राज राजेश्वर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21795 03.05.06	1521, सैक्टर-7, यू.ई. कुरुक्षेत्र ।
102724	शशुन गोयल विनोद गोयल	बी.ए.एम.एस. हि.प्र. वि.वि., शिमला 2004	21828 11.5.06	म.नं. 55, लक्ष्मी नगर, निकट सरोजिनी कालोनी, यमुना नगर ।
102725	श्वेता चावला चन्द्र प्रकाश चावला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21584 08.04.05	निकट सेवा समिति, हीरा चौक, दादरी, भिवानी ।
102726	शोफाली खाम्बा खेमचन्द्र खाम्बा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21724 14.03.06	141, विजय कालोनी जवाहर नगर, हिसार ।
102727	शोखा भारद्वाज पारस भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21558 20.01.06	निकट बी.डी.ओ. कार्यालय, गनीर, सोनीपत ।
102728	शिखा खुराना गिरिश कुमार खुराना	बी.ए.एम.एस. गु.दे. वि.वि., अमृतसर 1999	21919 27.07.06	खुराना डेंटल क्लीनिक, गीता मवन चौक, सोनीपत ।
102729	शिरबन बाला रघुनन्दन प्रसाद दीपक	बी.ए.एम.एस. स.स. वि.वि., वाराणसी 2004	21999 20.10.06	द्वारा संजय कुमार मिश्रा, एस.सी.ओ.नं. 72-73, सैक्टर-20-सी, चंडीगढ़ ।



102730	शिव कुमार रिशाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	ग्राम किशनगढ़, तहसील मेहम, रोहतक ।	21807 03.05.06
102731	शिवा अरोड़ा प्रेमनाथ अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	10, सेवी मुर्ति कालोनी, पानीपत ।	22023 09.01.07
102732	शिवम आर्य नरेश आर्य	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	नरेश क्लीनिक, गोहाणा रोड, रोहतक ।	22057 15.03.07
102733	श्रुति गुप्ता यशपाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2000	2456, सैक्टर-12-सी, चंडीगढ़ ।	22018 15.12.06
102734	शुकराम पाल लखमी चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	ग्राम व पो.आ. शिखपुरा खालसा, तहसील गुडगांव, जिला करनाल ।	21904 17.07.06
102735	श्वेता लक्ष्मण सिंह	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2005	सिविल लाईन, आर्य नगर, वार्ड नं. 16, झज्जर ।	22020 29.12.06
102736	सिंह दिनकर कुमार राजेन्द्र राजेन्द्र सिंह सासर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2004	द्वारा मलखान सिंह, प्लॉट नं. 5146/31, सूरत नगर, गुडगांव ।	21973 20.09.06
102737	स्नेह कुमार गुप्ता रमेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. स.स. वि.वि., वाराणसी 2004	द्वारा संजय कुमार मिश्रा, एस.सी.ओ.नं. 72-73, सैक्टर-20-सी, चंडीगढ़ ।	21997 20.10.06
102738	सोहन लाल सैनी खेमराज सैनी	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	1346, सैक्टर 03, पिपली, कुरुक्षेत्र ।	22013 30.11.06
102739	सोम प्रकाश रणजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2004	चौधरी औषधालय, पटियाला चौक, जीन्द ।	21829 11.05.06
102740	सोन्या वेद पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	959, सैक्टर-15, सोनीपत ।	22065 23.03.07
102741	सोनिया रवि अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. गु.दे. वि.वि., अमृतसर 1999	राज मेटरनिटी एवं जी.के. नर्सिंग होम, हिसार रोड, हिसार ।	21877 13.07.06
102742	सोनिया जोशी राजकुमार जोशी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	927, सैक्टर 25, पंचकूला ।	22001 20.10.06

102743	सोनिया सूद गौरव सूद	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21901 17.07.06	26, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सोनीपत ।
102744	सोनिका भूपसिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21583 08.04.05	सांवन नर्सिंग होम, सिरसा ।
102745	सोनिका सुरेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21725 14.03.06	म.नं. 499, वार्ड नं. 15-7 विश्व, जटवारा मोहल्ला, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102746	सोनिका शर्मा धर्मेन्द्र कौशिक	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21652 12.12.05	494, सैक्टर 8, फरीदाबाद ।
102747	सोनिका यादव राम निवास यादव	बी.ए.एम.एस. कुर्क्षेत्र वि.वि., कुर्क्षेत्र 2005	22085 26.03.07	ग्राम शाहवाजपुर खालसा, पो.आ. माजरा गुरदास, जिला रेवाड़ी ।
102748	सोनिया यादव योगेश यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2003	21972 20.09.06	अमर अस्पताल, जटौली, गुड़गांव ।
102749	सुभाष खण्डेलवाल सूरजमान	बी.ए.एम.एस. कुर्क्षेत्र वि.वि., कुर्क्षेत्र 2005	22037 14.03.07	ग्राम व पो.आ. निन्दाना तहसील, मेहम, रोहतक ।
102750	सुभाष चन्द्र झा शम्भूनाथ झा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	21984 11.10.06	द्वारा रमण झा, प्लेट नं.2075/बी. सैक्टर 41-सी, ब्लॉक नं.09, चंडीगढ़ ।
102751	सुधीर सिंह रिसाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुर्क्षेत्र वि.वि., कुर्क्षेत्र 2004	21800 03.05.06	म.नं. 30, वार्ड नं.2, कचौरिया निवास, ओल्ड मण्डी रोड, हिसार ।
102752	सुलोचना मुकेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2001	21913 21.07.06	891/7, न्यू कोर्ट रोड, अनिल विहार, सोनीपत ।
102753	सुमन नाहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21732 22.03.06	385, सैक्टर-2, रोहतक ।
102754	सुमन बाला परमानन्द जांगड़ा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21670 09.02.06	म.नं. 1407/1, संजय कालोनी, रोहतक ।
102755	सुमन कुमार हरपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21650 08.12.05	म.नं. 1031, सैक्टर-23-बी, चंडीगढ़ ।

102756	सुमन रानी सुमेर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21755 07.04.06	म.नं. 196/14, फौजी लाट, निकट प्राइमरी स्कूल, पहावा, कुरुक्षेत्र ।
102757	सुमन यादव अटल सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21840 02.06.06	1106/1, दयानन्द कालोनी, गुडगांव ।
102758	सुमित मित्तल इन्द्रजीत मित्तल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2001	21944 24.08.06	1241, सैक्टर 51-बी, चंडीगढ़ ।
102759	सुमित सैनी ईश्वर सिंह सैनी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21738 23.03.06	म.नं. 15, टाईप-2, म.द.वि.वि., कैम्पस रोहतक ।
102760	सुनैना खुशाल दीप गोयल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21823 10.05.06	एस.सी.एफ. नं. 71-72, धाना रोड, न्यू अनाज मण्डी, कलावाली, सिरसा ।
102761	सुनील गुप्ता सतपाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21817 03.05.06	525/4, गुप्ता कालोनी, माता गेट, कैथल ।
102762	सुनील कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21691 21.02.06	606-जी/29, राम गोपाल कालोनी, रोहतक ।
102763	सुनील कुमार जय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21708 08.03.06	ग्राम व पो.आ. खरखरी, भिवानी ।
102764	सुनील कुमार सोमदत्त	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1993	21875 12.07.05	1593, सैक्टर 15, पंचकुला ।
102765	सुनील कुमार अमीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21889 17.7.06	ग्राम व पो.आ. शोवापुर, असमध रोड, पानीपत ।
102766	सुनील कुमार गोपी राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22069 23.03.07	द्वारा गोपी ओटोमोबाईल्स, तोशाम रोड, सिवानी भिवानी ।
102767	सुनील सैनी गनशाम दास सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21813 03.05.06	म.नं. 3090/ए, मोहल्ला राम बास, भारवास गेट, रेवाड़ी ।
102768	सुनील सांगवान नन्दलाल सांगवान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22088 26.03.07	म.नं. 423, डी.सी. कालोनी पीछे बी.टी.एम. भिवानी ।

102769	सुनील शर्मा सुरेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21811 03.05.06	आनन्द सैनी, 318/21, मोहल्ला सुखपुरा, सुखपुरा चौक, रोहतक ।
102770	सुनील तनेजा शम्भूनाथ तनेजा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साईंसिस,फरीदकोट 2005	21978 04.10.06	73/33, यू-ब्लाक, डी.एल.एफ. फेस-2, गुडगांव ।
102771	सुनील यादव कृष्ण दत्त	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21819 03.05.06	ग्राम व पो.आ. चांग रोड, जिला भिवानी ।
102772	सुनीता हनुमान प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22091 26.03.07	म.नं. 735, ऋषि नगर, बस स्टैण्ड के पीछे, हिसार ।
102773	सुनीता बेनीवाल मनोज कुमार बेनीवाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	22022 04.01.07	ग्राम व पो.आ. जन्त, रेवाड़ी ।
102774	सुनीता पराशर आर.पी. पराशर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1994	21934 24.08.06	म.नं. 7/38, गली नं.02/माडल टाउन, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102775	सुनीता राणा धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21872 12.07.06	ग्राम व पो.आ. राहवा, करनाल ।
102776	सुनीता रानी सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21731 22.03.06	म.नं. 235, सेक्टर 20-1, हुडा कालोनी, सिरसा ।
102777	संजोत कौर भरपूर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साईंसिस,फरीदकोट 2005	21961 04.09.06	307, वार्ड नं.18, धर्म कांटा, सिरसा रोड, मण्डी डाबवाली, सिरसा ।
102778	सूरजमान रामेश्वर प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21815 03.05.06	ए-284, डाबुआ कालोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद ।
102779	सुरभि भानोत आर.एस. भानोत	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21891 17.7.06	5777, सेक्टर 38, वेस्ट, चंडीगढ़ ।
102780	सुरभि चावला अशोक चावला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21939 24.08.06	782/12, बाला सुन्दरी रोड, पेहोवा, कुरुक्षेत्र ।
102781	सुरभि पारीक अखोक पारीक	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., 2003	21760 10.04.06	414, अगोसन कालोनी, सिरसा ।

102782	सुरेन्द्र हवा सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21836 19.05.06	382. सैक्टर-1, रोहतक ।
102783	सुरेन्द्र कुमार चौधरी राम मेहर	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21854 17.07.06	ग्राम व पो.आ. बलाना, रोहतक ।
102784	सुरेन्द्र कुमार जिनन्दल ओम प्रकाश जिनन्दल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1998	21649 28.11.05	म.नं. 818, सैक्टर-7, अम्बाला शहर ।
102785	सुरेन्द्र पाल दरियाव सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21847 07.06.06	ग्राम गांधी नगर, पोस्ट मानगली, हिसार ।
102786	सुरेश कुमार रामधारी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21885 17.07.06	ग्राम व पो.आ. नन्दल, रोहतक ।
102787	सूर्य प्रताप सिंह राजबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22066 23.03.07	निकट बुठान चौपाल, ग्राम फतेहपुर, कैथल ।
102788	सुशील कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21869 17.07.06	137/4, राम सिंघपाल कालोनी, सामने सैनी कालेज, रोहतक ।
102789	सुशील कुमार राम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22011 15.11.06	म.नं. 727/29, विकास नगर, स्ट्रीट नं.01, काकरोई रोड, सोनीपत ।
102790	सुशील शर्मा प्रेम सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बगलौर 2003	21599 03.05.05	75/30, सुभाष नगर, रोहतक रोड, जीन्द ।
102791	सुशीला राणा सुशील कुमार राणा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1988	21911 20.07.06	2323-एम.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सैक्टर 3, रोहतक ।
102792	सुशीला सिंह हरकिशन	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1991	21902 17.07.06	2316, सैक्टर-3, रोहतक ।
102793	सुषमा रामधारी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21855 16.06.06	म.नं. 32, पी.डब्ल्यू.डी. बी एवं आर. कालोनी निकट सिविल अस्पताल, पानीपत ।
102794	सुषमा यादव हरि यादव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21940 24.08.06	ग्राम व पो.आ. नया गाँव, रेवाड़ी ।

102795	सुषमा बजाज चन्द्र मोहन बजाज	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1993	21610 24.06.05	फ्लैट नं.3 सी, ब्लॉक नं.03, रेल विहार, गुड़गांव।
102796	तनु शर्मा दीपक कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2003	21927 10.08.06	1213, सैक्टर 23 बी, चंडीगढ़।
102797	तरुण गुलानी बी.एल. गुलानी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21678 20.02.06	बी-2, म.नं. 751, प्रधान मोहल्ला, रोहतक।
102798	तरुण रैना करम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21646 17.11.05	द्वारा बुध सिंह, नगर शाम लाल, भूतपूर्व एम.एल.ए. शीखपुरा, पलवल, फरीदाबाद।
102799	तरुणा प्रेमी मेहर चन्द प्रेमी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21892 17.07.06	1243 एफ, सैक्टर 04, पंचकूला।
102800	तिजेन्द्र रविदत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2000	21952 24.08.06	ग्राम व पो.आ. सफियाबाद, सोनीपत।
102801	त्रिपत पाल कौर सुरेन्द्र सिंह मोंगा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21672 10.02.06	रोरी गेट, जगदेव सिंह चौक, सर्कुलर रोड, सामने चावला स्वीट्स, सिरसा।
102802	उदयवीर सिंह बुध सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21624 05.08.05	शीखपुरा मोहल्ला, पलवल, फरीदाबाद।
102803	उमेश सहगल कृष्ण सहगल	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2002	22033 09.03.07	द्वारा अमन सिंह 111/37, फरीदाबाद।
102804	उपासना गोयल रजनीश के. गोयल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1997	21932 11.08.06	99-इ, रानी बाग, महेश नगर, अम्बाला छावनी।
102805	उर्वशी गुप्ता जगननाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21790 02.05.06	839, सैक्टर 28, फरीदाबाद।
102806	उषा रानी राफल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21618 21.07.05	घीकारा रोड, चरखी दादरी, भिवानी।
102807	वैशाली वर्मा विमल कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2003	21604 20.05.05	सी-6, 1509, छोटी लाईन, जगाधरी, यमुना नगर।

102808	वन्दना प्रेम सागर मित्तल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 1993	21959 28.08.06	बावासीर अस्पताल, निकट हाफेड, राडौर, यमुना नगर ।
102809	वन्दना योगेश खन्ना	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हेल्थ साइंसिस,फरीदकोट 1999	21757 07.04.06	म.नं. 13/991, एम.के. सलाई स्कूल, निकट ई.एस.टी. डिस्पेंसरी, खैरपुर, सिरसा ।
102810	वन्दना गुप्ता रमेश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	21871 12.07.06	हीरा चौक, चरखी दादरी, भिवानी ।
102811	वरुण दलाल ईश्वर सिंह दलाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21804 03.05.06	म.नं. 04, कैनल कालोनी, चरखी दादरी भिवानी ।
102812	वाटिका सुन्दर लाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21710 09.03.06	83, गांधी कालोनी, सिरसा ।
102813	विदुशी समरवाल एच.के. समरवाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2000	21958 29.08.06	331, सैक्टर-09, पंचकूला ।
102814	विजय धर्मवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22035 14.03.07	ग्राम व पो.आ. झण्डर रोड सामला, रोहतक ।
102815	विजय चौधरी महावीर सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2000	21976 27.09.06	द्वारा सोमनाथ मल्होत्रा, कोठी नं.13-बी, हुडा सैक्टर 11, पार्ट पानीपत ।
102816	विजय कुमार जगदीश प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22078 23.03.07	ग्राम व पो.आ. नसिर्गपुर, गुडगांव ।
102817	विजय कुमार ढिंगरा मुलकराज ढिंगरा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21653 23.12.05	ग्राम व पो.आ. खेतपरासी, पंचकूला ।
102818	विकास बुध राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21713 09.03.06	303/6, ज्ञान नगर, पुरखास रोड, सोनीपत ।
102819	विकास मेहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22079 23.03.07	ग्राम व पो.आ. इमलोटा, भिवानी ।
102820	विकास यादव अभय सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21799 03.05.06	355, सैक्टर 10, गुडगांव ।

102821	विकास सहगल तारा चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2005	22036 14.03.07	जे.के. इलैक्ट्रॉनिक, क्लोथ मार्केट के पीछे, बारवाला, हिसार ।
102822	विक्रम लक्ष्मी चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21674 20.02.06	533/3, सन्त नगर, पटियाला चौक, जीन्द ।
102823	विमल छाबड़ा सुभाष छाबड़ा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2002	21905 17.07.06	म.नं. 104, जी.एस.17, एम.डी.सी. सेक्टर-5, पंचकूला ।
102824	विन्मी गुप्ता तरसेम लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21947 24.08.06	14, पटेल नगर, अम्बाला शहर ।
102825	विनय कौशिक दयाचन्द कौशिक	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22068 23.03.07	म.नं. 189, सेक्टर 23, गली नं.5, बहादुरगढ़, झज्जर ।
102826	विनय कुमार सुभाष शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21842 02.06.06	धन्वन्तरी अस्पताल, बाजार वकीलन, इनसाईड नागोरी गेट, हिसार ।
102827	विनय पाल वर्मा बनारसी दास	जी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1978	22012 30.11.06	वर्मा नर्सिंग होम, 37, हुडा कम्प्लेक्स, रोहतक ।
102828	विनोद कुमार सूरत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21676 20.02.06	ग्राम व पो.आ. अट्टा, पानीपत ।
102829	विपिन दलाल भीमसिंह दलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2004	21759 10.04.06	द्वारा श्री भीम सिंह दलाल, एस.डी.ओ. (एग्प्रिकल्चर) महेन्द्रगढ़ ।
102830	विशाल गोयल विजय गोयल	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2004	21866 10.07.06	26, काशी नगर, अम्बाला शहर ।
102831	विशाल गुप्ता ए.के. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21669 09.02.06	582/11, पंचकूला ।
102832	विशाल शर्मा बलजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2003	21603 19.05.05	निकट कैनल रेस्ट हाउस, कीर्ति नगर, भिवानी ।
102833	विशाल शर्मा शिव प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22074 23.03.07	3349, सेक्टर 32-डी, चंडीगढ़ ।



102834	विश्व भारती अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1987	22019 15.12.06	18/278, बलदेव नगर, अम्बाला ।
102835	विश्व प्रकाश प्रकाश सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21796 03.05.06	प्रकाश अस्पताल एवं नर्सिंग होम, धारुहेड़ा, जिला रेवाड़ी ।
102836	विश्वास छाबड़ा सुभाष छाबड़ा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21716 13.03.06	के.डी. नगर, गली नं.02, ब्लाक बी, गनौर, सोनीपत ।
102837	विवेक अहलावत सतबीर सिंह अहलावत	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21727 20.03.06	180/17, आर्य नगर, झज्जर ।
102838	विवेक भारद्वाज महसिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21918 25.07.06	1462, सेक्टर 03, रोहतक ।
102839	विवेक गुप्ता जयपाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2005	22055 15.03.07	गुप्ता नर्सिंग होम, रायपुर रानी, पंचकूला ।
102840	विवेक कुमार सुरेश पाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21739 23.03.06	खोखर निवास, वेस्ट राम नगर, ककराई चुंगी, सोनीपत
102841	विवेक सिंह राणा राजेन्द्र सिंह राणा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21587 08.06.05	1246, सेक्टर-1, रोहतक ।
102842	यादविन्द सिंह जसबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि.आफ हैल्थ साइंसिस, फरीदकोट 2003	21615 08.07.05	ग्राम व पो.आ. चौटाला, तहसील डाबवाली सिरसा ।
102843	यामिनी गुप्ता एम.एल. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2004	21917 25.7.06	म.नं. 1901, सेक्टर 39-बी, चंडीगढ़ ।
102844	यशपाल फोगट राजेन्द्र फोगट	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21660 07.02.06	ग्राम व पो.आ. डावला, झज्जर ।
102845	यसपाल राम कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21860 28.6.06	ग्राम व पो.आ. मिश्री, तहसील चरखी दादरी, भिवानी ।
102846	योगेश मित्तल जगदीश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2004	21805 03.05.06	82/6, गली नं.10, पटराम नगर, नरवाना, जीन्द ।

102847	योगिन्द्र कुमार सतबीर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 2004	21720 14.3.06	म.नं. 201/23, गली नं.3, हीरा नगर, गुड़गांव।
102848	योगिता यादव रामफल यादव	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2005	21895 17.07.06	ग्राम व पो.आ. रायल्ली, सैक्टर-12-ए, पंचकुला।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

### भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

#### हरियाणा

#### भाग II यूनानी

के.पं.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
10097	अबुल गफ्फार खान मोह. सईद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	22004 07.11.06	ग्राम तिलडो, तहसील, तौरु, मुड़गांव।
10098	मोह. रफिक अहमद मुक्त खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2004	22031 30.01.07	अर्चना नर्सिंग होम, हाथिन, नुह मेवात।
10099	मोह. उसमान जवीर हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	21986 11.10.06	मोहल्ला घन्टाघर, करनाल।
10100	मोह. वाजिम अहमद कमरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2003	22014 04.12.06	ग्राम व पो.आ. असोती, तहसील पलवल, फरीदाबाद।
10101	नौमान खान अब्दुल	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2002	21854 16.06.06	ग्राम वाधूपुर, पो.आ. मलहद, तहसील हाथिन, फरीदाबाद।
10102	ताहिरा बेगम अख्तर हसन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदद, दिल्ली 1997	21967 06.09.06	म.नं. 659, सैक्टर-12-ए, पंचकुला।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

नई दिल्ली-110058, दिनांक 16 जुलाई 2008

सं. 20-4/2008-के.पं. (गुजरात)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो गुजरात राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में गुजरात राज्य रजिस्टर में 01 अप्रैल 2005 से 31 दिसम्बर 2006 तक क्रम संख्या 107744 आयुर्वेद एवं 12626 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 108191 आयुर्वेद एवं 12637 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल 2005 से 31 दिसम्बर 2006 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (गुजरात) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61—65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

भारतीय बिक्रित्सा केन्द्रीय पंजिका  
गुजरात प्रथम - आयुर्वेद  
भाग - प्रथम आयुर्वेद

के. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
107744	अमय कनाबार गिरीशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15389 01.11.06	युनाइटेड इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी भूतनाथ मन्दिर, लोहना, विद्यार्थी भवन, जूनागढ़
107745	अभिषेक त्रिपाठी जगबाली	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15391 01.11.06	ए- 11, पुशाविहार बंगला बी/एच अन्नापुरमा होटल जसोदा कास रोड अहमदाबाद
107746	अभिधुसेन इदारिया मोहम्मदहबीब	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15405 30.11.06	अमीना सरियात गली के सामने पानवाला मकान पोलोप्राऊड, गांव हिमंत नगर, जिला साबरकाण्ड।
107747	अजय त्रिवेदी	बी० ए० एम० एस० देवी अहिल्या वि० वि०, इन्दौर 2004	15262 30.06.06	1159. सुदामानगर के सामने गुरुद्वारा गांव व पोस्ट इन्दौर।
107748	अजय कुमार वानिया कांथाडमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15363 30.09.06	कल्याणनगर के सामने हाई स्कूल गांव व पोस्ट डूंगर तालुक, राजुला जिला, अमरेली।
107749	अजीतदान चरण अम्बादन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15157 29.10.05	9. शिव शक्ति सोसायटी, के पीछे न्यू कोर्ट महुआ रोड, तालुक महमदाबाद, जिला खेडा।
107750	अकबर पटेल सुलेमान भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15146 30.09.05	गांव वनकल, तालुक मांगरोल, जिला सूरत।
107751	एकीको तोकिनोबू ताकेयुकि	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15230 31.03.06	705-15. फुजिता, ओक्याम - शी ओक्यामा।

107752	अल्पाकुमारी पटेल रजनीकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15145 30.09.05	गांव. बनकल तालुक, मांगरोल, जिला सूरत।
107753	अल्पेश सोरथिया परागीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15283 31.08.06	हरी ओम राजारामनगर मैन रोड, बी/एच संत कबीर रोड राजकोट।
107754	अल्पेशमाई निमावत ज्यन्तिलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15193 31.01.06	गांव. जनगर, तालुक कुनकावय, जिला अमरेली।
107755	अलपेश कुमार साधु हर्षमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15048 31.05.05	गांव. वानपारदी, तालुक मंडल जिला, अहमदाबाद।
107756	अमी अमरुतिया सुरेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15295 31.08.06	रंजीत नगर, ब्लॉक नम्बर, सी- 2/251, जामनगर।
107757	अमी पांचाल महेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15220 31.03.06	3768, वेस्ट मैन गली, बाटावैन. एन वाइ, 14020. यू.एस.ए
107758	आमिरहुसैन घोघारी कुरबानहुसैन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1985	15229 31.03.06	बाहरपुरा, वोहरावाद, गांव डोरजी जिला राजकोट।
107759	अमित गोंडाला हेमतराम	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15291 31.08.06	मातरु समरुति, 3 नवल नगर, मावडी प्लाट, राजकोट।
107760	अमिताबेन पटेल नागिनमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15292 31.08.06	ब्लॉक नम्बर. 345/4, छ, टाइप, सैक्टर 28, गौधीनगर।
107761	अमिताबेन पटेल त्रिकम माई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15011 30.04.05	कुड़वालु फालियू, कमला गांव नडियाड जिला खेडा।

107762	अमित कुमार पटेल भाईलामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15033 30.04.05	43, आनन्दनगर सोसायटी, नगर बी के, सिनेमा विसनगर जिला मेहसाना।
107763	आनन्द माली पावाबा	बी० ए० एम० एस० नार्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगांव 2002	15021 30.04.05	18, सावली श्री शिवजी कालोनी ता नवापुर जिला, नंदुरबार।
107764	अनिताबेन पटेल रमेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15422 30.11.06	गांव: उगत (सर्वोदय) तालुक नवसारी जिला नवसारी।
107765	अनिताबेन सुथार महेन्द्रभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14995 30.04.05	गांव: लुनावाडा, डूंगरभीत, बी/एच तालुक रायफल मकान श्रीजी कृपा जिला. पंचमहल।
107766	अंजना शर्मा रणछोड भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14990 30.04.05	प्लॉट संख्या 401/1, सेक्टर 12, बी गंधीनगर।
107767	अंजुम खोखर अब्दुलवाहिद	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15153 29.10.05	प्लॉट नम्बर 488/11, मेहविश, समीप प्रभुदास तलाब चौक, भावनगर।
107768	अकिताबेन वाघेला अजीतसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15368 30.09.06	ए-37, राम कृष्णा कालोनी, समीप उत्तमनगर निकोल गाम रोड, अहमदाबाद।
107769	अंकुर मिश्रा दयानाथ	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15354 30.09.06	बी-5, श्याम दर्शन सोसायटी, नवा नरोडा पाशर्वनाथ टाऊनशीप अहमदाबाद।
107770	अनुजा सामन्त दिवाकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15259 30.06.06	3, पुष्काराज सोसाइटी वीर सावरकर मार्ग, समीप गोमांतक होटलगांव दोमबिवली ईस्ट थाने महाराष्ट्र
107771	आरतीबेन पटेल महेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15345 30.09.06	स्टेशनपुरा, बी/एच प्राइमरी स्कूल डा. कुकुरवाडा तालुक, वीजापुर, जिला मेहसाना, एन.जी

107772	अरुणबेन वारिया सरदुलमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15408 30.11.06	74/75, विशालनगर, 1, समीप हैल्थ सेन्टर कटारगाम रोड, सूरत
107773	आशा करकर किशोर भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15054 31.05.05	गांव व पोस्ट मोंटा अकांडिया, तालुक व जिला अमरेली।
107774	आशाबेन अग्रवाल सूरजमल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15045 31.05.05	3, न्यू कमलेश सोसायटी, समीप प्रजापति सोसायटी राजेन्द्र पार्क रोड, ओधव, अहमदाबाद।
107775	आशाबेन पटेल ईश्वरलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15037 31.05.05	योगेश्वर नगर, रावापार रोड मोरबी, जिला राजकोट।
107776	अस्मिता हीरपारा पुरुषोत्तमभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15316 30.09.06	4/एसरदार नगर सोसायटी, जयदीप भावडी प्लॉट, समीप पटेल बोर्डिंग राजकोट
107777	अस्मिताबेन गबानी गोधनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15083 30.06.05	सी- 49, राधेश्याम सोसायटी, सिंगनपूर कास रोड वेद, रोड सूरत।
107778	अवानिबहेन पटेल बिपिनचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14987 30.04.05	ए/एफ/2, जलविहार फ्लैट, के सामने राजमणी सोसायटी, टाइम्स ऑफ इंडिया पीआर सैटेलाइट, अहमदाबाद।
107779	अविनाश पाटिल मोहन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15184 31.12.05	गांव पुरुषोत्तमनगर, तालुक शाहजा जिला, नंदुबार महाराष्ट्र।
107780	अवनी परमार प्रतापभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15013 30.04.05	चन्द्रपार्क सोसायटी, ब्लॉक नम्बर 230, गली नम्बर 15 के सामने पारीजात पार्टी प्लाट, 150, फिट. सिंग रोड रोजकोट।
107781	बंकिम गंधी पंकजकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15108 30.07.05	21, श्रीनगर सोसायटी पार्क -द्वितीय, गोविन्द नगर गांव, दाहोद, जिला दाहोद

107782	भक्ति छाया मुलजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15257 30.06.06	आऊट साइड पुरवा दरवाजा ईस्ट गेट गांव द्वारका, जिला पोरबन्दर।
107783	भक्तिबेन भावसार पदमकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15111 30.07.05	ए-77, मानसनगर गांव, जादेश्वर जिला भरुच।
107784	भानुमति बेन डामी दशरथसिन्ह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15306 30.09.06	203/2, सेक्टर-4 ए' ओन जी रोड गंधीनगर।
107785	भारत पाटिल रमेश	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15168 30.11.05	द्वारा निर्मल डी. पटेल, गांव खोलवाड तालुक कामरेज, जिला सूरत
107786	भरतकुमार डलसानिया देवजी भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15135 31.08.05	गांव लखतार, तालुक जोडिया जिला जामनगर।
107787	भरतकुमार धोलारिया रंछोडभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15276 31.08.06	पटेल पार्क, पेदक रोड, समीप पारस टेडिंग, कम्पनी, राजकोट
107788	भरतकुमार करियानी मानुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15223 31.03.06	सामने जी.ई.बी. गांव. धासगाम, तालुक गधादा, जिला भावनगर।
107789	भरतकुमार मुंगरा अम्बाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14996 30.04.05	गांव धानेरा, गायत्री सोसायटी, थाराड रोड गली नम्बर 05 वार्ड नम्बर 1./634, तालुक धानेरा बनासकांठा।
107790	भरतकुमार प्रजापति मगनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15119 31.08.05	गांव. मेटराना तालुक. सिद्धापुर जिला. पाटन एन.जी।
107791	भारतीबेन उमरेतिया लामेन्द्र भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15041 31.05.05	6/बी. वल्लभ गली, सरदार नगर, निजामपुर बड़ोदा।



107792	भातरूषा पटेल विनोदचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15433 30.11.06	प्लाट. नम्बर 464/244. संगवाडी, कलाविभिद, भावनगर।
107793	भौमिक प्रजापति घनश्याममाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14975 30.04.05	13, जयश्री निवास विमल पार्क सोसायटी अरबूदानगर रोड ओधव, अहमदाबाद।
107794	भावना मिश्रा अरविन्द कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15299 31.08.06	सी.10, अनुशक्तिनगर, न्यू सामा रोड वडोदरा।
107795	भावनाबेन प्रजापति रमेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15425 30.11.06	गांव बाजीपुर, (कुम्हारवाद) तालुक वलोड जिला, सूत
107796	भावेशकुमार जोगी सनालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15201 28.02.06	समीप, वाटर. टैंक गांव व पोस्ट, मऊ तालुक व जिला मेहसाना।
107797	भावेशकुमार पटेल मोहनलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15182 31.12.05	गांव. रमोस (मोदसा), तालुक, धनसुरा, जिला साबरकाण।
107798	भावेशकुमार चौहान रमेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14973 30.04.05	8, इन्द्रजीत सोसायटी, सामने डायमण्ड मिल निकोल गाम रोड, ठावकरनगर अहमदाबाद।
107799	भावेशकुमार टगाडिया जिनामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15082 30.06.05	136, गंगा जमना सोसायटी, बी/एच जीवनधारा के सामने न्यू चोपाटी वराच्छा रोड सूत।
107800	भाविकाबेन पंचोली महेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15091 30.06.05	घरान्त, 12, सोमनाथ सोसायटी, बोडली 391135, जिला. बडोदा।
107801	भाविकाबेन पटेल घीरजलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15347 30.09.06	सी.15. ईला कालोनी इडिया, कालोनी अहमदाबाद।

107802	भाविक कुमार पटेल जशुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15019 30.04.05	251, नारायण नगर सोसायटी, गांव व पोस्ट बयाद जिला, साबरकांठा।
107803	भाविशाबहेन पटेल दशरथलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15348 30.09.06	158/1244, गुजरात हाऊसिंग बोर्ड, खोखरा, अहमदाबाद।
107804	मीका शिवाजी भामरे	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1988	15376 01.11.06	बाजार पेठ, गांव, पिम्पलनेर, तालुक सकरी धूले
107805	भूमि पटेल विष्णु भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15332 30.09.06	एफ-16, चम्यक नगर फ्लैट, के सामने स्वास्तिक स्कूल नावा वडाज, अहमदाबाद।
107806	भूमिका पटेल नरेन्द्रभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15125 31.08.05	बी/41, पाटरा टाइप, केवाडिया कालोनी, तालुक जिला नर्मदा।
107807	भूमिका प्रजापति महेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15016 30.04.05	प्लॉट नम्बर 240/1, सेक्टर ए, गाँधीनगर।
107808	भूपाल देशमुख त्रियम्बक	बी० ए० एम० एस० नागपुर वि० वि०, नागपुर 1984	15213 28.02.06	ब्रह्म गली, गांव पिम्पलनेर, तालुक, सकरी धुले, महाराष्ट्र।
107809	बीनाबेन वंश हाथीसिनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15311 30.09.06	गांव, अलीदार, तालुक कोडीनार जिला जूनागढ़।
107810	बिन्दु पंडोर पुनाजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15120 31.08.05	गांव, लिम्बा, तालुक विजयनगर जिला, साबरकांठा।
107811	बिनिता ताला वालाजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15081 30.06.05	203, रविकिरण अकशर नगर, के सामने समीप हैलथ सेन्टर कटारगाम रोड सूरत।

107812	बिरवा पटेल नरेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15340 30.09.06	12. प्रमेश सोसायटी. तुलसी राव हाऊस के सामने जोधपुरगाम, सैटेलाइट, अहमदाबाद।
107813	ब्रिजेशकुमार वंकार दहयाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15058 31.05.05	29. शान्तिनिकेतन सोसायटी. बी/एच आर्शीवाड मैरिज हॉल जुना बाजार, करजन जिला, बड़ोदा।
107814	चंचल गुप्ता सुन्दरलाल	बी० ए० एम० एस० महर्षि दयानन्द वि० वि०, रोहतक 1998	15436 30.11.06	10. जीवराजनगर सोसायटी, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, के सामने शाहीबाग, अहमदाबाद।
107815	चन्दनी पांथी रतिलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15160 30.11.05	नीलकंठ पार्क, आनन्द नगर. एम 16, राजकोट
107816	चन्द्रिका असोडारिया मनुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15080 30.06.05	28. आनन्दनगर सोसायटी. समीप पुर्वी सोसायटी हीराबाग, वराच्छा रोड, सूरत
107817	चन्द्रिका बेन पटेल अमृतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15043 31.05.05	बेचारपुरा, बी/एच, भागवती सोसायटी. तालुक पालनपुर, जिला. बनासकांठा।
107818	चन्द्रिका बेन पटेल दिनेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15010 30.04.04	28. चन्द्रलोक सोसायटी, लकी पार्क मोधेरा रोड, के समीप जिला. मेहसाना।
107819	चेतनकुमार ब्रह्मक्षतरिया	बी० ए० एम० एस० राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	15439 30.11.06	हिंडलाजनगर, नेनावा रोड, गांव धनेरा जिला बनासकांठा।
107820	चेतनाबेन कानानी हिम्मतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15274 31.08.06	समीप दरबारी चोरा, गाव हडियाना, तालुक जोडिया, जिला जामनगर।
107821	चिराग पटेल बंसीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15318 30.09.06	23. न्यू राजहंस सोसायटी, समीप नव निर्माण हाई स्कूल रानिप, अहमदाबाद।

107822	चिराग पटेल सतीशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15358 30.09.06	275/83, चम्पा निवास, समीप वरसोदानी चाली, रामनगर, साबरमती, अहमदाबाद।
107823	चिरांगमाई पटेल मेघजीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15065 31.05.05	115, करुषनानगर सोसायटी, कोज वे रोड समीप सिंगनपर चाररास्ता, सूरत
107824	दर्शनबेन वाघेला नाथमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15349 30.09.06	ई-275, मनीषा पार्क, अम्बिकानगर, ओधव रोड अहमदाबाद।
107825	दर्शनबेन जोशी योगेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15090 30.06.05	दत्त, कृपा, दरबार रोड, बी/एच लाइब्रेरी शुक्ल शेरी राजपिपला, तालुक नर्मदा।
107826	दर्शनकुमार परमार किशोर भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15335 30.09.06	जिवाडी पारा, गांव खाम्बा जिला, अमरेली।
107827	दक्षा पारिख हसमुखमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15124 31.08.05	ए/18 अक्छपुरी टेनामेंट, समीप तपोभूमि सोसायटी, पार्ट-1, ईसानपुर, अहमदाबाद।
107828	दक्षेश पटेल कानामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15117 31.08.05	ए-15, संगथ 1.2, मोटेरा स्टेडियम रोड साबरमती, अहमदाबाद।
107829	दीपक मोदी नटवरलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15378 01.11.06	एन.आर. पार्क, गांव न्यू दीसा, जिला, बनासकांठा।
107830	देवामाई पटेल अमरामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14974 30.04.05	गांव, सलीमगढ़, तालुक कामरेज जिला, बनासकांठा। पोस्ट, तेरवाड।
107831	देवांग पटेल मुकेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15047 31.05.06	ब्लाक नम्बर, डी.11- बी/एच गोकुलनगर, जुनागढ़।

107832	देवेन्द्र पाटिल रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 1998	15096 30.06.05	14, सोनल राव हाऊस के सामने एल.पी. स्वावनी स्कूल हनी पार्क सामने चोक पाल, सूरत।
107833	देवेन्द्रसिंह राठौड अलुमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15197 31.01.06	पट. गली. गांव बरवाला (घ) तालुक बरवाला जिला अहमदाबाद।
107834	धारा मेथा कौशिक कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15333 30.09.06	डी-1, सिमनधार कम्पलेक्स रान्ना पार्क घाटलोडिया, अहमदाबाद।
107835	धारिनी बुच अशोकभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15281 31.08.06	जी.7/2085, रंजीत नगर, जामनगर
107836	धर्मनन्द कुमार वधाडिया अम्बाराम	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15419 30.11.06	89, एवेन्युपार्क सोसायटी, रावपर रोड़ गांव. मोर्बी, जिला. राजकोट
107837	धर्मिशाबेन रमानी धानजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15057 31.05.05	19, नेशर्नल पार्क सोसायटी के सामने. सरथाना ओकडराय नाका, तालुक चोरयासी, जिला, सूरत
107838	धवल त्रिवेदी जितेन्द्र कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15204 28.02.06	ओम. 21. स्टेशन प्लाट. समीप रेलवे स्टेशन, गांव गोन्डाल, जिला राजकोट
107839	धवलबेन कलवाडिया शान्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15271 31.08.06	बी/1, रायल पार्क, समीप फिटर प्लॉट, कोलकी रोड़, गांव. उपलेटा, जिला राजकोट।
107840	धरुतिबेन गोंधी रासिक भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14980 30.04.05	समीप गांधी सदन, स्टेशन रोड़ बिलिमोरा, 396321, जिला नवसारी
107841	धवानी रामी दिलीपकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15336 30.09.06	18, सामेशिखर सोसायटी, शान्तीवन नारायणनगर रोड़, पालडी, अहमदाबाद।

107842	दिग्विजयशिन्धु रावल प्रभातसिन्धु	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15012 30.04.05	देवडा वास, समीप अभयसिंग माध, एस.टी. रोड तालुक मंसा जिला, गोंधीनगर।
107843	दिलीपकुमार पर्वतनी प्रवीनचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15236 31.03.06	प्लाट. नम्बर.742/2, जगरूति पार्क सोसायटी, सेक्टर 30, गोंधीनगर।
107844	दिलीपकुमार प्रजापति कान्तीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15110 30.07.05	गांव. मंढाली. तालुक दन्ता, जिला बनासकांठा।
107845	डिम्पल पांडया प्रतापराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15297 31.08.06	डी. 1/5, बेशेवर सरकारी कालोनी, बलसुरा रोड, जामनगर
107846	दिनेश पाटिल नारोत्तम	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2003	15104 30.06.05	4, डाक्टर हाऊस तृतीय मजिल, केडीएच गोहली हाऊस, नवसारी।
107847	दिनेश पाटिल पुरुषोत्तम	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15165 30.11.06	द्वारा निर्मल डी. पटेल, गांव खोलावाड तालुक कामरेज, जिला सूत
107848	दिनेश पाटिल उददव	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15166 30.11.05	घनवन्तरी क्लीनिक, दर्शन नगर, मोवी रोड नेतरांग, तालुक वालिया, जिला भरुच
107849	दिनेश भाई राय सावजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15428 30.11.06	63, आरासुरी सोसायटी, के सामने विवेक मोटर, चांसमा हाइवे रोड गांव. पाटन, जिला पाटन।
107850	दिनेशकुमार बलदानिया खोडामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15237 31.03.06	गांव. बोरडी, तालुक महुआ, जिला भावनगर।
107851	दिनेशकुमार गज्जर भगवानभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15196 31.01.06	4, शरयास सोसायटी, गांव. भामार, जिला. बनासकांठा।

107852	दिनेशकुमार प्रजापति हरिमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15109 30.07.05	43, अयोध्यानगर, समीप काकोशी रेलवे कासिंग गांव, सिद्धपुर, जिला पाटन।
107853	दिनकरमाई सोलंकी उत्तममाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15161 30.11.05	अम्बिका चोक, तालुकपालनपुर जिला, बनासकांठा।
107854	दीपाकुमार डारजी मनसुखमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15092 30.06.05	68, मेघधानुस सोसायटी, समीप ट्यूब कम्पनी ओल्ड पादरा रोड राजपथ सोसायटी, बड़ोदा।
107855	दीपककुमार इनाथ उजामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15426 30.11.06	गांव मदन(गढ), तालुक पालनपुर, जिला, बनासकांठा।
107856	दिपाल शाह दिनेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15084 30.06.05	महावीर डेटल केयर, जे बी. कम्पलेक्स गॉंधी चौक तालुक पेतलाद जिला आनन्द।
107857	दीपाली रोज पंकजकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15248 31.05.08	3, अमरदीप सोसासटी, समीप, पंकज सोसायटी चाकलिया रोड गांव दहोद, जिला, दहोद
107858	दीपामकुमार त्रिपाठी हरीशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15323 30.09.06	10, हरिहरआनन्द टेनामेंट, के सामने राजवाडु होटल मालव तालव, जीवाराज, पार्क, अहमदाबाद।
107859	दिपेन ठाकर अशोककुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15346 30.09.06	महाजन वादौ मण्डी बाजार, के सामने गोविन्द माधव मंदिर, गांव सिद्धपुर, जिला पाटन।
107860	दीप्ति जोगिया हरिताल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15279 31.08.06	संघ्या के सामने परनामी स्कूल हिरजी मिस्त्री रोड, जामनगर।
107861	दीप्ति राजवीर विनोदकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15289 31.08.06	आशीवाद ब्लॉक नम्बर 56, सदगुरु पार्क 150, फीट न्यू रिंग रोड राजकोट

107862	दीप्तिबेन स्हेता मनुमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15416 30.11.06	34/ए. पुर्वी सोसायटी, हीराबाग, वराष्ठा रोड सूरत।
107863	दिव्या पटेल जयन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15142 30.09.05	ए/2, जिला, पंचायत ऑफिसर क्वार्टर के सामने डीडीओ बंगला, तिथाल रोड वलसाद।
107864	दनयानेश्वर पवार दिनेश	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 1997	15303 31.08.06	गाँव. सुथारडाडा, पोस्ट बारपुडा तालुक, कादादा, जिला, वलसाद।
107865	फलगुनीबेन चौहान चिमनमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15240 31.03.06	बी/45, जालाराम सोसायटी. समीप टयूब कम्पनी ओल्ड पादारा रोड अकोटा, बड़ोदा।
107866	फरहानबेन शेरसिया अहमदमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15141 30.09.05	सामने. एसकेएम. हाई स्कूल, अमनपार्क गाँव व पोस्ट कनोदार, तालुक पालनपुर, जिला बी.के.
107867	फातेमा मुंशी सब्बीरमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1999	15018 30.04.05	यूसुफ मंजिल" बाहरपुरा, वारावाद धोराजी 360410, ओल्ड राजकोट
107868	गणेश पाड़वी कृष्णा	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15100 30.06.05	72, दत्त कालोनी, तालुक व जिला नंदुरबार।
107869	गणेश पाटिल यशवन्त	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15098 30.06.05	टेकरा फलिया मन्दिर, पोस्ट वेदया, तालुक जलालपुर, जिला, नवसारी।
107870	गोपी जादव हरिमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15287 31.08.07	प्लॉट नम्बर. 1223/2, सेक्टर 3ए. गौधीनगर।
107871	गुंजन मेहता मनीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15074 30.06.05	गाँव. व पोस्ट कपड़वज, डी 163, सोमनाथ सोसायटी, नाना रतनाकर माता रोड, जिला. खेडा।



107872	हरदिककुमार भट्ट किरणकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14985 30.04.05	ए-161, राधास्वामी राव हाऊस समीप घाणक्यपुरी घाटलोडिया, अहमदाबाद।
107873	हरीशगिरि बटुकगिरी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15235 31.03.06	डी. 9/65, हिल ड्राइव, सरकारी क्वॉटर वाघवाडी रोड़ समीप, सर्किट हाऊस गांव भावनगर।
107874	हर्षबेन सुदानी रमेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15163 30.11.05	15/बी. सपना सोसायटी, समीप अमय नगर हीराबाग, वराच्छा रोड़, सूरत
107875	हरशद कुमार मोर दहयालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15095 30.06.05	गांव. चितल सरानिया गली, हरानी शरी, समीप पटेल वाडी, जिला. व तालुक चितल।
107876	हरशदकुमार पटेल गोविन्दभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15325 30.09.06	अहजोलिया गली, गांव. लखतार जिला. सुन्दरनगर।
107877	हरशल भट्ट शिरिश भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15044 31.08.06	ब्लॉक नम्बर. 137/10. बी-1, टाइप, सेक्टर 23, गौधीनगर।
107878	हर्षकुमार पटेल किशोरचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15088 31.05.05	15, कर्मचारी नगर, अबु रोड़ हाइवे हनुमान टेकरी पालनपुर, जिला. बनासकांठा।
107879	हसमुख बराया बाधाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15194 31.01.06	मुनी डेरी, बी/एच. पटेल प्लाट, नम्बर 899-ए, एयर पोर्ट रोड़ गांव. भावनगर।
107880	हसमुखभाई प्रजापति रमनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15359 30.09.06	गांव नावा रेवास तालुक, इंदार, जिला, साबरकांठा।
107881	हसुभाई पटेल वनाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15006 30.04.05	गांव. पलादी तालुक. दियोदार जिला. बनासकांठा।

107882	हीनाबेन पावसिया जेरामभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15178 30.11.05	प्लॉट संख्या 395/ए, गली नम्बर 04, विजयराजनगर भावनगर।
107883	हेमाली टेलर नरेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14983 30.04.05	नम्बर 01, हीरा पन्ना अपार्टमेंट, कैलाशनगर सूरत।
107884	हेमकान्त चौधरी मोहन	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 1998	15304 31.08.06	गाँव. बोंमखेडा, तालुक शाहदा जिला, नन्दुरबार।
107885	हेमलता बेन राठौड जगदीशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1999	15183 31.12.05	ए-101, सगुन कैसल, नगर सेटेलाइट पार्क, सेटेलाइट, अहमदाबाद।
107886	हेमल मिस्त्री जितेन्द्रभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15407 30.11.06	शान्तीनगर 17, सुरजपार्क सोसायटी, सुमानपुरा, बड़ोदा।
107887	हेतल निर्मल नानीतराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15002 30.04.05	68, सुरभाई राव हाऊस, बी/एच एल.पी. सवानी स्कूल हनी पार्क रोड पालनपुर जकातनाका, सूरत।
107888	हेतल ठाकुर शैलेशसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15069 31.05.05	ए-1, शिवदर्शन अपार्टमेंट, समीप जैन डेरासर न्यू कालोनी, जीआईडीसी, अकलेश्वर, जिला, भरुच।
107889	हेतलबाहेन प्रजापति नरसिंहभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14986 30.04.05	2, चित्राकुट, अपार्टमेंट, समीप वस्त्रापुर रेलवे स्टेशन वेजलपुर, अहमदाबाद।
107890	हेतलबेन चौहान विक्रमसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15411 30.11.06	क्वॉटर नम्बर 3, 57/3, जीएसईसीएल, कालोनी उब्लूटीपीएस, तालुक थासरा, जिला खेड़ा।
107891	हेतलबेन हुड्डा हसमुखभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2001	15077 30.06.05	गाँव. पाटन, 10, वनराज सोसायटी, रेलवे स्टेशन के सामने

107892	हेतलबेन कुबावत जुगलकिशोर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15414 30.11.06	गांव, चितल तालुक अमरेली, जिला अमरेली।
107893	हिमतलाल कलसरिया कनुमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14979 30.04.05	खोडियार नगर 1, गांव, भादरोद, तालुक महुवा जिला भावनगर।
107894	हिम्मत राय वालवी अर्जुनसिंह	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15097 30.06.05	गांव जिरी, पोस्ट, नलगावहन तालुक तलोद, जिला नन्दुरबार महाराष्ट्र।
107895	हिनाबेन पटेल ज्यन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15393 01.11.06	28, विवेकानन्द सोसायटी, देहगोम रोड गांव, बायेद, साबरकांठा
107896	हिनालबेन व्यास कन्हैयालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15352 30.09.06	सी-3/51, वस्त्रापुर शासकीय कालोनी, गुरुकुल ड्राइव इन रोड, अहमदाबाद।
107897	हिराल माध धीरजलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15384 01.01.06	10, मीं गोगा पार्क सोसायटी, जागना, रोड, सामने वाटर टैंक गांव, पालनपुर, बनासकांठा।
107898	हिरन जागी चन्द्रकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15232 31.03.06	प्रमु कमल, 6, राधा कृष्णनगर गांव, गोन्डाल, राजकोट
107899	हिरनकुमार वैष्णव ज्यन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15338 30.09.06	श्री दातार कृपा, सासन रोड गांव, मेडारडा जिला, जुनागढ़
107900	हितेन्द्र पाटिल खुशाल	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15216 28.02.06	गाव कोठा वाया, अमलसाद तालुक, गनदेवी, जिला नवसारी।
107901	हितीशा वासवा तुकराममाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15064 31.05.05	ए/4, चित्रकूट सोसायटी 2, जादेश्वर रोड मकतामपुर, मरुच।

107902	इलाबेन चावडा जसवंतसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14999 30.04.05	गाव जय सोमनाथ सोसायटी, समीप जीईबी. वसाई (डाबला) तालुक, विजा जिला, मेहसाना।
107903	इन्द्रजीत चरण बेदीदानजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15365 30.09.06	जी.एच बोर्ड, 2227/397, शिवशक्तिनगर चन्दखेडा गोंधीनगर।
107904	ईश्वरमाई भयानी भगवानमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15055 31.05.05	105, श्री. शक्ति अपार्टमेंट, कमल पार्क सोसायटी 2, वराच्छा रोड कपोदरा, सूरत।
107905	इवाबेन सुथार कान्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15004 30.04.05	5, सत्यम सोसायटी, बालाहनुमान रोड गांव लोदरा, तालुक मंसा जिला, गोंधीनगर।
107906	जगदीश पटेल शंकर	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 1986	15169 30.11.05	गुज. हाऊस, बो. कानपुरा, गांव. वगारा, जिला सूरत।
107907	जागरूता मकवाना हनुमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14984 30.04.05	42/ए. कृष्णा बाग सोसायटी, तालुक धांधुका जिला, अहमदाबाद।
107908	जागरूति प्रजापति हसमुखमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15001 30.04.05	प्लॉट नम्बर. 136/1, सेक्टर 3/ए गोंधीनगर।
107909	जशुमाई उनवा ज्यन्तीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15225 31.03.06	जालाराम सोसायटी, जेसर रोड, गांव. सावरकुंडला, जिला. अमरेली।
107910	जसमिताबहेन पटेल महेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14994 30.04.05	बी.9, नवदीप फ्लैट, भीमाजीपुरा, सामने जानकी मंदन सोसायटी नवावदाज अहमदाबाद।
107911	जवनिकाबाहेन परमार दहयामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15068 31.05.05	भादरन समीप, पशु अस्पताल तालुक, बोरसाद. जिला, आनन्द।

107912	जय कथारिया हसमुखभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14991 30.04.05	270, प्रेमचन्दनगर, न्यायधीश बंगला रोड सैटलाइट अहमदाबाद।
107913	जयाश्री अहीर चन्दुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15362 30.09.06	डी-90, जयश्री टेनामेंट पार्ट -1, राजेन्द्रपार्क अरबुदानगर रोड, ओधव, अहमदाबाद।
107914	जयशुक्लभाई दयानी विठ्ठलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15427 30.11.06	27/2, वंदना सोसायटी, नाना वराच्छा रोड, सूरत
107915	जयदेव किलजी बटुकराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15128 31.08.05	पोस्ट व टेलीफोन कालोनी, ब्लॉक सी-2, राजेन्द्रमवन रोड, गांव वेरावल।
107916	जयदीपसिंह जडेजा प्रवीनसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15396 30.11.06	समीप पेट्रोल पम्प, सिनेमा रोड गांव. कलावाड शीतला तालुक, कलावाड, जिला, जामनगर।
107917	जयेश गाम्तेरी रमेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15180 30.11.05	वाया. दामोर, गांव बिलाडिया तालुक, विजयनगर जिला. साबरकांठा।
107918	जयेशकुमार श्रीमाली सतीशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15126 31.08.05	डी. 163, सोमनाथ सोसायटी, नाना रतनाकर माता रोड, गांव. व पोस्ट कपड़वज, जिला खेडा।
107919	जयप्रकाश वाघ भीला	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15103 30.06.05	58, खोडियारनगर, नवागाम, खिडोली रोड ऊधना, तालुक चोरयासी, जिला, सूरत
107920	जयश्री शर्मा रामकिशन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15321 30.09.06	9, अधिकार सोसायटी, पार्ट प. डी- केबिन साबरमती, अहमदाबाद।
107921	जयश्री उदानी दिनकरराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15293 31.08.06	72/बी. गौशाला कम्पाउंड, पंचवटी जामनगर।

107922	जयश्रीबेन पटेल चन्दुलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15386 01.01.06	अर्चना अस्पताल खानचो, समीप पोस्ट आफिस तालुक लुनावाडा जिला, पंचमहल।
107923	जयश्रीबेन सोडावाडिया कालूमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15290 31.08.06	माधव ज्वैलर जी.21, साहजानन्द मार्केट स्टेशन रोड अमरेली।
107924	जिगरकुमार पटेल कान्तीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15116 31.08.05	गांव. शिवपुराकमपा, पोस्ट शिनोत, तालुक, धनसुरा, साबरकांटा।
107925	जिगिशा बेन पटेल दहयामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15000 30.04.05	125, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी, पानवाडी गांव चिखालडा, तालुक, व्यारा, सूरत
107926	जिगना चौहान दिलीपकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15430 30.11.06	गांव. वाघेल, तालुक, अहवा, जिला डांग।
107927	जिगनाबाहेन दबे भार्गवरुशी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15300 31.08.06	श्री गणेश भवन चौतायुक गांव लुनावाडा, जिला, पंचमहल।
107928	जिगनाबेन चावड़ा भरतसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15356 30.09.06	बी.375, निसितपार्क, आदीनाथानगर ओधव अहमदाबाद।
107929	जिगनाबेन शाह सुरेन्द्रमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15298 31.08.06	बी. वरुदावन टाऊनशिप, हामी रोड के सामने नागेश्वर महादेव, मंदिर बड़ोदा।
107930	जिगनाकुमारी पटेल मोहनलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15030 30.04.05	पार्ट 4(402), असोपालव कम्प्लेक्स, छारवाडा रोड गांव. वापी तालुक प्रादी, जिला वलसाद।
107931	जिगनासा मकाडिया सूर्याकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15284 31.08.06	कृष्णा कृष्णानगर सोसायटी, गांव. भायावादार तालुक उपलेटा, जिला. राजकोट

107932	जिगनासा पटेल डाबूमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15143 30.09.05	आनन्द मारुति करूपा के सामने प्रजापतिवाडी गांव विजलपुर तालुक जलालपुर जिला, नवसारी
107933	जिगनाशा नाकुम सुधीरकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15113 31.08.05	ब्रजमूमि श्याम पार्क के सामने मोतीबाग, राधा करुणानगर ए. जोन मैन रोड गांव. जूनागढ़
107934	जिगनेशकुमार बोरसानिया देवकरुष्णा	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15226 31.03.06	कुबेरनगर 3, नवलखी रोड गांव. मोरबी जिला. राजकोट
107935	जितेन्द्र पाटिल लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2004	15167 30.11.05	फ्लैट नम्बर 1, पूनम पार्क अजीतनगर, समीप मोहित टावर, चाला, तालुक वापी, जिला वलसाद
107936	जितेन्द्र पाटिल सुदाम	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2004	15260 30.06.06	रूम नम्बर. 671, गुजरात हाऊसिंग बोर्ड जालाराम नगर समीप वाटर टैंक, पनडेसरा, सूरत
107937	जितेन्द्र कुमार पारेख नवनीतमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15224 31.03.06	प्लाट नम्बर. 303, हरीनगर 2, सामने राधेश्याम अपार्टमेंट गांव उधाना, जिला सूरत
107938	जितेश पटेल राममाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14998 30.04.05	2, श्रीजी प्रकाश सोसायटी, के सामने मधुवन फ्लैट अमरईवाडी, अहमदाबाद।
107939	ज्योति डोलकिया रमेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15035 31.05.05	शान्तीनगर -2, बी/एच, कालेज, जूनागढ़ रोड, जेतपुर, राजकोट
107940	ज्योतिबेन मुलानी चुनीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15431 30.11.06	79, पुष्पक सांसोयटी, बी/एच, धर्मनगर ए. के रोड सूरत।
107941	ज्योतसना ताडवी नरसिंहमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15265 31.07.06	जीवन दीप सोसायटी 2, बी/एच आई. टी.आई. कालेज जालोद रोड, तालुक दाहोद जिला दाहोद।

107942	काजल खाडाडिया मधुकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15280 31.08.06	श्री दर्शन पंचवटी पार्क सोसायटी महोवा रोड़ गांव. सावरकुंडला, जिला. अमरेली।
107943	काजल तान्ती धीरजलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15296 31.08.06	भारत जय पार्क 1, समीप प्राणकुटीर सोसायटी नाना महुवा मेन रोड़ राजकोट
107944	काजलबेन वघेला लावजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15394 01.01.06	डी. एम.2, लाखुमाई हाल, कलियाविद श्री मरुति मोटर, भावनगर।
107945	कालीबीन संतोकी हरीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15273 31.08.06	द्वारा 108, ब्लॉक नम्बर.8/44, सरकारी क्वॉटर युनिवर्सिटी रोड़ जिला, राजकोट
107946	कमलमणी जोशी हनुमानप्रसाद	बी० ए० एम० एस० राजस्थान वि० वि०, जयपुर 1997	15071 31.05.05	शरुति अस्पताल कीम कास रोड़ तालुक, संगरोल, जिला, सूत
107947	कामिना पटेल दशरथभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14993 30.04.05	ए/301, हरविला, अपार्टमेंट, सामने कारगिल पेट्रोल पम्प, सरखेज हाइवे, अहमदाबाद।
107948	करुणाबेन अमीना हीराभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15075 30.06.05	649/4203.जी.एच.बी/एच.137, बस स्टैंड न्यू बापूनगर, अहमदाबाद।
107949	कश्मीरा वैष्णव हरकिशनदास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15199 28.02.06	श्री माधव करुणा श्री नाथजी सोसायटी, तिम्बावाडी, जूनागढ़
107950	कासिम रंगीला अय्यूब	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15254 31.05.06	गांव.बोधान, तालुक मनदेवी जिला, सूत
107951	कौशल वैद्य आशुतोषभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15066 31.05.05	ओमकाराम, बाजार गली, तालुक गनदेवी जिला नवसारी।



107952	कविता ठक्कर जयसिंहभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15270 31.08.06	3, घनश्याम नगर, सवासर गेट, गांव. अन्जर जिला, कच्छ।
107953	केतनकुमार पटेल नरसिंहभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15221 31.03.06	30/बी. गोर्धन पार्क के सामने बरोडा एक्सप्रेसवेज हाइवे, अमराईवाडी, अहमदाबाद।
107954	खोडीदास शुक्ला हिम्मतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15130 31.08.05	आजाद चोक, बी/एच केशवधाम, गणेश नगर सावरकुंडला
107955	ख्याति जेटवानी ठाकुरदास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15330 30.09.06	मंथन द्वारकेश पार्क, समीप गुरुप्रसाद सोसायटी, दोषी अस्पताल रोड, राजकोट
107956	ख्याति संतवानी मनोहर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15202 28.02.06	सी -3 मेडिकल कैम्पस, जामनगर।
107957	ख्याति शाह सुरेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15351 30.09.06	ए.205, परमेश्वर ऐवन्यु के सामने नूतन नागरिक बैंक शान्तीवन, पालडी, अहमदाबाद।
107958	ख्यातिबेन राघवानी मीमजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15329 30.09.06	शीतल वल्लभनगर, समीप गायत्री स्कूल वनथाली रोड टिम्बावाड़ी, जुनागढ़
107959	किन्नारी टांक मगनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15219 31.03.06	21, अरविद सोसायटी, दालमिल्ल के सामने गांव. सुरेन्द्रनगर, जिला. सुरेन्द्रनगर।
107960	किरणबेन प्रजापति सतीशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15361 30.09.06	गांव.कानपुर, तालुक इदार जिला. साबरकांठा।
107961	किरणकुमार भालाखिया सुरेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15028 30.04.05	गांव पालनपुर, आऊट साइड मीरा गेट, समीप सोन पति हनुमान मंदिर, बनासकांठा।

107962	कीर्तिप्रसाद चोठानी पंचामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15179 30.11.05	वाया. सरसाई गांव. डादर गीर तालुक, विसावाडर, जिला, जुनागढ़
107963	कोमलकुमारी मोदी मुकेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15319 30.09.06	4. पंचदेव सोसायटी, समीप शुथारवादी, विश्वकर्मा नगर, गांव. हिममतनगर, साबरकांठा
107964	कृष्णाबेन गाधवी प्रकाशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14981 30.04.05	सी. 55, पायल नगर नारोडा अहमदाबाद।
107965	करुनाल अग्रावत कीर्ति भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15218 31.03.06	14, गायत्री सोसायटी, बातरवाड गांव. व पोस्ट, अमरेली जिला, अमरेली
107966	करुनाल पाटनवाला मोतीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15342 30.09.06	36, सामर्थ जुप्लेक्स राव हाऊस, नगर पालिका बी/एच, चन्द्रखेडा बस स्टैंड अहमदाबाद।
107967	करुणाबेन चौहान विक्रमसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15089 30.06.05	वानकबोरी, थरमल पावर स्टेशन, सामने ई.बी. कालोनी क्वॉटर नम्बर प्. 57/3, तालुक थासरा, खेडा
107968	कुन्दनबेन गेडिया बालूभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15350 30.09.06	19, जय बजरंग सोसायटी, बी/एच शास्त्री स्टेडियम बापूनगर, अहमदाबाद।
107969	कुरेशी मुस्लिम	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2003	15252 31.05.06	गां. खरोद, तालुक अंकलेश्वर, जिला, मरुच।
107970	कुर्वी पटेल कौशिक भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15239 31.03.06	सरस्वती सोसायटी, बी/एच वर्धमान सोसायटी मोरबी, जिला राजकोट
107971	कुरयान्तपुरी गोस्वामी महेन्द्रपुरी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15093 30.06.05	गांव. व पोस्ट गमबोई, शिवम अस्पताल तालुक हिममतनगर जिला, एस. के.

107972	कविनजलबेन पनेरिया जेरामभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15409 30.11.06	जय जोधलनगर, गांव कडरामा, तालुक, ओलापाड जिला, सूरत
107973	लताबेन बराड राम भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15228 31.03.06	सामने कोडिनार वैरावल हाइवे गांव, कोडिनार जिला, जुनागढ़।
107974	लताबेन सोलंकी बिजलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15063 31.05.05	प्लाट नम्बर 220/2, सैक्टर, नम्बर 5ए, गौधीनगर।
107975	लीना चौधरी विश्वनाथ	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15267 31.07.06	8, सिदिवास, समीप जीसीईटी इजीनियर कालेज बकरोल रोड वी.वी. समीप गांव, आनन्द, जिला आनन्द
107976	लीना सुथार नरेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15031 30.04.05	33, मेहसाना नगर सोसायटी, राधनपुर रोड तालुक, जिला, मेहसाना।
107977	लोपा देशनी सुरेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15133 31.08.05	विरमानी 19, बी के सामने बौदिन कालेज, कल्याणनगर सोसायटी, जुनागढ़
107978	माधवी पटेल जीवराजभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15357 30.09.06	बी.35, अमृतपार्क सोसायटी, समीप, सत्यम स्कूल, निकोल नरोड, रोडा अहमदाबाद।
107979	माधवी रंकाजा प्राणजीवनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15302 31.08.06	ए-2, बहुधर निवास, बी/एचरूबी कमपेलक्स, सन्तादेवी रोड नवसारी
107980	माधवी संकारिया पोपटलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15046 31.05.05	धर्मजीवन, शारदा सासोयटी, समीप बस स्टैण्ड, जुनागढ़
107981	महाश्रुति निम्बारक हसमुखभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15162 30.11.05	महाश्रुति क्लीनिक, पुर्णिमा शरी, समीप चोक गौधी चोक, गांव व तालुक खाम्बा, जिला अमरेली।

107982	महेन्द्रपाटिल जगननाथ	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15214 28.02.06	17, योगेश्वर प्रसाद श्री कृष्णा कालोनी गांव. शाहदा, नन्दुरबार।
107983	महेशचन्द्र पटेल सोमा भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15309 30.09.06	गांव. वेराइया, तालुक खानपुर, जिला पंचमहल।
107984	महेशकुमार प्रजापति अश्रुतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15134 31.08.05	बी-23, तिरुपति टाऊनशीप पालनपुर, दिस्सा हाइवे पालनपुर जिला. बनासकांठा।
107985	महेशकुमार परमार बाबूलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14997 30.04.05	ब्लॉक नम्बर.597/12, श्रेणी .3, सेक्टर 03, गोंधीनगर।
107986	महेशकुमार राठौड रमेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15537 30.09.06	अक्सर कुज राज टेनामैट, बी/एच, गुमुना वादी, जनजारादा रोड जुनागढ़
107987	महेशकुमार ठाकर फरसुराम	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15195 31.04.06	5, मेहुल पार्क फ्लैट, नजदीक स्वास्तिक हाई स्कूल दिल्ली हाइवे रोड गांव.पालनपुर बनासकांठा।
107988	महम्मदरऊफ मेमन अब्दुल कादर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15314 30.09.06	अल्कापुरी चार रास्ता, पोली ग्राऊड गांव. हिम्मतनगर, साबरकांठा।
107989	मालतीबेन दवे महेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15334 30.09.06	16/3, च, टाइप सेक्टर 7, गोंधीनगर।
107990	समताबेन शेरडिवाला दिलीपकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15424 30.01.06	36/37, ईश्वरामनगर सोसायटी, समीप भट्टर चार रास्ता, यू.एम.रोड सूत।
107991	मनहरमाई प्रजापति मगनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15355 30.09.06	38, मारुतीनगर, महावीरनगर, गांव. हिम्मतनगर साबरकांठा।

107992	मनीष शाह महेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14976 30.04.05	13. महावीरधाम, मनपाडा रोड़ वाडी दोम्बीवली, ईस्ट 421201, जिला, थाने महाराष्ट्र
107993	मनीषा कश्यप	बी० ए० एम० एस० अमरावती वि० वि०, अमरावती 1992	15377 01.11.06	1. एल. आई. सी. सोसायटी, टैगोर, मार्ग राजकोट।
107994	मनिषाबेन कनजारिया नथालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15326 30.09.06	श्रीजी करुपा, जुनागढ़ रोड़ समीप नहर के समीप सामने कृष्णानगर, गांव. जेटपुर जिला, राजकोट।
107995	मनीषकुमार शर्मा दिनेश कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15222 31.03.06	14/320, गुजरात हाऊस. बोर्ड कालोनी, मेघानीनगर अहमदाबाद।
107996	मनीषकुमार वोरा धीरजलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15417 30.11.06	304/एफ, सुखसागर अपार्टमेंट के समीप क्षमा सोसायटी धर्मनगर रोड़ बराच्छा, सूरत
107997	मनोजकुमार पटेल रंछोडमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15050 31.05.05	गांव व पोस्ट मोती शिहोली, केशव फार्म, तालुक व जिला, गोंधीनगर।
107998	मनसी शेट राजेंद्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15059 31.05.05	गांव. अहोद, खडियाटावाड, देसाईवाड, जिला दहोद।
107999	मनुमाई लडुमोर भीखामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15372 01.11.06	गांव. डूगर, तालुक, राजुला जिला अमरेली।
108000	मयूरी गुर्जर प्रेमजीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15094 30.06.05	प्लॉट नम्बर 259/4, सैक्टर 22, गोंधीनगर।
108001	मयूरिका अघेरा रमणीकलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15373 01.11.06	"मागवती" विजयनगर 2, बी.एच. अम्बावाडी जोशीपुरा, जुनागढ़

108002	मयूरकुमार रावल भानुशंकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14988 30.04.05	गांव. ईश्वारिया तालुक कुटीयाना जिला. पोरबन्दर
108003	मीना पुरोहित	बी० ए० एम० एस० जीवाजी वि० वि०, ग्वालियर 1994	15190 31.01.06	5. सूर्या दर्शन सोसायटी, बी/एच तुलसीधाम जादेश्वर रोड़ गांव. मरूच ,
108004	मीनाबेन प्रजापति भरतकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15421 30.11.06	द्वितीय पलोर, हिरल शॉप सेंटर के सामने, विजय क्रापोटिव बैंक के समीप रामनगर बस स्टाप, साबरमती अहमदाबाद ।
108005	मीनाल पटेल श्रीरीष	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15253 31.05.06	द्वारा जोतिन्द्रकुमार देसाई, सी/2, स्वास्तिक नगर गांव, चालठान तालुक पलसाना, जिला सूरत ।
108006	मीटा कोली मनहरमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15086 30.06.05	गांव. पोस्ट कालारानी, पावी जेटपुर जिला, बड़ौदा।
108007	मीटाबेन चौहान रशिकलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15150 29.10.05	प्लॉट नम्बर 115/बी, हरीराम नगर -1, अजयवाडी सुभाष नगर, भावनगर।
108008	मेघा पाठक. जगदीशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15278 31.08.06	3. आदर्श सोसायटी, बी/ एच खोडियार मंदिर ऐरोडरोमें रोड़ जामनगर
108009	मेहुल जोशी हरीश	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15353 30.09.06	पोकर सेरी गांव लुडवा , तालुक मण्डवी , जिला कच्छ ।
108010	मिलोनी पटेल महेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15025 30.04.05	आर. बी/8, मारुति हाऊस, समीप सुभाष चौक , गुरुकुल रोड़, अहमदाबाद ।
108011	मीनाक्षीबा गोहिल किरितिसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15151 29.10.05	3. शिवम वीरमद्रनगर, एसबीएसएस , हाऊस, नीलमबाग चौक, भावनगर ।

108012	मिनाल गोहिल महेन्द्र	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15211 28.02.06	8. इन्द्रजीत सोसायटी, डायमण्ड मिल्स, निकोल ग्राम रोड ठक्कर बापा नगर, अहमदाबाद
108013	मितल सोनी हीरालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15294 31.08.06	54/बी बैकर्स कालानी, समीप, जुबली ग्राऊंड, भुज, कच्छ
108014	मितल पटेल अश्विनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15121 31.08.05	बी.15, रतनामणी टेनामैट, ज्ञानदा गर्ल्स हाई स्कूल रोड केसामने, के.के. नगर, घटलोडिया, अहमदाबाद।
108015	मितलकुमार बाबूभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15008 30.04.05	बी/29, त्रिरूपति बंगला, समीप दुध सागर डेरी, राधानगर रोड, मेहसाना
108016	मोहम्मदशोएब शैख ईस्माइलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15136 31.08.05	1468. सामने सोना टाइप क्लास, नवोवास रायखेड़, अहमदाबाद।
108017	मोनाबेन परमार कैन्हयालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15402 30.11.06	22. जय योगेश्वर सोसायटी, नवजीवन अजवा रोड बड़ौदा।
108018	मुदियानसेलागे मारसिंह प्रमोदानी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15198 28.02.06	नम्बर 38, 4.वी लैन सिद्धामुल्ला, पत्थियानडाला श्रीलका।
108019	मुकेश पटानी ज्यन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15155 29.10.05	ब्लॉक संख्या 620/3975, गुज, हाऊस. बोर्ड निकोल रोड न्यू बापूनगर, अहमदाबाद।
108020	नरेश पाटिल नागिन	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 1999	15250 31.05.06	गाव. एम. मोहिदे, तातुक. शाहदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र।
108021	नरेशकुमार मकवाना कालाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15328 30.09.06	गाव. रसूलाबाद, तालुक पाटदी, जैनाबाद, जिला सुरेन्द्रनगर।

108022	नारायणबहेन पटेल ईश्वरभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15144 30.09.05	समीप टेलीफोन एक्सचेंज, गांव. वन्सडा तालुक वन्सडा, जिला नवसारी
108023	नारायणबेन शिहोरा विठठलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15432 30.11.06	115, करुषनानगर सोसायटी, कोलवे रोड, समीप सिंगनपुर चार रास्ता, सूरा।
108024	नजियाबानु मुसूरी मोहम्मदहुसैन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15189 31.01.06	15, मण्डी सोसायटी, डूगरवाडा रोड, गांव. मोदसा, साबरकांठा
108025	नाजनीन रंगरेज मकसूदभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15140 30.09.05	23, सरदार सांसायटी, बी/एच कबाडी मार्केट नम्बर 03, बेहरामपुरा, अहमदाबाद।
108026	नीलाबेन गोसाई कैलासगर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15029 30.04.05	35, पंचवटी सोसायटी, सम्पा रोड, बी/एच एफसीआई, गोधरा—जिला. पंचमहल।
108027	नेहा कोटक किशोर कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15423 30.11.06	मधुराम कल्याण सांसायटी, वेरावल, जिला. जूनागढ़।
108028	नेहाबेन पटेल राजेन्द्रकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15324 30.09.06	5/42, नाटुभाई जीन, गांव. खावड तालुक काडी, जिला. मेहसाना।
108029	नेहाल गोहिल ज्यन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15156 29.10.05	बी. 144, "समीत" हुडको सोसायटी, समीप रामेश्वर मंदिर, आनन्दनगर, भावनगर
108030	निकेशकुमार घानची अमरुतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	10515 30.04.05	राजकावाडो, कालीबाजार रोड, समीप खामर गली पाटन।
108031	निखलेश कुलकर्णी अशोक	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15150 30.06.05	रेणुका होस्पीटल, उमबेरागांव जिला. वलसाद।



108032	निकिता ठक्कर राकेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15181 31.12.05	2. विनायक पार्क सासायटी समीप आशीवाद पलैट, गांव. मेहसाना
108033	नीलम कनानी रसिकलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1999	15118 31.08.05	बी.37, कालिन्दी नवरंग सोसायटी, गोरवा करोडिया रोड, बडौदा।
108034	निलेशकुमार विरानी वशरामभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15420 30.11.06	252/डी. विठ्ठलनगर. सोसायटी, हीराबाग, वराच्छा रोड सूत।
108035	निमिषा नागर जीवनलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15275 31.08.06	नगर फुटवीयर, एम जी. रोड पोरबन्दर।
108036	निमितकुमार गाधवी हिरदनजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14977 30.04.05	गांव. व पोस्ट ईदार, 5, सरस्वती सोसायटी, तालुक ईदार, जिला. साबरकांठा।
108037	नीरव त्रिवेदी कीरितभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15158 29.10.05	5, सरकारी सासायटी, ईदगाह रोड, के सामने न्यू, जैन मंदिर गांव. पलानपुर, बनासकांठा।
108038	निरूपा वधिया ज्यन्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15305 30.09.06	लिंडा लेन, मीदमजन गली, जामनगर।
108039	निश सूर्यावशी ब्रजलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15381 01.01.06	19, जुपीटर सोसायटी, समीप शिवानन्द अपार्टमेंट, घाटलोडिया, अहमदाबाद।
108040	निशांत बरैया अमरुतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15138 30.09.05	आनन्द भवन, समीप सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन तालुक, वेरावल, जिला. जुनागढ़
108041	निताबेन कोलाडिया मीखामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15412 30.11.06	165, मीदमजन सासायटी, समीप, मोतीनगर श्याम धाम रोड नाना वराच्छा, रोड सूत।

108042	निताबेन विरानी केशुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15056 31.05.05	105, शक्ति अपार्टमेंट-2, कपोदरा, वराच्छा रोड़ सूरत
108043	निताल शाह हसमुखराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15266 31.07.06	ब्लाक नम्बर. ए.18, देवयानी अपार्टमेंट, खोडपारा गांव. जेटपुर, जिला. राजकोट।
108044	निति झा प्रमोदभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15061 31.05.05	माधव, प्लॉट नम्बर. 2677, ए-1, कलैक्टर सोसायटी, बी/एच रूपानी बिल्डिंग भावनगर।
108045	नितिन दामी नानजीसिन्ह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15366 30.09.06	रेवेची करूपे, गांव. थोल, तालुक कादी जिला. मेहसाना।
108046	नितिन परमार बाबूभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15390 01.01.06	सी.7, वैष्णीदेवी, डुलेक्स मेहसाना हाइवे, चन्दखेडा जिला. गोंधीनगर।
108047	नितिनकुमार वाघेसिया रमणीकलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15205 28.02.06	जुना पंचपिपला रोड़ समीप, ज्ञानजोत विद्यालय सामने कुलदेवी गांव. नावागढ़ तालुक, जेटपू
108048	पालक ठक्कर हरीशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15177 30.11.05	“नारायण कुंज” मौलोडी करूपा सोसायटी परामुख स्वामी मार्ग, गांव आनन्द।
108049	पल्लवीवेन भासाई काजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15206 28.02.06	सामने न्यू बंसी होटल, योगेश्वर नगर पोरबन्दर रोड़ तालुक उपलेटा, जिला राजकोट।
108050	पंकज कुमार बारिया करसनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15060 31.05.05	गांव व पोस्ट नारगोल, तालुक, उमरगांव, जिला वलसाड।
108051	परेशकुमार सचदेवा परवीनचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15234 31.03.06	त्रिमुवन निवास स्टेशन रोड़ के सामने के के, होस्पीटल, गांव. सावरकुंडला।

108052	पारलिकाबाहेन परमार प्रभुदास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15076 30.06.05	32, श्री शक्ति सोसायटी, कनसुदी रोड जाफराबाद, गोधरा
108053	पायलबहेन वेकारोया ननुभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15413 30.11.06	350, रचना सोसायटी, कपोडरा चार रास्ता वराच्छा रोड सूत।
108054	पेट्रिसा पटेल गनपतीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15383 01.01.06	गांव. टालोडरा, तालुक झगडिया जिला, भरुच।
108055	पिउलकित पांचोली चन्द्रकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15042 31.05.05	35/451, गुजरात हाऊसिंग बोर्ड अजवा रोड, बडोदा।
108056	पियूषकुमार परसाना कान्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15410 30.11.06	47, सरिता सोसायटी, हीराबाग, बी/एच, पीपी सवानी स्कूल, सूत।
108057	पूनम मकवाना प्रफुल्ल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15406 30.11.06	189, वरूणदा टाऊन, मंदिर रोड गोत्ररी रोड बरोडा
108058	प्रगनेशकुमार गोहेल मुलजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15085 30.06.05	ए/2, माधव पार्क सोसायटी, समीप सिगुनपुर रोड, चार रास्ता वेद रोड, सूत।
108059	प्रकाशकुमार जैन खेमचन्द	आयुर्वेदाचार्य निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ, दिल्ली 1996	15099 30.06.05	25/292, नेताजीनगर, मेघनीनगर, अहमदाबाद।
108060	प्रकाशकुमार पांड्या शिरोम्भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15123 31.08.05	एफ.30/8, एस.के. नगर गुजरात, कृषि यूनियनसिटी तालुक दन्तेवाडा, जिला बनासकांठा।
108061	प्राणीता पाटिल दामु	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15251 31.05.06	गांव.एम. मोहिदे, तालुक शाहदा, जिला, नंदुरबार महाराष्ट्र।

108062	प्रसाद पटेल लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15101 30.06.05	गोम कच्चीयावाडी मंदिर फलिया समीप अम्बा माता मंदिर, महात्मा तालुक व जिला नवसारी
108063	प्रातिक बागडिया महेन्द्रभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15367 30.09.06	द्वारा अदिनाथ कम्पलेक्स, सब्जी मार्केट, रोड पारा, गांव. बोटाद, जिला, भावनगर।
108064	प्रतिक्षा राय नागिनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15392 01.11.06	17, रूशीप्रसाद रा हाऊस, समीप शिवदर्शन राव मकान हनी पार्क रोड अदाजन, सूरत
108065	प्रवीन पाडवी जरमनसिंह	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 2000	15072 30.05.05	गां. बोराडा, पोस्ट बोस्था, तालुक नीजार जिला, सूरत
108066	भरितेश दवे अश्विनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15106 30.07.06	राजेन्द्रनगर, क्वॉटर बी.3,147, समीप पटेल समाज, जामनगर।
108067	प्रीति पाटिल दशरथ	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15212 28.02.06	द्वारा नरेन्द्र मेहता पटेल फारिया, गांव. मंदिर पोस्ट, वेदया तालुका जलालपुर, नवसारी।
108068	प्रीति व्यास नवनीतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2000	15192 31.01.06	गोपी डुप्लेक्स 3, सामने देना बैंक सोसायटी गांव. अमरेली, जिला अमरेली।
108069	प्रियंक कुमारी दुबे जोखनप्रसाद	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15322 30.09.06	ए/3, राधिका बंगला, समीप काडिला हाईवे घोडासर, अहमदाबाद।
108070	प्रियंका पाड्या हरिकृष्णा	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15403 30.11.06	48/बी शिवम सोसायटी, समीप छानी जकाटनाका बड़ोदा।
108071	प्रियंकाबेन शाह विनोदकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15341 30.09.06	128, आजाद सोसायटी, 301, सारथी अपार्टमेंट गेट नम्बर 1, अम्बानादी, अहमदाबाद।

108072	पुजीत वधासिया रतीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15308 30.09.06	72. विक्रम पार्क (प्लॉट) सामने बजरंग आश्रम नेशनल हाईवे 8, ठाकरनगर, अहमदाबाद।
108073	पुनीता निम्बारक हरेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15127 31.08.05	द्वारा एम.ए. निमावत समीप साकमाकैट, मैन बाजार गांव मोती कुकावाव, जिला अमरेली
108074	पुनीता बहेन पांचाल रमेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15315 30.09.06	ए-6, जल दर्शन सासायटी, समीप जन्मभूमि सोसायटी कर्णनगर रोड गांव कादी जिला, मेहसाना
108075	पूर्वी बहेन शाह जगदीशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15088 30.06.05	506, सनस्टार अपार्टमेंट समीप किडनी अस्पताल आनन्द महल रोड अदाजन, सूरत।
108076	पूर्वीबेन पटेल ठाकुरभाई	बी० ए० एम० एस० बी० ए० एम० एस० 2005	15360 30.09.06	90, मेनियागर के सामने देवेश आटो गौरेज, गांव छपरा तालुक, नवसारी, जिला नवसारी।
108077	पूर्वीबेन सोनी रोहितकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15312 30.09.06	रेवकाक, पोले, सुन्दर बाजार, गांव उमरेथ, जिला आनन्द।
108078	पुष्पाबेन पटेल रायचन्द्रभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15032 30.04.05	चौकसी ब्लाक, जुना रोड, बी/एच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तालुक, पालनपुर, जिला, बनासकांटा।
108079	रघना धारे दिलीपभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14978 30.04.05	7/ए. कुम्मानाथ सासायटी, के सामने पानी का टैंक सिविल रोड नडियाड।
108080	राधिका माजिठिया गोखनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15036 31.05.06	श्री. चामुंडा करुपा 5, मनहार प्लॉट, राजकोट।
108081	रफीक मोहम्मद असारी	बी० ए० एम० एस० देवी अहिल्या वि० वि०, इन्दौर 1999	15173 30.11.05	द्वारा फल्ला मेडिकल व जनरल स्टोर, समीप जेनगल शाबाबा की दा. प्रतापनगर, लिम्बायत, सूरत।

108082	राजेश चौधरी लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस० नॉर्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2003	15434 30.11.06	गांव. भारवाडा, तालुक शिरापुर जिला, धूलिया महाराष्ट्र।
108083	राजेशकुमार कुंडरिया जसमत	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15382 01.11.06	गांव. निची मंडल, तालुक मोर्बी जिला, राजकोट।
108084	राजेशकुमार मनिया दूदाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15397 30.11.06	राय गली, लिम्बाडा चोक, गांव. गरियाधर तालुक. भावनगर।
108085	राकेश गलालया जगदीशभाई	बी० ए० एम० एस० मुंबई वि० वि०, मुंबई 1997	15244 01.05.06	4. नीलकमल सोसायटी, 4वा मकान के सामने राज चैम्बर, जामनगर।
108086	राकेशकुमार पटेल मनसुखभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15053 31.05.05	बी. 21 त्रिकम नगर-1, एल. एच. रोड सूरत बी/एच अफील टावर।
108087	राकेशकुमार पटेल नथाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15079 30.06.05	38. प्रमाणिक सोसायटी, राधास्वामी सतसंग रोड रानिप, अहमदाबाद।
108088	राकेशकुमार प्रजापति कान्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15007 30.04.05	16. अरंबुदानगर सासायटी, 2. घनासमा हाइवे रोड बी/एच, जी.ई.बी. तालुक व जिला पाटन।
108089	राकेशकुमार वाला हमीरभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15371 01.11.06	गांव. पेधावाडा, तालुक, कोडिनार, जिला जुनागढ़।
108090	रश्मि कलकानी नरशीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15038 31.05.05	श्रीराज, रामेश्वर पार्क नम्बर. 20, राजकोट।
108091	रश्मिकाबेन पटेल सोमभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15070 31.05.05	गांव. गोधरा, श्री अर्बुदा करुणा वावदी बुजुर्ग दाहोद रोड जिला, पंचमहल।

108092	रसिक पटेल भाई नारायणदास	आयुर्वेदाचार्य गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1969	15264 30.06.06	गांव. वामाज, तालुक, कादी, मेहसाना
108093	राविन हेमानी रजनीकान्त	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15154 29.10.05	प्लॉट नम्बर 45/ए. कविता 'वर्षा' सोसायटी, सुभाष नगर, भावनगर।
108094	रिज्वायस मकवान नित्यानन्द	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15374 01.11.06	12, सौरभ सांसायटी, पवनचक्की रोड, नडियाड।
108095	रेनू सिंह	बी० ए० एम० एस० मुंबई वि० वि०, मुंबई 1998	15438 30.11.06	104, आदर्श सांसायटी, समीप आस पास मंदिर गोडाडरा, सूरत।
108096	रिद्धी पुरोहित प्रमोदकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15049 31.05.05	हर्ष 10/3, पटेल कालोनी, प्रणव डुप्लेक्स जामनगर।
108097	रिकूबन माता प्रदीपकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15327 30.09.06	दांभी गली, कं सामन आशीष बंगला, तोलिया रोड उपलेटा, जिला. राजकोट।
108098	रितेशकुमार पटेल भूलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15380 01.11.06	गांव. मोटा वडाजाला, पोस्ट, नाना वडाजाला, तालुक लुनावाडा जिला, पंचमहल।
108099	राहिणी पटेल मगनभाई	बी० ए० एम० एस० बम्बई वि० वि०, बम्बई 2002	15026 30.04.05	गांव. व पोस्ट अमरांली, तालुक चारयासी जिला, सूरत।
108100	रोहितकुमार पटेल हरगावनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15009 30.04.05	ए/4, दात्त नगर सांसायटी, सामन बलियाहनुमान मंदिर, पाटन।
108101	रोहितकुमार ठाकोर प्रतापजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15200 28.02.06	महाकाली वास, (खांटवास), भाव शरदा तालुक व जिला गंधीनगर।

108102	रोनकबेन खारडी सुरेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15385 01.11.06	जी/94, आर. बी. आई स्टाफ क्वार्टर के सामने कलैक्टर आफिस, सुभाष ब्रिज, अहमदाबाद।
108103	रोशनी कलसरिया हिरजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15401 30.11.06	44/बी, रंगदर्शन पाट-1, धनमोरा सर्कल सिंगनपोर रोड, कटारगाम, सूरत।
108104	रूचिताबेन दवे प्रवीनकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14972 30.04.05	माधव शेरी, मण्डी बाजार, सिद्धपुर।
108105	रूचिताकुमारी अग्रावत दिनेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15313 30.09.06	11, मंगल धवनी सोसायटी, समीप रामराज्य नगर बी. डी सरस्वती स्कूल, एन.एच. 8, ओधव, अहमदाबाद।
108106	रुंदरेशकुमार पांडया भरतभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15017 30.04.05	डी-0332, लक्ष्मीकरूपा सोसायटी, अर्बुदानगर ओधव, अहमदाबाद।
108107	रूपल परमार वलजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15307 30.09.06	प्लॉट, संख्या. 593/1, सेक्टर, 8, गौधीनगर।
108108	सचिन पाटिल काशीनाथ	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2004	15256 11.05.06	ए-11, वराजधाम सोसायटी, बी/एच एयर फोर्स स्टेशनमकरपुरा, बड़ोदा।
108109	सचिन तिलावत मनीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15231 31.03.06	विजयनगर सोसायटी, भागवती बी/एच, अम्बावाडी, जोशीपुरा, गांव, जुनागढ़।
108110	सलीम मोहेल दादाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15277 31.08.06	घानचीवाडा लुहार गली, गांव. पाटन सोमनाथ तालुक, केरावल, जिला, जुनागढ़।
108111	संदीप भुवा विठ्ठलभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15114 31.08.05	मुनीनगर, ब्लॉक नम्बर. 67, भिदमाजन करूपा गो. व पोस्ट, महुवा, जिला. भावनगर।



108112	सपना पाटिल साहेबराव	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15210 28.02.06	ग्रीन एवेन्यू, समीप जालाराम मंदिर, ए० 2, 402, अदाजन सूत।
108113	सर्वेशकुमार गोटी सावजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15418 30.11.06	बजरंगनगर, एडमजी रोड गांव जसदान, जिला राजकोट।
108114	सतीशकुमार पधसाला वशरामभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15285 31.08.06	श्रीजी निवास सामने, रहीमनगर समीप चीनी फैक्ट्री, गांव उना, जिला. जुनागढ़।
108115	सेजल राठोड नारनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2002	15115 31.08.05	6/ए. अफ्रीका कालोनी, पानी की गली, टैंक 150, फीट रोड, राजकोट।
108116	शाबानाबानू दादू इब्राहिमभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15062 31.05.05	51, आशयाना सोसायटी, डूरवाडा, रोड मोडसा, साबरकांठा।
108117	शाहीन शेख दिलशादभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15132 31.08.05	सोहेल मंजिल, समीप मधुसूदन, लेबोद्रेरी अमरेली।
108118	शाहीनाबानू पटेल ईस्माइल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15388 01.11.06	रोकाड चाल, समीप मक्का मस्जिद, गांव. पोस्ट, पालेज तालुक व जिला, भरुच।
108119	शेफाली राना कचनलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14982 30.04.05	30, श्री रामनिवास सोसायटी नवसारी, बाजार धाबुवाला, गली सूत।
108120	शैलेशकुमार पटेल बंसीभाई	बी० ए० एम० एस० नॉर्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15249 31.05.06	गांव. पोस्ट. चिचोडा, तालुक, निजार, जिला, सूत।
108121	शैलेशकुमार प्रजापति नेन्दालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15014 30.04.05	648/11, ब्रह्मणी नगर, शवागढ़ तालुक हिम्मतनगर, सागरकांठा।

108122	शरदराव पाटिल काशीनाथ	बी० ए० एम० एस० नॉर्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15102 30.06.05	58/खोडियारनगर, नवागाम डिनडोली रोड उधाना तालुक चौरयासी, जिला, सूरत
108123	शीतल जोशी अनिल	बी० ए० एम० एस० गोवा वि० वि०, गोवा 2003	15435 30.11.06	104/ए, कृष्णाशान्ती सोसायटी समीप मुंजीमोधा अकोटा रोड बड़ोदा।
108124	शीतलबेन अध्वारयू संजयकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2001	15073 31.05.05	शीतललेख प्लेट, समीप सुमाष ब्रिज कारनर शाहीबाग अहमदाबाद।
108125	शीतल परमार प्रेमजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15159 30.11.05	प्लॉट नम्बर 7, कृष्णा सोसायटी बी/एच. गुजरात हाऊस. बो. नारी रोड कुम्भीरवाडा, भावनगर।
108126	शीजलबहेन भवसार त्रिभुवनदास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15051 31.05.05	भावसारवाड, गोल बाजार, लूनावाडा, तालुक, पंचमहल।
108127	श्यामकुमार पटेल कमलेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15107 30.07.05	56, हरि भक्ति कालोनी, रैस कोर्स रोड बड़ोदा।
108128	सिवाप्रासदन बी	बी० ए० एम० एस० कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट 2001	15215 28.02.06	सान्तीगिरि आयुर्वेद क्लीनिक, एपीएम शोपिंग माल, 100, फीट रिंग रोड सैटलाइट, अहमदाबाद।
108129	सोहम भट्ट सुधीरकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15310 30.09.06	69, तीर्थनगर-1, सामने एच.बी. कपाडिया स्कूल गुरुदुल रोड मेमनगर, अहमदाबाद
108130	सोनल कटारमल दिलीपभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15286 31.08.06	कल्प वृक्ष पवन चक्की, समीप पुराना बस स्टैण्ड, जामनगर।
108131	सोनल राबड़िया गोरधनभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15331 30.09.06	दिपाजलि सोसायटी, 2, गोफुल, समीप गोर्बी चोक टिम्बावाडी, जूनागढ़।

108132	सोनाली पाजवानी प्याराली	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15272 31.08.06	परवेज पार्क, जिनपारा, गांव. वन्कानेर जिला, राजकोट।
108133	स्तुति रावल राजेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15344 30.09.06	प्लॉट संख्या 1671/2, सेक्टर 2, डी, गोंधीनगर।
108134	सुमित गाधवी घनश्यामभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15227 31.03.06	सौराष्ट्र कला केन्द्र 10, हीरा जीवन समीप, कलाबाद रोड़, राजकोट
108135	सुनीलकुमार दामोर अदेसिन्ह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15233 31.03.06	ए.101, जीवनज्योत सोसायटी, मलहोत्रा रोलिंग मिल रोड़ ओधव, अहमदाबाद।
108136	सुनीता गलीयाली रूपवन्द	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 1994	15440 30.11.06	ए/5/203, अक्षरधाम, चापराभट्टा, रोड़ गांव अमरोली जिला, सूरत
108137	सुरेश पटेल दामू	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 1990	15176 30.11.05	महादेवनगर, समीप गोडाडरा नेहेर, गांव पर्वत, जिला, सूरत-1
108138	सुरेश पाटिल शामराव	बी० ए० एम० एस० नागपुर वि० वि०, नागपुर 1987	15243 01.05.06	प्रजापति भवन, कुम्भारवाडा, गांव. बिग्री तालुक गनदेवी, नवसारी।
108139	सुरेशकुमार पोवाल अमरुतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15139 30.09.06	गांव. व पोस्ट, बंधावाड तालुक राधनपुर जिला, पाटन।
108140	सुशान्त सुद सुभाषचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15203 28.02.06	बी.6, लेन 1, हिमराशमी सेक्टर, न्यू शिमला।
108141	सुशील मिश्रा कुमार	बी० ए० एम० एस० गोहाटी वि० वि०, गुवाहाटी 1996	15238 31.03.06	द्वारा, डाक्टर आर.यू. शुक्ला, मानसरोवर, गोकुल पथ नोर्थ पटेल नगर, गांव पाटन।

108142	सुषमाबेन राठोड जगदीशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15301 31.08.06	81, हरी ओम, नगर सोसायटी, 1, न्यू कोसाद रोड अमरोली, सूरत।
108143	स्वप्निल मोदी भरतकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14989 30.04.05	श्याम कुटीर, 312/1, सेक्टर, 7ए गौधीनगर।
108144	स्वाति चंपानेरी मुकेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15429 30.11.06	2530, ए/5, कार्तिक टेनामेंट, सामने शिक्षक सोसायटी भारतनगर चार रास्ता, भावनगर
108145	ताहिमाक्काश चोकीवाला यूनस	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15387 01.11.06	27, पटेल वेलफेयर सोसायटी, समीप अम्बाजी भागेल, गांव जम्बुसर, तालुक मरुच।
108146	तरुणा गिराटा हंसराज	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15087 30.06.05	बी.13, सिद्धार्थ नगर समीप, मेहसाना, नगर गरबा, भैदान निजामपुर, बड़ौदा।
108147	तरुणाबेन बोकाडे लक्ष्मणभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15003 30.04.05	201, लिम्बोज फ्लैट, रंछोडनगर सोसायटी, गांव, कटारगाम जिला, सूरत।
108148	तेजल पारेख सतीशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15415 30.11.06	78, स्नेहस्मृति सोसायटी, अदाजनपाटिया, रंन्डेर रोड सूरत
108149	तेजल पटेल अरिवन्दकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15078 30.06.05	252/1, सेक्टर, 7ए, गौधीनगर।
108150	तेजलबेन जोशी रमेशभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15395 30.11.06	198/450, समीप अयूपा मंदिर, सगवादी, कलाविविद भावनगर
108151	तोशल पटेल रमेशचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15343 30.09.06	गांव, हुंज तालुक हिममतनगर जिला, साबरकांठा।

108152	तरुपति बेन पटेल बाबूलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15320 30.09.06	21/4, छ, टाइप, सेक्टर -23, गोंधीनगर।
108153	तुषारकुमारी पटेल अम्बालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15370 01.01.06	बी.105, धरती एवेन्यू, सामने गायत्री मंदिर समीप, मोहघरा सर्कल हाइवे, मेहसाना
108154	टविनकल देवडा गिरेन्द्रमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15191 31.01.06	65, आशीषनगर, बी/एच, आई.टी. आई कालेज, गांव. जाफराबाद, पंचमहल।
108155	उज्जवल ठक्कर सुभाषचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15258 30.06.06	1, काहिनूर सोसायटी, विजयनगर रोड नाराणपुर अहमदाबाद।
108156	उजवला मगर अशोक राव	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 2001	15170 30.11.05	7/बी.84, कृष्णास्टेट, कृष्णनगर रोड सेजपुर अहमदाबाद।
108157	उमी पटेल रमेशमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15147 30.09.05	51, उमियाविजय सोसायटी, महावीरनगर गांव हिम्मतनगर, साबरकांठा।
108158	उर्मिला पाटिल प्रहलाद	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15175 30.11.05	धनवंतरी क्लीनिक, दर्शन नगर मोवी रोड नेतराण, तालुक, वलिया, जिला, भरुच।
108159	उर्वशीबेन गंगरा शान्तीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15207 28.02.07	वांदी कालोनी, गांव नार, तालुक पेटलाद जिला, आनन्द।
108160	उर्वशीबेन व्हाडिया माजीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15369 01.11.06	उमियानगर सोसायटी, समीप नहर सनाला रोड गांव मोर्बी जिला, राजकोट
108161	उतपलकुमार नकुम नानजीमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15129 31.08.05	शेरी नम्बर 03, ब्लॉक नम्बर 6, पंचवटी, सोसायटी, गांव. गोंडाल।

108162	वैशालीबेन सोनी योगेशकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15400 30.11.06	58, रामेश्वर सोसायटी, समीप नागेश्वर मंदिर, हमी रोड करेलीबाग, बड़ौदा।
108163	वन्दना दवे अशोकभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15152 29.10.05	प्लॉट नम्बर 643, शारदा, गीता चोक डेरी रोड भावनगर।
108164	वनिताबहेन शाह ठाकोरियाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15052 31.05.05	बी. 14/2, प्रभात सोसायटी, वाघोडिया रोड, वडोडरा।
108165	वनिताबहेन खेनी मनजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14971 30.04.05	276, वर्षा सोसायटी, पार्ट -1, एल. एच. रोड वराच्छा रोड सूरत।
108166	वर्षाबेन चौधरी मावजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15399 30.11.06	15, गणेश सोसायटी, गांव. थराड़, तालुक, जिला, बनासकांठा।
108167	वसंतीबेन सोलंकी उदयसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15404 30.11.06	19/डी, हरीओम सोसायटी, अटियाडरा, पाडरा, रोड बड़ौदा।
108168	विमा सिन्हा कपिलदेव प्रसाद	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15005 30.04.05	38, मंगलेश्वर सोसायटी, बी/एच राजपथ होटल हाईवे रोड, मेहसाना।
108169	विमाबेन पटेल सावजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15317 30.09.06	22, मधुजीवन सोसायटी, अंकुर चार रास्ता नाराणपुर अहमदाबाद।
108170	विद्या वसावे अमरसिंह	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, पुणे 2002	15112 30.07.05	गांव केलपाडा, पोस्ट: सोनार, तालुक नवापुर जिला, नन्दुरबार।
108171	विजय कुबावत भास्करराव	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15067 31.05.05	संत करूपा प्लॉट नम्बर. 53, सत्या सदन सोसायटी तालुक. महुवा जिला भावनगर।

108172	विजय पाटिल नारायण	बी० ए० एम० एस० नॉर्थमहाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15022 30.04.05	वेद क्लीनिक, सी. मोहसिन्ह कमलक्स कारजी, जीआईडीसी, किम रोड तालुक, माण्डवी, सूरत ।
108173	विजय पाटिल रामदास	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15172 30.11.05	द्वारा जगदीश पाटिल, बंगला नम्बर 2496, गुज.हाऊस, स्वराजनाग एचआईजी.36, पडेसारा, सूरत ।
108174	विजय पाटिल तुम्बाडु	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15255 31.05.06	गांव पोस्ट रायखेड, तालुक, शाहदा जिला: नन्दुरबार (महाराष्ट्र)।
108175	विजयकुमार पटेल भीखाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	14992 30.04.05	गांव. व पोस्ट गुंदगसन, समीप प्राइमरी स्कूल तालुक विजापुर, मेहसाना।
108176	विजय कुमार पाटिल त्रियम्बकलाल	बी० ए० एम० एस० नॉर्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2002	15020 30.04.05	नेहरू रोड, सामने रामराव बैंक गांव. व पोस्ट नवापुर, जिला, नंदुरबार।
108177	विजयकुमार जनकत मुलजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15364 30.09.06	गांव. पानाडर, वाया (मीरापुर), तालुक कोडिनार, जिला, जूनागढ़।
108178	विरलकुमार वाघेला देवजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15149 29.10.05	13/बी.कर्म नगरी, समीप दत्ता नगर सामने रामदेव मंदिर, पिज रोड नडियाड।
108179	विरेंद्रगिरि गोस्वामी प्रतापगिरि	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15148 29.10.05	31, रॉयल नगर सोसायटी, सामने निर्मला फैक्टरी मोधेरा रोड, मेहसाना ।
108180	विशाखा झाला कान्तीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2004	15131 31.08.05	संतचार्य 4777.8, गीतांजली सोसायटी, भरतनगर, भावनगर।
108181	विशाल पाटिल प्रकाश	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक 2003	15164 30.11.05	द्वारा निर्मल डी. पटेल, गांव खोलवाड तालुक कामरेज, जिला सूरत।

108182	यश पटेल भगवानजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15034 30.04.05	प्लॉट नम्बर 424/ए/2, सेक्टर, 6, ए गौधीनगर ।
108183	यशवन्तसिंह डोडिया उकामाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15040 30.05.05	गांव. पोस्ट सिमार, तालुक वेशवल, वाया शेबाग जिला, जुनागढ़ ।
108184	यशवन्तसिंह गोहिल नरेन्द्रसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15398 30.11.06	नोनघानावाडार, वाया सानोसरा, तालुक, पालिताना जिला, भावनगर ।
108185	योगेश पाटिल मधुकर	बी० ए० एम० एस० नॉर्थ महाराष्ट्र वि० वि०, जलगाँव 2000	15245 01.05.06	गांव. य पोस्ट ककारमुण्डा, तालुक, निजार जिला, सूरत ।
108186	योगेश पाटिल फकीरा	बी० ए० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15171 30.11.05	द्वारा प्रशान्त आर. पाटिल, गांव. देवगढ़ तालुक, मण्डवी, जिला, सूरत ।
108187	योगेश विलपारा गोरधनमाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15379 01.11.06	गांव. शारदानगर, तालुक मोर्बी जिला, राजकोट ।
108188	योगेशकुमार वास्वा रूपसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15282 31.08.06	पोस्ट, रोजदेव, गांव. नानादोरामबा, तालुक, सगबारा, जिला, नर्मदा ।
108189	योगिनीबेन असार घनजीभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2005	15339 30.09.06	29, शिवम एकलव्य सोसायटी, भोलेश्वर पी. कटवाड, गांव. हिमन्तनगर ।
108190	जनखाना जादव फतेसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15122 31.08.05	स्वाद कालोनी, हामी रोड बडौदा ।
108191	जरानाकुमारी सोनगरा मोहनलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 2003	15039 31.05.05	काली का प्लॉट, गली, नम्बर 1, रवापार रोड मोर्बी जिला, राजकोट ।



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय पत्रिका  
गुजरात—यूनानी  
भाग द्वितीय

क्र. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
12626	अब्दुल सत्तार पठान सरमासखान	बी० यू० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15246 01.05.06	गांव. बोरसाद, फेतहपुर, रेबारी चकला जिला. आनन्द ।
12627	अजमतुल्लाह सिददीकी रेहमतुल्लाह	बी० यू० एम० एस० देवी अहिल्या वि०, वि०, इन्दौर 2003	15247 01.05.06	सामने. मदीना मस्जिद, लिम्बायत, उधाना, सूरत ।
12628	बैतुल्लाह मलिक	बी० यू० एम० एस० कानपुर वि०.वि०, कानपुर 1980	15437 30.11.06	एन.एच.नम्बर. 8, समीप ल्यूकी पेट्रोल पम्प, गांव. पलसाना, जिला, सूरत ।
12629	फिरोज खान	बी० यू० एम० एस० देवी अहिल्या वि०, वि०, इन्दौर 1997	15263 30.06.06	नूर क्लीनिक, राजनगर, गांव भाटेना जिला, सूरत।
12630	गुलाम वारिश मलिक हसरत	बी० यू० एम० एस० नागपुर वि०.वि०, नागपुर 1997	15137 31.08.05	पोस्ट. असानहरा, गांव. दुबौली जिला, बस्ती।
12631	खातून अंसारी अब्दुलहमीद	बी० यू० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	15209 28.02.06	228. नूर भाई धोबी चाल अर्मपाली सिनेमा, रोड गोमतीपुर, अहमदाबाद।
12632	मोहम्मद ताहिर राजपूत रेहमतुल्लाह	बी० यू० एम० एस० राजस्थान वि०. वि०, जयपुर 1995	15174 30.11.05	ब्लाक संख्या 157/942, गुज.हाऊ.बो. मोरारजी चोक । बापूनगर, अहमदाबाद।
12633	मोहम्मदअली उधराटदर आयूब	बी० यू० एम० एस० महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2004	15268 31.07.06	तिमोल मोहल्ला, गांव. कठोर, तालुक, कामरेज, जिला, सूरत ।
12634	मोहम्मद अनीस मोहम्मद ईस्लाम	बी० यू० एम० एस० राजस्थान वि०. वि०, जयपुर	15188 31.12.05	प्लाट सुख्या 250, दरबारनगर, यूनान, सूरत।

12635	समीउल्लाह खान मुरे	1995	बी० यू० एम० एस०	15375	25, आजादमार्ग, मस्जिद मोहल्ला, गांव. कसरवाड, खारगोने, मध्यप्रदेश।
		महाराष्ट्र	आरोप्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक	01.11.06	
12636	समीउल्लाह खानपठान सिपा हिदयातुल्लह खान	2003	बी० यू० एम० एस०	15208	228, नूर भाई धीबी, चाल अमर्पाली सिनेमा रोड गोमतीपुर, अहमदाबाद।
		महाराष्ट्र	आरोप्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक	28.02.06	
12637	सययैद आजम सययैद यूसुफ	2003	बी० यू० एम० एस०	15027	अमन कालोनी, बी/एच मनोज आटा मिल्ल खाडका रोड, भूसावल, जलगांव।
		महाराष्ट्र	आरोप्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक	30.04.05	

नई दिल्ली-110058, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. 10-15/2008-के.पं. (उड़ीसा)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो उड़ीसा राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उड़ीसा राज्य रजिस्टर में मार्च 2007 तक क्रम संख्या 103107 आयुर्वेद एवं 10103 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 103314 आयुर्वेद एवं 10103 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी -- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 जून 2005 से 07 मार्च 2007 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (उड़ीसा) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका  
उड़ीसा

भाग । आयुर्वेद

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
103107	ए. श्रीनिवास राव ए. कृष्णा राव	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5119 06.10.05	ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट क्यौझारगढ़, थाना क्यौझार टाउन, जिला क्यौझार ।
103108	अभिजीत परिदा शिरीर कुमार परिदा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5099 02.08.05	ग्राम एवं पो.आ. खलाबडिया वाया/थाना भोगराय, जिला बालासोर ।
103109	अभिजीत राउत सिटीकान्त राउत	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5262 19.01.07	श्रीरामचरणपुर वार्ड नं.16, बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज ।
103110	अभिराम ठाकुर गोकुलानन्दा ठाकुर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5166 20.02.06	ग्राम एवं पो.आ. बिजनार वाया-जयपटना थाना जिला कालाहाण्डी ।
103111	अजय कुमार पात्रा झादेश्वर पात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5102 03.08.05	ग्राम पुतुगौब, पोस्ट चेमना वाया/पोस्ट तुरुमुंगा, जिला क्यौझार ।
103112	अजय कुमार राउत निरंजन राउत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5151 09.02.06	ग्राम एवं पोस्ट सिंगा खुटिया वाय सोरो जिला बालासोर ।
103113	अजीत कुमार शासमल पदमा चरण शासमल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5267 09.02.07	ग्राम एवं पो.आ. पाटपुर वाया काकटपुर जिला पुरी ।
103114	अम्बिका रानी नाथ अर्जुन चरण नाथ	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	5149 09.02.06	ग्राम संसुआर पोस्ट मार्कन्दपुर वाया देवीद्वार जिला जाजपुर ।
103115	अम्बिकेया दास प्रमोद चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2007	5240 12.01.07	ग्राम कनकुडुरु पो.आ. संकुरु वाया बुगुडा, जिला गंजम ।
103116	अमरेंद्र प्रकाश दास सुबाष चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5139 12.12.05	ग्राम बनिआपशी पोस्ट तुरुआन वाया सैनकुल थाना रामचन्द्रपुर जिला क्यौझार ।

103117	अमित कुमार दास बिमल कुमार दास	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5232 29.12.06	केदार लेन रोहिणी भवन पो.आ. ओल्ड टाउन जिला खुर्दा ।
103118	अमित प्रधान लम्बोदार प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5269 09.02.07	ग्राम एवं पो.आ. बुधपाल वाया शीमल थाना कुमधईगोला जिला देवघन ।
103119	अमिया रंजन मोहन्ता आनन्द चन्द्र मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5258 12.01.07	ग्राम संसियादीमल पो.आ. रेवनपलासपल वाया भागमुन्दा, जिला क्योंझार ।
103120	आनन्द शंकर पात्रा अभिन सन्धर पात्रा	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5261 17.01.07	ग्राम बेलपल पो.आ. खुंटापल वाया बादसाही जिला मयूरभंज ।
103121	अनिल कुमार जायसवाल बचनलाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5235 11.01.07	ग्राम एवं पो.आ. तुसरा जिला बालनगीर ।
103122	अनिता जेना सनतान जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5270 09.02.07	ग्राम अनियाकुदा, पो.आ. चिलीकुनुआपाड़ा वाया ब्रह्मगिरी, जिला पुरी ।
103123	अंशुपा कुमारी मोई ताउ मोई	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5183 30.06.06	क्वार्टर नं. एम/132, सुनब्रेडा वाया टाउनशिप, जिला कोरापुट ।
103124	अरुण कुमार साहू गोकुलनन्दा साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5165 09.02.06	ग्राम/पोस्ट ब्राह्मण गोंव वाया अरैई जिला जाजपुर ।
103125	अशोक कुमार बेहरा दयावती बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5168 20.02.06	ग्राम/पोस्ट/पी.एस. छेन्दीपाड़ा जिला अंगुल
103126	असोक कुमार मेहर हीराधर मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5179 26.06.06	ग्राम/पोस्ट खलीपाधर वाया/पी.एस. बेलपारा जिला अंगुल ।
103127	असीम बसन्ता बेहरा मधुसूदन बेहरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5172 08.06.06	ग्राम/पो.आ. मरघई वाया पी.एस. पटकुरा जिला केन ।
103128	असित कुमार दास कालीपदा दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5268 09.02.07	ग्राम/पो.आ. टादडा वाया जमसुली जिला बालासोर ।

103129	अश्विनी कुमार पुरोहित बिनोद बिहारी पुरोहित	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2007	5247 12.01.07	ग्राम/पो.आ. मईदलपुर वाया पापादहाण्डी जिला नबरंगपुर ।
103130	अटल बिहारी गुरु गोलक चरण गुरु	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5111 16.08.05	ग्राम/पो.आ. केसइबहल वाया/कुचीन्दा थाना महुलपाली जिला सम्बलपुर ।
103131	अतनु पटनायक अभिराम पटनायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5087 28.07.05	ग्राम गृहतलमुल, पोस्ट तलमुल जिला अंगुल ।
103132	अरबिन्दा आचार्य नित्यानन्दा आचार्य	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5260 15.01.07	ग्राम/बरकोटी पो.आ. उत्तरकुल्हट वाया प्रीतिपुर जिला जाजपुर ।
103133	अविमन्यु बेहरा अर्जुन चरण बेहरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5211 28.09.-6	ग्राम हाटीबन्धा, पो.आ. पुरूनिया वाया, सालपाड़ा पो.एस. घासीपुरा, जिला कोंझार ।
103134	बबिता मेहर लक्ष्मण मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5180 30.06.06	क्वार्टर नं. ई/29, हाल टाउनशिप, ग्राम/ पो.आ. सुन्दबेड़ा, जिला कोरापुट ।
103135	देवी कोलोन भूबन मोहन दास	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5176 23.06.06	प्लॉट नं. 2128, चिन्तामणि स्वयंसेवा पोस्ट बुधेश्वरी, बीबीएसआर 8.पी.एस. लक्ष्मी सागर, खुर्दा
103136	बैकुन्त बिहारी महान्दिया जयइन्द्र महान्दिया	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5237 11.01.07	ग्राम/पो.आ. रतनपुर वाया संकर जिला सुन्दरगढ़ ।
103137	बलिन्द्र कुमार साहू बैकुन्त बिहारी साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5277 09.02.07	ग्राम रांजो, पो.आ. डिमीरिया वाया पल्लाहारा जिला अंगुल ।
103138	बलराम पात्रा प्रफुल्ल कुमार पात्रा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5123 29.11.05	ग्राम रतनपुर पोस्ट कुहुरी थाना वाया/टांगी जिला खुर्दा ।
103139	बानाजा पटनायक पूरन चन्द्र पटनायक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5128 30.11.05	ग्राम नरसिंहपुर पो.आ./थाना पिपील जिला पुरी ।
103140	बनिब्रत सामल पंचानन सामल	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5263 20.01.07	ग्राम/केतुआपल पो.आ. दधीबामनपुर वाया, गोविन्दापुर कचहरी जिला केन्द्रपाड़ा ।

103141	बर्षा सामन्तराय प्रफुल्ल चन्द्र सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5289 07.03.07	ग्राम लबन्या विहार सर्वोदय रोड कुम्भारपाड़ा पुरी ।
103142	भवानी शंकर टिपिरा गदाधर टिपिरिया	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5245 12.01.07	ग्राम कलिकापुर पो.आ. तकतपुर वाया, बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज ।
103143	बिभू प्रसाद नाथ शर्मा आधार चन्द्र नाथ शर्मा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5105 05.08.05	ग्राम/पोस्ट दवीद्वार वाया/थाना जिला जाजपुर ।
103144	बिभूदत्त पात्रा अमृत्य कुमार पात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5084 28.07.05	ग्राम/मैन्स अट्टा पोस्ट, जागेश्वरपाड़ा वाया- गोपालपुर जिला बालासोर ।
103145	विजयलक्ष्मी जेना बेन्द्र जेना	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5106 05.08.05	ग्राम/नानकेरा पोस्ट बदास थाना वाया कानस जिला पुरी ।
103146	विकाश रंजन बाबू आनन्द कुमार बाबू	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5254 12.01.07	ग्राम/ब्रह्मपल्ली पो.आ./वाया बिन्का, जिला सोनपुर ।
103147	बिनोद बिहारी डोरा जोगेश चन्द्र डोरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5212 28.09.06	ग्राम/पो.आ. भवानीपटना हिल टाउन वाया भवानीपटना जिला कालाहाण्डी ।
103148	बिराची नारायण बेहरा बंशीधर बेहरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5216 12.10.06	ग्राम खुलिशा पो.आ. अमानकुदा वाया बानमालीपुर जिला खुर्दा ।
103149	बिसमाया कुमार साहू विष्णु चरण साहू	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5133 05.12.05	ग्राम तोमानपुर (बलिपाड़ा) पोस्ट एवं वाया रहमा थाना तिरटोल जिला जगतसिंहपुर ।
103150	विश्वम्भर मेहर जुगलसाय मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5178 26.06.06	ग्राम/पो.आ. भालुमुन्डा वाया/बांगोमुन्डा । थाना बांगोमुन्डा, जिला बालनगीर ।
103151	विश्वनाथ प्रधान के.जोगेश च. प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5142 14.12.05	ग्राम/पो.आ. हुम्मा वाया/थाना रम्मा जिला गंजम ।
103152	विश्वरंजन मिश्रा नरसिंह चरण मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5198 21.07.06	ग्राम/मुक्तदेईपुर पो.आ. अरखपटना वाया अथागढ़ जिला कटक ।

103153	ब्रज गोपाल दास पूरन चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5225 17.10.06	ग्राम सदानन्दापुर पो.आ. अमरदा रोड वाया बस्ता, जिला बालासोर ।
103154	छन्दा चरण साहू युधिष्ठिर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5192 12.07.06	ग्राम सिनखामन पो.आ. कच्चकेलगौव वाया देवगौव, बालनगीर ।
103155	चिन तादु मनोज कुमार पात्रो च. विश्वनाथ पात्रो	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5077 18.07.05	ग्राम एवं पो.आ. जगदलपुर वाया नीमाखन्डी थाना बरहामपुर ।
103156	चिनमय भबानी प्रसाद घनश्याम डोर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5287 21.02.07	गुरुबिहार मटियापाड़ा कुम्भारपाड़ा पुरी ।
103157	देबदत्ता पाणिग्रही दिलीप कुमार पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5085 28.07.05	ग्राम/पोस्ट गेलपुर जिला भद्रक ।
103158	देवराज साहू महेश्वर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5091 29.07.05	ग्राम खादीनली, पोस्ट कल्ला वाया/थाना बारकोटे, जिला देवगढ़ ।
103159	देबाशीष कानूनगो गगन बेहारी कानूनगो	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5206 17.08.06	रघुनाथ निवास, जमुना रोड पो.आ./वाया मार्केन्देश्वरसाही पुरी ।
103160	देवासिस मोहन्ती नीलमणि मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5208 22.08.06	ग्राम/पो.आ. पानिकोल्ली वाया जे.के. रोड, जिला जाजपुर ।
103161	देवासिस मोहन्ता श्रीहरि मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5200 27.07.06	ग्राम/पो.आ. कुलीपोसी वाया करनजिया जिला मयूरभंज ।
103162	देवास्मिता मोहन्ती दिलीप कुमार मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5137 12.12.05	ग्राम धर्मगपुर पोस्ट मिर्जापुर वाया सनपुरा, थाना सालीपुर, जिला कटक ।
103163	दीपक कुमार दास केशव च. दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5205 17.08.06	ग्राम अछादा पो.आ. सनबेलाकुटी वाया पुरूनबारीपाड़ा जिला मयूरभंज ।
103164	दीपक कुमार भुयान बिमल कुमार भुयान	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5241 12.01.07	ग्राम बिसीपाली तिकिया पो.आ. सतलामा वाया बारपाली, जिला बारगढ़ ।

103165	देवीदत्त परिदा बसन्त कुमार परिदा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5141 14.12.05	ग्राम/सी-42, वाई नं.8, देउलासाही बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज ।
103166	दिव्या अनुपमा लाकरा बंजामीन लाकरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5110 16.08.05	प्रेमी अन्ना एक्को द्वारा श्री जूनास एक्का ग्राम/पो.आ. बिजुनगर, झारसुगुडा ।
103167	डिम्ल संघमित्रा घनश्याम डोरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5282 21.02.07	गुरू बिहार मटियापाड़ा पो.आ.कुम्भरपाड़ा पुरी ।
103168	दीपक रंजन महापात्रा बंशीधर महापात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5196 19.07.06	ग्राम नारायणखैरापाली पो.आ. करिआगा वाया शैमल जिला देवगढ़ ।
103169	दीप्ति दास गदाधर दास	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5238 12.01.07	ग्राम/पो.आ. बरुनी रोड, लेन -3, बारीपाड़ा जिला मयूरभंज ।
103170	दीप्तिमयी सारंगी दुर्गा चरण सारंगी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5283 21.02.07	सी.एच.20, को-आपरेटीव कालोनी, ग्राम/पो.अ केआईआईटी कैम्पस, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर ।
103171	दुर्गा चरण दास कुष्णा चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5170 07.06.06	ग्राम हरिपुर, पोस्ट बक्शी बाजार वाया बादमबाडी थाना पुरीघाट, कटक ।
103172	दुर्गा माधव डे बिपिन बिहारी डे	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5239 12.01.07	ग्राम माझिका, पो.आ. बानेश्वर वाया, रासलपुर, जिला बालासोर ।
103173	दुसमन्ता कुमार पांडा अजय कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5083 28.07.05	ग्राम/पो.आ.कुरुआ, वाया तुरीगरिया, जिला बालासोर ।
103174	दुसमन्ता नायक कन्दपा नायक	बी.ए.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5275 09.02.07	ग्राम/पो.आ. सामजोरी वाया, तलसारा जिला सुन्दरगढ़ ।
103175	गजेन्द्र साहू गोपालजी साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5082 28.07.05	ग्राम/पोस्ट रमता, वाया बारपाली जिला बारगढ़ ।
103176	गति कुष्णा पांडा गिरिजा संकर पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5161 09.02.06	ग्राम एनरी, पोस्ट अनन्तापुर जिला बालासोर ।



103177	गायत्री प्रधान रत्नाकर प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5150 09.02.06	ग्राम/पो.आ. ओदासिंह वाया रामेश्वर जिला कटक ।
103178	गीतांजलि मिश्रा बिनोद बिहारी मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5096 02.08.05	ग्राम/पो.आ. थाना बिन्का, जिला सोनपुर ।
103179	गिरिश चन्द्र अधिकारी भगवान अधिकारी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5227 17.10.06	ग्राम/देवास्थल पो.आ. साईगोंव वाया, मनात्री जिला मयूरभंज ।
103180	गीतांजलि पट्टायत गौराहरि पट्टायत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5272 09.02.07	ग्राम कलासिमुली पो.आ. जमनीराय वाया, लंगलेश्वर जिला बालासोर ।
103181	गितिका गिरी गयाधर गिरी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5213 03.10.06	ग्राम/पो.आ. अजीमाबाद वेस्टर्न साईड आफ नुआपोखरी वाया, जिला बालासोर ।
103182	ज्ञानरंजन मिश्रा बाबाजी चरण मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5136 12.12.05	ग्राम गौडासाही पोस्ट महशादा वाया/थाना बिनझरपुर जिला जाजपुर ।
103183	हरेकृष्णा नायक सत्यानन्द नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5146 09.02.06	ग्राम/पो.आ. गिधीबास वाया, उखुन्दा पी.एसी. बारिया क्योंझार ।
103184	हेमन्त कुमार मोहन्ता पुरुषोत्तम मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5184 11.07.06	ग्राम/पो.आ. कलारनगियट्टा वाया, सुकिन्दा जिला जाजपुर ।
103185	इप्सीता बोहिदर निरंजन बोहिदर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5181 30.06.06	ग्राम/बाडमेनपुर पोस्ट राजबोरसम्ब वाया/ थाना पदमपुर जिला बारगढ़ ।
103186	जगदीश पसाद मोहन्ता मधुसूदन मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5086 28.07.05	ग्राम बाडज मुपशी पोस्ट, सार स्कोला वाया स्वमपटना जिला क्योंझार ।
103187	जयदयाल साहनी राम प्रताप साहनी	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5248 12.01.07	पीटीएन-119/, सैक्टर 06, राउरकेला ।
103188	जाजती केशरी बेहरा गौरहरि बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5156 09.02.06	ग्राम बोलपल पोस्ट, खुन्टापल वाया बरसाही जिला मयूरभंज ।

103188	जन्मजया बेहरा राम चरण बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5204 17.08.06	ग्राम तुलमदुला पो.आ./वाया बेटडा जिला मद्रक ।
103190	जसोबन्ता प्रधान चैतन्य प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5079 27.07.05	ग्राम बाडमनपुर पोस्ट मध्यापुर वाया/थाना बरकोटे जिला देवगढ़ ।
103191	जयदेव भट्टाचार्य निर्मई चरण भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5104 03.08.05	ग्राम/पो.आ. स्तरापाडा पी.एस. खण्डागिरी जिला खुर्दा ।
103192	जयद्रथ नाथ अधिकन्दा नाथ	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	5117 02.09.05	नरसिंहपुर पोस्ट वाया मितरापुर थाना नीलगिरी जिला बालासोर ।
103193	जयश्याम पासा घनश्याम पासा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5189 11.07.06	ग्राम/पो.आ. सनेबेलाकुटी वाया पुरुनाबारी पाडा जिला मयूरभंज ।
103194	जितेन्द्र सामल नारायण चन्द्र सामल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5094 02.08.05	ग्राम चैरन्टापाडा पोस्ट वाया/थाना राजकनिका केन्द्रपाडा ।
103195	जोगमाया नायक सनातन नायक	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाडा 2003	5252 12.01.07	ग्राम श्रीकोरुयन पो.आ. उरली, वाया गोपालपुर जिला कटक ।
103196	जुझार नायक बेरगा नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	5115 22.08.05	ग्राम टन्डीपानी पोस्ट, तुहासिला वाया बीजटाला थाना गोरूमोहिसनी जिला मयूरभंज ।
103197	ज्योति रंजन जेना दामोदर जेना	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5226 17.10.06	ग्राम/पो.आ. पाहंगा वाया थाना नियाली जिला कटक ।
103198	ज्योति प्रिया सिंह पुरन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5159 09.02.06	ग्राम निनहुआन पोस्ट वाया/थाना तुरुमुन्डा जिला क्यौझार ।
103199	ज्योतिस्मिता साहू पितबास साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5093 01.08.05	ग्राम/पोस्ट थाना ओडगॉव नयागढ़ ।
103200	कविता मलिक मुरलीधर मलिक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5145 09.02.06	ग्राम सिधो, पोस्ट भीमदासपुर जिला कटक ।

103201	कैलासकी शोरे प्रधान पूरन चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5109 05.08.05	ग्राम/पोस्ट कल्ला वाया थाना बरकोटे जिला देवगढ़ ।
103202	कालीकिनकर प्रवाकर रथ	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5134 05.12.05	ग्राम/साहदेव खुन्टा पो.आ./थाना /वाया जिला बालासोर ।
103203	कमलाकान्ता मोहन्ता धानेश्वर महन्ता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5188 11.07.06	बासुबहल पो.आ. कलेईपोश वाया लहुनियापाडा जिला सुन्दरगढ़ ।
103204	खिरौद प्रसाद ओझा अरधेन्दु सेखर ओझा	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5244 12.01.07	ग्राम/पो.आ. अनला वाया, जुगपुरा जिला मयूरभंज ।
103205	कुष्ठा चन्द्र महापात्रा पुरुषोत्तम मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5089 28.07.05	ग्राम असनाबनी पोस्ट, पनसाडिहा वाया आनन्दपुर क्योंझार ।
103206	क्षीरब्धी तानया राउतराय बिपिन बिहारी राउतराय	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5108 05.08.05	ग्राम/पो.आ. नारणगढ़ वाया/थाना जनकिया जिला खुर्दा ।
103207	कुन्दन प्रसाद विनोद प्रसाद	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5186 11.07.06	ग्राम खपरखई पो.आ. घासीपुरा वाया आनन्दपुर जिला क्योंझार ।
103208	लिप्सा पाधी सिमानचल पाधी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5202 04.08.06	ग्राम/पो.आ. जिला नुआपाडा ।
103209	मदन गोपाल साहू सिब चरण साहू	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5223 17.10.06	ग्राम/खेराशबेला पोखरी, पो.आ./जिला जगतसिंहपुर ।
103210	मधु स्मिता पाति सिमानचल पाति	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5234 11.01.07	ग्राम/पो.आ. पापदाहण्डी जिला नवरंगपुर ।
103211	मधुस्मिता दूरदर्सिनी निर्मल चन्द्र सामल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5153 09.02.06	ग्राम/पो.आ. विद्याधरपुर वाया भानमण्डल जिला जाजपुर ।
103212	मधुस्मिता कर प्रेमानन्दा कर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5177 26.06.06	ग्राम/पो.आ. औपादा वाया अलबा थाना पट्टामुन्दई जिला केन्द्रपाड़ा ।

103213	महामाया मोहन्ती कैलाश च. मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5218 12.10.06	ग्राम ब्रह्मखण्डा पो.आ. ओरिक्न्टा वाया लेमालो, जिला कटक ।
103214	मनस्मिता सुन्दरा हादीबन्धु सुन्दरा	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5253 12.01.07	मालीसाही पटमा पो.आ. दासपल्ला जिला नयागढ़ ।
103215	मन्दकिनी त्रिपाठी मधुसूदन त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5152 09.02.06	ग्राम/पो.आ. के-सिखरपुर वाया/थाना खण्डापारा जिला नयागढ़ ।
103216	मनमथ कुमार कर प्रफुल्ला च. कर	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5242 12.01.07	ग्राम कविसूर्यानगर पो.आ. खरियामाकुन्दापुर सासन, जिला गंजम ।
103217	मीरा लेंका नरसिंह चरण लेंका	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5278 21.02.07	सी/79, एन.आई.जी. डुलेक्स तासमहल, ओ.एस.एन.बी. कालोनी बारमुन्डा, भुवनेश्वर ।
103218	मोहम्मद असजद खान मोहम्मद युसूफ खान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहू महाराज वि.वि., कानपुर 2002	5120 18.10.05	ग्राम बोरापाड़ाखामर पोस्ट, गहमीखुन्टी जिला धनकानल ।
103219	नानी गोपाल अशोक पुरन चन्द्र अशोक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5171 08.06.06	ग्राम सन्दाभा पो.आ./बाजीपुर वाया केखरा जिला बालासोर ।
103220	नरेन्द्र कुमार साहू अर्जुन साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5197 21.07.06	ग्राम/पो.आ. वाया डुंगरीपाली जिला सोनपुर ।
103221	निवेदिता मोहन्ता नकुल च. मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5280 21.02.07	प्लॉट नं.17 जी.जी.पी. एन्क्लेव, रसूलगढ़ मानचेश्वर खुर्दा ।
103222	निवेदिता राय बक्शी उल्लाष कुमार राय बिधर	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5209 28.09.06	ग्राम विकाश नगर पो.आ./वाया जतनी जिला खुर्दा ।
103223	निलमथा साहू बिपिन बिहारी साहू	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5138 12.01.05	ग्राम/पो.आ. मसाबदी वाया कुल्लदा थाना तारासिंग जिला गंजम ।
103224	निलिमा जेना राजकिशोर जेना	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, 2006	5207 22.08.06	ग्राम कानस गोला बाजार पो.आ./वाया कानस जिला पुरी ।

103225	ओम प्रकाश लेंका सुदर्शन लेंका	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5284 21.02.07	ग्राम अमलापारा पो.आ. नीमापारा, पुरी ।
103226	पदमालय बेहेरा प्राणकर शना बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5265 09.02.07	ग्राम/पो.आ. पंचपाडा वाया, नलादीपाडा जिला बालासोर ।
103227	प्रजनापरमिता बारिक प्रवाकर बारिक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5145 27.12.05	सनातन नायक स्टेज-III, एम-3 झारपाडा जेल के सामने झारपाडा जिला खुर्दा ।
103228	पथसाथी मिश्रा बिपिन बिहारी मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5157 09.02.06	बलरामपुरतालागढ़ पोस्ट, जेनापुर थाना भरामसाला, जाजपुर ।
103229	प्रदीप कुमार बिन्धानी मुकुन्द च. बिन्धानी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5147 09.02.06	ग्राम तालाबनी पोस्ट, कोलागदिया वाया कटीपाडा जिला मयूरभंज ।
103230	प्रदीप्ता कुमार सिंह सिब प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5285 21.02.07	होटल सी 'एन' सान्द सी.टी. रोड, पुरी ।
103231	प्रजना परमिता मिश्रा चितरंजन मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5224 17.10.06	ग्राम/पो.आ. वाया राजनगर जिला, केन्द्रपाडा
103232	प्रमोदिनी गर्तिया बिपिन बिहारी गर्तिया	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5182 30.06.06	सीड प्रोसेसिंग प्लांट एकमन्ना चौक पोस्ट, सरसारा जिला बारगढ़ ।
103233	प्रणव कुमार जेना जादुनाथ जेना	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5144 21.12.05	ग्राम/पो.आ. जाले स्वरपुर वाया देहुर्दा थाना भुगाराय जिला बालासोर ।
103234	प्रणति मांजरी शर्मा आलेख प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5127 30.11.05	ग्राम सोरीसादा पो.आ. पात्रपुर वाया पट्टामुन्देई थाना: ओल: बालासोर ।
103235	प्रसन्ना कुमार पात्रा परमानदा पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2003	5143 16.12.05	ग्राम बल्लामुन्दुली पोस्ट वाया/श्यामखुन्टा जिला मयूरभंज ।
103236	प्रसान्ता कुमार दास जतिन्नाथ दास	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाडा 2003	5243 12.01.07	ग्राम अंगरागडियों पो.आ. वाया/कुचेई जिला मयूरभंज ।

103237	प्रवतानशु कर प्रेमानन्द कर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि. भुवनेश्वर 2007	5288 26.02.07	ग्राम/पो.आ.कुपाडा वाया अल्वा केन्द्रपाडा ।
103238	प्रवीणा पटनायक चौधरी भूबन मोहन पटनायक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5222 13.10.06	श्री जगन्नाथ निकेतन रामचन्द्रपुर, पीछे एम.पी.ओ. जतनी, खुर्दा ।
103239	प्रेमानन्द झंकार नरेन्द्र झंकार	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि. भुवनेश्वर 2006	5148 09.02.06	ग्राम भवानीपाली पोस्ट रामपुर वाया/थाना बिका, सोनपुर ।
103240	प्रतिभा कुमार मिश्रा कार्तिक च. मिश्रा	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाडा 2003	5251 12.01.07	ग्राम/पो.आ. दतियामुहन वाया, रुशनाचन्द्रपुर, मयूरभंज ।
103241	प्रतिभा रंजन महापात्रा गुणनिधि महापात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि. भुवनेश्वर 2006	5158 09.02.06	ग्राम निलाम्बरपुर पोस्ट बीरबाला मद्रपुर वाया/थाना चन्दनपुर, पुरी ।
103242	प्रियव्रत अरुण कुमार साहू हेमन्ता कुमार साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5098 02.08.05	ग्राम/पो.आ.कल्ला, वाया/थाना बारकोटे देवगढ़ ।
103243	प्रियकाव्रत राउत जाजती किशोर राउत	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5123 29.11.05	ग्राम/सरला पो.आ. दानर वाया मंजूरी रोड थाना नन्दीपारा जिला क्योंडाार ।
103244	प्रियंका मामदी दयानिधि मामदी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि. भुवनेश्वर 2005	5112 16.08.05	क्वार्टर 7 सी/15, यूनिट-1, भुवनेश्वर ।
103245	पुष्पांजलि बेहरा महेन्द्र बेहरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5210 28.09.06	ग्राम रामपा, पो.आ. बरी कटक, वाया बरी जिला जाजपुर ।
103246	पुष्पापिता पल्लुर मोदिन्द च. पल्लुर	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5219 12.10.06	ग्राम खरीगढ़ पो.आ. बागलो साही वाया निवाली कटक ।
103247	राजीव लोचन सेनापति सैलेन्द्र कुमार सेनापति	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाडा 2003	5256 12.01.07	ग्राम/पो.आ.पुरुणाबन्धा गोडा, वाया सैनकुल जिला क्योंडाार ।
103248	राजकिशोर साहू बिष्णु चरण साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5185 11.07.06	ग्राम/पो.आ.धोलपाडा वाया गोहिरादमसाईड जिला देवगढ़ ।

103249	राखी पांडा रविन्द्र कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5136 09.02.06	प्लॉट नं. एन-6/78, आई.आर.सी. वाया नयापल्ली, बी.बी.एस.आर.4
103250	रामा प्रसाद साहू डंडापाणि साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5080 28.07.05	ग्राम/पो.आ. मदनपुर वाया/कुराल, थाना ओदागोन जिला नयागढ़ ।
103251	रंजन कुमार कास्त्रा अमरेन्द्र कास्त्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5164 09.02.06	ग्राम कमरसोल पोस्ट बारडिहा वाया हातिगढ़ जिला बालासोर ।
103252	रंजन कुमार प्रतिहारी चिन्तामणि प्रतिहारी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5132 01.12.05	ग्राम मृदुंज लाईपुर (बाघा) पोस्ट कोरहा थाना वाया जाजपुर रोड ।
103253	रंजन कुमार मिश्रा राधेश्याम मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5135 06.12.05	ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट राणापुर, वाया मशरा जिला जाजपुर ।
103254	रंजन मिश्रा राज किशोर मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	5116 01.09.05	प्लॉट नं.1080/2977, यूनिट 20, खण्डानिरी जिला खुर्दा ।
103255	रश्मि रंजन साहू बटाकरू शना साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5203 17.08.06	ग्राम/पो.आ. गोप, जिला पुरी ।
103256	रश्मि रंजन नायक प्रबु चरण नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2005	5121 22.11.05	ग्राम/पोस्ट पनहांगा वाया/थाना नियाली जिला कटक ।
103257	रेबाशिशेन्द्र बहादुर सिंह रामानाथ धर्मा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5187 11.07.06	ग्राम/पो.आ. भालेश्वर वाया खैरियार रोड, जिला नुआपाडा ।
103258	साईराम महापात्रा पूरन च. महापात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5286 21.02.07	ग्राम बदागोराडा पो.आ. केशरपुर वाया मन्दातापुर जिला नयागढ़ ।
103259	सकुन्तला परिदा निरंजन परिदा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5271 09.02.07	ग्राम अम्बीलीगन पो.आ. धनित्री जिला पुरी ।
103260	संगीता महारथी पदमा चरण महारथी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5221 13.10.06	ई-60, क-6 (ए), कलिंगा विहार, पात्रपाडा भुवनेश्वर ।

103261	संगीता परुस्ति नारायण परुस्ति	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5266 09.02.07	ग्राम धारपुर पो.आ. महंगा जिला कटक ।
103262	संजय कुमार सेठी बुद्धदेव सेठी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5230 17.11.06	ग्राम गोपीनाथपुर हाट बाजार, पो.आ./वाया जतनी जिला पुरी ।
103263	संजीव बिश्वाल पूरन चन्द्र विशाल	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2005	5125 29.11.05	ग्राम/पो.आ. वाया दरगजा जिला बालासोर ।
103264	सारिका विरखडे पुरुषोत्तम विरखडे	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2003	5118 06.09.05	ग्राम/पो.आ. खारियर रोड, जिला नुआपाडा ।
103265	सरिता मिश्रा बासुदेव मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5114 18.08.06	क्वार्टर नं. सी/31, एस.बी.आई. कालोनी शास्त्रीनगर, बी.बी.एस.आर
103266	सरिता जयन्ती मलिक उपेन्द्रनाथ मलिक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5174 12.06.06	ग्राम/पिंगु, पो.आ. नुडाधिया वाया उदाला जिला मयूरमज ।
103267	सरभिस्ता दास नलिनी रंजन दास	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5257 12.01.07	ग्राम मलिबन्हा पो.आ. गोपाल प्रसाद वाया, डेरकलियारी जिला अंगुल ।
103268	सरोज कुमार बारिक रामा च. बारिक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5191 11.07.06	ग्राम/पो.आ. देरकी वाया नुआगोंव जिला जगतमिहपुर ।
103269	सरोज कुमार प्रधान आनन्द चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5081 28.07.05	ग्राम/पो.आ. बड़ापंडुसार वाया इतामति जिला नयागढ़ ।
103270	सरोजिनी पटनायक राजकिशोर पटनायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5273 09.02.07	ग्राम साबलंगा पो.आ. सयपुर वाया जनकिया जिला पुरी ।
103271	सशिकान्ता माझी चन्द्रामणि माझी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5214 09.10.06	ग्राम/पो.आ. बट्टो वाया सैनकुल जिला क्योंझार ।
103272	सस्मिता भट सुरेश भट	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5215 09.10.06	ग्राम/पो.आ. बनकोई वाया बोलागढ़ जिला खुर्दा ।



103273	सत्यवान महलिक अलेखा प्रसाद महलिक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5122 29.11.05	ग्राम/कनखई पो.आ. अनन्तापुर वाया भुवन जिला धनकानल ।
103274	सत्यनारायण साहू गदाधर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5103 03.08.05	ग्राम गदाधर्मसागर विश्वनाथ कालोनी पो.आ./ थाना जतनी जिला खुर्दा ।
103275	सौभाग्य कुमार महलिक विचित्र महलिक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5101 02.08.05	ग्राम/पो.आ. तुहिलामल वाया/थाना रीमल जिला देवगढ़ ।
103276	सौम्यासनिग्धा पांडा दिलीप कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5259 12.01.07	ग्राम/पो.आ. बैसिंगा जिला मयूरभंज ।
103277	सेसोद कुमार बुदा कन्धु चरण बुदा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5126 29.11.05	ग्राम/पो.आ. समासघा वाया/थाना कोलाबीरा जिला झारसुगुडा ।
103278	शिव प्रसाद मोहन्ती उमेश च. मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5107 05.08.05	ग्राम कुशीकोना पो.आ. ओलाकना वाया, नीमापरा जिला पुरी ।
103279	शिव शंकर स्वैन सशिशूषण स्वैन	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5217 12.10.06	क्वॉ/नं.33 (आई.वी. आर), यूनिट-11, अशोक बीबीएसआर ।
103280	शोभिनी चौलीमयी किरानी कुमार सेठी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5229 02.11.06	ग्राम/पो.आ. आनन्दापुर पात्रासाही जिला क्यौझार ।
103281	श्रद्धांजलि दास प्रफुल्ल कुमार दास	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5095 02.08.05	ग्राम मालपारा पोस्ट/जिला बालनगीर ।
103282	श्रीकुमार दास विभूतिभूषण दास	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5250 12.01.07	बीजी फार्मासिटिकल मानचेश्वर सैक्टर-ए, जोन आर-बी भुवनेश्वर ।
103283	श्रीराम मोहन्ती बटकृष्णा मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5249 12.01.07	ग्राम/पो.आ. सरठा वाया हलदीपाड़ा जिला बालासोर ।
103284	सिबांसकर साहू लक्ष्मण साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5088 28.07.06	ग्राम/पो.आ. पैकमल जिला बारगढ़ ।

103285	सिटीकान्ता साहू द्वितीय चरण साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5194 12.07.06	कलिकाप्रसाद वाया रिमुली जिला क्योझार ।
103286	स्मिता त्रिपाठी दिलीप कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5140 12.12.05	ग्राम सागरपारा पो.आ./जिला बालनगीर ।
103287	स्नोहलता मोहपात्रा प्रेमानन्द नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5279 21.02.07	ग्राम कर्मकुट पो.आ. आश्रमबालिकुडा वाया मार्शघई जिला केन्द्रपाड़ा ।
103288	श्रद्धांजलि बारिकी जलाधार बारिकी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5092 29.07.05	बासुदेईपुर पो.आ. गरहांसिंह प्रसाद वाया/ मठकारगोला जिला धेनकानल ।
103289	श्रीकान्त पुथल सन्तोष कुमार पुथल	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2006	5220 13.10.06	ग्राम/पो.आ.सनबेलाकुटी वाया पुरुनाबारी पाडा जिला मयूरभंज ।
103290	सुची स्मिता साहू सत्यानन्द साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5193 12.07.06	नतिसलपारा बालनगीर ।
103291	सुची स्मिता राजत अच्युतानन्द राजत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5281 21.02.07	ग्राम व पो.आ. लौलाई वाया गान्दिया जिला धेनकानल ।
103292	सुचित्रा मोहन्ती चित्तरंजन मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5113 18.08.05	क्वॉ.नं.एल/12, बारामुन्डा हाउसिंग बोर्ड कालोनी भुवनेश्वर जिला खुर्दा ।
103293	सुदेशना मेहर दुखीरयाम मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5100 02.08.05	ग्राम/पो.आ. धालुमुन्डा वाया बनगोमुन्डा जिला बालनगीर ।
103294	सुधीर बाडा धनश्याम बाडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5201 01.08.06	ग्राम कान्तीयपुरा पो.आ./वाया बरगौव जिला सुन्दरगढ़ ।
103295	सुधीर कुमार बेहरा अधिकारी बेहरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5090 29.07.05	आनन्द बाजार ग्राम/काठगाडा पोस्ट जिला धेनकानल ।
103296	सुजीत कुमार दास लक्ष्मण दास	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5199 24.07.06	ग्राम नुआसासन पो.आ. तिमिरिया जिला कटक ।

103297	सुनीता बेहरा नारायण बेहरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5233 11.01.07	ग्राम/पो.आ. सखीपारा निकट मिशन चर्च जिला सम्बलपुर ।
103298	सुप्रवा जेना सुरेश च. जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5162 09.02.06	ग्राम/पो.आ. अल्बा, पट्टामुन्देई वाया केन्द्रपाड़ा ।
103299	सुप्रिया राउतराय पून च. राउतराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5274 09.02.07	ग्राम/पो.आ. जुनेई वाया कोणार्क जिला पुरी ।
103300	सूर्य कान्ती पुस्ती रत्नाकर पुस्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5155 09.02.06	ग्राम अलीनगर पोस्ट सोहादा वाया धामनगर, भद्रक ।
103301	सुसान्त कुमार महापात्रा गोपाबन्धु महापात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5190 11.07.06	रामजी चौक पटनागढ़, बालनगीर ।
103302	सुसान्त कुमार प्रधान सुबल चरण प्रधान	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2003	5246 12.01.07	ग्राम/पो.आ. कहिघरपुर वाया हिन्दोल जिला अंगुल ।
103303	सुश्री संगीता बेहरा राजकी शोर बेहरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5129 30.11.05	छायापठलाईन ग्राम/पो.आ. जिला नयागढ़ वाया 1 टामती ।
103304	सुसीला पांडा पून च. पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5173 12.06.06	ग्राम/जमालपुर, पो.आ. रेमु वाया जामसुली बालासोर ।
103305	सुष्मिता प्रधान धरनीधर प्रधान	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2004	5255 12.01.07	ग्राम/पो.आ. साउथ बालन्दा वाया, तलचैर जिला अंगुल ।
103306	स्वपना स्वयमप्रवा संसारि कुमार राउत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5167 20.02.06	ग्राम/पो.आ. रैराखोल जिला सम्बलपुर ।
103307	स्वप्नेश्वर साहू पंचानन साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2006	5160 09.02.06	ग्राम/पो.आ. भालुमुन्डा वाया थाना बांगीमुन्डा जिला बालनगीर ।
103308	स्वस्ना प्रवा रथ भिकारी चरण रथ	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बहरामपुर 2005	5131 30.11.05	सीडीए 3 ईसी -7 / ब्लाक-3, प्लाट नं.253 जी. कटक ।

103309	स्वाती रंजन सेन सुरेश कुमार सेन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5236 11.01.07	ग्राम/पो.आ. बरापाली जिला बारगढ़ ।
103310	तपस्विनी नायक पुरेन नायक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5228 17.10.06	वर्क एल 249, पहला तल हाउसिंग बोर्ड कालोनी जिला मयूरभंज
103311	त्रिलोचन बराल सदानन्द बराल	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर 2006	5231 01.01.06	ग्राम पो.आ. जुनेल, जुनेल बाजार वाया कोणार्क जिला पुरी ।
103312	तृप्तिदयीनी आचार्य पूरन चन्द्र आचार्य	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2007	5276 09.02.07	ग्राम नुआसासन पो.आ. बरचन वाया धनमन्डा जिला जाजपुर ।
103313	तृप्तिरानी मिश्रा अर्जुन मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2005	5097 02.08.05	ग्राम/पो.आ. कात्तामल जिला बौघ ।
103314	उमासंकर दास बैद्यनाथ दास	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला, सम्बलपुर 2006	5195 17.07.06	पुरीघाट तेलगा बाजार, कटक ।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

### भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

उड़ीसा

भाग II यूनानी

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
10103	सैयद मजहरुद्दीन सैयद फखरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	5175 17.06.06	ग्राम कानपुर, पो.आ. कूड वाया सालेपुर कटक ।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

नई दिल्ली-110058, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. 20-22/2008-के.पं. (पश्चिम बंगाल)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में पश्चिम बंगाल राज्य रजिस्टर में जनवरी 2007 तक क्रम संख्या 102849 आयुर्वेद से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 102986 आयुर्वेद सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी-- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल 2004 से 01 जनवरी 2007 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (पश्चिम बंगाल) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

## भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

पश्चिम बंगाल

भाग I आयुर्वेद

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
102849	अब्दुल खालिक लश्कर मोह. छलामत लश्कर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11495 10.08.04	ग्राम नातबेरिया, पोस्ट नलुआ थाना मथुरापुर (आर.एस.) जिला साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल
102850	अभिजीत विश्वास गोकुल चन्द्र विश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11591 23.08.06	ग्राम सब्जी कत्रा कालोनी, पोस्ट थाना एवं जिला मुर्शिदाबाद ।
102851	अभिजीत सोम कार्तिक च. सोम	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11512 07.09.04	निर्वोयपुर, पोस्ट आरामबाग, जिला हुगली ।
102852	अजोय भकट सर्वानन्दा भकट	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11578 09.08.06	ग्राम एवं पोस्ट शाबरी, थाना बोक्सिहाट जिला कूच बेहर ।
102853	अमित डे अनिल कुमार डे	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11550 27.09.05	ग्राम सुभाषपल्ली, पोस्ट बेल्ला थाना बेल्ला, जिला मिदनापुर ।
102854	अमिताभ मण्डार अनता मण्डार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11533 10.08.05	ग्राम छेरैपारा, पोस्ट बेगपुर थाना कालना, जिला बर्दवान ।
102855	अमृता चन्द्र सुभासीष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11561 26.07.06	13, रामकृष्णपल्ली (ईस्ट) कालना रोड, पोस्ट एवं जिला बर्दवान ।
102856	अनिन्दिता दत्ता चौधरी अशिम दत्ता चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11521 09.08.05	दत्ता चौधरी बरी शीतलाटाला, पश्चिमपारा बराय बगान, बकुइयति, कोलकाता ।
102857	अनिन्द्या भट्टाचार्य पितबास भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11479 26.07.04	45, अमहेस्ट स्ट्रीट, कोलकाता ।

102858	अनिरुद्ध पान संजीव कुमार पान	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11562 26.07.06	ग्राम व पोस्ट सशिनारा, जिला बरवान पश्चिम बंगाल ।
102859	अनुपम सिन्हा परितोष सिन्हा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11589 23.08.06	ग्राम वेस्ट सपुईपारा, पोस्ट सपुईपारा धाना एवं जिला हावड़ा ।
102860	अर्घया चटर्जी भलोनी प्रसाद चटर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11473 19.07.04	शरिलेकर रोड, अमटाला बर्दवान पश्चिम बंगाल ।
102861	अरिजीत खान गोलक चन्द्र खान	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11530 10.08.05	63, एन.एस. रोड, पोस्ट न्यू बर्कपुर, धाना घोला जिला नोर्थ 24 परगना कोलकाता ।
102862	आशीष दास अमृत्य चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11523 09.08.05	द्वारा कृष्णा बन्धु डे ग्राम पुरबास्थली स्टेशन बाजार, पो.आ. एवं थाना पुरबास्थली, जिला बर्दवान ।
102863	अटनु पात्रा सुरील कुमार पात्रा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11475 19.07.04	तिरल कोल्लीएरी, पोस्ट कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान ।
102864	बी. लक्ष्मी नारायण एल. बालासुब्रह्मणियन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11568 09.08.06	सी-5/2, इन्द्रलोक एस्टेट पैकपारा कोलकाता ।
102865	बादल चन्द्र डे कृष्णा बन्धु डे	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11526 09.08.05	ग्राम पुरबास्थली स्टेशन बाजार पो.आ. एवं थाना पुरबास्थली, जिला बर्दवान ।
102866	बेबोब्रत भट्टाचार्य ओपणबिंश्वर भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11580 09.08.06	ग्राम सहानुई, पोस्ट रसुलपुर, थाना मेमरी जिला बर्दवान ।
102867	बिकाश कुमार दास बिष्णु पद दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11563 26.07.06	ग्राम व पोस्ट आलनगिरी, थाना एगरा जिला पुर्बा मेदिनीपोर ।
102868	बिश्वनाथ विश्वास धीरेन्द्रनाथ विश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11499 12.08.04	ग्राम एवं पोस्ट शिवपुर, थाना नाकशी पारा, जिला नादिया ।

102869	ब्रती नाग निर्मल कुमार नाग	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11565 09.08.06	बी.सी.37/3, साल्ट लेक सिटी सेक्टर-1 कोलकाता ।
102870	चन्द्रानी पाल हरिपद पाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11538 10.08.05	20/सी/2, नन्दनकानन, पोस्ट हिन्दमोदूर जिला हुगली ।
102871	चिरनजीत बिश्वास चित्तरंजन बिश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11502 17.08.04	बारों जोनेपुर, पोस्ट कंचरापाड़ा, जिला नोर्थ 24, परगना ।
102872	देब्रत घोष नबराम घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11604 15.11.06	ग्राम कालीपुर पोस्ट, गरालगछा जिला हुगली ।
102873	देबाशीष दत्ता गोपाल चन्द्र दत्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11477 22.07.04	ग्राम बामदा, पोस्ट झारगम, जिला मिदनापुर ।
102874	देबाशीष कुन्दु सान्ती राम कुन्दु	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11564 26.07.06	12/एन, जाननगर रोड महेश-1, सेरामपोर, हुगली ।
102875	देबाशीष नियोगी स्व. नन्दलाल नियोगी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11480 26.07.04	85, घोष पारा लेन पोस्ट भोद्रकाली, जिला हुगली ।
102876	देबदत्ता घोष महादेब घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11534 10.08.05	ग्राम एवं पोस्ट सोअलुक, थाना पुरसुराह जिला हुगली ।
102877	धीमन शर्मा श्री निरोद चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11598 20.09.06	द्वारा श्रीमति आरती शर्मा, ग्राम निवेदिता नगर, पोस्ट नोना चन्दनपुकुर, थाना तिटागढ़ पश्चिम बंगाल ।
102878	धृतिबिकाश मंडल अतुल कृष्ण मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11554 18.01.06	125/1, बी.एम. रॉय रोड, कोलकाता ।
102879	दिबेन्दु बनर्जी शुबेन्दु बनर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11474 19.07.04	108, जे.बी. मित्र रोड, सिंघ दर्जा पोस्ट राजबर्ती, जिला बर्दवान ।



102880	दिलीप सरकार लाल मोहन सरकार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11555 18.01.06	11/ए. दासखिन पूर्वांचल अस्पताल रोड, पोस्ट हल्दु, थाना कस्बा, कोलकाता ।
102881	दिपानविटा हलदर रबिन्द्रनाथ हलदर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11596 23.08.06	ग्राम आनन्दमठ, पोस्ट चुचुरा पोस्ट चुचुरा आर.एस. जिला हुगली ।
102882	दिपटो दत्ता चौधरी स्व. दिनेश च. दत्ता चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11558 25.01.06	ए-8/9, बरासत हाउसिंग इस्टेट पोस्ट नौआपारा (बरासत) कोलकाता ।
102883	दोली दास बल्लव चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11520 08.08.05	ए.जी. बंगाल स्टाफ क्वार्टर, फ्लैट-24, 1/5, सी.आई.टी. स्कीम 7, एम. उल्टा डुंगा, कोलकाता ।
102884	गणेश चौधरी विश्वमम्बर चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11584 17.08.06	ग्राम रामजी सिंह बागन, पोस्ट सपुलपारा थाना बल्ली, जिला हावड़ा ।
102885	गौतम राय स्व. प्रफुल्ला च. राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11609 03.01.07	ग्राम पालपारा (डब्ल्यू.) सुखसागर रोड पोस्ट एवं थाना चकदाह, जिला नाडिया ।
102886	गोबिन्दा पाल गंगाधर पाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11608 23.11.06	ग्राम एवं पोस्ट दत्ता पुलिया थाना धनताला, जिला नाडिया ।
102887	हिमाद्री सेखर चन्द्र हरिपद चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11536 10.08.05	59, 8बी, एम.जी. प्रगतिपल्ली, थाना ठाकुर, पुकर, कोलकाता ।
102888	इन्द्राणी हलदर सुनील हलदर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11488 29.07.04	ग्राम बरासत, पोस्ट औषबेरिया, थाना फल्ता, जिला साउथ 24, परगना ।
102889	जहूरुल कोरानी असरफ अली कोरानी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11583 10.08.06	ग्राम बयेर डेंगी, पोस्ट नबरूपदाहा थाना हांसखली, जिला नाडिया ।
102890	जयदीप चक्रवर्ती नित्य रंजन चक्रवर्ती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11515 28.01.05	द्वारा गोलम चक्रवर्ती, 17/1/बी/1/1, मौडलपारा लेन, कोलकाता ।

102891	जयदीप त्रिपाठी अजय कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11510 27.08.04	लहाबागन, टोला फाटक चिनसुराह पोस्ट, चिनसुराह, हुगली ।
102892	जोपन चक्रा राजकुमार चक्रा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11559 31.01.06	171, राजरहाट रोड, टेघरिया हत्थिया, कोलकाता ।
102893	जॉय गांगुली कालिदास गांगुली	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11503 19.08.04	चक्रवा मिलन पल्ली पोस्ट पुर्बापुतिथारी, कोलकाता ।
102894	कंचन चौधरी राज किशोर चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11585 22.08.06	6, कैनल साउथ रोड, कोलकाता ।
102895	कसब चन्द्र जलुई भरत चन्द्र जलुई	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11542 11.03.05	ग्राम इचपुर, पोस्ट दाफपुर थाना डोमजुर जिला हावड़ा ।
102896	कौशिक चट्टोपाध्याय सुरेश चन्द्र चट्टोपाध्याय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11560 26.07.06	ग्राम एवं पोस्ट बरजोरा, पोस्ट बंकुरा पश्चिम बंगाल ।
102897	कौशिक कुमार कोनार बासुदेब कोनार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11540 10.08.05	ग्राम एवं पोस्ट जामर, जिला बर्दवान ।
102898	कौशिक मुखर्जी शिबा किंकर मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11606 15.11.06	मागरा बरोवस्टाल, ग्राम एवं पोस्ट मागरा जिला हुगली ।
102899	केयादेव बर्मा कृष्णदेव बर्मा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11528 10.08.05	डा. अरिजीत खान, 63, एन.एस. रोड, पोस्ट न्यू बरकपुर, थाना घोला जिला नोर्थ 24 परगना ।
102900	कृष्णायन चटर्जी तपन कुमार चटर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11571 09.08.06	31/1बी, आदिबरत्मा, पोस्ट नबग्राम जिला हुगली, ।
102901	लवश्री मजूमदार सुनील बरन मजूमदार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11579 09.08.06	45, आर.एन. टैगोर रोड, नबपल्ली पोस्ट एवं थाना ठाकुरपुर, कोलकाता ।

102902	लोपा शर्मा ब्योमकेश शर्मा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11570 09.08.06	ग्राम भवानीपुर पोस्ट, देमोग, थाना हल्दिया, जिला ईस्ट मिदनापुर ।
102903	लोपामुद्र चक्रवर्ती सोमनाथ चक्रवर्ती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11518 08.08.05	63, अमृतलाल दाव रोड पोस्ट बारनगर तटिनी आबसन, ब्लाक-बी, तीसरा तल, कोलकाता ।
102904	मधुमिता दत्ता बिश्वनाथ दत्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11548 16.08.05	2/3बी, करीम हुसैन लेन, कोलकाता
102905	महम्मद मेस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11481 26.07.04	33, देबेन्द्र चन्द्र डे रोड, पोस्ट एवं थाना टांगरा, कोलकाता ।
102906	महुआ धर श्री अनंदादी नाथ धर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11497 11.08.04	ग्राम एवं पोस्ट किमहर जिला बीरभूम ।
102907	ममाला कान्ती प्रजापति राम निवास प्रजापति	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11522 09.08.05	बल्ली जूट मिल, मेस क्वार्टर हटा बाजार, रूम नं. 8ए, बी.टी. गांगुली रोड, पोस्ट बल्ली हावड़ा ।
102908	मिलन मिस्त्री जतिन्द्र नाथ मिस्त्री	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11552 18.01.06	रामकृष्ण पल्ली (वेस्ट) पोस्ट निमता, थाना निमता, कोलकाता ।
102909	मिथुन बिश्वास पंकज बिश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11605 15.11.06	पल्लीब्रता रोड, पश्चिमपारा, बोनगोंव, नोर्थ 24, परगना ।
102910	मोह. नवाब इमाम मोल्लाह मोह. महबुल हक मोल्लाह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11539 10.08.05	ग्राम छत्रशाल, पोस्ट घोले, थाना खानाकुल, जिला हुगली ।
102911	मौसमी सिन्हा अतुल चन्द्र सिन्हा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11529 10.08.05	डा. अरिजीत खान, 63, एन.एस. रोड, पोस्ट न्यू बरकपुर, थाना घोला जिला नोर्थ 24 परगना ।
102912	मौसमी बिश्वास दुलाल चन्द्र बिश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11567 09.08.06	15, न. मोतीझील एवेन्यू कोलकाता पश्चिम बंगाल ।

102913	मीसमी राय अरविन्द राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11506 20.08.04	द्वारा धितरंजन, चटर्जी 2/42, नकताला कोलकाता ।
102914	मृगांका मंडल मनमथ नाथ मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11531 10.08.05	197/1 जनता रोड, पो.आ. न्यू बर्कपुर, थाना घोला जिला नोर्थ 24, परगना, कोलकाता ।
102915	नवमिता बनर्जी चान्दी दास बनर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11532 10.08.05	मिलनपल्ली रनर्जी बागन, पोस्ट हृदयपुर थाना बरासत ।
102916	नारायण मित्रा कार्तिक मित्रा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11544 11.08.05	62, रामनगर कालोनी पोस्ट काकिनारा जिला नोर्थ 24 परगना ।
102917	नौरस जबीन शौकत अली	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11517 08.08.05	11—डी. तांती बगान रोड, कोलकाता ।
102918	निलांजन दत्ता कालीपद दत्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11586 22.08.06	703/1, आर.एन. टैगोर रोड, पोस्ट बेदीनपारा, कोलकाता ।
102919	नीलमाधव बनर्जी मलय बनर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11569 09.08.06	एन.एन. बोस रोड, द्वारा बी.बी. इंजीनियरिंग दुर्गापुर ।
102920	नितीश रंजन पाठक सुधीर रंजन पाठक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11547 16.08.05	244/3, आचार्य प्रफुल्ला चन्द्र रोड, कोलकाता ।
102921	नूरपुर दास नेपाल च. दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11519 08.08.05	कारली मोहन पात्रा, ग्राम व पोस्ट कातुलपुर, जिला बंकुरा ।
102922	पालस मुखोपाध्याय स्व. माखन लाल मुखोपाध्याय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11491 05.08.04	यसुन्धरा पार्क, खान मोह. रोड, थाना ठाकुरपुर, कोलकाता ।
102923	पल्लवी देब वर्मन बी.एल. देब वर्मन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11576 09.08.06	द्वारा बी.एल. देब वर्मन, सी-24/3, ईसीटीपी. फेस-4, मंजूलिका हाउसिंग काम्प्लेक्स, कोलकाता ।

102924	पन्ना दास अनिल बरन दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11575 09.08.06	द्वारा तपन चौधरी, 7/एन अजगर मिस्त्री लेन, कोलकाता ।
102925	पार्थ नासकर शुदीराम नासकर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2008	11489 29.07.04	ग्राम व पोस्ट श्रीकृष्णा नगर, थाना जयनगर, जिला साउथ 24 परगना ।
102926	पार्थ साखील गुहा तरण कांती गुहा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2006	11577 09.08.06	148, डा. अक्षय कुमार पाल रोड बेहला, कोलकाता ।
102927	पवित्र कौर सुरिन्द्रजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चंडीगढ़ 2003	11476 21.07.04	32/1ए, चक बेरिया रोड (साल्ब) कोलकाता ।
102928	फाल्गुनी भट्टाचार्य सैलजा कु. भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11511 07.09.04	ग्राम बरारनकुआ, पोस्ट बलिसाई थाना रामनगर जिला पूर्वा मदनपुर ।
102929	प्रदीप बिश्वास रमेश चन्द्र बिश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11527 10.08.05	ग्राम एवं पोस्ट बनीपुर आर.एस. रोड, थाना हाबरा जिला नोर्थ 24, परगना ।
102930	प्रिय रंजन मंडल जितेन मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11496 10.08.04	ग्राम सिमुलडिही, पोस्ट नबासन, थाना कंकरटोला, जिला बीरभूम ।
102931	प्रोताप कुमार रजित गौड़ चन्द्र रजित	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2002	11472 18.06.04	ग्राम एवं पोस्ट अझपुर, जिला बर्दवान ।
102932	राजन सिन्हा रॉय ससुंक सेखर सिन्हा रॉय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11543 12.08.05	ग्राम एवं पोस्ट मन्दरा, थाना धनियाखली जिला हुगली ।
102933	राजीव कुन्दु रूपलाल कुन्दु	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11599 20.09.06	खुदीराम बासु सारणी पोस्ट केन्दुडिही जिला बंकुरा ।
102934	रामनाथ मुडी भानुलाल मुडी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11514 28.01.05	ग्राम बन्दवान, पोस्ट बन्दवान, थाना बन्दवान, जिला पुरुलिया ।

102935	रामकृष्ण पात्रा कराली मोहन पात्रा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11546 16.08.05	ग्राम एवं पोस्ट कोतुलपुर, जिला बंकुरा ।
102936	रतिश चौधरी रतन चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11524 09.08.05	द्वारा आशुतोष समदर, जन कल्याण पल्ली हाबरा-नैहाटी 1, रोड थाना अशोक नगर, नोर्थ 24, परगना ।
102937	रिजोय कृष्ण नाथ बिजोय कृष्ण नाथ	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11602 15.11.06	161, एम.बी. रोड पोस्ट निमता रत्न, थाना निमता, कोलकाता ।
102938	रुबी रॉय चौधरी सबयासची रॉय चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11587 23.08.06	2/1, काशीनाथ चटर्जी लेन शिवपुरे, हाबड़ा ।
102939	रुमपा चटर्जी चित्तरंजन चटर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11508 20.08.04	2/42, नकताला, कोलकाता ।
102940	सब्यसाची घोसाल नेतई घोसाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11504 19.08.04	ग्राम नापट्टी, पोस्ट सनपुईपारा थाना बल्ली हावड़ा ।
102941	सागरिका दास गुप्ता सरोज कु. दास गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11592 23.08.06	पोस्ट बेल्ला, जिला वेस्ट मिदनापोर ।
102942	सहीदुल इस्लाम स्व. मौजमल हक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11582 10.08.06	ग्राम शेरपुर, पोस्ट गंगीन थाना सूती जिला मुर्शिदाबाद ।
102943	सैबाल कुमार पहाड़ी तारापद पहाड़ी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 1998	11557 25.01.06	ग्राम एवं पो.आ. मिर्जापुर, बेल्ला, वाया खाकुर्दा, थाना दान्तन जिला वेस्ट मिदनापोर, वेस्ट बंगाल ।
102944	सैबाल मंडल बिमल मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11553 18.01.06	ग्राम उत्तर कालिकापुर पोस्ट दक्षिण बरासत थाना जयनगर जिला साउथ 24, परगना ।
102945	समाहिता दास सैलन कुमार दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11509 20.08.04	चित्तरंजन चटर्जी 2/42, नकताला, कोलकाता ।

102946	समीन गोलाम सरवर रफीकल इस्लाम	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11513 14.10.04	ग्राम भवानीपुर, पोस्ट पुरन्दरपुर थाना कान्डी, जिला मुर्शिदाबाद ।
102947	सम्राट मुखोपाध्याय सत्येन्दी मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11484 26.07.04	5ए, नरोध बेहारी मुल्लिक रोड, कोलकाता ।
102948	संचारी राय अनन्ता राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11507 20.08.04	6/1 बनर्जी पारा रोड, बेहला, कोलकाता ।
102949	संविता बन्द्योपाध्याय समर बनर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11487 28.07.04	43, बोस पारा लेन, बाघ बाजार, कोलकाता ।
102950	सन्दीप घोष हजारी लाल घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11590 23.08.06	गौरंगा पारा, पोस्ट मदनपुर जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल ।
102951	सन्दीप मंडल तुनूलाल मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11574 09.08.06	ग्राम सिमुलिडिही, पोस्ट नबासन, कंकरतला जिला बीरभूम ।
102952	संगीता मैती लक्ष्मी नारायण मैती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11492 05.08.04	ग्राम 141, श्रीनगर, गरिया स्टेशन, पोस्ट पांचसाय, जिला साउथ 24 परगना ।
102953	संजय घोष सचिन्धनाथ घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11566 09.08.06	राज्यधरपुर (निकट हरिहर नर्सरी) पोस्ट मल्लिकपारा, थाना सेरामपोर, जिला हुगली ।
102954	संजय यादव राम नयन यादव	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11595 23.08.06	243/2ए, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कोलकाता ।
102955	सान्तानु जमातिया दयानन्दा जमातिया	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11485 27.07.04	हर प्रसाद सेन, नजारगंज कालंग रोड, पोस्ट एवं जिला पश्चिम मिदनापुर ।
102956	सर्मिला दास रंजीत कुमार दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता, 2005	11607 22.11.06	साल्ट लेक सिटी श्यामली हाउसिंग इस्टेट ब्लॉक ए/4, कोलकाता ।

102957	सरोज कुमार धाल स्व. धरणी धर धाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11581 10.06	ग्राम एवं पोस्ट चिलकीगढ़, जिला पश्चिम मिदनापुर ।
102958	सत्यवान मंडल पुलसी चरण मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11500 13.08.04	ग्राम एवं पोस्ट बरामपुर, वाया श्रीखण्डा धाना कलवा, जिला बर्दवान ।
102959	श्यामश्री चौधरी गोपाल कृष्ण चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11601 15.11.06	प्लॉट नं.32/डी, अनुपमा हाउसिंग काम्पलेक्स, वी.आई.पी. रोड निकट हल्दी राम, कोलकाता ।
102960	एसके. नूर हसन आमिर अली एसके.	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11597 06.09.06	ग्राम कमर पोल नोर्थ पोस्ट सरिशा धाना डायमण्ड हरबौर, जिला साउथ 24, परगना ।
102961	सोमनाथ घर अशोक घर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11543 11.08.05	पोस्ट दुबराजपुर, जिला बोरूम ।
102962	सौमता बनर्जी सामरेन्द्र नारायण बनर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11482 26.07.04	37/7ए, खेलत बाबू लेन, धाना वितपुर, कोलकाता ।
102963	सुमता राय आवेश राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11551 18.01.06	11, वेवी बरी (नूतन पार्स) पोस्ट एवं जिला कूच बिहार ।
102964	सुमेन्दु साह राम चन्द्र साह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11493 09.08.04	35, शिबताला बाई लेन, सस्पीतोले शेओराफूल्ली, हुगली ।
102965	सुमता मल मोहन चन्द्र मल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11594 23.08.06	ग्राम एवं पोस्ट कृष्णा चन्द्रपुर धाना मथुरापुर, साउथ 24, परगना ।
102966	सुमता सरकार स्व. श्रीपद सरकार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11478 23.07.04	ग्राम इस्लामपुर, पोस्ट नहाटा जिला नोर्थ 24, परगना ।
102967	सुभा मंडल सुरान्त कुमार मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11603 15.11.06	ग्राम लापुर अपर पारा पोस्ट रामसागर धाना ओण्डा, जिला बंकुरा ।



102968	सुदीप्ता रुद्र ननी गोपाल रुद्र	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11588 23.08.06	10/9ए/1 एम.एल.बी. रोड पोस्ट एवं थाना बल्ली जिला होसरा ।
102969	सुकान्त राय तपन राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11541 10.08.05	51/डी/8, बराबगागन लेन, सेरामपोर हुगली पश्चिम बंगाल ।
102970	सुमन विश्वास सान्ती रंजन विश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11516 06.06.05	ग्राम एवं पो.आ. ठाकुर नगर, जिला नोर्थ 24, परगना ।
102971	सुमन नन्दा व्योमकैस नन्दा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11537 10.08.05	"लब्धना" नारायणपुर टेन्दुलताला आर-गोपालपुर थाना एयरपोर्ट, नोर्थ 24 परगना, कोलकाता ।
102972	सुमन सरकार हिमांशु सरकार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11600 28.09.06	पुरबायन, मानसपुर रोड पोस्ट सोहागंज थाना चिनसुराह, हुगली ।
102973	सुमन सासमल बिभन गोपाल सासमल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11549 27.08.05	देउलपारा, नन्दीपुकुपार, नैहाटी, नोर्थ 24 परगना ।
102974	सुमन सेन हर प्रसाद सेन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11490 04.08.04	नजारगंज कालगंज रोड जिला पश्चिम मेदीनीपुर, पश्चिम बंगाल ।
102975	सुमिता पाल स्व. अनुतोष कुमार पाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11556 18.01.06	आर.एच.ई. टाईप डी फ्लैट नं.ए/6 कल्याणी नाडिया, पश्चिम बंगाल ।
102976	सुपरतिम बीर रंजीत चन्द बीर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11593 23.08.06	द्वारा बिधू रंजन चौधरी ओलई चन्दी दूसरा बाई लेन कोलकाता ।
102977	सुप्रिया नन्दी सुकुमार नन्दी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11501 17.08.04	ग्राम कमरपुकुर, पोस्ट श्रीपुर, जिला हुगली ।
102978	सुरंजन मंडल नखिनी रंजन मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11494 09.08.04	ग्राम एवं पोस्ट दाउडपुर, थाना सन्देशखली जिला नोर्थ 24, परगना ।

102979	सूर्य कान्त महापात्रा आरेखर महापात्रा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11525 09.08.05	ग्राम एवं पोस्ट अलनगिरी, थाना एगरा जिला पुरबा मिदनापुर ।
102980	तन्मयी राय तपन कुमार राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11498 11.08.04	द्वारा अनादीनाथ धर ग्राम एवं पोस्ट किमहर जिला बीरभूम ।
102981	तपस भादुरी सुकुमार भादुरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11573 09.08.06	6/1, बरोजो साह लेन पो.आ. एवं थाना बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद ।
102982	तारक नाथ गांगुली बट कृष्णा गांगुली	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11483 26.07.04	ग्राम एवं पोस्ट छटना, थाना छटना जिला बंकुरा ।
102983	तुषार कान्ती राय बिदयेन्दु बिकास राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2005	11572 09.08.06	ग्राम सागरदीघी, पोस्ट थाना सागरदीघी, जिला मुर्शिदाबाद ।
102984	उर्वि दास नारायण कुमार दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2004	11535 10.08.05	द्वारा एन.के.दास 172, राईफल क्लब ईस्ट पोस्ट बस्तरानी, कोलकाता ।
102985	उत्पल देब बर्मा अरुण देब बर्मा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11486 27.07.04	द्वारा हर प्रसाद सेन, नजारांज कालांज पोस्ट एवं जिला पश्चिम मिदनापुर ।
102986	उत्तम मलिक कमल मलिक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता 2003	11505 19.08.04	ग्राम एवं पो.आ. नबस्था, थाना मेमरी जिला बर्दवान ।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

नई दिल्ली-110058, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. 20-33/2008-के.पं. (गोवा)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो गोवा राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में गोवा राज्य रजिस्टर में सितम्बर 2006 तक क्रम संख्या 102987 आयुर्वेद से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 103106 आयुर्वेद सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल 2004 से सितम्बर 2006 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (गोवा) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61—65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

भारतीय विकित्ता केन्द्रीय पंजिका  
गोवा- आयुर्वेद  
भाग - प्रथम आयुर्वेद

के. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
102987	अखारगेकर जोशना नागोराव	बी० ए० एम० एस० गोवा वि० वि०, गोवा 1999	285 19.05.06	पार्वती निवास, मकान नम्बर.348, बी/4, शेत्ये, वाडो, दुलेर, मणुसा गोवा।
102988	अन्धाले मंगला रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गोवा वि० वि०, गोवा 2005	290 29.09.06	सामने सनराईस को हाऊसिंग सोसायटी, 151/5014, नीयर तिलक नगर, स्टेशन, मुम्बई
102989	बान्डेकर सिद्धेश सुभाष	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	253 29.03.06	994.बी.गजतलम्बी, विद्यानगर कालोनी, चाफेली कोटगांव, सावंतवाडी
102990	बन्डोडकर तान्या अशोक	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	208 23.02.05	ग्लेक्सी अपार्टमेंट फ्लोट.नम्बर.25, प्रथम फ्लोर अक्वूम, मारगो गोवा।
102991	बापट किशोर भारत	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	210 23.02.05	गांव. व पोस्ट नारिगरे तहसील, देवागाड जिला. सिन्धुदुर्ग।
102992	बेने पराशिला सचिदानन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	202 18.12.04	मकान नम्बर. एम.87, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गोवल मारगो, गोवा।
102993	बेल्गेसी सन्तोष श्रीकान्त	बी० ए० एम० एम. गोवा वि० वि०, गोवा 2002	200 01.11.04	मकान नम्बर.841/बी, न्यू वाडेम, वास्सको, गोवा।
102994	भण्डारी मयूर गोपीनाथ	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	252 29.03.06	गालगीबाग, कोलसोर, कनाकोना, गोवा।

102995	मानू ज्योति हेमचन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	234 06.06.05	मकान नम्बर. डी -एफ /4, पेरियरा, सेसिडेन्सी, गोगोल, मारगो, गोवा।
102996	भाट अनुजा प्रमोद	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2000	201 18.12.04	एफ. नम्बर. 1, नागरसीकार कनकना, चावडी गोवा, गोवा प्रथम प्लोर ओल्ड मुनीसिपलिटिटी भवन चावडी कनाकोना, गोवा।
102997	बोरकार रोहित रतनकुमार	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	254 29.03.06	सामने. जेविशर रिसर्च सेंटर अल्टो, पोरवोरिन, गोवा।
102998	बोरकार शिल्पा लक्ष्मीकान्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	217 06.05.06	मकान नम्बर. 241, नवेलिन श्रीवोदान, मारगो, गोवा।
102999	ब्रह्मानन्द बिन्दु	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 1999	246 23.12.05	द्वारा डी आर. रेशमा पी. संगेकाकर, एफ. 14 दी ओरचिडस, कोपरेटिव, हाऊसिंग सोसायटी, अरलेम, रेंगा, सालसेटे गोवा
103000	बुडीगोप राजेश लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	204 17.01.05	द्वारा मिस्टर अल्लाययानावार निगराज, प्लाट, नम्बर 51/बी नीयर रानी कान्टेनशन,
103001	बुडकुलेय अदिती जयन्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	286 19.05.06	एम. 52. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, अल्टो पोरवोरिन, गोवा खाडकन्द, पोंडा।
103002	चोदांकर नन्दादीप विजय	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	251 29.03.06	एफ. 129., सलाय वाडा, सावन्तवाडी, जिला. सिन्धुदुर्ग।
103003	कोटिन्हो सीमा	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	218 06.05.05	नजदीक आगस्टायस चपाल, म० न० 50, वाडी मेरसेस, गोवा।
103004	डी. सिल्वा फलोसी	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	255 29.03.06	गुलमोहर ई. प्रथम तल, समीप सिडिकेट बैंक कारंजालेन, पनाजी गोवा।

103005	डी.सौजा शिमोना	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	220 06.06.05	74, सागर सोसायटी, डोना, पोला, गोवा।
103006	डी. सौजा ईमार्क	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	241 12.09.05	हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, प्लाट, नम्बर, सी-39, मारगो, गोवा।
103007	दा कोस्ता कोरिया करेंजा रीता	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	288 25.05.06	कादम्बा रोड अल्टो, पोर्बोरिन, बरडेज, गोवा।
103008	दन्तास मिल्टन इलेपिन	बी० ए० एम० एस बम्बई वि० वि०, बम्बई 1996	186 11.06.04	गांव व पोस्ट मडरेन, मादलमाज, पेरेमेन
103009	देसाई गौरव	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	257 29.03.06	एस. 3, गौतम अपार्टमेंट, नीयर मारुति मन्दिर, अक्येन, मारगो, गोवा।
103010	देसाई मनोहर मंजूनाथ	डी. एस. ए. सी. बोर्ड आफ स्टडीज इन इडि., मैसूर राज्य, बंगलौर 1963	181 11.06.04	सस्कार को आप० हाऊसिंग सोसायटी, द्वितीय तल, एस.5, सामने पोस्ट ऑफिस, अक्युम, मारगो, गोवा।
103011	देसाई निश्चल प्रमोद	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	219 06.06.05	गंगानगर, डेरी प्रोडक्ट, कुर्ती, पोण्डा, गोवा।
103012	देसाई पूरिमा श्याम	बी० ए० एम० एस कनार्टक वि० वि०, धारवाड़ 1998	247 27.12.05	एचएचएफ45, गोवा. हाऊसिंग बोर्ड काम्पलेक्स, नीयर सजय स्कूल, पुण्डालिक नगर, अल्टो पोर्बोरिम
103013	देशमुख अस्मिता विनोदराव	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	256 29.03.06	गोवा हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बिल्डिंग 3- एम. 9, कुर्ती, पोण्डा, गोवा
103014	धावडे सायोगुइनी गणेश	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	237 06.06.05	मकान नम्बर 219, पीछे बैरा चर्च सासमोलेम, बैरा वास्को- डी- गामा, गोवा।

103015	डायस चेलसिया कन्डोलिना	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	207 11.01.05	सौजा इन्क्लेव, प्लाट एच.4, द्वितीय तल मॉडेल, मारगो सलसेट, गोवा।
103016	दिलीप सेनान के.के.चन्द्रा सेनान	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर.मेडिकल यूनि. चेन्नई (तमिलनाडु) 1996	183 11.06.04	एफ.15. सेलिन अपार्टमेंट, पीछे वाड्डेम लेक, वास्को कोट्टाकल आर्य वैद्य शाला, प्रथम तल, अपना बाजार, वास्को
103017	दीक्षित माधवीलता उपेन्द्र	बी० ए० एम० एस गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1991	192 28.06.04	एफ/2. सारस्वती अपार्टमेंट, सामने सिंहबाल अस्पताल खाडापाबंध पोण्डा गोवा।
103018	फेमंदेस जोसेफ फ्रांसिस	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	209 23.02.05	मकान नम्बर 969, माघालेमाज, माण्डरेन, गोवा।
103019	जी. गिजा	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	259 29.03.06	पी.36/1, वारुनापुरी 3, मंगैर हिल्स, वास्को-डी- गामा, गोवा।
103020	गौनेकर स्वेता न्यानेश्वर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	283 12.04.06	माऊट वियू अपार्टमेंट, आर.नम्बर 6, मन्गौर, वास्को गोवा।
103021	गवास बिंदिया सोमनाथ	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	258 29.03.06	मकान नम्बर 2162, संगम बिल्डिंग, वाल्सी, बिचोलिम, गोवा।
103022	गोपाल कृष्णा सुजाता	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	221 06.06.05	998 टोरडा रोड अल्टो पारवोरियम, गोवा।
103023	इनामदार अभिजीत अनन्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	213 30.03.05	अम्बिका सदन, पालकर वाडा, शनिवार चौक, पंचवटी नासिक, महाराष्ट्र।
103024	जाधव सुजाता सुदाम	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	280 29.03.06	नेशनल पैलेस, ए. 302, पुराना पानवेल।

103025	जेवारे अभिजीत प्रमोद	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	180 22.05.04	गाव.पोस्ट करजात, तहसील करजात, जिला: अहमदनगर महाराष्ट्र
103026	जोहन वियरा अल्मरेत्ता एफ. जे	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	260 29.03.06	मकान नम्बर 362, आई. डंडोरा, कुंकोलिन, सलकेटे, गोवा।
103027	जोशी काविता नरेश	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	261 29.03.06	बी.5/42, जीआईडीसी, कालोनी, उम्बेरगांव, गुजरात।
103028	जोशी किरन कुमार इन्दुप्रसाद	बी० ए० एम० एस गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1980	289 12.06.06	एस-1/104, नन्दवन अपार्टमेंट, तारसाली वडोडरा।
103029	जोशी शीतल अनिल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	215 30.03.05	समहिता 124 ए. लेन नम्बर 9, महात्मा सोसयटी पीछे गोंधी भवन, कोथरूड, पूणे।
103030	काले अर्चना शरद	बी० ए० एम० एस बम्बई वि० वि०, बम्बई 1994	190 11.06.04	गाव. पोस्ट. वालपोई टी. सत्तारी, गोवा।
103031	कालरो नाताशा रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	222 06.06.05	संचायारी अनन्त विश्वा, ए-14, मोगल मारगो गोवा।
103032	कामत रुपा मुकुन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	216 30.03.05	एफ. 2.डी. बिल्डिंग, वृन्दावन गार्डन, वारखान्दे, पोण्डा, गोवा।
103033	कामत सुलक्षा रतनाकर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	171 06.04.04	हाऊसिंग नम्बर 85, गोकुलवाडी, संकुशलिन, गोवा।
103034	कावलेकर सुजाता लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	173 06.04.04	साईराम विजयनगर, टोरडा पोस्वोरिम, गोवा।



103035	केलकर माधव मनोहर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	223 06.06.05	विठ्ठलपुर, कारापुर, तिस्क, सखाली, गोवा।
103036	कुमारी सिंह विजय राजिन्द्र	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	179 13.04.04	मकान नम्बर 189, सेंट्रल हॉर्टा, समीप गनपति मन्दिर, मारगो गोआ।
103037	कुम्भारे अनुकंगा प्रभाकर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	175 10.04.04	घारकुल हाऊसिंग सोसायटी, बैनगुइनिम, पुराना गोवा तिसवाडी, गोवा।
103038	कुम्भेकर पदमाजा मदन	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	262 29.03.06	मकान नम्बर 1368, हाऊसिंग बोर्ड, कालोनी, सखाली, गोवा।
103039	कुण्डेकर विन्दा विश्वास	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	224 06.05.05	विश्वदीप समीप पुलिस स्टेशन, मारगो, गोवा।
103040	लारैन्सो गलेन्डा ट्रान्सिको	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	172 06.04.04	ओलिवेरिया मेन्शन मकान नम्बर ई-21, बोन्डिकस, सान्ता कुज, इलहास, गोवा।
103041	मैनन अलेक्स	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	250 29.03.06	मंगलोलयाम हाऊस पोरुवाजही नार्थ चाथा कोलाम पोस्ट कोल्लाम, केरल राज्य।
103042	मनरीकर शिवदत्त एलियस विराज	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	170 06.04.04	शिवायन अपार्टमेंट, चन्द्रावाडा, फटोरदा, मारगो, गोवा।
103043	मनगांवकर सुशान्त अरविन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	211 23.02.05	ए/पी. कौटकामटे, तहसील देवगढ, जिला, सिंधुदुर्ग
103044	मिराशी स्नेहा सुरेश	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	233 06.06.05	स्नेहपरुया, समीप श्री बाबा मन्दिर, ऐक्युम, अल्तो गोवा।

103045	मिश्रा उमेश रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	265 29.03.06	703 शुभ अपार्टमेंट, कुरार गांव शान्ताराम, तलाब, मलाड, (ई) मुम्बई
103046	मोराजकर दीपाली नरेन्द्र	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	264 29.03.06	एल. 3-4, हाऊसिंग बोर्ड, सकोले, गोवा।
103047	मोराजकार वैभव कुमार नीलकान्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	239 12.09.05	सपना विहार, एफ. 6-ए, प्रथम तल, वाड्डेम वास्को, गोवा।
103048	मोराजकर वेदांगी दामोदर	बी० ए० एम० एस मुम्बई वि० वि०, मुम्बई 2001	248 27.02.06	192, बेतालवाड, अमोना, अमोना पोस्ट, मारसेला, गोवा
103049	मूले नीना आनन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	242 19.09.05	मकान नम्बर 1837, मूले निवास, फटोरदा, मारगो, गोवा।
103050	नागवेन्द्र स्मरुति रोहिदास	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	268 29.03.06	मकान नम्बर. 798, पीछे केनरा बैंक, फटोरदा, मारगो, गोवा।
103051	नायक दीप्ति मोहन	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	266 29.03.06	मकान नम्बर. 1468, फैज हाऊसिंग कालोनी, मोडल, थिविम, गोवा।
103052	नायक पूजा महादेव	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	225 06.06.05	मकान नम्बर. 171, दत्ता सदन, बोरडा, मारगो, गोवा।
103053	नायक पूनम मारुथी	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	235 06.06.05	बिल्डिंग नम्बर 81/1/4, सेंट डेसटैरो चैपल, वास्को गोवा।
103054	नायक पूनम उदय	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	267 29.03.06	ब्लॉक नम्बर. 11, मेधा अपार्टमेंट, शान्तीनगर, पोण्डा, गोवा।

103055	नायक सुनील वामन	बी० ए० एम० एस बम्बई वि० वि०, बम्बई 1996	187 11.06.04	गांव/पोस्ट. मनेरी तहसील डोडामार्ग, जिला. सिधुदुर्ग, मकान नम्बर 24, परवाड मौडेटम अस्सोनोरा, बारडेज, गोवा।
103056	नायक सुपरिया विश्वास	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	236 06.06.05	घानेमोरोद, एकसलडन, कथुपैन, गोवा।
103057	नामशिकार वैशाली गोविन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	226 06.06.05	आशीवाद, समीप पोस्ट ऑफिस, मारडोल, गोवा।
103058	नारवेकर योगिता मुरलीधर	बी० ए० एम० एस बम्बई वि० वि०, बम्बई 1994	189 11.06.04	एमएचएन, 42, हेड लैंड सादा, मारगो मंगोरे हिल, वास्को
103059	नेरूलकर नवदिपा नवनाथ	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	284 12.04.06	6, घानाश्री अपार्टमेंट, अगल्लीरोड गोगोल, फटारेदा, गोवा।
103060	सोनाल लक्ष्मीकान्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	227 06.06.05	द्वारा लक्ष्मीकान्त पाई, पारसुलेम, कानाकोना, गोवा।
103061	पालाकोण्डा साईप्रसाद	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	269 29.03.06	एस. पी. नारायण मकान नम्बर. 68, समीप शैख आयुब चाल, कोटो, सनकुयुडम, गोवा
103062	प्रब रूपाली दिलीप	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	196 03.09.04	22, अजंता विशाल कान्शोप, हाऊसिंग सोसयटी साईनाथनगर, एकसार, रोड बोरीवाली मुम्बई।
103063	प्रब सुनिता गनपति	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	271 29.03.06	मकान नम्बर. 1306, अराडी, वाडो, कन्डोलिन, बारडेज, गोवा।
103064	परिमाला के	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2001	245 28.11.05	डा. गणेश शिनोय, प्लेट, नम्बर एफ. 4, श्रीधर अपार्टमेंट, मेरसेस, गोवा पानाजी

103065	पाटिल अनिजा अनिल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	249 29.03.06	द्वारा श्रीमति विजय जी. कामत, इगरानोल, कयुपेम, गोवा।
103066	पाटिल संजय गोपाल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	243 27.09.05	गाव./पोस्ट. सुन्दी ताली- चन्द्रगाड, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
103067	पाटिल स्वाति रघुनाथ	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	198 03.09.04	द्वारा रघुनाथ पाटिल, मकान नम्बर, 54. पोंटेमोल कुरुचोरेन, गोवा।
103068	पटकर रूपाली आनन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	177 13.04.04	गाव./पोस्ट. बांदा, तहसील. सावंतवाडी, जिला. सिन्धुदुर्ग।
103069	पटकी गीता संजय	बी० ए० एम० एस बम्बई वि० वि०, बम्बई 1993	184 11.06.04	8, रामनाथ अपार्टमेंट, शान्तीनगर, पोण्डा गोवा गोमान्टक आयुर्वेद महा. एवं रिसर्च सेंटर, शिरोडा, गोवा
103070	पवार गणेश जनार्दन	बी० ए० एम० एस पूना वि० वि०, पुणे 1997	194 08.07.04	कोलोनिया डे बरगंजा एस. 16., नायक वाडडो कालनगुटे गोवा।
103071	पवार विनाया गणेश	बी० ए० एम० एस पूना वि० वि०, पुणे 1997	195 08.07.04	कोलोनिया डे बरगंजा एस. 16., नायक वाडडो कालनगुटे गोवा।
103072	पोल आनन्द वसंत	बी० ए० एम० एस गुजरात आयुर्वेद वि० वि०, जामनगर 1994	182 11.06.04	मकान नम्बर. 12, कृष्णा कमल अपार्टमेंट, धावली पोण्डागोवा गोमान्टक आयुर्वेद महा. एवं रिसर्च सेंटर, शिरोडा।
103073	प्रभाकरन निध्या	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	270 29.03.06	तृतीय तल, पिन्टो अपार्टमेंट, ब्लॉक बी, सामने एसबीआई, वास्को, गोवा।
103074	प्रभु देसाई वारूर गोपालकृष्ण	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	228 06.06.05	बी-एस/4, नूपुर वास्तु, सामने पुराना सर्वे ऑफिस, बोरडा, मारगो, गोवा।

103075	प्रभु खोपे रीना राधाकान्त	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2003	229 06.06.05	दामोदर सदन मकान नम्बर. 28, कुनकोलिन, गोवा।
103076	प्रदीप दयानन्द जलौलिकर	बी० ए० एम० एस पूना वि०. वि०, पुणे 1975	193 08.06.04	मुरिडिया, कुनकोलिन, सालसेटे, गोवेलिम सालसेटे गोवा
103077	रायकर सुशान्त बाबू	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2004	240 12.09.05	मकान नम्बर, 958/ए. वेलवाडा, पैनगिन, कानाकोना, गोवा।
103078	राव रेशमा	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2004	282 12.04.06	एस.3/4, रिवरव्यू, रेसिडेन्सी सैंट पंडरों, रबानडार, गोवा
103079	रेडकार नमर्ता सुमानी	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2002	169 03.04.04	सामने. डायस बिल्डिंग वाडडेन, वास्को
103080	रेडकार भागवान मिवा	बी० ए० एम० एस बम्बई वि०. वि०, बम्बई 1993	185 11.06.04	परयाम सत्तारी, गोवा पोस्ट सन्कुयेलन केरी माट्टेरिलवाडा, सत्तारी, गोवा।
103081	एस. संध्या रविन्द्र	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2004	273 29.03.06	प्लैट नम्बर.1, सिनथेवा विल्ला अमेयावाडो, टोन्का, मारसेला, गोवा।
103082	सादेकर समीर दाताराम	बी० ए० एम० एस बम्बई वि०. वि०, बम्बई 1995	188 11.06.04	द्वारा बी.के. परब, बन्दवतवाडा पेडने, गोवा सरस्वती डिस्पेनसरी, समीप भागवती हाई स्कूल पेडने, गोवा
103083	साधला वर्षा विश्वनाथ	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2003	212 23.02.05	दात्तरे निवास, कापिलश्वरी, पोण्डा, गोवा
103084	सैल देवदत्त महाबलेश्वर	बी० ए० एम० एस गोवा वि०.वि०, गोवा 2004	276 29.03.06	एफ -1, नील तारा अपार्टमेंट, पीछे आर. टी. ओ. आरलेम, गोवा।

103085	सखालकर सपना आनन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	287 25.05.06	एमपीटी. नर्सिंग क्वॉटर, बिल्डिंग नम्बर, 79 रूम नम्बर 5.2- बैना,
103086	सामन्त अनिता पंधारीनाथ	बी० ए० एम० एस मुम्बई वि० वि०, मुम्बई 1998	191 11.06.04	मकान नम्बर 593 / बी, पुलवाडो, बेनौलिन सालसेटे गोवा / एसी. रोड. मूतल, महालसा अपार्टमेंट, मारगो।
103087	संगोडकर तिरुपति विनायक	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	230 06.06.05	मकान नम्बर. 1024 / दासवाड्डा, सोकोरो, बारडेज, गोवा।
103088	सातन बलवन्त प्रकाश	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	272 29.03.06	शिव शक्ति निवास, सिरगांव ताल, देवगड सिंधुदुर्ग
103089	सावन्त बिपिन विठ्ठल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	277 29.03.06	मकान नम्बर. डबलू-9 / 14बी, एसपीजी, मन्दिर रोड खाडपा बंध, पोण्डा, गोवा।
103090	सावन्त प्रिया विठ्ठल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	275 29.03.06	एम. 48. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, अल्टो पोरवारिन, गोवा।
103091	शेट पुनित शिवानन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	274 29.03.06	मकान नम्बर. 168, पारवाडडा अस्सोनोरा, बारडेज, गोवा।
103092	शेट तेजा शान्ताराम	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	231 06.06.05	समाधान अपार्टमेंट, बी-4, तृतीय तल, मलमात मारगो गोवा।
103093	शेट वेरेनकार रोमा रामदास	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	176 13.04.04	वेरेनकार अपार्टमेंट, एस-2, समीप कीर्ति होटल दुर्गभाट, पोण्डा, गोवा
103094	शेट पल्लवी शान्ताराम	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	232 06.06.05	रघुवीर सामने सामान गिफ्ट खोरलिन, मापुरा, गोवा।

103095	सिलवीयरा सरीना मारिया	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	244 28.1.05	मकान नम्बर 14, तिवाई, वाडडो, सलमारीना, विल्ला, कालनगुटे, बारडेज, गोवा।
103096	सिंह मुकेश कुमार अशोक कुमार	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	238 12.09.05	प्लैट नम्बर 2-3, संकेत अपार्टमेंट, प्लैट नम्बर 94, ग्रीन लेन, शेरोई पंजाब महाकाली कार्वे रोड मुम्बई
103097	सिंह निलेश अशोक	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	214 30.03.05	संकेत अपार्टमेंट, प्लैट नम्बर 94, प्लैट नम्बर 2-3, ग्रीन लेन, महाकाली कार्वे रोड शेरे पंजाब अंधेरी ई-मुम्बई
103098	टी नवीन कुमार	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2003	197 03.09.04	मकान नम्बर 1105, घोटमोर्ड, काकुमुडी, कुचोरिन, गोवा।
103099	तलवानेकर दीक्षा दनयानेश्वर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	278 29.03.06	मकान नम्बर 0111, एच.3, गोविन्द नगर कारसवाडा, बारडेज, गोवा
103100	तारी अर्चना सत्यपाल	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	281 29.03.06	हाऊसिंग बोर्ड, मकान नम्बर 353, रुमदामोल मारगाओ, गोवा।
103101	त्रियम्बक विष्णु मुरगांवकर	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	263 29.03.06	मकान नम्बर 391, खान्डीवाडा, कारमबोलिन, तिसवाडी, गोवा।
103102	वारलेकार पराडनया आनन्द	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	274 06.04.04	वोवासर वोडडा, मोर्य बारडेज, गोवा।
103103	वेनेकार विराश्री वासुदेव	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2004	279 29.03.06	मकान नम्बर 679, थाना कोस्तालिन, गोवा,
103104	वेरलेकार महेश उत्तम	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2002	178 13.04.04	वेराई, नेत्रावलिन, सोनगुम, गोवा

103105	विशाल एस. देसाई सुरेश	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर	205 17.01.05	56, खालुली, किरलापाल संग्रुम ए/3, सुपर मार्केट कम्प्लेक्स, पोडां, गोवा।
		2003		
103106	वोलवोइकार स्वेता पांडुरंग	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा	199 03.09.04	चन्द्रभाग सामने, वाटर टैंक, अल्टो पोस्वोलिम, गोवा।
		2003		

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

नई दिल्ली-110058, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. 20-1/2008-के.पं. (आन्ध्र प्रदेश)—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्ट्रार यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो आन्ध्र प्रदेश राज्य रजिस्ट्रार में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में आन्ध्र प्रदेश राज्य रजिस्ट्रार में मार्च 2006 तक क्रम संख्या 103315 आयुर्वेद एवं 10104 यूनानी से आगे सम्मिलित करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 103850 आयुर्वेद एवं 10188 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी-- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2006 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्ट्रार (आन्ध्र प्रदेश) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्ट्रार के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार



**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय पंजिका**  
**आन्ध्रप्रदेश— आयुर्वेद**  
**भाग — प्रथम आयुर्वेद**

के. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि	पता
103315	ए. अनिया	बी० ए० एम० एस	21466	डी. नम्बर. 5-299, मुनी रेड्डी नगर एम.
	ए. सुब्बा रेड्डी	राजीव गौंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	01.06.06	पल्ले रोड तिरुपति, चित्तूर जिला।
103316	ए. गोपी कृष्णा उमापाथू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21721 22.01.07	कोथापल्ली, भेमदेरापल्ली, करीमनगर।
103317	ए. लावन्था देवी ए. लीलावथाम्मा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21705 22.01.07	द्वारा. ए. परच्योथि कुमार एमडीओ, ओवक, कुरुनूल।
103318	ए. नागराजू ए. वैकट रमन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1726 15.07.05	प्लाट नम्बर 75, एचसीएल नगर, केल रेड्डी नगर मालापुर हैदराबाद।
103319	ए. प्रमोद वैकट चारी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21658 05.01.07	मकान. नम्बर 6-5696ए विद्यानगर, सिरसिल्ला करीमनगर।
103320	ए. राघवेन्द्र ए. कृष्णा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गौंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21388 29.09.05	गेमडीगनीपल्ली, गुम्मागट्टा, अनन्तपुर जिला।
103321	ए. शशिकान्त ए. रामुलु	बी० ए० एम० एस राजीव गौंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21615 08.12.06	मकान नम्बर, 8-6-171, पदावथी कालोनी, महबूबनगर
103322	ए. श्रीनिवास ए. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21719 22.01.07	किस्तमपेट, वीनावनका ए. करीमनगर।

103323	ए. श्रीशी ए. रमेश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	21315 01.07.04	श्री वेंकट रमन हाऊसिंग कालोनी, मकान नम्बर, 43, नीयर एम. जी.एच कालोनी, चिराला, प्रकासम
103324	ए. सवोना मंजरी ए. मुनि रथनम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21664 08.01.07	मकान नम्बर 20/133, कोनेतिपालयाम, पुगानूर चित्तूर।
103325	ए. वामशीधर ए. बसवाराज	बी० ए० एम० एस राजीव गान्धी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1649 16.10.04	मकान नम्बर. 16-9-307/32/ए. न्यू शंकर नगर ओल्ड मालकपेट, हैदराबाद।
103326	अब्दुल करीम एच एच. एम. अब्दुल रहीम	बी० ए० एम० एस राजीव गान्धी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	21323 01.09.04	द्वारा. जी. निजामुद्दीन, जे. ए. जिला, पुलिस ऑफिस अनन्तपुर जिला।
103327	आदर्श श्रीवास्तव रमेश चन्द्र. एस	बी० ए० एम० एस राजीव गान्धी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21462 24.04.06	मकान, नम्बर. 3-4-313-319, बी ब्लॉक तृतीय पलोर सुर्यानारायण अपार्टमेंट, लिगामपल्ली, कचिगुडा, हैदराबाद।
103328	अदलीलक्ष्मी वुज्जी कोन्दाला राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21366 22.06.05	मकान नम्बर. ब्लॉक नम्बर. 100. क्वार्टर नम्बर. 82, व्यासनगर नीयर मंचिरावू, हैदराबाद।
103329	अजीत जागीरदार अविनाश जागीरदार	बी० ए० एम० एस राजीव गान्धी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1750 10.10.05	मकान नम्बर. 11-4-150/ई, रोड 3, एस वी. कालोनी सरूरनगर, आर, आर
103330	अकुल अरविन्द कुमार ए. जयहिन्द	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1798 10.01.06	मकान नम्बर. 18-7-607/1बी, हुप्पालगुडा रेलवे स्टेशन रोड धानवाहनगर, हैदराबाद।
103331	अलिभाषा दुदेकुला डी. मोवली बाशा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	21344 04.01.05	पैड्डा कोट्टाला पोस्ट, नन्दयाल एम जिला, कुरुनूल।

103332	अमानुल्लाह शरीफ अत्ताउल्लाह शरीफ	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1754	मकान नम्बर. 3-6-102, जान मोहम्मद, गली महबूबनगर
103333	अमीरेड्डी राधिका रेड्डी ए. राम रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1799	प्लॉट नम्बर. 31, प्लैट नम्बर / 408, स्वागुरुहा वेनगमोमबा, हुण्डा कोठापेट, सारूरनगर, हैदराबाद।
103334	अमुलुरु सुनील कुमार ए. अनकुलइयाह	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि० वि०, गुलबर्गा 2001	21331 21.12.04	द्वारा ए. बाबू राव, प्रजा विद्यासाला, नोर्थ राजपालम, कोन्डावाल्सू एम,नेल्लोर।
103335	अनिता विनोद राव वीरचन्द्र राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1717 28.06.05	मकान. नम्बर. 1-8-241/1, लाइब्रेरी लेन, बालासेमद्रम, हनामकोंन्डा।
103336	अन्नदाता सैलाजा सेशागिरी राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2001	1665 03.01.05	मकान नम्बर. 29-1410, दीनदयाल नगर, नेरेदीमेट, हैदराबाद।
103337	अपर्णा देवी, पी पन्तुरी सथैइयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1781 31.01.06	मकान नम्बर. 11-27-87, द्वारा, श्रीनिवास निलायाम, बैंक कालोनी, -1, वारांगल।
103338	अपर्णा विठ्ठल प्रसाद मिश्रा विठ्ठल प्रसाद मिश्रा	बी० ए० एम० एस पूना वि० वि०, पुणे 1993	1705 29.04.05	प्लॉट नम्बर 13, चन्द्रागिरि कालोनी, आर. के. पुरम हैदराबाद।
103339	अपाम . अनिथा कुमारी ए. गोपाल	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1787 31.01.06	मकान नम्बर. सी- 25, गोलेटी टाऊनशिप (एमएन) रेब्बाना, अदिलाबाद।
103340	अरविन्द कुमार हामिलपुर एच. सुभाष	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1773 14.12.05	मकान नम्बर. 1-9-47, महानकालीनगर, नारायणखेडा, जिला, मेडक।

103341	अरविन्द थलिया शंकर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1686 03.01.05	द्वारा अरविन्द प्रिन्टर सामने, एमआरपी, कार्यालय मेटपल्ली, करीमनगर।
103342	अरुणा के. एम के.एम. सिवानन्दा	बी० ए० एम० एस राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2001	1658 17.11.04	द्वारा एम. बृजेश मकान नम्बर. एमआईजी. -2, 189, 9, फेस केपीएचबी कालोनी, हैदराबाद।
103343	अरूपाति मोगली पोशाम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1721 28.06.05	मकान नम्बर. 18-19 / पीछे, आन्धा बैंक, थिलक नगर, रामकृष्णापुर, अदिलाबाद।
103344	अस्मिता सी सी. एस. राव	बी० ए० एम० एस राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	1645 09.09.04	मकान नम्बर. एस. बी. 64, सचिवायाननगर, हैदराबाद।
103345	अश्वनी एन बी. नागराजाइयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	1629 07.07.04	मकान नम्बर. 103, सूर्यविविधिका अपार्टमेंट पीछे ब्लूमेन होटल, बेगुमपेट, हैदराबाद।
103346	असमा सुल्ताना मोह. सुल्ताना मोहिउद्दीन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21547 08.08.06	मकान. नम्बर. 16-8-702 / (71) बी, न्यू मालापेट, हैदराबाद।
103347	अटल कुमार गुरराम जी. राजेशकर गोड़	बी० ए० एम० एस राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1689 08.02.05	मकान. नम्बर. 2-10-239, ज्योतिनगर, करीमनगर।
103348	अवांच शिवराम प्रसाद ए. हरीसचन्द्र	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21549 10.08.06	मकान. नम्बर. 19-3-39, मारकेण्डय कालोनी, गोदावरी खानी, करीमनगर।
103349	अवुला संगीता ए. कृष्णा. मूर्थी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1802 31.01.06	मकान. नम्बर. 10-3-282 / 2ए37, हुमायूँनगर हैदराबाद।

103350	अवुला सरिथा ए. बुची रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1806 31.01.06	मकान नम्बर. 209, विजयपुरी रेसीडेन्सी, मदर टेरेसा, कालीज, अन्नाजुगुडडा, हैदराबाद।
103351	अजहर अहमद मोहम्मद नजीर अहमद मोहम्मद	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	1618 03.05.04	मकान नम्बर. 1.10.87/4ए, शासबगुट्टा न्यटाऊन पीछे ताज फंक्शन हाल जिला महबूबनगर।
103352	बी. आशा ज्योति बी.रामा कृष्णा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21688 18.01.07	मकान नम्बर 6/25/4-11, इनाडु कालोनी, आर. एल. नगर. विजयवाड़ा।
103353	बी. ब्रह्मा राजू बी. वेंकट रामन राजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21661 08.01.07	डी. नैलातुर, चेन्नामपल्ला, कदापा।
103354	बी. झॉंसी बी. मधु बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21511 21.07.06	बासकर राव पेटा, सन्तोषपुरम, कालीदिन्दी, कृष्णा, जिला।
103355	बी. झॉंसी रानी बी. वेंकट राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21428 03.01.06	राजनिकास प्रथम पलोर, आंगनवाडी, स्कूल, गौर नैल्लोर, जिला।
103356	बी. कृष्णा चैतन्या बीएसएन प्रसाद	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2005	21467 06.06.06	मेडीकोदूर, जिला गुन्दुर।
103357	बी. कृष्णावेनी बी. प्रभाकर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21631 03.01.07	मकान नम्बर. 7-2-123, मनकाम्मा थोटा, करीमनगर।
103358	बी. लाला सराजा कृष्णा बी. वेंकट रामन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21701 19.01.07	मकान. नम्बर. 21-99, सुजय नगर, वेलान्दूर, खमाम

103359	बी. लक्ष्मी गायत्री बी. राजा गोपाल सरमा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21684	एफ. एफ. 3, अभिवेक अपार्टमेंट, रमालयाम स्टेशन, एस. एन. पुरम, विजयवाड़ा।
103360	बी. लीना कोजिया बी. देवदानम	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1643 23.08.04	प्लाट. नम्बर. 69, श्री कालोनी नरेडमेट, एक्स रोड सिकन्दराबाद
103361	बी. ममता बी. मुरलीधर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21374 28.06.05	प्लॉट. नम्बर. 1/1, मान्य अन्नेसी, प्लाट. नम्बर. 23. राजेन्द्रनगर, विशाखापट्टनम जिला।
103362	बी. पवानी बी. प्रभाकाज	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21704 19.01.07	मकान. नम्बर. 25/54, संजीवानगर, नन्दयाल कुरनूल।
103363	बी. राज कुमार बी. अप्पा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21696 18.01.07	मकान. नम्बर. 12.13.191, चिन्ना जलारी गली, सोमपेटा, श्रीकाकुलम।
103364	बी. राजेश कुमार बी. वैकटरथम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21668 09.01.07	मकान. नम्बर. 4-12, एल.बी. एस. रोड पीयर, चित्तूर।
103365	बी. रजनीकान्त बी. राजामौली	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21487 13.07.06	मकान. नम्बर. 1-1-1310, वैकादरी नगर, काजीपेट, वारंगल
103366	बी. रामादेवी बी. येकालव्य	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1725 15.07.05	द्वारा एम. राना राव प्लॉट नम्बर. 720, विवेकानन्द नगर कालोनी, कुकटपली, हैदराबाद।
103367	बी. रवि कुमार रेड्डी बी. लक्ष्मण रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1652 16.10.04	मकान. नम्बर. 1-6-23/ए. सिविल लाईन, नारायणपेट, महबूबनगर

103368	बी. संध्या रानी आनन्द राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21500 19.07.06	दुमारदा, बालिजीपेट, विजियानाग्राम।
103369	बी. शिल्पा रानी बी. मोहन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1679 03.01.05	मकान. नम्बर. 5-6-249, ककाटियानगर एनजीओएस कालोनी कामरेड्डी, निजामाबाद।
103370	बी. सीताराम बी. रामकृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21545 04.08.06	मकान. नम्बर. 18-79-/1, चन्द्रनगर, गोपालपेट्टनम, विशाखापेट्टनम।
103371	बी. श्रवण कुमार बी. मोहन राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2006	21486 12.07.06	मकान. नम्बर. 11-23-2344, कल्याणी नगर। देशलपेट रोड़ तारंगल।
103372	बी. श्रीनिवास वेंकटस्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1683 03.01.05	मकान. नम्बर. 7-46, मार्केट, रोड़ कोटापल्ली करीमनगर।
103373	बी. स्वापना बी. सत्या नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21663 08.01.07	सिंगनामाला, अनन्तपुर।
103374	बाड्डीमाला गोपीनाथ बी. कशाइया	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21431 04.01.06	डी, नम्बर. 1-8015, रानीपट, वेंकटगिरि, टाऊन जिला, नेल्लोर।
103375	बाम्मीदी श्याम कुमार बी. लाहिन्ना बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1626 02.07.05	द्वारा जे. महेश बाबू डी. नम्बर. 11-171/2/6, आर. नम्बर. 6ए टेलीफोन कालोनी, सरूरनगर, हैदराबाद,
103376	बानानी सुहासिनी बी. जगन्नाथा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21689 18.01.07	वल्थम राव कालोनी, पारवथीपुरम,विजियानाग्राम।

103377	बान्दी महेश्वर बी. बालायैहा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2000	1634 20.07.04	राघवापुरा सिद्धीपैट जिला, मेडक।
103378	बनारू वाराप्रसाद बी. कृष्णा मूर्थी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21555 18.08.06	वाडागुमदेम, मंगापेट, वारंगल।
103379	बासा रीना बी. रोजेशवारा राव	बी० ए० एम० एस मुंबई वि०. वि०, मुंबई 2003	1702 29.04.05	अपार्टमेंट, रूम नम्बर. 101. बी. ब्लॉक गली, नम्बर. 08, हबिसगुडा, हैदराबाद।
103380	बच्चु कान्ति वैकट सुब्बैयाह	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि०. वि०, गुलबर्गा 2000	21363 16.05.05	नोर्थ राजूगल्लिम, कोन्गावालुरु नेल्लोर जिला।
103381	बात्तुला सरुजना बी. यादगिरि	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1815 07.02.06	एलआईसी, क्वॉटर नम्बर.311, रामनगर, हनुमाकोण्डा जिला, वारंगल।
103382	बेल्लाम नागी रेड्डी बी. रामासुब्बा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21728 07.02.07	मकान नम्बर. 1-329, बी.सी. कालोनी बनागानपल्ली कुरुनुल
103383	भीमानाथी वैकल सुई वैकट रामन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1715 28.06.05	फ्लैट नम्बर. 203, बालाजी अपार्टमेंट भायानगा कालोनी, कुकटपली।
103384	भीमरेड्डी सेरीकर नरासा रेड्डी	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि०. वि०, गुलबर्गा 1998	1687 08.02.05	द्वारा जगन्नाथ रेड्डी टीचर साजुपुर कोहिर जहीराबाद।
103385	भीमावारापू बी.एच. कृष्णा मूर्थी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1766 29.10.05	राज टावर, प्लॉट नम्बर.105, डी. के. रोड अमीरपैट हैदराबाद।



103386	भूपति अवन्थी बी. भगवन्था राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1805	मकान नम्बर 8-50, जी-2, सत्यासाई निवास अपार्टमेंट गस्थानाहर, दिलसुखनगर, हैदराबाद।
103387	बीटा जयालक्ष्मी बी. राजशेखर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2003	1669	मकान नम्बर 11-25, 441, कोठावाड़ा, वारंगल।
103388	बोब्बा महेश रेड्डी बी. बालाकोटा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1659	प्लॉट नम्बर 44, सीतापथ्य कालोनी वेस्ट मरेदपल्ली सिकन्दाराबाद।
103389	बोदाकुन्ता रमेश बी. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1767	नौकी वेंकटपुर, दन्द्यापल्ली जिला, अदिलाबाद।
103390	बोडुला किशन बी. रामहेन्द्रा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2003	1640	प्लॉट नम्बर 401/बी. बालाजी इन्द्रप्रस्थ गाँधीनगर, मुस।
103391	बोदी उदयशंकर बी. नागेश्वरा राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21387	एसबीआई, स्ट्रीट नारायणपुरम, दाचेपल्ली, गुन्दुर जिला
103392	बोडु सुवेला जीवन बोडु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1742	मकान नम्बर 24-7-102, फातिमानगर काजीपेट वारंगल।
103393	सी.एम. गोपीनाथ सी. मुनि रतनम	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2005	21546	दिगुवा मथयाम, शानमपल्ली चित्तूर।
103394	सी. माधवी सी. वेंकटरमन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	21453	डी. नम्बर 9-115-बी. 1, पेंचापाडू रोड मदनपल्ली चित्तूर जिला।

103395	सी राजशेकर श्री सी. राविन्द्र	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21586 20.08.06	मकान नम्बर. 2-3-141/बी समीप ओल्ड बैंक नारायणखेडा, जिला, मेडक।
103396	सी. श्रीलाथा सी. सूर्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1813 07.02.06	मकान नम्बर. 1-1-475/3, गौधीनगर न्यू बोलेराम, हैदराबाद।
103397	सी आर. सथीस कुमार सी. कृष्णनप्पा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21422 02.01.06	डी. नम्बर. 4-54-2पलोर सुनिथा निलायाम इन्द्रिया निलयाम, पिलेर, चित्तूर।
103398	च. अमरुथा वल्ली च. वरादा चारयूलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21703 19.01.07	एस. 7, मन्सा अपार्टमेंट, मौतीनगर, सांथनगर, हैदराबाद।
103399	च. दीपा च. महानादम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21633 05.01.07	मकान. नम्बर. 6-4, पोस्ट ऑफिस रोड दुब्बाक मेडक।
103400	च. रवि किरण च. वैकटेश्वरलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21510 21.07.06	मकान. नम्बर. 1-3/2-6, विद्याधरापुरम, रामानदी स्टेशन, विजयवाड़ा।
103401	च. वामशी कृष्णा च. रविन्द्र	बी० ए० एम० एस श्री चन्द्रशेखन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम (मानित विश्वविद्यालय) 2005	1696 15.04.05	मकान नम्बर. 3-2-69, गभिरापेट करीमनगर।
103402	चन्द्रशेखर ए. बाक्कैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1753 10.10.05	प्लॉट नम्बर. 113 और 115, विवेकानन्द नगर कालोनी, नारायणखेड मेडक।
103403	चिन्ता दिया राजशेखर कुमारा स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21412 02.01.06	डी. नम्बर. 4.डी.121, एसडीए. चर्च गली, लम्बादीपेट, विजयवाड़ा।

103404	वितारेड्डी प्रीमाला राधाकृष्णा मुर्ती	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1786 31.01.06	मकान नम्बर 103-57, कुंदारपुरम रामोप, बी.के. नरसेक, खम्मम
103405	डी. अरविन्द डी. रमेश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1775 31.01.06	मकान नम्बर 5-8-920, अशोक नगर कालोनी, कामरेड्डी, जिला निजामाबाद।
103406	डी. भाय लक्ष्मी डी. लिंगइयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21634 05.01.07	मकान नम्बर 11-57, बुरदागुदाम, मन्दागारी मनचोरियाल, आदिलाबाद।
103407	डी. मानुप्रकाश डी. गंगाधर	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21435 09.01.06	डी. नम्बर 26/4/2504, मालापुरम, हिन्दूपुर अनन्तपुर।
103408	डी. रवि कुमार डी. वैकटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21697 18.01.07	डी. नम्बर 3-1-150, कबेला, रामराज्य नगर, विजयवाड़ा।
103409	डी. साई बालाजी डी. रमन राव	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1693 27.03.05	मकान नम्बर 1-280, सुजीव नगर भोनगीर, जिला, नालगोण्डा।
103410	डी. साईनाथ डी. नरसिम्हा मुर्ती	बी० ए० एम० एस कर्नाटक वि०. वि०, धारवाड़ 1996	1635 20.07.04	द्वारा डी. जयसिम्हा 364ए/365, आश्रेया होम अपार्टमेंट बान्दरगिरि कालोनी, नेरदिनेट, हैदराबाद।
103411	डी. सुजाता डी. राजगोपाल नायडू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21680 18.01.07	पदीरेडू, वादमलापेट एम चित्तूर।
103412	डी. सुनील कुमार डी. शाम राव	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1769 17.11.05	मकान नम्बर 1-1-23, मेटपल्ली करीमनगर।
103413	डी. सुपराज डी. जयारामैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1730 15.07.05	जी. 6, प्लॉट नम्बर 21, सीएसआर, अपार्टमेंट, कोटापेट हुण्डा कम्येलक्स सरूरनगर, हैदराबाद।

103414	डी.तप्पा रविचन्द्रन डी.तप्पा हनुमातु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 1999	1771	पलैट नम्बर 504, विजयश्री साई अपार्टमेंट, चैतन यापुरी दिलसुकनगर, हैदराबाद।
103415	डी.उदय लक्ष्मी डी.वीरामालू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2006	21636 05.01.07	येररागुन्ता, चन्द्रगुन्ता खमाम।
103416	डी. उषा माधुरी सत्यनारायण सैठी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21378 30.05.05	मकान. नम्बर. 20 / 167ए. फोर्ट नन्दयाल, कुरनूल
103417	डी. वी. के. भास्कर राव डी. सुरी बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	21335 22.12.04	गोवरिया अनाकापल्ली, थोथाडा,पी, अनाकापल्ली, विशाखापट्टनम।
103418	डी. विजय कुमारी डी. रामचन्द्रियाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1710 28.06.05	मकान नम्बर. 7-3-59 / 1, बाजार. जिला., खम्माम
103419	दीपा टिम्बा चिना बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21411 02.01.06	एसवीजी. बैंक मंगेर, रोटरी नगर टेक्काली श्रीकाकुलमजिला।
103420	दीवी वेंकट रामकृष्ण डी. प्रथा सारथी	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर. मेडिकल यूनि. चेन्नई ( तमिलनाडु) 1997	21724 22.01.07	वनुकुरु, पेनामालुरु, विजयवाड़ा कृष्णा।
103421	धुमाले अश्वनी कुमार दिगम्बर राव धुमाले	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1628 07.07.04	मकान. नम्बर. 11-199, 47 / सी अगापुरा, हैदराबाद।
103422	दिनेश थिम्मी के.ऐ. थाम्मी	बी० ए० एम० एस केरल वि०. वि०. केरल 1988	1638 27.07.04	द्वारा. कामेश्वरी, मकान, नम्बर. 1 / 144, मोहन नगर कालोनी, कठापेट, हैदराबाद।
103423	दुबासी सुवर्णा डी. बुचिमाल्लू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1731 15.07.05	मकान नम्बर. 1-8-702 / 51 पदम नल्लोकुन्ता, हैदराबाद।

103424	इगुरुट्टू कुमार डी. लाल सिंह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1821 07.02.06	नीयर मोहन शिनेगा, केसागुदराम, जिला, वारंगल।
103425	दुर्गा नागमल्लेश्वरी जी. दुर्गा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21368 22.06.05	द्वारा सत्यानारायण, बीएफएफ9, वेंकट इन्कलेव रामचन्द्रनगर, विजयवाड़ा।
103426	ई. भारती ई. इल्लाराह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21685 18.01.07	7-11-183/11, अम्बेडकर नगर, हनुमानकोमदा, वारंगल।
103427	ई. गायत्री ई. सुरेश कुमार	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1748 20.09.05	द्वारा रामचन्द्र इस्टेट क्लॉथ व्यापारी. नारायणपेट महबूबनगर।
103428	ई. पदमाजा दामोदर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21716 22.01.07	मकान. नम्बर. 16-3-694/1, इकाशीलानगर, फोर्ट रोड, वारंगल।
103429	ई. पावतीदेवी बी. इथिराज	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर. मेडिकल यूनि. चेन्नई ( तमिलनाडु) 2000	21312 21.04.04	अलापाकम गांव व पोस्ट, निन्दा चित्तूर।
103430	ई. आर.अजीत कृष्णा ई. राधा कृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21671 09.01.07	मकान. नम्बर. 83/ए.एल.एस. चित्तूर।
103431	ई. सुधा रानी ई. मल्लेश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1789 31.01.06	मकान नम्बर. 1143, डीपीवी, कालोनी, मंनगुरु खाम्मा।
103432	ई. यामिनी ई. बासी रैड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	1622 22.05.04	मकान नम्बर 7-4-53, पेडडा अगाराहराम, गडवाल. महबूबनगर।।
103433	इदुला नरेन्द्र श्रीनिवास रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1632 20.07.05	कटीकानपल्ली, धर्मराम जिला, करीमनगर।

103434	इष्पाकायाला सतीश कुन ई. शंकरलिंगम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1796 10.01.06	मकान. नम्बर. 10-10-30, गरिमाजीपेट, जिला वारंगल।
103435	ईश्वरप्पा एम. ई. ईरप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21389 06.10.05	गोव्डानकुन्ता, थामाडील्ली, अमरापुरम सादाकासिदा, अनन्तापुर, जिला
103436	जी.अरुणा जी.नारायण रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2005	21600 22.09.06	मकान नम्बर. 2-80, शोमापल्ली सिंगराम, मकडाल नारायणपेट, महबूबनगर।
103437	जी. गायत्री वेंकटप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1762 15.10.05	मकान नम्बर. 3-16-74, सुमाष रोड़ नारायणपेट मकडाल महबूबनगर।
103438	जी. झासी रानी जी. हनुमानथु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21651 05.01.07	मकान. नम्बर. 3-168, लक्ष्मीनरसिम्हा कालोनी, शादनगर, महबूबनगर।
103439	जी.कीर्ती ग्रेश जी. मोहन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21691 18.01.07	डी. नम्बर. 40-1/1-2, लाब्डीपेट, विजयवाड़ा।
103440	जी.कान्ति जी. रामलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21659 05.01.07	मकान नम्बर. न्यूटाऊन कालोनी, वानापार्थी महबूबनगर।
103441	जी. नरसिम्हा रेड्डी जी. रंगा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1761 15.10.05	उजली 8, मन्गानूर, महबूबनगर।
103442	जी. पानडेर रांम जी. गिड्डाप्पा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21683 18.01.07	मकान नम्बर. 32/584-ए., मदारी गली, कुरनूल।
103443	जी. प्रेमा लता जी. नरसिमुलु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1720 28.06.05	मकान नम्बर 5-3-91/913, वैदेहीनगर, कालोनी कामरेड्डी, जिला निजामाबाद।

103444	जी. सरिता जी. चन्द्रयैहा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1777 31.01.06	चैमानगुतापल्ली, वानापार्थी, महबूबनगर।
103445	जी. श्रीनाथ जी. वैकटनयडू	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2005	21474 20.06.06	यादीकी तादीपातरी अनन्तापुर।
103446	जी. सुदयानाथ राज जी. लक्ष्मीनारायण मुर्धी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21713 22.01.07	नागधार, कलहेर, मेडक
103447	जी. सुशीला लक्ष्मन्ना	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2006	21638 05.01.07	क्वॉटर नम्बर. एई. 49, नागाअर्जुन सागर, नालगोण्डा।
103448	जी. वसंत कुमार जी. कृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1727 15.07.05	मकान नम्बर 4-5-17, छोदपेट, नारायणपेट, महबूबनगर।
103449	जी. वैक्केश्वरालू मोगली	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21702 19.01.07	मकान नम्बर 21. 99, संजय नगर, येल्लान्दू, खाम्मास।
103450	गन्धम नीलिमा गन्धम सदाशिवुदु	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2002	1660 23.11.04	मकान नम्बर 11-27, 124, कोट्टावाडा, वारंगल
103451	गनदला मनेश कुमार जी. कृष्णयैहा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1782 31.01.06	मकान नम्बर 15-2, 150/3/3 न्यू बालाजीनगर कुक्कटपल्ली, हैदराबाद।
103452	गंगा शिव प्रसाद के के. थिप्पेस्वामी सैदी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1718 28.06.05	प्लॉट नम्बर. 770, वैदेहीनगर, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद।
103453	गंगाराजू प्रसन्ना लाक्स जी. वैक्कटरामा राजू	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2004	21401 30.12.05	मकान नम्बर. 7/506-3, एनजीओ'ज कालोनी कादपा।

103454	गायत्री देवी एस. आई.सी. स्वामी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21616 08.12.06	द्वारा स्वामी चिल्ड्रेन होस्टल, खालीवादी, निजामाबाद।
103455	मेडला संगीता जी. जोशफ	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 1999	21320 05.08.04	मकान नम्बर. 50-50-23/1, अनुधाडी, बी. एस. ले-आउट विशाखापट्टनम।
103456	गीता कंचन के. बाबू राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	1682 03.01.05	मकान नम्बर. 4-115/ए. हुसैन शान्ती दारगा गोलकोण्डा, हैदराबाद।
103457	गोलकोण्डा सुनिथा जी. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1816 07.02.06	मकान नम्बर. 25-6-270, विद्यानगर, काजीपेट जिला, वारंगल।
103458	गोपाला कृष्णा पुलाकम सुधाकर रैड्डी पी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	21348 10.02.05	रैड्डी गली, वोस नगर, चिराला जिला, प्रकासम।
103459	गोपी येत्लापु वाई. रामाप्पा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21667 08.01.07	गवारापालम, शान्ती नगर, अनाकापल्ली, विजाग।
103460	गोटरू कृष्णा प्रसाद जी. जगन मोहन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21543 08.03.06	तात्तीवाररू (वी). गुदीवाड़ा (एम)कृष्णा।
103461	गोट्टिमुक्कुला कान्ति कुमार जी. उपेय्याह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	1668 03.01.05	मकान नम्बर. 11-22-425, काशीबुर्गा वारंगल
103462	गौली अनुराधा जी. गोपाल कृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21442 08.02.06	डी. नम्बर. 48/11/8-1, कुर्सेननगर विजयवाड़ा।
103463	गुडुपति वैकट मोहन वैकटस्वारलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21418 02.01.06	द्वारा. श्री राधुराम फर्टीलाइजर, मानकपुर रोड विनुकोन्दा, गन्टूर



103464	गुमाडी अरुणा पुल्लैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1757	सामने. एमआरओज ऑफिस मानुगुरु, जिला, खम्माम।
103465	गुथिना हरिनी जी. रघुनाथ राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1667 03.01.05	प्लॉट. नम्बर 162/ए, शारावानगर वनासथालिपुरम हैदराबाद।
103466	गुट्टी रंगनाथ जी. संजीव राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	21336 22.12.04	मकान नम्बर. जी. एफ2. टावर्स, रामासपाडु, विजयवाड़ा।
103467	एच. संतोष एच. बंदाह	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	1695 15.04.05	मकान नम्बर. 1-1-1126, सिंगेरवेस, नारायणपेट, महबूबनगर।
103468	सुवारीताह बाई गोपाल राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2006	21637 05.01.07	मकान नम्बर. 6-104/2, दामरगीडडा, नारायणपेट महबूबनगर।
103469	हाफिज अब्दुल लतीफ श्री. सादी मियाँह	बी० ए० एम० एस श्री वेंकटेश्वर आयु कलाशाला, विजयवाड़ा 1974	21313 10.06.04	मकान नम्बर. 36-207, चित्तारी स्ट्रीट कुमूल
103470	हरीश रानी एम एम.कुमरा स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1819 07.02.06	मकान नम्बर. 6-3-86, इमलीपुरा. स्टेशन, हनुमानकोन्दा,स्टेशन, जिला, वारंगल।
103471	हरिता नाइडू एम.जगन मोहन राव	बी० ए० एम० एस श्री चन्द्रशेखेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम (मानित विश्वविद्यालय) 2000	21327 17.11.04	झासी नर्सिंग होम, लब्बीपेट, विजयवाड़ा।
103472	हिमाबिन्दु चिलुवुरू च. नागेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	21351 22.02.05	समीप रेलवे स्टेशन, चिलुवुरू पी जिला, गुन्टुर।
103473	हिनाले सौजया एच. मनोहर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1673 03.01.05	मकान. नम्बर 2-8-471, श्रीनगर कालोनी, वाडडेपल्ली हनामाकोनन्डा।

103474	आई. हरिथा आई. राममदैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21740 24.02.07	मकान. नम्बर. 2/388, -1, नेहरुनगर, कडापा।
103475	इन्दला शुष्मा आई. रामदास	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	1671 03.01.05	मकान. नम्बर. 3-9-662, न्यू रेडी कालोनी, हनामाकोन्डा, वारंगल।
103476	इन्दू बुवा वी. कोन्डैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21434 09.01.06	समीप आरटीसी. डिपो, एल. आर. पल्ली अतमाकुर, नेल्लोरे।
103477	जे० चन्द्र सिंह जे० तुलस्या	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21649 05.01.07	दुब्बा टण्डा चेदुरुपल्ली, वेलदानदा, महबूबनगर।
103478	जे. कविता श्री. मल्लेशाम	बी० ए० एम० एस राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21739 20.02.07	मकान. नम्बर. 3-3-282/3, गायत्री नगर, निजामाबाद।
103479	जे. स्वापना जे. कृष्णयौह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1723 28.06.05	मकान. नम्बर. 1-9-329, पीआरके, मैनशन प्लाट, नम्बर. 302, विद्यानगर, हैदराबाद।
103480	जगदीश पी पी. नागा कोटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21692 18.01.07	विजयलक्ष्मी टिम्बर डिपो, जी. टी. रोड मंगलागिरि।
103481	जगन मोहन रेड्डी वी. नरसी रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1784 31.01.06	समिस्तापुर, गांव कदलुर पी मखताल एमएन महबूबनगर।
103482	जगदीश कुमार के.पी एम. पी. बालकृष्णा मरार	बी० ए० एम० एस केरल वि०. वि०. केरल 1993	1654 01.10.04	मकान. नम्बर. 1-7-8/1, सामने टेलीफोन एक्सचेंज, मुशीराबाद, सिकन्दाबाद।
103483	जहानवी बीआर एन. रामकृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	21343 04.01.05	डी. नम्बर. 12-257, रडकोस एक्सटेंशन, मिद्दूर, जिला चित्तूर।

103484	जनार्दन जे जे. अजेनेयुलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21424 02.01.06	146डी., टी.के. गली, तिरुपति,
103485	जनारामू श्रीनिवास नरसैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1783 31.01.06	मकान नम्बर. 6-113, गाट्टुडेनपल्ली मनाकोन्दूर करीमनगर।
103486	जावाजी जी अरुणा देवी जे. सुब्बाराजू गुप्ता	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2003	21334 22.12.04	मकान. नम्बर. 7-119, नेहरू गली, मारकापुर, जिला., प्रकासम।
103487	जया लक्ष्मी वेन्नेलागान्ती वी. सीतारामन जनेया शर्मा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2003	21341 04.01.05	मकान. नम्बर. 12-1-92, समीप रेलवे, ओवर, ब्रिज पेराला चिराला, जिला, प्रकासम।
103488	जयापाल रेड्डी रावुला लिंगा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21604 26.10.06	वेल्लामपल्ली, परकाल जिला, वारंगल।
103489	जयास्मिता गन्ता जी. पी. राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2003	21352 22.02.05	मकान. नम्बर. 55-10-22, एमएमटीसी कालोनी, विशाखापट्टनम।
103490	झासी पोंडुरी कोडामम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21687 18.01.07	अन्नेबोडिनापल्ले, पेडापावनी, प्रकासम।
103491	ज्योति बी. लक्ष्मण रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1651 16.10.04	मकान. नम्बर. 1-6-23/ए. सिविल लाइन, नारायणपेट, महबूबनगर।
103492	ज्योति पाटिल शहरानप्पा पाटिल	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21403 31.12.05	प्लॉट नम्बर. 52, दत्तात्रेया कालोनी, आसिफ नगर हैदराबाद।
103493	के.बसलिंगप्पा के. मनिक्पाप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21455 27.03.05	मकान. नम्बर. 1-53, राजिनताल जहीराबाद, मेडक

103494	के. भार्गव नरसुम्हा चारी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2001	21478 03.02.06	मकान. नम्बर. 6-3-158/1, सामने. आरामघर, शिव रामपल्ली, राजेन्द्रनगर, आर. आर. जिला.
103495	के. च. सूर्या नारायण के. च. हेमन्त कुमार	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21652 05.01.07	प्लॉट. नम्बर. 82 नरसिम्हा राव नगर, वनस्थलिपुरम, हैदराबाद।
103496	के. गोपाल पथि	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1812 07.02.06	लिंगोटम थंडा (गोव) अचमपेटा (एम.) महबूबनगर।
103497	के. जमुना के. शनमुगा रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	21426 03.01.06	महासमग्राम बनगारुपालेम, चित्तूर जिला,
103498	के. कोमुरयाह के. बालैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	21711 22.01.07	कुनाराम, कलावासरीरामपुर, करीमनगर।
103499	के. कुदीकाला अपर्णा के. अनिल	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21489 14.07.06	मकान. नम्बर. 11-29-213, देशीपेट, वारंगल
103500	के. लावन्या येल्ताप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1758 10.10.05	मकान. नम्बर. 1-6-38/सी, भारतीनिलायाम सत्यासाई कालानी, नारायणपेट।
103501	के. लवन्या के. अशोक राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	21410 02.01.06	टी. 4, 3 फ्लोर इमेराल्ड अपार्टमेंट, रघुमान स्ट्रीट रिवन्यु कालोनी मोगापरजपुरम, विजयवाड़ा
103502	के. नरसिमुलु बालप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	1657 17.11.04	कोल्लुर पोस्ट उत्कुर (एम), महबूबनगर।
103503	के. राजेश्वरी के. बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	21430 04.01.06	मकान. नम्बर. 28/206, जाकिर हुसैन नगर, सत्या नारायणपुरम, जिला नेल्लौर।

103504	के. रणजीत बाबू के. सत्यानारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21644 05.01.07	मकान नम्बर 2-6-136, मार्केट, रोड़ करीमनगर।
103505	के. रतन श्री इन्नायैदा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21710 20.01.07	डी. नम्बर 6-8-10, पिल्लावरी गली, गंगनमपेट, तेनाली, गुन्टुर।
103506	के. सतीश कुमार के. इलैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1800 31.01.06	मकान नम्बर 2-1-673, नैमनगर हनुमकोंडा जिला, वारंगल।
103507	के. सत्यानारायण के. पोचन्ना	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21497 19.07.06	लिंगी, तालयाडुगु, अदिलाबाद।
103508	के. शैलेन्द्र के. शिव कुमार	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21592 13.09.06	प्लॉट नम्बर 58, गौधी नगर, लिबरा, इन्कले, बंदागपेट कंचनबाग, हैदराबाद।
103509	के. शेष कुमार अन्थ नारायण कुमार	बी० ए० एम० एस बंगलौर वि० वि०, बंगलौर 1987	21314 19.06.04	मकान नम्बर 31/55, जया प्रकाश रोड़ न्यपेट कुप्पाम, चित्तूर।
10510	के. शोभा रानी के. श्री रामलू	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1756 10.10.05	मकान नम्बर 5-1-55, कोंडापुर, गांव।
103511	के. सिल्या कुमारी के. रामा कृष्णैयह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21677 18.01.07	डी. नम्बर 1/579-2, नन्दयाल रोड़, टाडीपत्री जिला, अनन्तपुर।
103512	के. श्री सिवा के. अद्वेया	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21695 18.01.07	नीयर पावर स्टेशन, कोठापेटा, ईस्ट गोदावरी।
103513	के. सुजाना संजीवा रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2001	1625 15.06.04	मकान नम्बर 34, यूनिट, बी, स्टेट बैंक कालोनी सौदाबाद, हैदराबाद।

103514	के. सुजाता के. रवीन्द्र	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	1621 22.05.04	क्वाटर नम्बर. 340-बीडीएल, टाऊनसीप बीडीएल, भानूर मेडक जिला।
103515	के. सुरेश के. राधा कृष्णयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21660 07.01.07	कादापुर, सुल्लुरुपेट, नेल्लोर, जिला,
103516	के. वेनकान्ना मलैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1824 27.02.06	मकान. नम्बर. 2-92, पोस्ट, पास्कल, जिला, वारंगल।
103517	के. विजय कुमारी के. वासुसेवा चारी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21531 25.07.06	गजुलापल्ली, तञ्जावानामपल्ली, चित्तूर जिला।
103518	के. विजय भास्कर के. वेनाटेश्वरिलु	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21469 13.06.06	डी. नम्बर. 16-5-231, कुसुमाईरा गली, बालाजी नगर, ओल्ड गुन्दुर,
103519	के. विजेथा के. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21712 22.01.07	मकान. नम्बर. 1-1-750 / 1/11/ए. गाँधीनगर हैदराबाद।
103520	के. ए. पी. किशोर के. सेशागिरी राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	21353 04.03.05	श्री. नरहारी क्लीनिक, राहुलदा, रायदुंग जिला, अनन्तपुर।
103521	के. एस. दत्ताशर्मा गन्ती जी. कल्याण शर्मा	बी० ए० एम० एस श्री चन्द्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांची (मानित विश्वविद्यालय) 2004	1636 27.07.04	मकान. नम्बर. बी. 4, सत्यासाई अपार्टमेंट कमलापुरी कालोनी, जुब्बी हिल्स, हैदराबाद।
103522	के. वी. आर. एस.एस. रामगोपाल के.वीएस. प्रमाकरण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1674 03.01.05	आई. जे. 40, इरामनजील, हैदराबाद।
103523	कादिरी प्रसाद के. थिरुपाटैह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2001	1714 28.06.05	मकान. नम्बर. 9-90, श्री गायत्री कालोनी कोण्डा रामलायम वैशाली नगर रंगारेड्डी।

103524	खाजा खान एम. डी एम. डी. चान खान	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	1692 27.03.05	मकान. नम्बर 1-5-280, संजीव नगर, भोंगीर, नालगोण्डा जिला।
103525	कलाइगर अब्दुल कबीर के. अब्दुल समद	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21495 18.07.06	मकान. नम्बर. 11-1-50, बैलेरी रोड, रायदुर्ग, अनन्तपुर।
103526	कल्पना टीना के. मैथुज	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21504 19.07.06	मकान. नमबर 1-9-243/201, आशीवाद अपार्टमेंट, रामनगर हैदराबाद।
103527	कमलापुरे आनन्द नागू श्री के. नागू राव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21610 21.11.06	मकान. नम्बर. 100. गोंधी नगर, नारायणपेट, महबूबनगर।
103528	कम्मू प्रवाथम्मा मुथैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1734 15.07.05	उप्पालहाद, टेकामतला सुयपिट, जिला, नालगोण्डा।
103529	कांची कोम्मलू काति के. अन्जनेलु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1794 31.01.06	मकान. नम्बर. 8-142, धर्मचेरिया (ग्राम) जिला नालगोण्डा।
103530	कारवा पूनम गंगाबिशनजी कारवा	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21606 14.11.06	स्वाती इन्क्लेब. 16-2-146/5/1सी, फलैट, नम्बर.203, मालेकपेट, हैदराबाद।
103531	कासम पदमा कुमारी के. बागैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1811 31.01.06	मकान नम्बर 5.3.334, विद्यानगर कालोनी, कामरेड्डी, जिला निजामाबाद।
103532	कसराला वीरासोमुलु गेडडैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1793 31.01.06	कारवीरला, कोथागुडम थुंगाथुन्थी, जिला नालगोण्डा।
103533	कस्तूरी वेनकन्ना के. राजा राम	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21473 20.06.06	मकान.नम्बर. 3-133, चन्दुपेटला, भोनगिरि नालगोण्डा।

103534	कविता जी जी. सिद्धा रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21345 04.01.05	डी. नम्बर. 1-1125-3-4 अदापाला गली, कादिरी। अनन्तपुर।
103535	कविता लेहना एल. वेंकटरायण	2003 बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर	1706 29.04.05	मकान नम्बर. 2-9-529, प्रथम फ्लोर, श्रीनगर कालोनी एनजीओएस कालोनी हनुमकोण्डा, वारंगल।
103536	किलारी सरीम यादव के. जवाहर लाल	2002 बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर	1619 03.05.04	द्वारा रामनादाम हाऊस बापुजी रोड. मधिरा, खाम्मा, जिला।
103537	किरण बालामदरू सदानन्द	2002 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21720 22.01.07	मकान. नम्बर. 1-7-212/1, प्रगति नगर -1, रेवेन्यु कालोनी, सुबेसरी, हनामकोण्डा, वारंगल
103538	किरण कुमार कोमरेवार बासेथी.के	2005 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21459 19.04.06	डी. नम्बर 9-103/1, टीचर कालोनी, अदिलाबाद।
103539	किशोर बाबू राव येत्लेयाह	2004 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21384 14.09.05	मकान. नम्बर. 8/176-2ए. प्रकाशनगर, वाईएम पल्ली, काडपा जिला,
103540	कोडियाला सराथ बाबू के. सुब्बानवारी	2003 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21425 02.01.06	दुधलूर नेल्लोर।
103541	कोण्डा मंजूनाथ कुमार के. राजशेखर	2004 बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर	21436 16.01.06	एसकेडी कालोनी, तृतीय अडोनी, जिला, कुरुनूल।
103542	कृष्णा जिजिया बाई डी. बी. के. कुमार सिंह	2004 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21673 18.01.07	पेनीगोण्डा, वेस्ट गोदावरी।
103543	कुराकुला अनिता ज्योति के. आनन्द राव	2005 बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा	21380 13.07.05	मकान नम्बर. 63, गोविन्दराजनगर क्वार्टर, तिरुपति, चित्तूर



103544	कुसुमा कुमारी अनुमाला चिन्नापुल्ला रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21611 27.11.06	रंगपुरम, धोने, कुरुनूल।
103545	एल. भाय लक्ष्मी एल. चन्बासैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21654 05.01.07	मकान. नम्बर. 4-1-73, महाकाली, गली, नारायणपेट, महबूबनगर।
103546	लक्ष्मी सौजन्या नीलम एन. रामा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21433 06.01.06	एमआईजी-द्वितीय 8-4, पीएम, पालेम विशाखापेट्टनम।
103547	ललिता दोकोला जानकी नाइडु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	21338 22.12.04	डी / नम्बर. 48-97, वेलामापेटा, सलूरु विजियानाग्राम
103548	एम. चैतन्या एम. बिक्रशामैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21655 05.01.07	एल. आई. जी. 41, ए. पी. बी. एच. कालोनी, जादवौरिया, महबूबनगर।
103549	एम. चन्द्र मोहन रामचन्द्र राव भिसिकिन	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	1688 08.02.05	मकान. नम्बर. 4-8-98, मार्केट रोड नारायणपेट, महबूबनगर।
103550	एम. दीपक एम. गनानेशवर गौड	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21641 05.01.07	मकान. नम्बर. 3-1-131, मोती मार्केट, काचीगुडा, हैदराबाद।
103551	एम. गीता एम. अन्जानेयुलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1733 15.07.05	मकान. नम्बर. 10-5-127/2, तुकाराम, गेट नोर्थलगुडा सिकन्दरबाद।
103552	एम. हरिका एम. वी. अप्पा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1808 31.01.06	मकान. नम्बर. 1-9-837, सब्बेदारी पोस्टल कालोनी हनमाकोण्डा, वारंगल।
103553	एम. मनोहर कृष्णैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21498 19.07.06	मकान. नम्बर. 1-3-470, चैतन्यनगर, मेटपल्ली करीमनगर।

103554	एम. नवीन एम. भास्कर राव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	21358 16.04.05	जिला, डोकेशनल ऑफिसर, सामने आर्ट कोलिन काडपा।
103555	प्रथयुशा एम. वीरैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21707 19.01.07	ए.पी.आई.आई.सी. कालोनी. एलआईजी -58, आटोनगर विजयवाड़ा।
103556	एम.प्रतिमा उदय श्री एम. वी. उदय भास्कर	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर.मैडिकल यूनि. चेन्नई (तमिलनाडु) 2004	21397 21.12.05	मकान. नम्बर. 14/79, वैकटवासा स्टेशन. सीटीएम. रोड मदनपाल्ले, चित्तूर जिला।
103557	एम. प्रवीन कुमार एम. यादव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	1700 24.04.05	द्वारा डा. पदमा, मकान. नम्बर. 12.2, 36/ए./27, जेबा बाग, असिग नगर, हैदराबाद।
103558	एम. राजेन्द्र प्रसाद एम. राजशेखर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21670 09.01.07	मकान नम्बर०. 23/67, समीप. कन्याकामश्वेरी मन्दिर अत्मापुर, कुरुनूल।
103559	एम. रवि कुमार एम. सूर्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21708 20.01.07	डी. नम्बर. 8.18.200, रेडीविधी, वी. टी. अगरहाराम विजिनागर्म
103560	एम. सेशैलीला एम. पूर्णाचन्द्रराव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2002	21326 10.11.04	डी. नम्बर. 12.18.15, मुप्पीरी सैठी वारी गली कोटापेट, गुन्दुर।
103561	एम. सुरेखा एम. महेश कुमार	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21647 05.01.07	मकान. नम्बर. 6.3.120/9, प्रेमनगर सिटी, खैरातबाद, हैदराबाद।
103562	एम. स्वामालता एम. पडुराजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21743 06.03.07	कानेपल्ली, ब्रह्मापल्ली, पिडुगुराल्ला, गुन्दुर।
103563	एम.के. संतोषी एम. नरसिम्हा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1790 31.01.06	प्लॉट नम्बर. 175, कृष्णा निवास वासवीनगर ओल्ड खारखाना, सिकन्दराबाद।

103564	एम. आर. कविता बी. वेंकटेश्वरा राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21394 18.11.05	हामपुरम, पापताडु अनन्तपुरजिला।
103565	एम.वी.एन.एस. लक्ष्मी एम. येकामब्रेस्वर राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21472 19.06.06	मकान नम्बर. 16-44, रोड़ नम्बर. 4, श्री कृष्णा नगर कालोनी अलीसुख नगर, हैदराबाद।
103566	एम.वी. बी. सुनील कुमार एम. जगन्नाथम	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2001	21324 30.10.04	मकान. नम्बर. 19-10-99, न्यू इन्दिरा नगर, नीयर एसजीएस आर्ट कालेज, तिरुपति, चित्तूर
103567	माधवीलता गदाम जी. एल. लक्ष्मण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2003	21342 04.01.05	मकान. नम्बर. 18/1, बोनथला गली, नन्दयाल, जिला. कुरुनूल।
103568	मदीगा इराप्पा एम. नारासाप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21470 16.06.06	किनाहल, अलुर, हालारवी, कुरुनूल।
103569	मधुलता त्रिकोववाल्तूरी राजेन्द्र बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21414 02.01.06	डी. नम्बर. 21.10/5, ई. साई नीलयाम, टीघर तृतीय लेन, मुत्थालावाडा, विजयवाडा।
103570	महेन्द्र कुमार एस. नरसीमुलु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21653 05.01.07	मकान. नम्बर. 3.1.313, नीमबोली अडडा, कांचीगुडा, हैदराबाद।
103571	महेश्वरी सुब्राह्मण्यम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21681 18.01.07	टाडा कन्डरिंग, टाडा नेल्लोर।
103572	मईपाल रेड्डी मोहन रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21602 07.01.06	द्वारा विजय भास्कर रेड्डी, फेदेरीफाद, माडडूर कोडांगल, महबूबनगर।
103573	मलिक तेहसिन मलिक अजीज हुसैन ए.	बी० ए० एम० एस गुजरात वि० वि०, जामनगर 2003	1708 28.06.05	मकान नम्बर. 16-703, एफजड/बी समीप स्कूल लाइब्रेरी, न्यू मालाकपेट, हैदराबाद।

103574	माल्लेला राधा कृष्णा एम. अन्जेन्यूल्	बी० ए० एम० एस मैसूर वि० वि०, मैसूर 1999	21325 05.11.04	मकान नम्बर. 9-3/288, अम्बेडकर नगर, उरावा कोण्डा अनन्तपुर।
103575	मनमोहन ए. सुदर्शन	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21623 21.12.06	मकान. नम्बर. 2-2-361, अम्बरपेट, हैदराबाद।
103576	मीनगु सुरेश कुमार एम. रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1722 28.06.05	मकान. नम्बर. 2-7-801, अलीपुरा, सूबेदारी हनामकोण्डा, वारंगल।
103577	मीसा लता एम. मुरैह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1803 31.01.06	मकान. नम्बर. 2-12-423, विद्या नगर, कालोनी, हनुमा कोण्डा, वारंगल।
103578	मेटकार शीतल नारायण कामडले उमेश कुमार	बी० ए० एम० एस मुम्बई वि० वि०, मुम्बई 2002	21393 29.10.05	मकान नम्बर. 12-8331, अलुगडडा बावे, सिकन्दरबाद।
103579	मिह्वापल्ली रजनी एम. विश्वान्धाम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1716 28.06.05	मकान. नम्बर. 3-9-91/1, रेड्डी कोलोनी आर्दश नगर, हनामकोण्डा, वारंगल।
103580	मोका सुरेश कुमार एम. लक्ष्मीनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1735 15.07.05	मकान. नम्बर. 3-3-172, सामने, शिवानन्द अस्पताल सावरन गली, करीमनगर।
103581	मुंजीगे बालकृष्णा श्री भूमैह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1768 17.10.05	वेंकटपुर पोस्ट, इल्लारेड्डीपेट, एमडी, करीमनगर।
103582	मुरुसुपल्ली रमन राव एम. नरसिम्हा राव	बी० ए० एम० एस दिल्ली वि० वि०, दिल्ली 1979	21395 05.12.05	मकान. नम्बर. 2-2-647/274, श्रीनिवासनगर बहधाम बरपेट. हैदराबाद कृष्णा
103583	माइलायानि लाबन्य एम. चैरालू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	1817 07.02.06	मकान. नम्बर. 52-176, न्यू काथुर, हनुमाकोण्डा जिला. वारंगल।

103584	एन. आनन्द कुमार आर. नारायण राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	1751	मकान. नम्बर. 4-11-22, लहनेवाड़ा नारायणपेट, मकताल, महबूबनगर।
103585	एन. अरूण कुमार एन. भावतवासलम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2003	1685	मकान. नम्बर. 4-2-176, कोथुर हानुमाकोण्डा वारंगल
103586	एन. ईश्वरी एन. नेगेसवारा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21367	एलआईसी. डवलपमेंट आफिसर, अम्मावारप्पाडू, ओगले प्रकासम।
103587	एन. पवन कुमार एस. गंगाधर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21499	मकान. नम्बर. 2-2-216, साप्ताहिक बाजार, जगतियाल, करीमनगर।
103588	एन. पावनी एन. अर्जुन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2006	21635	मकान. नम्बर. 20-4, सभाष नगर, येल्तान्दुखाम्माम
103589	एन. सत्या नारायण उन. भीमैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21556	रुक्कामपल्ली, नवाबपेट, महबूबनगर।
103590	एन. श्रीदिव्या एन. शेखर्म	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21672	प्लॉट. नम्बर. 181, एस. एस. कालोनी हैदरनगर, कुकटपल्ली, हैदराबाद।
103591	एन. श्री लक्ष्मी एन. सीवा शंकर राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21744	रोल बरिल्लीनट, हाई स्कूल पीछे एस.बी. डी. इब्राहिमपाटनम, कृष्णा
103592	एन. सुजाता एन. रामबाबू गौड	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1732	मकान नम्बर. 6-7-4, भुक्टापुर गली अदिलाबाद
103593	एन. विजय कुमारी एन. कुमारा स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1745	मकान नम्बर. 4-10-53, कुमरापल्ली, हनुमाकोण्डा, वारंगल।
			20.09.05	

103594	नागराजू सम्पत्ति राव गुवारराजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21365	सत्तारोनेपेट, धचपराम पोस्ट, पोलाको एमडी. श्रीकाकुलम
103595	नाइडू गीता नारायण एन०. नारायण सुब्रामनी	बी० ए० एम० एस कर्नाटक वि०. वि०, धारवाड़ 1999	1641	मकान नम्बर 12-10-167ओर 168, उमा अपार्टमेंट, सीता फलमण्डी, सिकन्दाबाद।
103596	नल्ला मिथिलि यादगिरि	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1818	सूबेदारी कालोनी, हमानकोण्डा, जिला, वारंगल
103597	नन्द कुमार के. कूरुणैयाह नायडु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21318	सगम (पोस्ट, एंव एमएन.) नेल्लोर।
103598	नानीमेला गीता नट राज	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21339	मकान. नम्बर. 6-2-3, राव वारी गली, नाइडूपेट, जिला, नेल्लोर।
103599	नरेन्द्र रेड्डी आर. भूपाल रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1738	प्लॉट, नम्बर. 301, श्री बालाजी निवास अपार्टमेंट. श्री वेंकटेशवर कालोनी रोड नम्बर.12, सरुमनगर, हैदराबाद।
103600	नतुवा वानी माधवी एन. वेंकटैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1639	प्लॉट. नम्बर. 47, पदमावती कालोनी, रामगिरि नलगोण्डा आर.आर. जिला.
103601	नवदुरी कल्यानी सांघी एन. चलापथी राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21337	प्लॉट. नम्बर 304, विजयलक्ष्मी अपार्टमेंट., मुरलीनगर विशाखापट्टनम।
103602	निशिता अदापका पिदीराजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21369	डी.नम्बर. 16-8-18/19, प्लॉट. नम्बर. 12, पीनिसेर पैराडाइज आफिसियल कालोनी, तृतीय लेन, महायनीपेट विशाखापट्टनम

103603	नितेश पाटिल मुरलीधर राव पाटिल	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि०, गुलबर्गा 2000	1707 25.06.05	अब्देन्दा नारायणखेडा मेंडक
103604	पी. चन्द्रकान्त पी. नागैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2003	1764 26.10.05	जजापुर गाँव, नारायणपेट, महबूबनगर।
103605	पी. चन्द्रशेखर पी. विजयम्मा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	1736 15.07.05	मकान. नम्बर. 9-90, श्री गायत्री कालोनी कोण्डा रामलायम वैशाली नगर आर. आर.
103606	पी. दामोदर पी. बापू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2007	21632 03.01.07	मकान नम्बर. 11-283, गाँधी नगर शाएपुर मगर आईडीए. जीदीमेटले, आर. आर. जिला.
103607	पी. गंगा भवानी पी. संतोषसम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21676 18.01.07	एस-ए-पी-जेआर. कालेज, गोराटले अनन्तपुर जिला।
103608	पी. गंगुलैयाह पी. चिन्ना सुब्बैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21674 18.01.07	वेपामनुपेटा, तालुपुला, अनन्तपुर।
103609	पी. हरि किशन बुगन्ना	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2005	21628 27.12.06	मकान. नम्बर. 6-8-46, गाँधी नगर, तन्दूर, आर. आर. जिला।
103610	पी. झांसी लक्ष्मी पीपीएन. स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2004	21370 23.06.05	डिविजनल इंजीनियर, एपीईपीडीसीएल, कोप्पा गुरान्ना भवना, सिद्धार्थनगर, विजियानाग्राम।
103611	पी. प्रवीन कुमार पी. वेंकट रामुलू	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०, बंगलौर 2002	1644 23.08.04	मकान. नम्बर. 6-100 श्रीनिवास कालोनी महबूबनगर।

103612	पी. राधा	बी० ए० एम० एस	21360	डी. नम्बर. 26-3-1633, 5वीं गली,
	पी. वेनूगोपाल रेड्डी	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर	21.04.05	चन्द्रमौलीनगर, नेल्लोर।
103613	पी. राम कृष्णा रेड्डी	2003	1663	निवासी इलिंगनदला गांव मरीकाल, जिला,
	पी. नरसिम्हा रेड्डी	बी० ए० एम० एस	04.12.04	महबूबनगर।
103614	पी. रंजीत कुमार	2003	21646	मकान. नम्बर. 2-4-102, आम बाजार, येल्लान्दु,
	पी. लक्ष्मैयाह	बी० ए० एम० एस	05.01.07	खम्माम।
103615	पी. साई रेड्डी	एन.टी. आर.यूनि. आफ. हेल्थ साइंसिस्, विजयवाड़ा	1623	अन्तवार दौलताबाद (एमएन). जिला,
	पी. किस्ता रेड्डी	2005	22.05.04	महबूबनगर।
103616	पी. सम्मत कुमार	बी० ए० एम० एस	21657	प्लॉट. नम्बर. 19 डी. आर. डी. एल. कालोनी,
	पी. भदरैयाह	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर	05.01.07	हरितीनापुरम, हैदराबाद।
103617	पी. स्वपना	एन.टी. आर.यूनि. आफ. हेल्थ साइंसिस्, विजयवाड़ा	21639	रेलागी, पेनुमत्रा वेस्ट, गोदावरी।
	पी. मुनेश्वारा राव	2005	05.01.07	
103618	पी. वीना	बी० ए० एम० एस	1755	बी. 1469, एनजीओएस कालोनी, वनास्थलीपुरम
	पी. चन्द्रशेखर	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर	10.10.05	हैदराबाद।
103619	पी. वीर स्वरूपा	2004	21662	मकान. नम्बर. 11/66, रामालायाम गली,
	श्री. पी. वीर रेड्डी	बी० ए० एम० एस	08.01.07	चेन्नुर, काडपा।
103620	पी. विजय	एन.टी. आर.यूनि. आफ. हेल्थ साइंसिस्, विजयवाड़ा	1744	मकान. नम्बर. 2-9-156/1, विकासनगर, हनुमाकोण्डा.
	पी. राजी रेड्डी	2005	20.09.05	वारंगल
		बी० ए० एम० एस		
		राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर		
		2003		



103621	पदमा राव रेफाना वेंकटेश्वरा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21432 04.01.06	मकान. नम्बर. 41-41-28-60, कृष्णा लंका, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला।
103622	पलानी मुथप्पा एम. वेलायुधाम रेड्डी	बी० ए० एम० एस श्री चन्द्रशेखेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांची (मानित विश्वविद्यालय) 2003	21354 07.03.05	सरवाना क्लीनिक, वारादेश पालेम, जिला, चित्तौर।
103623	पलानी सुधा एल. एम. पलानी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21465 15.01.06	द्वारा. लिंगैयाह, कोथाकोटला, जिला महबूबनगर।
103624	पंदराला हरिथा पी. उमा शंकर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1820 07.02.06	मकान. नम्बर. 2-10-556, टीवर कालोनी, सूबेदारी कालोनी,हनामकोण्डा, वारंगल।
103625	पनीथी राजशेखर पी. संगीता राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21382 08.08.05	डी, नम्बर. 9-230, पिडुगुराल्ला गुन्दुर, जिला
103626	परामकुसम एस. लेहाकरावा पी. सत्यनारायण चारयुलु	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1703 29.04.05	द्वारा डा. सेश्चारयुलू, प्लाट नम्बर. 5-ए, जयाप्रियानिवास अपार्टमेंट, पीछे ईएसआई, होस्पीटल बाबनगर, नाचाराम, हैदराबाद कंचनापल्ली, थोथामबेडु चित्तूर।
103627	पासुपुलेटी राजू पी. पुरुषोत्तम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21666 08.01.07	द्वारा मौली खान (एडवोकेट) विश्वंधापुरम एक्स. पोदिली (पी और एम). प्रकासम।
103628	पाटन सलीम खान हकीम खान	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	21328 14.12.04	मकान नम्बर. 4-11, शमशादपुर नल्लायाल, वोड्डी नारायणखेड, मेडक
103629	पाटिल संतोष कुमार दत्तात्रेय राव पाटिल	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1763 26.10.05	

103630	पेटमन रवि कुमार वेंकटरामुलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1719	मकान. नम्बर.1-3-79-1/2ए. सुकुलम्मा मेट गडवाल जिला, महबूबनगर।
103631	पवन कुमार परम कुसा राम कृष्णा परम कुसम	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21447	प्लाट. नम्बर.5-ए.जानप्रिया नीवा अपार्टमेंट, पीछे ईएसआई होस्पिटल, बाबानगर, नाचाराम, हैदराबाद।
103632	पेराला स्वपना पी०. वेंकटसवरा राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1774	हुजुराबाद, विद्यानगर जिला, करीमनगर।
103633	पिन्तोजी संतोष कुमार पी. जीवन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1739	मकान. नम्बर. 2-11-11, शिवाजी रोड कामरेड्डी निजामाबाद।
103634	पोलेपल्ली मल्लीकारजुना राव पी. सम्बासिद्ध	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21413	केएस. पल्ली, गिडझलुर, प्रकासम, जिला
103635	पूनम विनोद कुमार	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21727	मकान. नम्बर. 19-5-82/1/8सी,नन्दी मुसलाईगुड़ा कृष्णा बाग, हैदराबाद।
103636	पोथी रेड्डी ममिल्ला एम. वेंकटेश रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1699	मकान. नम्बर. 9-90, गायत्री कालोनी कौदन्दा रामालयाम, वैसालीनगा, आर. आर
103637	पोटु मोहन पी. दर्शनम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1795	मकान. नम्बर. 19-9-42, रगासाइपेट, जिला, वारगल।
103638	प्रमाकर परामबौरे पी. किशन	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1691	मकान. नम्बर. 5-1-1/4/1, श्रीनिवास निलायाम शान्तिनगर, सगारेड्डी, मेडक
103639	प्रमीला वी. कृष्णा मर्था	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21512	मकान. नम्बर. 10-6-17/5, गायत्री भवन रोड,खम्माम।

103640	प्रसाद पेन्टाकोटा पी.टी. अप्पा राव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2005	21614 07.12.06	द्वारा. एस.सिम्हा चलम, विजय नायडू गली, गवारपालेम, अनाकपल्ली, विजाग।
103641	प्रसन्ना बोल्लीपोगू बी. प्रकाश राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21408 02.01.06	डी. नम्बर. 36-7-15/डी. नेहरू नगर, वुडपेट विजयवाड़ा।
103642	प्रशान्त कुमार गोडा वेकटेशाम गोडा	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21460 21.04.06	सामने. बस स्टैण्ड, शंकरमपेट, मेडक।
103643	पारथासारथी कोल्ला के. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	21340 04.01.05	मकान.नम्बर 3-7-19, राजागोपालापुरम, नायडुपेट, जिला, नेल्लोर।
103644	प्रवीन कुमार अत्माकुरु ए. नागेश्वारा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21377 29.06.05	डी. नम्बर. 3/260, समीप शासकीय. जूनीयर कालेज अत्माकुरु, जिला नेल्लोर।
103645	प्रेम कुमार जेन्ना गुनानिधीजेन्ना	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21372 24.06.05	मणिकयापुरम ग्राम श्रीकाकुलाम जिला
103646	प्रेमा कुमार के. के. अप्पन्ना	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21420 02.01.06	बीपी कालोनी, कनचिली सोमेट आर.एस. श्रीकाकुलाम
103647	पुजारी विजयलक्ष्मी पी. नारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1709 28.06.05	मकान. नम्बर. 480/2, रेलवे क्वॉटर, चिकलगुडा सिकन्द्राबाद।
103648	पुष्पला अनिकोदे रमन ए.एन. रमन	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर. मेडिकल यूनि. चेन्नई ( तमिलनाडु) 2004	21452 13.03.06	डी. नम्बर. 5/ए. जाना प्रियानिवास अपार्टमेंट, पीछे ईएसआई होस्पिटल, बाबानगर, नावाराम, हैदराबाद।
103649	पुसुपुला मेनका पी. वेकट रामलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1804 31.01.06	मकान. नम्बर. 6-100, श्रीनिवास, कालोनी, महबूबनगर।

103650	पुटकला संकर्याह पी. कौंडप्पा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	21376 29.06.05	डी/नम्बर.4-43, येगिलिबूडा (गांव) गूटी (एमएन) अनन्तपुर।
103651	आर. चन्द्र शेखर आर. कन्नाम नायडू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	21373 24.06.05	मोवादपुरम पंचायत, चोडावाराम, (एमडी) विशाखापट्टनम।
103652	आर. कल्याणी वीना चौधरी जी. रामगोपाल चौधरी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21441 07.02.06	द्वारा. श्री मोहन फोटो स्टूडियो, एसवीबीपी रोड मेडक जिला।
103653	आर. कान्ति रेखा आर. मालैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21709 20.01.07	मकान. नम्बर. 12-10-587/15/1, सीताफलमण्डी सिकन्दाबाद।
103654	आर. प्रमाकर आर. मीनैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21642 05.01.07	मकान. नम्बर.3-1-131, मोती मार्केट, कांचीगुडा हैदराबाद।
103655	आर. सुमाशिनी आर. नागसेरा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	21379 01.07.05	मकान. नम्बर. 5-5-321 सी.पायडू भवन की सीढ़ियों के उपर एसडी लाआऊट तिरुपति, चित्तूर जिला
103656	आर. सुजाता आर. चिन्ना राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21699 19.01.07	गोदिकसहराला, नक्कापल्ली, विजाग
103657	आर. सुस्मिता सागर आर. विद्यासागर	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1656 01.10.04	मकान. नम्बर. 2-5-100, अनन्तनगर सिरसिल्ला, करीमनगर।
103658	आर. वेंकटेश्वरलू आर. मधुसूदन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1728 15.07.05	मकान. नम्बर. 3-112/1, श्रीनगर कालोनी रामनाथपुर, हैदराबाद।
103659	आर. यामिनी बी. राजेन्द्रन	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21571 22.08.06	डी.नम्बर. 4-1550 ए. अपस्टेयर्स राजीव गांधी रोड गरिमिपेट, चित्तूर

103660	आर.टी. लक्ष्मी कुमारी आर. मालाकादैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21409 02.01.06	समीप टीआरआर शासकीय कालेज, कृष्णानगर कोदुदु कुं केआर., प्रकासम, जिला।
103661	राधा कुमारी चिन्नी एस. माल्लप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	21392 25.10.05	डी. नम्बर 1-153, बैल्लरी रोड रायदुर्ग अनन्तपुर।
103662	राधाई एम. महेन्द्र सिंह भूपेन्द्र जी. भधारी	बी० ए० एम० एस गुजरात वि०. वि०, जामनगर 1989	1747 20.09.05	जी. 3.हरीश अपार्टमेंट, ऑफिसर कालोनी रामकृष्णा पुरम, सिकन्दाबाद।
103663	रघुवेंद्रा चार्युलु ए. अदिसेशैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21386 16.09.05	पीपुल्ली, गुडीपाडु जिला कुन्नूल।
103664	राजा रवि किरण एमसीएस एमवीपी.कृष्णामाचार्यलु	बी० ए० एम० एस डा.एम.जी.आर. मेडिकल यूनि. चेन्नई ( तमिलनाडु) 2000	1765 27.10.05	गोकलेनगर, डी.नम्बर. 3-10-102/1ए. रामन्तपुर, हैदराबाद।
103665	राजशेखर बाबू स्वर्ण रमेश्वर राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21390 06.10.05	पंदरा, बांतमिल्ली, कृष्णा जिला।
103666	राजेश्वर रेड्डी पुल्लार रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2001	21438 03.02.06	गारलापहद पी. कोईकोण्डा (एम) जिला, महबूबनगर।
103667	राकेश कुमार के के. गोविन्दप्पा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1662 04.12.04	मकान नम्बर. 10-6, पथापेट उतकुर (पी) ओर (एम) महबूबनगर।
103668	रामा भवानी रामशंकर लिंगम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1670 03.01.05	मकान. नम्बर. 10-10-169, रामावरी विदी गिरमाजीपेट, वारंगल।
103669	रामकृष्णा ए.पी. सुब्बा रायुदु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21718 22.01.07	मकान. नम्बर. 6/791, नमाते बोर्ड कालोनी, शंकरपुरम, कादपा।

103670	रामगिरि नवकान्त आर.रामनरसैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21364	मकान नम्बर.जी.4, नन्दा टावर, पिचैयह गली लब्बीपेट, विजयवाड़ा, कृष्णा।
103671	रामकृष्ण रेड्डी अक्क ए.नरसिम्हा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1759	मकान. नम्बर.1-6-111/25/बी4, बारवेकवराचोले नारायणकैड, मेडक
103672	रामबाबू के के.जाली रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21693	मकान नम्बर. 6-167, अरुणा नगर सिंगराव कोण्डा, प्रकासम।
103673	राममक्त लक्ष्मीसुधा आर. श्रीनिवास	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21439	द्वारा. आर. एल.लक्ष्मणराव, डी.नम्बर. 10-38-4, रामनगर, विशाखापट्टनम।
103674	रतनाकर मित्तापेल्ली एम. शंकर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1680	मकान. नम्बर. 32-2-138, एम. जी. रोड कोरातला करीमनगर।
103675	रवि कुमार एस. रामलु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21488	मकान.नम्बर.104, शौर्या एवन्सू, रोड 5, अल्कापुरी कोथपिट हैदराबाद।
103676	रवि कुमार बीजापुर चन्नैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21371	चिन्ना बाजार लालपेट, डी.नम्बर 18-11-46, गुन्टुरजिला।
103677	रवि मिन्नापुरम एम.कोमुरैह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1743	जदा पेट, चित्त्याल (एम.)वारंगल
103678	रेड्डी पुल्ला राव आर.वेंकट कृष्णा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21643	चिना कोरु कोदी कल्लोर, खम्माम।
103679	रेड्डी शेटी महेश कुमार आर. चन्द्रैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1752	मकान. नम्बर. 3-1-69/डी, बिग बाजार, जिला, मेडक।
			10.10.05	

103680	रेणुका दिवाकर जोशी दिवाकर दत्तात्रया जोशी	बी० ए० एम० एस मुम्बई वि० वि०, मुम्बई 2004	21669 09.01.07	मकान नम्बर 6-60, श्री साई राम निलायाम मधुरापुरी सिरडी नगर, अल्मारागुडा, हैदराबाद
103681	रोशनी मनोहर राव मांदकर एम. भांडेकर	बी० ए० एम० एस नागपुर वि० वि०, नागपुर 2000	21629 28.12.06	मकान नम्बर 6-8-46, गौधी नगर टंडुर, आर, आर, जिला।
103682	रुद्रमा देवी के. बालि रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21717 22.01.07	मकान नम्बर 7/370, (अपस्टेयर्स) मोचामपेट, कादपा।
103683	एस. अर्चना एस. कृष्णामा नायडू	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2002	1661 23.11.04	मकान नम्बर 11-27/124, कोट्टावाडा वारंगल
103684	एस. बालकृष्णा एस. बालैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21485 12.07.06	मकान नम्बर 5-5-201, विवेकानन्द कालोनी, कामरेड्डी, निजामाबाद।
103685	एस. बेगम सुर्या अब्दुल कादिर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21686 18.01.07	मकान नम्बर 48-9-12, विष्णु नगर, गुण्डाला, विजयवाड़ा।
103686	एस. ब्रह्मण कुमार बालानारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21423 02.01.06	एलआईसी ऑफिसर, रायचती, कदापा
103687	एस. जयाप्रदा सत्यानारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1760 15.10.05	मकान नम्बर 7-1-617/एच/2, अमीरपेट वारंगल हैदराबाद।
103688	एस. ज्योतसना एस. परमेश्वरैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21715 22.01.07	मकान नम्बर 3-116, गोपालपुर, हनामकोण्डा
103689	एस. ममता एस. कोटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैलथ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21503 19.07.06	प्लॉट नम्बर 609, ई.सी. नगर, चेरियापल्ली हैदराबाद।

103690	एस. मजुला के. वी. श्रीनिवास मुर्धी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2001	21349 04.02.05	श्री बालाजी क्लीनिक, मैन रोड सेवा मन्दरी कोदीगेना हल्ली हिन्दूपुर अनन्तपुर
103691	एस. नागेश गुप्ता एस. बी. रामलीमैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	21356 14.03.05	डी. नम्बर. 17/88, मैन बाजार, एसबीआर, आर्य मेड शोप, धर्मवर्म, जिला. अनन्तपुर।
103692	एस. श्रीनिवास राव एस. रामी नायडू	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2004	21451 07.03.06	पेटवला गली, राजम श्रीकाकुलम जिला।
103693	साईलाज बी. रामलिंगम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1776 31.01.06	मकान नम्बर. बी.593, एनजीओएस कालोनी एस/4(6-3-593) वनास्थलीपुरम, हैदराबाद।
103694	सजीदा बेगम एस. मासुम अली	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1792 31.01.06	फ्लैट नम्बर. 205, प्लाट. नम्बर. 168, बृदावन एरिया मोतीनगर, ईरगुड्डा, हैदराबाद।
103695	सामला सुरुजना एस. सुर्याप्रकाश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1807 31.01.06	प्लाट. नम्बर. 31, ईएनआईएस, एमसीएच कालोनी, पारसीगुड्डा, हैदराबाद।
103696	सांदरानी अप्पाला राजू एस. पेरस्तायाय	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2006	21613 05.02.06	डी. नम्बर. 32-2-70, नथ्यायांपालेम बी.एच.पी.वी. पोस्ट, विशाखापट्टनम।
103697	संगीता शर्मा एस. अरुण शर्मा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21706 19.01.07	मकान. नम्बर. 4-20, बन्तापल्ली, जन्नाराम मेडक।
103698	सांगीनेनी वानी एस. इलैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1814 07.02.06	मकान. नम्बर. 14-21, हसनपार्थी जिला, वारंगल।
103699	संजीव कुमार ज्योतेप्पा अप्पा राव ज्योतेप्पा	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि० वि०, गुलबर्गा 2000	1653 16.10.04	फ्लॉट. नम्बर. 412, सीतारामैयाह टावर, शास्त्रीनगर बोराबंदा, हैदराबाद।



103700	सतीश कुमार एहनमैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1822 07.02.06	दामलुता जिला, निजामाबाद ।
103701	सफ़राज नवाज डब्लूएम एन. एम.अब्दुल मजीद	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21347 24.01.05	मकान नम्बर, टाइप तृतीय बी-3, ओएफसी बीएसएनएल क्वार्टर सामने नेताजी सिनामा, कुरनूल
103702	सरीथ अकरापु शेशमा चारी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1684 03.01.05	राजुला कोटापल्ली, नेल्लीकोदुर,वारंगल
103703	सरोज रामकृष्णा विश्वाध	बी० ए० एम० एस नागपुर वि० वि०, नागपुर 2005	1741 20.07.05	पलाट नम्बर 102, प्रशान्ती हाईट प्रशान्त नगर, कालोनी ए. एस राव नगर सिकन्द्राबाद
103704	सरीता अवला ए. नीरजा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21454 23.03.06	मकान नम्बर समीप रामनगर (पी) पराला, चिराला ।
103705	सत्यादीपा ए. गोधी जीबीएच राव	बी० ए० एम० एस गोवा वि० वि०, गोवा 2000	1746 20.09.05	मकान नम्बर 3-6-187, बेसाइड अगोआस्वीट के पीछे वेस्ट मर्रेपल्ली, सिकन्द्राबाद ।
103706	सत्याला मृदुला एस.वी. नरसिंह राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1791 31.01.06	मकान नम्बर 5-231, दीप्ति श्रीनगर चन्द्राया (पी), हैदराबाद ।
103707	सविता होलिया वासुदेव होलिया	बी० ए० एम० एस कनॉटिक वि० वि०, धारवाड 2003	1697 15.04.05	मकान नम्बर 4, ब्लॉक नम्बर 6, सुचित्रा , मेडिकल रोड, सिकन्द्राबाद
103708	सेकुसाला श्रीदेवी टी. बालकृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2002	1637 27.07.04	मकान नम्बर 4-98, एनजीओ एस कालोनी कामरेड्डी, जिला निजामाबाद ।
103709	शैलाजा कूसुरु प्रभाकर	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2001	21437 21.01.06	मकान नम्बर 1-7-653, शान्तिनगर, हनामकोण्डा, वारंगल ।

103710	शैलेन्द्र कुमार दीक्षित लक्ष्मीनारायजी दीक्षित	बी० ए० एम० एस अमरावती वि० वि०, अमरावती 1989	1704 29.04.05	प्लॉट नम्बर 13, चन्द्रागरी कालोनी, आर के पुरम, सिकन्दाबाद।
103711	शिरिशा देवी संदमाला एस. वाराप्रसाद	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21427 03.01.06	मकान नम्बर. 26-1-103, गायत्री नगर नेल्तोर जिला।
103712	शिरिशा कोदमासिमहान के. कृष्णामाचारी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1677 03.01.05	मकान नम्बर. 2-7-436, श्रीसुधामाम एकस्टेंशन कालोनी सूबेदारी, हनुमाकोण्डा वारंगल।
103713	शिव शंकर तम्माली टी. रमैयाह	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	1772 14.12.05	मकान नम्बर. 12-92, श्रीवासनगर, रामचन्द्रपुरम जिला, मेडक।
103714	श्री किशारी भटनागर ए.के. भटनागर	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2001	1664 17.12.04	14-1-313, मोडिगुड्डा, कामन मंगलहाट रोड़ हैदराबाद।
103715	शरुति एस. बहेती सत्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1797 10.01.06	मकान नम्बर.5-3-236/1, गोशमहल, हैदराबाद।
103716	सफीशा अबुला ए.बी.राव	बी० ए० एम० एस प० रवि शंकर शुक्ला, वि०. वि०, रायपुर 2002	21566 19.08.06	प्लॉट नम्बर.204, होयासाला टावर, पर एस. कालोनी, गणेश नगर, रामनाथपुर, हैदराबाद।
103717	सिरिषा उत्तरावली सुवा प्रकाश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21419 02.01.06	डॉ.यू.एस. प्रकाश श्रीमुरु क्लीनिक, पेनडुथी विशाखापट्टनम।
103718	सिरिगिनाथिमा महादेव एसएमके. मोहन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21416 02.01.06	डी. नम्बर.20/ए. 13-26, सुब्बावारापु वारी गली, गौधीनगर, ईलुरु।
103719	सिरिशा कस्तूरी के. कृष्णा मुर्ध	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21357 04.01.05	द्वारा श्री मार्केटिंग सर्विस, एच नमर. 29-37149, नीयर राम मन्दिर, ईलुरु रोड़, विजयवाड़ा।

103721	सिपरकाम सुनीता एस. स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21407 02.01.06	द्वारा केवीएस. साई प्रसाद, पीछे गोपाल कृष्ण टाकीज , डी नम्बर 7-371, मुलगगिरि, गुन्दुर
103722	सिजानगोरा दामेरा मांडुरान्ना राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2002	1620 03.05.04	मकान नम्बर. 29-1380/ए 2, दीनदयाल नगर, नरेडमेट।
103723	सिवाराराम कृष्णा सामला एस.लक्ष्मणा बाबू	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21385 16.09.05	मकान नम्बर 16-05-1, पिडुगुरल्ला गुन्दुर जिला।
103724	स्मिता डी डी मोहन रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2005	21597 18.09.06	जीवका नगर, अंगालाकुडुरु तेनाली, गुन्दुर।
103725	श्री दात्ता डी डी.वी. रमन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21417 02.01.06	प्लाट. 67, पीएनटीकालोनी, वीएमसी, रेन्नुनटा रोड तिरुपति, चित्तूर जिला।
103726	श्रीधर रेड्डी गुथा जी. लिंगा रेड्डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21458 12.04.06	डी. नम्बर. 2-428.235, बालाजी कम्पलैक्स नन्दयाल, कुरुनूल
103727	श्री लक्ष्मी बाई एस. वेकयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2003	1678 03.10.05	मकान नम्बर 6-3-613, गाँधीनगर रामगिरि नालगोण्डा
103728	श्री लक्ष्मी पेन्नूगोन्डा सूर्या चन्द्र राव पी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2005	21440 06.02.06	द्वारा. रामीसेटी, वेंकट सुब्बा राव, रंगाथोटा सिवालियाम, आगले, प्रकासम जिला।
103729	श्रीनिवास बोड्डुला रायामलू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21675 18.01.07	सूर्या चका होस्पिटल,सामने पंचायत आफिस, उन्नदुर, टाडेपाल्तीगुडेम, वेस्ट, गोदावरी
		बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	1810 31.01.06	मकान नम्बर, 1-62, सीथापल्ली गांव कम्मापल्ली (पी.) करीमनगर

103730	श्रीनिवास राव. टी टी. श्रीराम मूर्थी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21346 04.01.05	मकान नम्बर. सी/39, पोडालदा,राजोले (टीक्यू) ईस्ट, जिला, गोदावरी
103731	श्रीवल्ली ए. बाबू राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21736 20.02.07	मकान नम्बर.40-294/3, ईस्ट, जवाहर नगर, मौला-अली एच.बी. कालोनी, हैदराबाद।
103732	श्रीविद्या जी गोविन्द मुरलीधर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1778 31.01.06	मकान नम्बर. 94/सी, एलआईजीएच ओल्ड संतोषनगर कालोनी, हैदराबाद।
103733	सुधा कुमारी के.जी. सी.अश्विनचन्द्र	बी० ए० एम० एस केरल वि० वि०, केरल 1999	1770 14.12.05	मकान नम्बर. 29-1549/90, ककाथिया नगर नेरेडमेट, सिकन्दाबाद।
103734	सुधीर कोट्टरी के. रामा कोटेश्वरा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21333 22.12.04	मकान नम्बर. 12-9-2/25, प्रकाशनगर, नारसावापेट जिला, गुन्टुर।
103735	सुगाली राममूर्थी नायक चाकरी नायक	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1631 20.07.05	द्वारा एस. श्रीनिवास रेड्डी कटाकिनापल्ली धर्मराम जिला, करीमनगर
103736	सुजाथा गुन्दे जी नरसैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1809 31.01.06	नेक्कना, जिला, वारंगल
103737	सुमना मोनिका एस.भास्कर	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1785 31.01.06	मकान नम्बर.2-7-372, एकसाइज कालोनी, हनुमाकोण्डा, वारंगल।
103738	सुकु गावरी शंकर एस. राधा कृष्णा	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21383 12.09.05	द्वारा सुकु डैन्टल केयर, मकान नम्बर. 18/713, समीप वैकटेश्वरा टाकिज अनन्तपुर।
103739	सूर्यान्त प्रकाश	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि० वि०, गुलबर्गा 1999	21404 31.12.05	प्लॉट. नम्बर. 52, दत्तात्रेया कालोनी, ऑसिफ नगर हैदराबाद।

103740	स्वपना गांजी जी. रामदास	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1724	राजयोगी टैक्सटाइल, चिरयाल, मैन रोड जिला, नालगोंडा।
103741	स्वारागम जयाप्रदा सदानन्दम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2003	1672	माल्लमपल्ली (अदावी) मुल्लानगर, वारंगल
103742	स्वाति रामचन्द्र बोरकर प्रोफेसर रामचन्द्र बोरकर	बी० ए० एम० एस अमरावती वि०. वि०. अमरावती 1997	21464	मकान नम्बर 265. सीटी फेस द्वितीय जनाप्रिया नगर, मियापुर, हैदराबाद।
103743	सैयद निसार एम.डी बड़ेसाब. एम. डी	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०. बंगलौर 2004	21446	जेपी क्लीनिक, अमराचिंता (पी). अत्माकुर महबूबनगर।
103744	टी. अन्नपूर्णा टी. अशोक कुमार	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2003	1681	मकान नम्बर 3-43, पेरीकॉवाड, अक्केनापल्ली, नंगानूर, जिला, मेडक।
103745	टी. दुर्गा भावनी टी. वी. रमन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21682	डी नम्बर 418-31, मंतादावरी गली हरमथपुरम कृष्णलंका, विजयवाड़ा
103746	टी. कन्या कुमारी टी. देवा रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2004	1713	मकान नम्बर 1-1750/बी1, बी2 एवं फ्लैट नम्बर 402, गांधीनगर, उदेस सूर्या इम्पीरियल, हैदराबाद।
103747	टी. नागा तनूजा टी. सूरि बाबू	बी० ए० एम० एस श्री चन्द्रशेखेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम (मानित विश्वविद्यालय) 2003	21361	एमआईजी-द्वितीय -73, नीयर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, मंथलीपेटनम, कृष्णा जिला
103748	टी. नागज्योति के. किस्तना	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21605	डी. नम्बर. 12/3/830., जेसु नगर, अनन्तपुर।
103749	टी. प्रहलाद टी. चेंकटेश	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०. बंगलौर 2003	1655	द्वारा श्री चेंकटेश्वर मेडिकल स्टोर मैन रोड, मखतल (एमएन), महबूबनगर।

103750	टी. प्रशान्त राव टी. नरसिम्हा राव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	21444 08.02.06	अमरचिता, महबूबनगर
103751	टी. राघवेन्द्र शेषा राजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1749 10.10.05	मकान नम्बर. 1-125/5, रामनगर जिरायतनगर अरसूर, निजामाबाद।
103752	टी. रविकान्त टी. संजीवा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1627 02.06.04	मकान नम्बर. 5-32/3/6, साईनगर कालोनी संगरेड्डी, जिला. मेडक
103753	टी. सुधाकर यादव टी. प्रभाकर राव	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21493 18.07.06	मकान. नम्बर. 12-8-2, मुथयालापेटा, चिराला प्रकासम।
103754	टी. सुरेन्द्र बहादर टी. रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1823 07.02.06	मकान. नम्बर. 3-2-889, रेड्डी, हाऊस चपल बाजार, कांचीगुडा, हैदराबाद।
103755	टी. एम. उन्नी कृष्णा टी. एम. राघव	बी० ए० एम० एस मद्रास वि०. वि०, मद्रास 1985	21463 26.04.06	आर्य वैद्य सेल ब्रांच 1-1-39, सरोजीदेवी रोड, सिकन्द्राबाद
103756	टी.बी. रामकृष्णा डी. वेंकटचार्युलु	बी० ए० एम० एस गुलबर्गा वि०. वि०, गुलबर्गा 1998	1624 07.06.05	द्वासा रविन्द्रनाथ,मकान. नम्बर.42, कृष्णानगर कालोनी,पुराना साफिलगुडा आरके पुरम,सिकन्द्राबाद।
103757	टी.बी. सत्यवती टी. सत्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21700 19.01.07	पेदाडु, थिमाराजपूटा,अनाकपल्ली, विजाग।
103758	टैगोर टिन्नालुरी टी. श्रीनिवास सूरी	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	21362 02.05.05	संगम रोड, तिरुवुर कृष्णा जिला।
103759	थालकोटी लवन्था टी. मूर्थी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1711 28.06.05	मकान. नम्बर. 4514, बीएचइएल-एमआईजी फेस द्वितीय राम चन्द्रपुरम, हैदराबाद।

103760	शान्तीरू चन्द्र शेखर सत्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21421 02.01.06	पराक मेडिकल अम्बेडकर गली, उलावपाडु प्रकासम। जिला।
103761	तिरुपति कोथापल्ली के. पोचम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1780 31.01.06	मकान. नम्बर.28-152/2, गोपालवाड मंचेरियल अदिलाबाद।
103762	टिप्पानी अर्पिता टी. यादगिरि राव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1690 08.02.05	वेंकटेश्वर डयागनास्टिक जेपीएन रोड वारंगल
103763	टोनापे विनय तुकाराम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21544 03.08.06	द्वारा, वेंकटेश्वर नर्सिंग होम, येलडुथी, मेडक
103764	तिरुपति के वेंकट रामुलु	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1650 16.10.04	मकान नम्बर. 4-11-43/1, लेनेवाड नारायणपेट, महबूबनगर।
103765	त्रिविकराम रेड्डी टी. मधुसदन रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21496 18.07.06	प्लाट नम्बर. 17/4, सरस्वती नगर, कालोनी, लोथकुंटा,सिकन्द्राबाद।
103766	तुम्माल कृष्णा प्रसाद टी. रामा राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21601 10.05.06	दोसापाडु पेदापारुपुदी, कृष्णा।
103767	यूराज्यालक्ष्मी युनरसिम्हलु गौड	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21726 29.01.07	एन.सी.सी. कालोनी, वेंनलराव नगर, नेल्लोर जिला।
103768	युएनवीएसएल.हिमाबिन्दु युएस.मृथी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	1676 03.01.05	क्वॉटर नम्बर. 328/डी. टाइप IV, एनएचआईबी एचईएल टाऊनशिप,हैदराबाद।
103769	उषादेवी तम्मानावार किदम्बी भार्गव	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2001	21477 03.07.06	मकान. नम्बर.6-3-158/1,ओल्ड. आरामघर, शिव- रामपल्ली,राजेन्द्रनगर, आर.आर.जिला।

103770	उययाला शिरुपति यु.बालराजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1801 31.01.06	नरसिंगापुर (गांव) वीनावका करीमनगर।
103771	उज्जाम अहमद मोहिउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन	बी० ए० एम० एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21622 21.12.06	मकान नम्बर. 2-2-361, अम्बरपेट, हैदराबाद।
103772	वी. अग्नि शिका वी. वेणु मधु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21722 22.01.07	मकान. नम्बर 7-1-455, एम.एम. टोटा, करीमनगर।
103773	वी. हरिता वी. गंगा राजू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21679 18.01.07	मकान. नम्बर.20, जयनगर कालोनी, अन्नानाया नगर, तरुपति।
103774	वी. कान्ति कुमारी वी.वी.एस. नायडू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21665 08.01.07	मकान.नम्बर. ए.53, रेलवे क्वार्टर, मौली अली, हैदराबाद।
103775	वी. मुनि सुब्रह्मण्यम वी. एम. रामैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21725 29.01.07	विन्नामाला, नायडुपेटा, नेल्लोर जिला।
103776	वी. नवा वेणु लक्ष्मण दास गांधी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21678 18.01.07	प्लॉट नम्बर. 12, दिव्या अपार्टमेंट, बृदावन, गार्डन, 7वी, लेन, गुन्दुर।
103777	वी. रूदरेसवरा राव वी. कोटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21694 18.01.07	* नन्दीवेलुगु तेनाली, गुन्दुर।
103778	वी.संध्या रानी सदानन्दम	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	1788 31.01.06	वेल्लामपल्ली (पी.) प्रबल (एमएन.) जिला, वाराणसी।
103779	वी. शाइला एस. ए. वाहब	बी० ए० एम० एस केरल वि०. वि०, केरल 2005	1694 12.04.05	द्वारा मोह. बिन मोहमूद, आरडीटी, आईपीजी, जीपी,एपी,10-2289/11, शान्तीनगर, हैदराबाद।



103780	वी.बी.एवानी वी.बालाकृष्णा	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21542 03.08.06	डी.नम्बर. 10-778, सशापीरान गली, चित्तूर जिला।
103781	वी.एल.निलिमा गोविन्दा राजू जी. हुनमन्था राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	21332 22.12.04	डी. नम्बर. 60-3-9, आरसी नगर, आदर्श अपार्टमेंट, विजयवाड़ा।
103782	वल्लबदास स्वपना गंगाधर गौड	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1712 28.06.05	अत्माकुर, जिला, महबूबनगर।
103783	वंगापल्ली गीता वानी वी. कौटैयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21415 02.01.06	डी. नम्बर. 37-1-418, रामनगर तृतीय लेन ओनगोलें प्रकासम जिला।
103784	वनिता कटकुरी के.कृष्णा गौड	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1779 31.01.06	मकान नम्बर. 8-3-872/एलए.(3-3)मालूति अपार्टमेंट. येल्लरिड्डीगुड्डा, अमीरपेट, हैदराबाद।
103785	वैन्कायलापति मृदुला वी.राम चन्द्र राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21645 05.01.07	मकान नम्बर. 16-2-752/24/36, त्रिवेणीनगर, दिलसुकनगर, हैदराबाद।
103786	वारालक्ष्मी के. तिरुपति राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21603 26.10.06	डब्बू/ओ.पी. वेंकट. तिगासमुदराम प्रकासम।
103787	वाराप्रसाद के. वेंकटेश	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21381 23.07.05	मुल्लेपल्ली, पडडवाडुगुर,अनन्तपुर।
103788	वारधिवोयिना माधुरीदीन वी. विजय बाबू	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1666 03.01.05	मकान. नम्बर. 2-2-1108/1/9, तिलकनगर न्यू निल्लाकुन्टा, हैदराबाद।
103789	वेजेमदला प्रियंका कोटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1701 24.04.05	द्वारा याई. शेखर डी. 10, विजय. प्रताप अपार्टमेंट, गली, नम्बर. 08. विद्यानगर, हैदराबाद।

103790	वेलासिरी वेंकटेश्वर राव कपटेश्वर राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	1729 15.07.05	गन्नावराम, डब्लूवाईआरए मण्डल जिला, खम्माम।
103791	वेकटेश्वरलु कोण्डा कृष्णयाह	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1675 03.01.05	मकान नम्बर. 8-2-233, सुन्दरैयाह नगर मानुगुर, खम्माम।
103792	वेंकट जे.च.मदराम वेंकट रामनजाचार्यलु	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1647 16.10.04	मकान नम्बर. 1-48-6, मोहन नगर कालोनी कथपेटा, हैदराबाद।
103793	वेंकट रमन ए ए. गणेश्वर	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21443 08.02.06	मकान नम्बर. 8-3-165, इरीगडडा हैदराबाद।
103794	वेणु अन्नादाटे हेमाचन्द्रराव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2003	1630 14.07.05	मकान नम्बर. 18-161, पलाट, नम्बर 301, रोड नम्बर. 6, दिलसुकनगर, हैदराबाद।
103795	वेणु माध्याव के. मोहन चारी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21650 05.01.07	मकान नम्बर. 9-97, राघु होमती कालोनी, बत्तापुर, आर. आर. जिला।
103796	वेणुगोपाल के. सत्या नारायण	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	21329 14.12.04	समीप राघुवेन्द्र टेम्पल, हलिपेट शाहपुर (टी). जिला. गुलवर्गा।
103797	विजय कुमार पी. वेंकट स्वामी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21723 22.01.07	मकान. नम्बर.2-10-1346, सामन.सैंट जोन हाई स्कूल भार्याननगर, करीमनगर।
103798	विजय लक्ष्मी आर. भिक्षापति	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21714 22.01.07	मकान नम्बर. 1-20, ब्रह्ममणपल्ली, बिनिनगर नलगण्डा।
103799	विजय लक्ष्मी बी. रानी आई. सूर्यानारायण राजू	बी० ए० एम० एस राजीव गौधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2003	1642 11.08.04	मकान. नम्बर. वॉटर नम्बर. 3/ए.ए ब्लॉक पुराना एमएलए. हैदरागुडडा, हैदराबाद।

103800	विहल चमपुकावल्ली वीएसके शर्मा	बी० ए० एम० एस राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि० वि०, बंगलौर 2003	1648 16.10.04	मकान नम्बर. 1-1-44, मोहन नगर कालोनी, कथपेटा, हैदराबाद।
103801	वाई. अनिल कुमार मारकन्डेयुलु	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21648 05.01.07	देवारुपुला, वारंगल।
103802	वाई. भवानी वाई. जगन मोहन राव	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21698 19.01.07	ईस्ट गली, बंगरापेट, वेंकटगिरि, नेल्लो जिला।
103803	वाई. जया श्री वाई. जोशी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21690 18.01.07	डी. नम्बर. 36-8-3/ए. वुडपेट, मोगोलराज पुरम, विजयवाड़ा
103804	वाई. सुकन्या बिकसमा रेड्डी	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21640 05.01.07	पोनगुगोडु गारिडेपल्ली, नालगोण्डा।
103805	येगोनि श्रीनिवास वाई. सूर्यनारायण	बी० ए० एम० एस एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	1740 15.07.05	मकान नम्बर. 13-6-434/सी/116, मारुतिनगर सत्तापुर रिंग रोड, गोलकोण्डा।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय पंजिका**  
**आन्ध्रप्रदेश— आयुर्वेद**  
**भाग — यूनानी**

क्र. पं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	संख्या एवं तिथि	पता
10104	अब्दुल हसन असरफ अहमद असरफ	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21399 29.12.05	मकान नम्बर.8-16-13, माधीरावरी गली, विन्चपेट, विजयवाड़ा।
10105	अब्दुल मुनाग सेख सेख महबूब बाशा	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2005	21513 21.07.06	मकान नम्बर. 13-4-85/28, पन्नीपुरा, करवन हैदराबाद।
10106	अब्दुल सईद अब्दुल जब्बार	बी० यू० एम० एस्० देवी अहिल्या वि०. वि०, इन्दौर 2004	21742 02.03.07	वी. 3-23-815, युसुफैन कालोनी फूल बाग हैदराबाद।
10107	अब्दुल रजाक मोहम्मद श्री अब्दुर समद	बी० यू० एम० एस्० डा.एम.जी.आर.मेडि.यूनि.चेन्नई 2002	21321 18.08.04	मकान. नम्बर 4-55 ए, बेनायाज मोहल्ला उलवादिब्बा सेमसिला रोड. अत्माकुर. नैल्लोर।
10108	अबिदा बेगम एस.ए.अमीर	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21400 30.12.05	मकान. नम्बर.88/37, एसमीप अरबन बैंक रोड कुरनूल जिला।
10109	अफशान जावीन अब्दुल सुमान खान	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21398 29.12.05	मकान नम्बर 8-16-13, माधीरावरी गली विन्चपेट, विजयवाड़ा।
10110	ऐजाज उन्निसा बेगम मोह.कुतुबुद्दीन फारुकी	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21534 28.07.06	मकान नम्बर. 17-3-405/2, इमलिबुन, याकुरपुरा, हैदराबाद।
10111	अमातुर रहमान सुम्मा अब्दुल रहमान	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साइंसिस,विजयवाड़ा 2004	21429 04.01.06	मकान. नम्बर. 9-62-30, ईस्लामपेट, ड्रेन गली, विजयवाड़ा, कृष्णा, जिला।

10112	अम्मातुल वसीम हाजेर मोह. खलीलुर रहमान	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21536	मकान नम्बर. 16-4-650 / 4, चनेहालगुडडा हैदराबाद।
10113	आरिफा बशीर सेयद सेयद बशीरुद्दीन	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21575	मकान नम्बर. 17-2-1136 / ए / 28, मदन्नापेट पीएस. हैदराबाद।
10114	अर्जुनन्द नजिया एम. के. जहीरुद्दीन	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21524	मकान नम्बर. 14-1-109, सीतारामपेट, हैदराबाद।
10115	असरासिद्दीका मोह. अब्दुल लतीफ	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21558	प्लाट. नम्बर. 393, गुलमोहरपार्क कालोनी, सेरीलिगम पल्ली, हैदराबाद।
10116	आयेशा आसमा फारुकी शौकत मुजीस फारुकी	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21563	मकान नम्बर. 12-2-786 / 7, राठीबौली, मेहदीपेटनम, हैदराबाद।
10117	अजरा शाफीन अब्दुल जब्बार	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21587	मकान नम्बर. 12-2-709., / सी / 89, पदमनमा नगर मेहदीपेटनम, हैदराबाद।
10118	बुशरा जाहूर जाहूरुद्दीन यूसुफ	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2005	21539	मकान नम्बर. 20-4-229 / 11 / 2ए, खिवाहे हैदराबाद।
10119	चन्द्रशेखर के. अदिनारायण	बी०. यू०. एम०. एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०, बगलौर 2005	21572	डी. नम्बर. 1 / 1189 / 83, एनजीओ. एस. कादरी अनन्तपुर
10120	चेदालावाड वेनेला च. कोडाइया	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साइंसिस, विजयवाड़ा 2006	21627	मकान नम्बर. 35-2-158 --1, सीतारामपुर, ऑगोले, प्रकासम।
10121	फैज साहनी ए. साहनी	बी०. यू०. एम०. एस० देवी अहिल्या वि०. वि०, इन्दौर 2001	21535	मकान नम्बर. डी-4 कोह-ई-फिजा, बी. डी. ए. कालोनी

10122	फैजा फातिमा एम. ए. हई सिद्दीकी	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21548 08.08.06	मकान नम्बर 11-4-338, बाजारघाट, लाल पहाड़ी, हैदराबाद।
10123	फरहा टमकीन अनवर अहमद कादरी	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21522 21.07.06	मकान नम्बर 16-9-885/6/7, ओल्ड मालकपेट हैदराबाद।
10124	फरहा फातिमा अब्दुल्ला सैयद	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21565 19.08.06	मकान नम्बर 10-4-771/82/33/2, ओवासीपुरा मसाबटक, हैदराबाद।
10125	फरहात रुबा मोह.सईउदुदीन	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21502 19.07.06	मकान नम्बर 22-41, विवेकानन्द नगर, दिलसुकनगर हैदराबाद।
10126	फैयाज अहमद खान खौशीद हुसैन	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21538 02.08.06	मकान नम्बर 1-10/9/1/ए.एस.एस. गुट्टा महबूबनगर।
10127	हुमरा तेहसीन मोह. तमीज अहमद सिफीकी	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21490 15.07.06	मकान नम्बर 19-2-21/डी/15, बाग के अन्दर, अमजद दौलाह मिश्रीगज, हैदराबाद।
10128	हुंदेकर अब्दुल्लाह एच. अब्दुल्ला सलाम	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21619 15.12.06	मकान नम्बर 45/26-ए अशोक नगर, कुरुनूल।
10129	एल. मोहम्मद आजम एल. खलील साहेब	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21579 24.08.06	मकान नम्बर 4-112, मस्क गली, पेडाथिप्पा, समुद्रम, चित्तूर।
10130	लड्डागिरि गोसिया बेगम एल. एम सुलेमान	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21621 18.12.06	मकान नम्बर 45/49-बी, एन.आर.नगर कुरुनूल।
10131	एम. रमेश एम. रंगाहिवा	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2003	21316 14.07.04	मकान नम्बर 80-11-131, 3एचआईजी (4) अंजु मिलेय एपी. एच.बी कालोनी, अब्बास नगर, कुरुनूल

10132	एम. चैतन्य राम एम. दुर्गा राव	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21484 06.07.06	एच. नम्बर. 76/111-19, निर्मल नगर, कुरुनूल।
10133	एम. दिलावर बैग एम. अल्लाफ बैग	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21491 15.07.06	मकान नम्बर. 41/96, एन. आर. पेठा कुरुनूल।
10134	एम. कालीमून एम. रहमतुल्लाह	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 1999	21330 20.12.04	प्लॉट. नम्बर. 47, विद्युत नगर जिला, अनन्तपुर
10135	एम. शबाना आजमी एम. खाजा हुसैन	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2003	21322 23.08.04	मकान. नम्बर. 29/126/-सी. पार्ट, चुन्ने वाली गली, कुरुनूल।
10136	एम. ताहिर अली एम. अमजद अली	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21625 22.12.06	डी. नम्बर. 9/185-13-3, साईपेट, नगर अल्फा स्कूल कादपा।
10137	एम. मोहम्मद आसिफ एच. मोहमद इब्राहिम	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21527 22.07.06	डी. नम्बर. 8/363/ए. मोमोनाबागली, हमुनेश, नगर, गुंटाकाल, अनन्तपुर।
10138	मसरथ उनिस्सा मोह. अब्दुल हाफीज	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21578 24.08.06	मकान. नम्बर. 9/10/25, गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद।
10139	मजहर हुसैन पी. मोहम्मद अब्दुल शकूर	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2004	21406 31.12.06	मकान. नम्बर. 9/27, पेठा पिंजारी गली, कुडनूल, कुरुनूल जिला।
10140	मोहम्मद फैजुल्ला एच. मोहम्मद. करामतयुलाह	बी०. यू०. एम०. एस० एन. टी. आर. यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस, विजयवाड़ा 2005	21630 29.12.06	डी. नम्बर. 4-1878, सी. ब्लाक प्रथम लेन, चित्तूर।
10141	मोह. जमशीद अली सिद्दीकी मोह. तहाफुज अली सिद्दीकी	बी०. यू०. एम०. एस० राजीव गंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०. वि०, बंगलौर 2005	21741 28.02.06	मकान. नम्बर. 281/ए. न्यू मालकपेट, हैदराबाद।

10142	मोह. सिराज अहमद मोह. शाबीर अहमद	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21585 29.08.09	मकान. नम्बर.13-6-431/ई/80, मोघल नगर, रिंग रोड, हैदराबाद।
10143	मोह. जफर अली वेमला सरदार वली	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21519 21.07.06	डी. नम्बर. 10/876-1, वलिसाब रोड, कादिरी, अनन्तपुर।
10144	मेहनाज जाहेद कुरैशी जाहेद नशीम कुरैशी	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21529 22.07.06	मकान. नम्बर. 20-4-973/59, खिवात चौक मीरघन रोड, हैदराबाद।
10145	मोह. अदीबुर रहमान जी.के.अनवर बाशा	बी०.यू.एम०.एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.पि०, 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.पि०, 2005	21570 22.08.06	मेन रोड महल पोस्ट,चित्तूर।
10146	मुहिब जहान एनमोह. इकबालुद्दीन	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21584 29.08.06	मकान. नम्बर. 16-3-994/ए.2/1/3, सामने, आफिसर मेस फर्कसन हाल, मालकपेट, हैदराबाद।
10147	मुकराम जाह रिजवान अहमद	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2006	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2006	21626 23.12.06	मकान. नम्बर. 15-3-24, अदिवारपेट, इलुफु, वेस्ट गोदावरी।
10148	मुनावर फातिमा मोह. युसुफ अली	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21589 31.08.06	मकान. नम्बर. 5-9-32, मनीयाम चेलका, सामने, पशु अस्पताल नालगोण्डा।
10149	मुथयाला राजकुमार मुथयाला येल्लाइया	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21562 19.08.06	मकान. नम्बर. 8-9-110, मनीकान्त नगर, समीप हेड पोस्ट, गिड्डालूर, प्रकासम।
10150	मुजम्मिल फातिमा मोह. बालीघुद्दीन	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21530 22.07.06	मकान. नम्बर. 12-2-418/1ए, फ्लैट. नम्बर 8, प्रथम तल मुरादनगर,मेहदीपेटनम, हैदराबाद।
10151	एन. कविता एन. नरसिम्हाम	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. 2005	आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा एन.टी. आर.यूनि. 2005	21505 19.07.06	मकान. नम्बर. 2-2-185/56/सी/2ए, सोमसुन्दर, नगर बाग,अम्बरपेट, हैदराबाद।



10152	नाजम उन्नास बेगम मोह. शफी अहमद	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21521 21.07.06	मकान नम्बर. 17.8.275, छावनी नादे अली बेग याकुटपुरा, हैदराबाद।
10153	नाजमा घौस उन्निसा शेख फरीद खान	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21523 21.07.06	मकान. नम्बर 158-8-118/1/20/सी मुबारक यूडी दौला कालोनी, ईदी बाजार, हैदराबाद।
10154	नुजहत सुलताना मोहमद अली	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21525 21.07.06	मकान नम्बर. 10-5-306/बी सैयद नगर प्रथम लॉसर, हैदराबाद।
10155	पी. नजिया फरहीन पी. जियाउद्दीन करीम	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21596 15.06.09	मकान. नम्बर. 6/14.ए.गफ्फार. गली. उसमानिया कोल, आर एस, कुरनूल
10156	पी. परमकुशादास पी. रामनारायण	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21593 14.09.06	पालाकुर्थी जिला, वारंगल।
10157	पी. शाहिद खान पी. हुसैन खान	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21350 02.02.05	डी. नम्बर. 15/96, पेड्डाबेस्ता गली, कादपा पी. एण्ड एम
10158	पी. उगालक्ष्मी देवी पी. ओबुलेसु	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	21514 21.07.06	मकान. नम्बर.46/311, बुधवारपेट, कुरनूल।
10159	पी. एम.उमोने सलमा पी.एम. शाफिउलाह	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2005	2143 06.07.06	मकान. नम्बर 11.381, सोसायटी कोलोनी, मदनापल्ले, चित्तूर।
10160	कुशाद अब्दुल रशीद खासेम	बी०.यू.एम०.एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2001	21533 26.07.06	मकान. नम्बर. 18-12-418/बी-1, तैय्याब मंजिल मस्जिद कौशर के पीछे, हफिज बाबानगर हैदराबाद।
10161	रफत फातिमा महमद मोह. अब्दुल अजीज	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईसिस,विजयवाड़ा 2004	21402 31.12.05	लेबल गार्डन, बाडलागुडा, चन्द्र यानगुड्रा, हैदराबाद।

10162	रफिया अमजद अमजद अली सिद्दीकी	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21580 24.08.06	प्लॉट, नम्बर. 121, रोड़ नम्बर. 3, ककाटिया, कालोनी एल.बी. नगर हैदराबाद।
10163	रफीक अमजद भट गुलाम. मोहिउद्दीन भट	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21520 21.07.06	द्वारा. साई साधन नम्बर. 9-1-34/30/59/बी, बापू नगर लंगर हाऊस, हैदराबाद।
10164	रहमतुल्लाह बाशा.एस हसन बाशा	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2004	21375 28.06.05	मकान नम्बर. 15-7-77, कुम्भारा बाजार पुराना गुन्दुर जिला।
10165	रशीदा फातिमा हाफिज हमीद	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21551 14.08.06	मकान. नम्बर. 8-6-69, बरकतपुरा, निजामाबाद।
10166	रेहाना तसनीम एम. ए. रज्जाक	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21594 14.09.06	मकान. नम्बर. 16-3-447/डी, चंचलगुडडा, हैदराबाद।
10167	रुही खातून मोह. महमूद	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21537 20.08.06	मकान. नम्बर. 45/142/ए-62, अजीमुद्दीन, नगर.वी.आर. कालोनी, कुरनूल।
10168	रोशन जहांआरा सैख शमशेर इस्लाम	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2003	21317 27.07.04	द्वारा. सरार नर्सिंग होम, चेरूकाली, (पी)पोन्नूर गुन्दुर।
10169	एस. खादेर बाशा एस. गौस मोहिउद्दीन	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2003	21319 05.08.04	मकान. नम्बर. 11/772, हबीबुल्लाह, कादपा।
10170	एस. एम. डी. जीलानी एस. गौसे बाशा	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21620 15.12.06	मकान. नम्बर. 6/170, बुर्हानुद्दीन गली, कादपा।
10171	सादिया यासमीन सैयद अब्दुल गफूर	बी० यू० एम० एस्० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईसिस्, विजयवाड़ा 2005	21550 11.08.06	मकान. नम्बर. 23-3-23, सुल्तान शाही, हैदराबाद।

10172	सलमा बेगम मोह. अफसार	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21564 19.08.06	मकान. नम्बर. 18-12-418/ए./92/4, हाफिज बाबा नगर कंचनबाग, हैदराबाद।
10173	समीना फरहीन मोह. मुजीबपुर-रहमानखान	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21583 29.08.06	मकान. नम्बर. 1-1-586, सामने, आर एवं बी. गेस्ट हाऊस, रक्सीपेट, बोधन, निजामाबाद।
10174	सैयददा जीवरिया सैयद अब्दुर रज्जाक	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21528 22.07.06	मकान. नम्बर. 11-3-782, न्यू मल्लेपल्ली, हैदराबाद।
10175	शाबाना खातून एन एन. रसूल खान	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2002	21355 10.03.05	मकान. नम्बर. 28/2ए. नगर आई टाऊन जिला, कुरुनूल।
10176	शैख सफीर अहमद शैख उमर	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21494 18.07.06	मकान. नम्बर. 12-11-630, वारिसगुड्डा, सिकन्दराबाद
10177	शैख अब्दुल राब हाफिज अब्दुल जब्बार	बी०.यू०.एम०.एस० महाराष्ट्र आरोप्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक 2003	21735 09.02.07	द्वारा एस. एम. रहमतुल्लाह, राजा नगर, वेलगोडे, कुरुनूल।
10178	शमीम आरा अहमद हुसैन	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21482 60.07.06	मकान. नम्बर. 25-840, श्रीनिवास नगर, नन्दयाल
10179	सैयद असिया फरहीन बी. कृष्णा	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21557 18.08.06	मकान. नम्बर. 23-1-704, मोघलपुरा, हैदराबाद।
10180	सैयद बाहीरुन्निसा एस. एस. युसूफ. खुडमिरे	बी०.यू०.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ. हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा 2005	21560 19.08.06	मकान. नम्बर. 16-8-784, न्यू मालकपेट, हैदराबाद।
10181	सैयद इमरान शब्बार सैयद अमानुल्लाह	बी०.यू०.एम०.एस० राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2002	21391 17.10.05	मकान. नम्बर. 21/223, गुन्टा बाजार, आरएस, रोड 2, पलोर कादपा, जिला।

10182	सैयद प्रवीन बाबी सैयद धिनीशीशा	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21509	मकान. नम्बर. 401,4वी, पलोर, साहीती ऐवन्यू, वेदायापलेम,नेल्लोर
10183	सैयद रूकुनुउदीन शाहजा सैयद अलीमुउदीन	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21577	मकान. नम्बर.20-7-63, हिम्मतपुरा, हैदराबाद।
10184	सैयदा अफसशान जाबीन अजीज अली बुखारी	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21501	मकान. नम्बर. 17-5-397, बीबी अल्वा दाबीपुरा, हैदराबाद।
10185	सैयदा रेहाना कौसर सैयद अमानुल्लाह	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2004	21405	मकान. नम्बर. 21/223, गुर्ता बाजार, आर.एस. रोड़ कादपा।
10186	टी. अरसदअली खान आर. मुबारक अली खान	बी०.यू.एम०.एस० एन.टी. आर.यूनि. आफ.हैल्थ साईंसिस,विजयवाड़ा 2005	21532	मकान. नम्बर. 8-155/2, वलि साहिब रोड़ कदिरी अनन्तपुर
10187	टी. साईफुल्लाह खान टी. शमीर खान	बी०.यू.एम०.एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 2004	21457	मकान. नंबर. 1/734-आईबी प्रथम बाईपास रोड़ कादीरी अनन्तपुर।
10188	वाई. उषा किरण वाई. वसुदेव मुर्थी	बी०.यू.एम०.एस० राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि०.वि०, बंगलौर 1997	21359	मकान नम्बर. 1-161,वेंकट कृष्णा ग्रेटर रोड़ मलकतुरुरु सेहगल्लूख वेस्ट गोदावरी।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार


**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**  
**NEW DELHI 110058**

**13 May, 2008**

No. 20-7/2008-CR (J & K) Whereas the Central Council of Indian Medicine in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Jammu & Kashmir and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

In suppression of the Central Register of Indian Medicine of Jammu & Kashmir for the period from inception to 1985 published in the Gazette of India Part III- Section 4 vide Notification No. 48 dated 1st December, 1990, the Central Council hereby notify the Central Register of Indian Medicine pertaining to Jammu & Kashmir from inception upto September, 2005 to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Jammu & Kashmir) from inception upto September, 2005 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/errors, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

  
**(P.R.SHARMA)**  
**REGISTRAR**

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## JAMMU &amp; KASHMIR

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
102137	Adarsh Parkash Shanti Parkash	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1975	334 23/04/84	Udhampur
102138	Ajit Kumar Shantha Ram	BAMS S.S.Univ., Varanasi 1989	454 06/01/04	VPO Dayala Chak Tehsil Hiranagar, Distt. Kathua
102139	Akhil Gupta Yash Pal Gupta	BAMS M.D. Univ. Rohitak 2003	416 19/07/03	V.P.O. Kohag, Tehsil Biliawar, Distt. Kathua
102140	Aman Gupta Darshan Kumar Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	561 03/10/05	Salhan Tehsil Hiranagar, A/P W.No.9, Parliwandi Kathua
102141	Amanpreet Kaur Ranjit Singh	BAMS H.P. Univ. Shimla 1996	436 24/11/03	127/3, Trikuta Nagar, Jammu
102142	Amar Nath Sharma Bhagat Ram	Vaidya Vachaspati DAV Mg Comm. Amritsar 1953	148 16/03/73	Sudh Mahadev Tehsil Udhampur
102143	Amarjeet Singh Trilok Singh	BAMS Punjab Univ. Chandigarh 2005	543 22/06/05	Vill. Bunhama Beeru Budgam Kashmir A/P Alochani Bagh, Srinagar
102144	Amrit Kapoor Bal Raj Kapoor	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	522 11/01/05	Amrit Medical Hall, Poonch W.No.6, Poonch
102145	Anand Ashwani Kumar Ramesh Kumar Anand	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	528 22/02/05	Tondwah Doda City, Tehsil & Distt. Doda
102146	Anil Gupta Satya Pal Gupta	BAMS G.D. Univ. Amritsar 1984	509 16/10/04	W.No.3, Samba, Distt. Jammu
102147	Anita Kumari Sanjeev Bhardwaj	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	371 28/04/03	57, B/D Gandhi Nagar, Jammu
102148	Anjali Dogra Bishambar Dass Dogra	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2001	461 07/01/04	EP 169, Ustad Mohalla, Jammutawi AP 184-A, Gandhi Nagar, Jammu
102149	Anupama Sharma Ved Parkash Sharma	BAMS Karnataka Univ. Dharwar 2000	453 06/01/04	Q.No. 158, Sarwal Colony, Jammu

102150	Archana Tangloo VR Pandita	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1999	491 09/01/04	H.No.180/1, Durga Nagar Roop Nagar, Jammu
102151	Anura Bhat BL Bhat	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1998	486 07/01/04	AP H.No.505, Sector 1, Vinayala Nagar, Upper Muthi, Jammu
102152	Arvind Bhardwaj Rama Kant Bhardwaj	GAMS Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh 1968	160 26/04/72	Bhardwaj Pharmacy, Pir Mittha, Jammu
102153	Ashok Kumar Baldev Singh	BAMS G.D. Univ. Amritsar 1990	404 03/05/03	H.No.163/3, Sanjay Nagar, Jammu
102154	Ashok Kumar Ajeet Ram Bhan	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2002	434 15/11/03	Purobhana PO RS Pura Distt. Jammu
102155	Ashok Sharma Sat Paul Sharma	BAMS G.D. Univ. Amritsar 1983	417 07/08/03	Lane No.10, Greater Kailash, Jammu
102156	Atul Sharma Jagadish Raj	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	521 21/12/04	Vill. Hathal, Tehsil Sunderwani, Distt. Rajouri
102157	Badri Nath Sadhu Kanth Sadhu	Ayurvedic Bishak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	108 23/10/71	54, Karan Nagar, Srinagar
102158	Balvinder Singh Mangal Singh	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	497 01/03/04	Kathir Manwal, Jammu
102159	Balwant Rai Sharma Malawa Ram Sharma	Valdya Visharad H.S.S., Prayag 1964	125 08/02/72	Pawan Medicine Gandhi Nagar, Jammu
102160	Bansi Lal Sharma Brij Lal Sharma	Valdya Visharad A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	132 08/02/72	Dooml Malpur, Jammu
102161	Beena Myan Parmender Singh	BAMS Univ. of Delhi, Delhi 1989	486 08/01/04	Beril Billawar Tehsil Billawar Distt. Kathau
102162	Bharti Koshal Bhat KK Bhat	BAMS Karnatak Univ. Dharwar 1998	415 18/07/03	70-A, Ama Colony Gole, Gujral Road Talab Tillo Jammu
102163	Bharti Kouli SL Kouli	BAMS Univ. of Pune, Poona 1999	473 07/01/04	Zewan Patha Chowk, Srinagar
102164	Bhavani Sharma Gopal Ram	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2003	493 15/01/04	70 A, P 2nd Extn. Gandhi Nagar, Jammu

102165	Bhawna Gupta SK Gupta	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	507 16/09/04	Nagar Bhaderwah Distt. Doda
102166	Bimla Handa Ganga Ram	BIMS Board of IM., Lucknow 1954	159 06/02/72	Tailab Khatikan, Jammu
102167	Bipan Chander Yash Paul	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 2005	531 10/03/05	JDA Plot No.2, New Rehari Jammu
102168	Bodh Paul Mohinder Paul	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2000	370 26/04/03	W.No.1, Near B.D. Office, Kathua
102169	Brijbala Sunil Dutt	BAMS Gujarat Ay. Univ. Jamnagar 1986	474 07/01/04	VPO Devipur, Tehsil Akhnoor Distt. Jammu
102170	Chanda Gupta Radhey Syam	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	537 26/04/05	APW W.No.2, Kathua
102171	Darshan Kumar Sharma Kalidas Sharma	BAMS Mumbai Univ., Mumbai 2003	525 04/02/05	VIII.Dhali, PO Dayala Chak, Tehsil Hiranagar
102172	Davinder Mohan Sharma Dev Raj Sharma	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1999	468 07/01/04	VIII.Chak Daulat, PO Vijaypur Samba
102173	Deepak Kumar Dev Raj	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	498 01/03/04	Tata Pani Padder Tehsil Kishtwar Distt. Doda
102174	Deepak Raina Moti Lai Raina	BAMS H.P. Univ., Shimla 1998	358 23/04/03	363 A, Qasim Nagar, Gurha Bakshinagar, Jammu
102175	Deepak Sharma Chaman Lal Sharma	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2005	526 22/02/05	W.No.3, Krishna Colony, Kathua
102176	Deepika Wazir RR Wazir	BAMS H.P. Univ. Shimla 1998	469 07/01/04	Bhaderwah Tehsil, Bhaderwah Distt. Doda
102177	Dev Raj Sharma Ishwar Dass Sharma	GAMS M.D. Univ. Rohtak 1983	394 03/05/03	Ishwer Medicate Moti Bazar, Jammu
102178	Dhanub Singh Jagdish Singh	Ayurved Bhishak A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	330 30/03/83	V.P.O. Parale Kathua
102179	Dimple Gupta KL Gupta	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2003	413 14/07/03	94, MIG Housing Colony, PH-1, Udhampur



102180	Dwarika Nath Sharma Amar Nath Sharma	Valdyacharya A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1963	156 24/04/72	H.No.202, Mohalla Jogi Gata, Jammu
102181	Glan Chand Sharma Kantar Chand	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	518 19/11/04	Nagrota Panigrahi PO Rannagar, Distt. Udhampur
102182	Gourav Vaid Amrit Lal Vaid	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 2003	412 16/06/03	2/102, Vikas Nagar Sarwai, Jammu Tawi
102183	Hitender Mahajan Mangat Ram Mahajan	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	518 03/12/04	Daily Punjab Kesari Patel Nagar, Kathua
102184	Harbans Lal Sharma Gopal Dutt Sharma	Ayurved Ratan H.S.S., Prayag 1964	126 08/02/72	Sudesh Pharmacy, H.No.40, Ward No.5, Udhampur
102185	Harbans Lal Sharma Gopal Dass Sharma	Ayurved Ratan H.S.S., Prayag 1964	159 12/08/72	Sudesh Pharmacy, H.No.40, W.No.5, Udhampur
102186	Harpreet Kour Himat Singh	BAMS Delhi Univ., Delhi 2001	427 30/08/03	H.No.601, EP Mohalla, Pirmitha Tiptop Street,
102187	Hitalshi Verma TR Sharma	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	508 15/10/04	H.N o.34, Mohalla Pahalin, Near Geeta Bhawan, Jammu
102188	Imtiyaz Ahmed Mekroo Haji Gh. Nabi	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 2003	560 30/09/05	Arwani Tehsil Bilbehara, Distt. Anantnag
102189	Indu Bala Brahm Kumar	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2004	547 18/07/05	W.No.3, Krishna Colony, Kathua
102190	Jagar Nath Bhatt Kanth Ram Bhatt	Valdya Visharad A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1964	146 21/12/72	VIII.Wangam, PO Shangas, Tehsil Anantnag
102191	Jagdev Singh Krishan Chouhan	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	504 07/06/04	Janta Medical Hall, Dhalain, PO Mandal, Distt. Jammu
102192	Jagmeet Kour Karni Jeet Singh Kour	BAMS R.G.U.H. Sciences Bangalore 2003	445 18/12/03	H.No.543, Extn. Bhawani Vihar Trikuta Nagar,
102193	Jai Gopal Sharma Roop Lal	Valdya Visharad A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1965	114 11/02/72	V.P.O. Satwari, Jammu
102194	Jaidev Khajuria Man Mohan Dutt Khajuria	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2004	554 22/08/05	VPO Ghagwal, (Harsath), Tehsil Hiranaga

102195	Janki Nath Jagyasu Pt. Anand Koul	Vaidyacharya A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	116 11/02/72	Safiyar Habba Kadal Srinagar
102196	Joneed Iqbal Mohd. Ibrahim	BAMS C.S.M. Univ., Kanpur 2003	431 11/11/03	Akhyarahd Kishtwar, Doda
102197	Jyoti Jarmwal BS Jarmwal	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	524 02/02/05	H.No. 159, Kachi Chowki, Jammu
102198	Jyoti Sharma Rajni Kant Sharma	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2003	344 10/04/03	VIII. Budhi, Distt. Kathua
102199	Kamal Kishor Dubey Om Prakash	BAMS K.S.D.S. Univ. Darbhanga 1998	475 07/01/04	VIII. Flora Nagbani PO Domana Tehsil & Distt. Jammu
102200	Kanchan Hanjura Maharaj Krishan	BAMS Karnatak Univ. Dharwar 2000	440 04/12/03	VIII. Hanjura Tehsil Chadoora, Distt. Budgam
102201	Kapoor Shashvita BC Kapoor	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2002	488 08/01/04	Abrol Sons Jewellers, 15, Upper Bazar, Drownthili,
102202	Kavi Rej Kashi Nath Koul Shri Nath Koul	Ayurvedacharya A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1941	109 14/08/72	R/o Karan Digam, PO Veri Via, Bijbehara, Kashmir
102203	Kornila Ajit Raj	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2005	546 15/07/05	PO Anila Tehsil Bishneh Distt. Jammu
102204	Krishan Dutt Sharma Amar Nath Sharma	Vaidya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	155 24/04/72	H.No. 202, Mohalla Jogi Gate, Jammu
102205	Lachman Dass Gopal Dass	Ayurvedacharya SDP. Ay. Coll. (Lahore) 1940	232 05/10/76	New Colony, Kathua
102206	Lata Mahajan Mangat Ram	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2000	428 30/08/03	Patel Nagar, Kathua
102207	Madhu Gupta Bansil Lal Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	559 10/09/05	Sehal, Tehsil Ramnagar, Distt. Udhampur
102208	Madhu Sharma Suresh Kumar Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	562 30/09/05	H.No. 157, Lane No. 8 Shiv Vihar Janipur Colony, Jammu
102209	Mahesh Kumar Pritham Dutt	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2004	502 10/04/04	Green Enclave Behind Education Board H.No. 281, Rehari, Jammu

102210	Mahraj Krishan Janki Nath Dhar	Valdya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	119 25/04/72	R/o Chota Bazar, Srinagar
102211	Manita Sharma Krishan Lal Sharma	BAMS H.P. Univ. Shimla 2002	352 23/04/03	Sector D, H.No.351, Sainik Colony, Jammu
102212	Manisha Gupta Sushil Gupta	BAMS G.N.D. Univ., Amritsar 1996	410 03/06/03	H.No.310, Mohalla Ustad, Jammu
102213	Manmeet Singh Sodhi Sant Singh Azad	BAMS CSM Univ. Kanpur 2004	552 22/08/05	AP Sector A Sainik Colony, Near Rty. Bridge, Jammu
102214	Manohar Lal Ashcharaya Lal	Valdya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	157 08/02/72	Palanwala, Tehsil Akhnour
102215	Meena Gupta Tilak Raj Gupta	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	512 10/11/04	H.No.37, A&B Lane No.3, Karan Nagar, Jammu
102216	Mela Ram Sharma Pt. Gain Chand	Ayurvedacharya A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1956	124 10/02/72	Taleb Tillo, Jammu
102217	Mohinder Singh Ranjit Singh	BAMS C.S.M. Univ. Kanpur 2003	418 07/08/03	Khurar, PO Chandwan, Tehsil Hiranagar,
102218	Mohita Sharma Tarsem Lal Sharma	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2005	539 26/04/05	W.No.4, Krishana Colony, Kathua
102219	Mona Prasher Ishwar Dev Sharma	BAMS MD Univ. Rohtak 2004	553 22/08/05	W.No.4, Hiranagar Distt. Kathua
102220	Monika Mahajan Sukh Dev Raj Gupta	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2000	419 27/08/03	Q.No. 180, Sarwal Colony, Jammu
102221	Monika Rathor Vijay Kumar Kotwal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 2001	444 11/12/03	AP Municipal Flat No.1, Pacca Danga,
102222	Najdeep Kumar Ved Parkash	GAMS H.P. Univ., Shimla 1982	324 20/08/82	Rani Talab, Jammu
102223	Naini Sharma Ashok Sharma	BAMS Amravati Univ., Amrawati 2000	362 25/04/03	Udrana Bhadarwah, Distt. Doda
102224	Namita Kapoor Raj Kumar Kapoor	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	438 24/11/03	H.No.798, Subash Nagar, Jammu Tawi

102225	Namrata Bhat CL Bhat	BAMS M.D Univ. Rohtak 1997	484 08/01/04	S 110, Poonch House, PO Talab Tillo, Jammu
102226	Nanni Jasrotia Kanwal Singh Jasrotia	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1995	405 03/05/03	Ward No. 2, Kathua
102227	Naranjan Nath Koul Tara Chand Koul	Valdya Visharad A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	167 16/10/73	Mattan, PO Martand, Kashmir
102228	Narayan Sharma Karan Chand Sharma	Valdya Visharad H.S.S., Prayag 1967	233 16/12/76	VPO Parola, Kathua
102229	Narinder Sharma Kharaiti Ram Dogra	BAMS H.P. Univ. Shimla 1997	376 02/05/03	Batuni PO Jatwal, Tehsil Hiranagar, Distt. Kathua
102230	Neetu Handoo MK Handoo	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2001	425 29/08/03	Janta Stationery Rehari Colony, Jammu
102231	Nidhi Mahajan Rajinder Kumar Gupta	BAMS H.P. Univ. Shimla 2004	501 08/04/04	Chand Nagar, Jammu
102232	Nikita Sheetal Kumar	BAMS H.P. Univ. Shimla 2000	541 28/04/05	VPO Bamoti Distt. Kathua
102233	Nishpank Sharma Surej Prakash Sharma	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2000	424 29/08/03	29/1, Chami Himmat, Jammu
102234	Nittan Sharma KL Sharma	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 1996	349 17/04/03	H. No. 70, W. No. 3, Indira Colony, Kathua
102235	Om Prakash Sharma Vidya Dhar Sharma	Ayurved. Ratan H.S.S., Prayag 1964	143 26/02/73	Paloura, Jammu Distt. Jammu
102236	Pareek Shri Dhar Radhey Sham Pareek	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 1996	393 03/05/03	38, Bhagwati Nagar, Jammu
102237	Parthid Sharma NK Sharma	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	387 03/05/03	JJAR Nardani Raipur, Bantala Road, Jammu
102238	Pashli Pandita SN Pandita	BAMS Karnatak Univ., Dharwad 2001	462 07/01/04	235, Raina Niwas, Bchri Hazoori Bagh, PO Talab Tillo, Jammu
102239	Pawan Sharma Yog Raj Sharma	BAMS Nagpur Univ. Nagpur 2002	447 20/12/03	VIII. Gandli PO Salehar Tehsil RS Pura Jammu

102240	Pooja Gupta Ram Kumar Gupta	BAMS Univ. of Poona, Pune 2002	429 09/10/03	Paharian Mohalla, Jammu
102241	Pooja Gupta Sanjeev Kumar Gupta	BAMS G.N.D. Univ. Amritsar 2001	452 08/01/04	Opp. Police Station, Bishnah, Distt. Jammu
102242	Pooja Kohli Sushil Rattan Kohli	BAMS M.U.H. Sciences, Nasik 2004	530 09/03/05	Sunder Bani Tehsil Sunder Bani Tehsil Rajouri
102243	Pooja Makhotra SP Makhotra	BAMS H.P. Univ. Shimla 1998	448 20/12/03	175/A, Krishna Nagar, Dogra Jammu
102244	Pragati Chopra VK Chopra	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1999	397 03/05/03	H.No. 14, Near Dental Hospital, BC Road, Rehari, Jammu
102245	Priyanka Kumari RC Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2004	548 21/07/05	Krishna Nagar Kathua Tehsil Kathua Distt. Kathua
102246	Punam Kurihan KD Kurihan	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2003	414 17/07/03	Vill. Sia Mehari Tehsil Ramnagar Udhampur
102247	Raina Anjna Jaggannath Raina	BAMS Karnataka Univ. Dharwar 1999	472 07/01/04	Seet Jagir Soporote Kashmir
102248	Raja Ram Sharma Gouri Dutt	Ayurvedacharya SDP. Ay. Coll. (Lahore) 1939	127 08/02/72	481 A, Gandhi Nagar, Jammu
102249	Rajesh Gupta Maden Lal Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	551 22/08/05	14/F Bhagwati Niwas, Near Gurudwara Rehari Chungi, Jammu
102250	Rajesh Kumar Panjab Chand	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2001	365 25/04/03	Near Radha Krishna Mandir, Patel Nagar, Kathua
102251	Rajinder Kumar Ram Sagar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore 1990	411 18/06/03	Purchu Akhnoor, Jammu
102252	Rajinder Prakash Gupta Panna Ram	AMBS Board of IM., Lucknow 1959	160 01/05/73	Khog, Tehsil. Billaawar, Distt. Kathua
102253	Rajneet Kour Ujagar Singh	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	520 15/12/04	W.No. 13, Kathua
102254	Rajni Sawhney HL Sawhney	BAMS H.P. Univ. Shimla 2001	451 08/01/04	Q.No. 297, Rehari Colony, Jammu

102255	Rakesh Kumar Kotwal Ved Prakash Kotwal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	544 26/06/05	VIII. Gajoth Tehsil Bhatnagar Distt. Doda
102256	Rakesh Kumar Raina BN Raina	BAMS Univ. of Delhi, Delhi 1995	483 08/01/04	Taragam Tehsil Doru Distt. Anantnagar
102257	Rakesh Kumar Sharma Om Prakash Sharma	BAMS Amravati Univ., Amravati 1998	355 23/04/03	VIII. Kullerwas, Tehsil Kisthwar, Distt. Doda
102258	Rama Kant Dwivedi Gouri Shankar Dwivedi	Vaidya Visharad H.S.S., Prayag 1964	125 21/12/72	C/o M/s. Adarsh Rasayan, Shah Krishana Nagar, Canal Road, Jammu
102259	Ramesh Chander Tilak Raj Sharma	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 1998	422 29/08/03	H.No. 34, Subhash Nagar, Jammu
102260	Ranjan Gupta Satpal Gupta	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2005	550 22/08/05	Dhear (Phinter) Tehsil Billawar, Distt. Kathua
102261	Ranjana Bheh Parkash Singh	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	513 10/11/04	VIII. Kot Maira, Vill. Pawan Wala Tehsil Akhnoor, Distt. Jammu
102262	Ranju Bhuran Kartar Singh	BAMS Univ. of Delhi 1998	421 28/08/03	V.P.O. Durang Billawar, Tehsil Billawar Distt. Kathua
102263	Rashtra Pati Sharma Yagya Waikya Vadya	Vaidacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	119 11/08/72	Shri Kalyan Ay. Pharmacy Pacca Danga Jammu
102264	Ravi Dutt Sharma Lal Chand Sharma	BAMS H.P. Univ. Shimla 1995	481 08/01/04	Badyal Brahman Tehsil RS Pura, Jammu
102265	Ravinder Kumar Glan Chand	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2000	433 15/11/03	Mohalla PO Mohalla, Tehsil & Distt. Doda
102266	Reetu Jarnwal HS Jarnwal	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	510 03/11/04	1828 F. Shastri Nagar, Dogra Lane, Jammu
102267	Rekha Salethia HS Salethia	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	511 03/11/04	Village Gurha Salethia, Tehsil Samba Distt. Jammu
102268	Renu Gupta TR Gupta	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2000	356 23/04/03	H.No. 42, Ward No. 4, Pacca Danga, Akhnoor, Jammu
102269	Retu Bala Sain Dass Tadia	BAMS B.F. U.H. Sciences, Faridkot 2004	535 20/04/05	W.No. 16, Shivanagar, Kathua

102270	Ritika Raina JK Raina	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1999	477 07/01/04	C/o MC Khajuria Pacca Talab Bahau Fort, Jammu
102271	Roopali Mehta Narinder Mehta	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	439 24/11/03	176, Kachi Chavani Tanga Wall Gali, Jammu
102272	Rubay Sharma Vikas Upcott	BAMS H.P. Univ. Shimla 2000	459 07/01/04	Ward No. 1, Kathua
102273	Ruchi Gupta Satpal Gupta	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	538 28/04/05	Ward No. 3, Karan Nagar, Jammu
102274	Sakshi Gupta Deepak Gupta	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 2001	458 07/01/04	486 A, Gandhi Nagar, Jammu
102275	Samita Gupta KK Gupta	BAMS H.P. Univ. Shimla 1996	505 07/06/04	H.No. 84, Sector 3, Nanak Nagar, Jammu
102276	Sandeep Chark HS Chark	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2004	514 13/11/04	Nagar Bhadarwah, Distt Doda
102277	Sanjay Chadha Subhash Chander Sudha	BAMS Nagpur Univ. Nagpur 1997	396 03/05/03	Plot No. 215, Shopping Centre, Rehari Colony,
102278	Sanjeet Kumar Bul Lal Raina	BAMS Univ. of Poona, Pune 2002	442 11/12/03	V.P.O. Hamirpur, Tehsil Hiranagar Distt. Kathua
102279	Sarika Khajuria Bhanu Parshad	BAMS Amravati Univ. Amravati 2002	432 12/11/03	H.No. 174, Sector 3, Trikuta Nagar, Jammu
102280	Sarita Gupta Sunil Nargotra	BAMS H.P. Univ. Shimla 1995	470 07/02/04	H.No. 355 sec. 2, JDA Housing Colony, Roop Nagar, Jammu
102281	Saroj Sharma Rabinder Rattan Pal	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1987	408 03/05/03	22B/B, Gandhi Nagar, Jammu
102282	Seema Raina Krishan Raina	BAMS Karnataka Univ. Dharwar 2002	353 23/04/03	H.No. 86, Lane No. 3, Adarsh Nagar, Bantala, Jammu
102283	Shafali Bakshi Abishek Sharma	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2004	527 22/02/05	75 A, Trikuta Nagar, Jammu
102284	ShaheenAh. Mir Ab. Mejeed Mir	BAMS Univ. of Health Sciences, Vijayawada 1997	506 17/07/04	Burnthen Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag

102285	Shambu Nath Tule Ram Dass	Ayurveda Alankar Ayurved College, Gurukul Unive 1966	139 24/01/73	14, Chogan Fattu, Jammu
102286	Shamila Sharma Chaman Lal Sharma	BAMS MD Univ., Rohtak 2003	345 10/04/03	Koodah, Tehsil Hiranagar, A/P W. No. 3, Krishna Colony, Kathua
102287	Shashi Kant Nanak Chand Sharma	BAMS G.D. Univ. Amritsar 1985	536 25/04/05	H.No. 138/9, Lambi Galli, Near Mahajan Sports Udhampur
102288	Shaveta Sawhney JK Sawhney	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	563 30/09/05	H.No. 178, Shazstri Nagar, Near Ram Mandir Jammu
102289	Shavita Tikko PL Tikko	BAMS Delhi Univ. Delhi 2000	471 07/01/04	Buta Nagar, Lane No. 2. H.No. 3, Paloura, Jammu
102290	Sheetal Kumar Krishan Chand	BAMS H.P. Univ., Shimla 2000	369 26/04/03	Barnoti, Distt. Kathua
102291	Sheetal Sharma PM Sharma	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 2001	456 15/01/05	15 A, Karan Nagar, Ext. Jammu
102292	Sheetal Sharma Pushap Raj Sharma	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2004	515 16/11/04	VIII. Basoli, Teh. Basoli, A/P Kathua W. No. 4, Krishna Nagar, Kathua
102293	Shiv Dutt Sharma Ram Dass Valoy	Ayurvedacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	161 11/02/72	V.P.O. Rajpura
102294	Shiv Nath Baroo Dev Raj Ji	Shri Vidya Kaviraj SDP. Ay. Coll. (Lahore) 1939	155 29/03/73	Shri Shankar Ayushdhalaya, Bazar Dhonthill Jammu Tawi
102295	Shivani Gupta Om Parkash Gupta	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	532 11/03/05	H.No. 199, Sarwal Colony, Jammu
102296	Shivani Gupta Bharat Bhushan Gupta	BAMS H.P. Univ. Shimla 2004	542 21/06/05	PWD Colony Kathua
102297	Shivani Mahajan Naresh Gupta	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	435 17/11/03	W.No. 4, Kathua
102298	Shivani Padha Iqbal Nath Sharma	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	465 22/01/04	54 A, Besant Nagar, PO Roop Nagar, Jammu Distt. Jammu
102299	Shruti RK Gupta	BAMS Kurukshetra Univ. 1999	464 07/01/04	Plot No. 215, Shopping Centre Rehar Colony, Jammu



102300	Sonika Gupta Yash Paul Gupta	BAMS H.P. Univ. Shimla 2000	420 27/08/03	H.No.395B, Block A, Gandhi Nagar, Jammu
102301	Sonika Khajuria Hari Ram Khajuria	BAMS R.G.U.H. Sciences Bangalore 2002	437 24/11/03	W.No.3, Krishna Colony, Kathua
102302	Sonika Sharma KL Sharma	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 2003	350 17/04/03	H.No.70, W.No.3, Indira Colony, Kathua
102303	Suman Bhat Ashok Kumar Bhat	BAMS Karnataka Univ. Dharwar 2000	446 20/12/03	Lane No.4, Adarsh Nagar, Bamial Road, Bantialab,
102304	Suman Vaid SN Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	556 28/08/05	W.No.16, H.No.189, Opposite to J&K Bank Venous Chowk, Dhar Road, Udhampur
102305	Summedha Khanna Medhan Lal Khanna	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	519 08/12/04	W.No.1, RS Pura, Jammu
102306	Sunayana Mahajan Satya Vrat Mehta	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	494 17/01/04	28, Asha Kunj, Mohinder Nagar, Canal Road, Jammu
102307	Sunayna Gupta Sahil Gupta	BAMS MD Univ. Rohtak 2005	545 15/07/05	Housing Colony, Phase 2, Udhampur
102308	Sunil Kumar Ashok Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	555 25/08/05	Ward No.1 Samba Tehsil Samba Distt. Jammu
102309	Supiya Thakur Sadhu Ram Thakur	BAMS Amravati Univ., Amravati 2000	354 23/04/03	VIII. Desa, PO Dessa, Gau, Doda
102310	Suraj Prakash Gupta Lala Labhu Ram	Vaidyacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	131 08/02/72	H.No.45, Ward No.6, Ramnagar, Udhampur
102311	Surekh Pandita BL Pandita	BAMS Univ. of Health Sciences, Vijayawada 1993	485 08/01/04	H.No.433, Laker Mandi, Janipur, Jammu
102312	Suresh Kumar Jagdish Kumar	GAMS H.P. Univ., Shimla 1981	328 08/03/83	V.P.O. Jakh, Tehsil Samba, Distt. Jammu
102313	Suresh Sharma Maru Ram Sharma	BAMS G.D. Univ. Amritsar 1991	402 03/05/03	VPO Logate Tehsil & Distt. Kathua
102314	Surjeet Sharma Prem Nath Sharma	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1983	384 03/05/03	V.P.O. Pamalla, Tehsil Billawar,

102315	Sushil Kumar Sharma Bansi Lal Sharma	Vaidya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	153 12/04/72	BD 30, Gandhi Nagar, Jammu
102316	Sushma JL Bhat	BAMS H.P. Univ. Shimla 2000	476 07/01/04	VIII. Hadubani Tehsil Guimarg Distt. Baramulla
102317	Swarn Singh Bansi Lal Choudhry	BAMS Karnataka Univ. Dharwar 2001	426 30/08/03	Parliadpur Mental Phallan, Jammu
102318	Swati Mahjan Satya Vrat Mehta	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	495 17/01/04	26, Asha Kunj, Mohinder Nagar, Canal Road, Jammu
102319	Tanun Raina Karam Chand	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2005	549 22/08/05	Billawar Tehsil Billawar, Distt. Kathua
102320	Tejinder Singh Chattar Singh	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	496 28/01/04	GT Road, VIII. Kartholi, PO Bari Brahman, Tehsil Samba Distt. Jammu
102321	Uttam Kumar Mohan Prakesh	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1997	482 08/01/04	W. No. 8, House No. 13, Geeta Bhavan, Street, Udhampur
102322	Vald Devi Das Sharma Ganga Char	Vaidya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	142 22/02/73	VIII. Mansar, Tehsil Ramnagar, Distt. Udhampur
102323	Valishail Anand Vinod Kumar Anand	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	500 26/03/04	O. No. 109, Rehari Colony, Sarwal Chowk, Jammu
102324	Vandana Dogra Rakesh Mangotra	BAMS M.D. Univ. Rohtak 1991	460 07/01/04	Ward No. 2, Samba, Jammu
102325	Vandana Gupta Shiv Lal Gupta	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 2001	457 07/01/04	F 766 B, Bharat Nagar, Rehari Colony, Jammu
102326	Vanika Gupta Agya Paul Gupta	BAMS M.D. Univ. Rohtak 2005	540 28/04/05	295JJ2, Durga Ngar, Talab Tillo Bohni Jammu.
102327	Varuna Arora Arun Anand	BAMS Delhi Univ., Delhi 2000	455 07/01/04	H. No. 57, Devi Dawara Peermithia Bazar, Jammu
102328	Ved Raj Sita Ram	Shri Vaidya Kavi Raj SDP. Ay. Coll. (Lahore) 1942	122 10/02/72	Kotipuran Via Parole, Distt. Kathua
102329	Veenu Gupta Yash Paul Gupta	BAMS H.P. Univ. Shimla 1997	398 03/05/03	VIII. Mafti, Tehsil Billawar, Distt. Kathua

102330	Vijay Kumar BN Baru	GAMS M.D. Univ., Rohtak 1979	259 13/09/80	154, Jawahar Nagar, Talab Tillo, Jammu
102331	Vijay Kumar Bakshi Vishwa Nath	B.I.M.S Exam. Body AUSM, Delhi 1972	196 07/12/74	Purani Mandi, Jammu
102332	Vijender Pal Galind SP Galind	BAMS R.G.U.H Sciences, Bangalore 2005	529 22/02/05	1/125, Sanjay Nagar, Jammu
102333	Vikas Koul TK Koul	BAMS Univ. of Delhi, Delhi 2000	423 29/08/03	25 A Lane No.5 Karan Nagar, Jammu
102334	Vikas Sharma TR Sharma	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 2002	443 11/12/03	VIII. Chak Agra RS Pura At present 1051/A, Sec-8, Nanak Nagar, Jammu
102335	Vikas Sharma Jagdish Chander	BAMS R.G.U.H Sciences, Bangalore 2005	557 03/09/05	W.No.2, H.No 150, Kathua, Kathua
102336	Vikas Sharma Vinod Kumar Sharma	BAMS R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	564 30/09/05	VPO Siot, Tehsil Sunderbani, Distt. Rajouri
102337	Vikram Singh Jaswant Singh	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	368 28/01/04	Panigram, Jammu
102338	Vikram Vir Bhushan Ved Bhushan Gupta	BAMS M.U.H.S. Nashik 2005	533 23/03/05	127/6, Patel Nagar, Talab Tillo, Jammu
102339	Vininder Khosla JK Khosla	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2003	430 10/11/03	63 A, Ext. Karan Nagar, Jammu
102340	Yash Paul Karam Chand	BAMS B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	489 08/04/04	Patel Nagar, Kathua
102341	Yugya Walluga Durga Dutt Sharma	Ayurvedacharya A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1941	110 24/04/72	Shri Kalyan Ayurvedic Pharmacy Pacca Danga, Jammu

**CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE**  
JAMMU & KASHMIR  
**PART - II - UNNANI**

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGD. NO. & DATE	ADDRESS
9465	Ab. Aziz Zargar Ab. Qadir Zargar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1964	151 12/05/81	Vill. Bomai, Sopora Kashmir
9466	Ab. Hameed Khanday Mohd. Khanday	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1999	209 26/04/03	Hangaveera, Pattan, Distt. Baramulla, Kashmir
9467	Ab. Hamid H. Noorud din	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	171 05/07/72	Vill. Pinglan, Pulwama, Kashmir
9468	Ab. Hamid Khanday Gh. Mohd. Khanday	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	335 04/11/03	Vill. Hangal, Veerah, Pattan, Baramulla
9469	Ab. Hamid Parrey Ab. Razak Parrey	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	170 12/02/03	Pethaskhama, Tehsil, Beerwah, Distt. Budgam, Kashmir
9470	Ab. Hamid Sofi Mohd. Akbar Sofi	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1992	721 27/07/03	Ashtargoo, Bandipora, Distt. Baramulla
9471	Ab. Jalil Mohd. Hussain	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2002	818 15/12/03	Harlat Nagli, Tehsil Haveli, Distt. Poonch
9472	Ab. Majid Khan Abdul Aziz Khan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	363 18/10/03	Panzigam, Tehsil Bandipora, Distt. Kashmir
9473	Ab. Majid Khan Ali Mohd. Khan	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	505 16/10/03	Khuzwara, Choodra, Distt. Budgam
9474	Ab. Majid Najaz Ab. Khalid Najaz	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	499 09/07/03	Goshibug, Tehsil Pattan, Distt. Baramulla
9475	Ab. Majid Sofi Gh. Ahmed Sofi	BUMS Davi Ahilya Univ., Indore 2003	792 17/10/03	Rattpora, Idd-gah, Srinagar
9476	Ab. Qayoom Kar Mohd. Abdullah Kar	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	795 16/10/03	Umar Masjid, Kanil Bagh, Distt. Baramulla
9477	Ab. Rashid Masoodi Safiu-din Masoodi	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1969	148 28/07/79	Narwara, Srinagar, Kashmir

9478	Ab. Rashid Rather Ab. Gani Rather	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	493 23/06/03	Hanjam, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9479	Ab. Rashid Teli Akhtar Teli	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2000	490 26/06/03	VIII. Hanjam, Sonawri, Distt. Baramulla
9480	Ab. Rashid Torray Mohd. Iqbal Turray	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	985 04/11/03	Shalegam, Bejbehra, Distt. Anantnag
9481	Abas Ah. Naik Gh. Rasool Naik	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	432 23/06/03	Rajnipora, Pulwansa
9482	Abdi Mohd. Khan Raj Mohd. Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	595 22/07/03	VIII. Krangusoo, At present Iqbalabad, RP Road, Anantnag (Kashmir)
9483	Abdul Ali Wali Bhatt	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	77 23/10/71	Sogam, Distt. Anantnag, Kashmir
9484	Abdul Bashir Shah Sharfud din Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2000	508 18/10/03	VIII. Duroo, Sopore, Distt. Baramulla
9485	Abdul Hamid Sultanpuri Mohd. Ahsan	BUMS Univ. of Poona, Pune 2003	929 25/12/03	Nigeen Bagh, Kramushiva Sopore, Distt. Baramulla
9486	Abdul Latief Noor Mohammad	BUMS Kanpur Univ., Kanpur 1982	700 25/06/03	VIII. Salwa, Tehsil Mandher, Distt. Poonch
9487	Abdul Majid Farid Sheikh	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	638 27/06/03	H.No. 82, Iqbal Chowk, Gujarnagar, Jammu
9488	Abdul Majid Bhatt Sonaullah Bhatt	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1965	4 23/10/71	Khrew, Near Cement Factory, Srinagar (Kashmir)
9489	Abdul Rashid Ghulam Mohd. Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1962	11 23/10/71	Chari Sharief, Srinagar (Kashmir)
9490	Abdul Rashid Gh. Mohd. Bhat	BUMS Univ. of Poona, Pune 1996	586 24/09/03	Court Road, Srinagar, Kashmir
9491	Abdul Rashid Mir Mohd. Gulab	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2000	594 22/10/03	Hunipora (Wanipora), Pulwama, Kashmir

9492	Abdul Rashid Shah Ab. Ahad Shah	BUMS BIM, Jaipur 1992	561 22/07/03	Rohama, Rafiabagh, Sopore, Distt. Baramulla
9493	Abid Mohd. Khan Raj Mohd. Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1996	320 18/10/03	VIII. Kragsoo, Tehsil & Distt. Anantnag
9494	Afroza Rehman Abdul Rehman Sheikh	BUMS Delhi Univ., Delhi 2003	1059 02/07/04	Kanili Bagh, Baramulla
9495	Afshah Muzaffar Mohd. Muzaffar Shah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	1256 05/04/05	Rose Enclaves, Shivpora B, Sonawar, Srinagar
9496	Afshan Rasool Gh. Rasool	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	834 17/12/03	Bhagat Barzulla, Srinagar
9497	Ahad Ullah Wani Ab. Gani Wani	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	187 08/07/72	VIII. Ashmuji Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9498	Ahamim Ab. Parrey Ahad Parrey	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	429 24/06/03	Ben Zaingam, Tehsil Beerwa, Distt. Budgam
9499	Aijaz Ahmad Rather Bashir Ahmed Rather	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 2002	247 14/08/03	VIII. Shalakadal, presently Old Champur, Srinagar
9500	Aijaz Ah. Gh. Mohiud Din	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	416 01/07/03	Ghar-i-Sharif, Distt. Budgam, Kashmir
9501	Aijaz Ahmad Mehboobi Nazir Ahmed Mehboobi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2002	623 23/06/04	VIII. Panzam, Pulwama
9502	Aijaz Ahmad War Gh. Mohiuddin War	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	618 22/07/03	Warpora, Sopore, Distt. Baramulla
9503	Aijaz Hussain Bhat Ab. Rahim Bhat	BUMS CSM Univ. Kanpur 2003	418 01/07/03	Kathsoo, Tehsil Phelgam, Distt. Anantnag
9504	Aijazul Haq Ab. Rashid Shah	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	709 24/06/03	Nadthal, Sonawari, Distt. Baramulla
9505	Alisfa Gani Ab. Gani Mir	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	446 14/08/03	New Colony, Lal Bazar, Srinagar

9506	Ajay Kumar Dar Baji Dass	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	546 23/06/03	Edipora, Bomal Sopore C/o 53 Anand Vihar, Jammu
9507	Ajay Raina Kashifoo Raina	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2001	207 25/04/03	H.No. 86, Lane No. 3, Adarsh Nagar, Bantiab, Jammu
9508	Ajaz Ahmad Ajaz Mohd. Ismail Thokur	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	239 07/09/03	Vill. Heerpura, Patlipadana, Tehsil Shopian, Distt. Pulwama, Kashmir
9509	Ali Mohd. Ahengar Habib Ullah Anger	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	202 05/07/72	Knrew Tehsil and Distt. Srinagar, Kashmir
9510	Ali Mohd. Lone Khazir Lone	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	124 18/09/73	Udipora Langat Handwara, Kupwara, Kashmir
9511	Ali Mohd. Rather Ab. Ah. Rather	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	321 23/06/03	Harloora, Tehsil Ghadura, Distt. Budgam
9512	Altat Hussain Mohd. Yousuf Shah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	187 21/04/03	Ladhu Pampora, Kashmir
9513	Altat Hussain Ab. Ganl Sheikh	BUMS Dr. MGR Med. Univ. Chennai 1997	324 14/08/03	Viliagam, Handwara, Distt. Kupwara
9514	Altat Hussain Sona Ullah Sheikh	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1998	682 18/09/03	Bon- Nabal Distt. Anantnag
9515	Altat Hussain Bhat Gh. Ahmed Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	793 24/09/03	Hadushiva, Sopore, Distt. Baramulla
9516	Altat Hussain Shah Wali Mohd. Shah	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1995	951 25/12/03	Sopore, Distt. Baramulla
9517	Altat Hussain Shah Gh. Hassan Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	1223 15/01/05	Bilbehara, Baba Mohalla, Near Asthan Sharief Bejbehara, Anantnag
9518	Amrin Pampuri Mohd. Khalil Pampuri	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	2 23/10/71	Baepora, Habbakadal, Srinagar (Kashmir)
9519	Amir Hussain Shah Khadim Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1997	530 22/07/03	Vill. Sangal, Tehsil Surinkot, Distt. Poonch

9520	Amjad Yousuf Rehman Yousuf	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	326 31/10/03	VIII. Usmanabad, Mallabagh, Srinagar
9521	Aneyat Ali Rather Gh. Rasool Rather	BUMS Dewi Ahilya Univ., Indore 1996	585 22/07/03	VIII. Changu, Bhalessa, Distt. Doda
9522	Aneyat Ullah Ab. Ganil	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	1248 18/03/05	Bari (Geha) Goka, Tehsil Doda, Distt. Doda
9523	Anil Raina Saroop Nath	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1996	208 25/04/03	320, Muthi Camp, Jammu
9524	Anjall Jan Gh. Mohd. Russito	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	657 23/10/03	Town Hall, Sopore, Distt. Baramulla, Kashmir
9525	Arfat Hussain Malla Ab. Aziz	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	390 09/07/03	Deelina Ghat, Baramulla
9526	Arifat Mir Gh. Nabi Mir	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	714 28/06/03	New Colony, Lal Bazar, Srinagar
9527	Arjamund Shah Gh. Mohd. Shah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	395 09/07/03	Awanti Bhavan, Soura, Srinagar
9528	Arshad Hussain Salud din Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2003	696 28/05/03	VIII. Quil Muqam, Bandipora, Distt. Baramulla
9529	Arshad Hussain Shah Abdul Majid Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	825 16/12/03	Gadlaehal Cheerso, Awantipora, Distt. Anantnag
9530	Arshad Hussain Thoker Gh. Mohd. Thoker	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1997	338 14/06/03	Gadoora, Tehsil & Distt. Pulwama
9531	Arshad Iqbal Bhat Gh. Rasool Bhat	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 1997	479 04/11/03	Batpora, Hazratbal, Srinagar
9532	Arshad Iqbal Mir Gh. Mohd. Mir	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2004	1027 23/03/04	Magseypora, Acchabal, Distt. Anantnag
9533	Asad Ullah Batu Aziz Batu	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	112 02/11/72	Harri Bhat Rainawari, Srinagar



9534	Ashiq Hussain Munshi G. Quadir	BUMS SV Univ., Tirupati 1991	1173 29/10/04	Safapora, Tehsil Sonwari, Baramulla
9535	Ashiq Hussain Belg Mohd. Ayub Belg	BUMS Poona Univ., Pune 2005	1229 18/01/05	Hubi Colony, Masjid Sharief, Sikhabagh, Lal Bazar, Srinagar
9536	Ashiq Hussain Bhat Mohd. Subhan Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2003	754 13/08/03	Aragam, Bandipora, Distt. Baramulla
9537	Ashiq Hussain Shah Gh. Mohd. Shah	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	823 16/12/03	Monghal, Anantnag, Kashmir
9538	Asima Jeelani Noor Mohd.	BUMS Univ. of Poona, Pune 2000	585 24/09/03	Sanantnagar, Srinagar (Kashmir)
9539	Asiya-ul-Sram Manzoor Ah. Malik	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	312 21/10/03	Green Land Azad Basti, Nalipora, Srinagar
9540	Asrar Ab. Wani Mohd. Yousuf Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	428 26/06/03	Ratnipora, Distt. Pulwama
9541	Assia Mohd. Gh. Mohd. Untoo	BUMS Univ. of Poona, Pune 2004	1015 01/06/03	Noorbagh, Sopore, Distt. Baramulla
9542	Autar Krishan Raina Sarwanand Raina	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	105 25/10/72	VPO Chogam, Quazi Gund, Anantnag, Kashmir
9543	Azhar Aziz Ab. Aziz Para	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	423 14/08/03	VIII. Arthal, Distt. Pulwama
9544	Azhar Hussain Jarwar	BUMS Univ. of Poona, Pune 1999	953 08/06/04	Moh. Munkak, Sopore, Distt. Baramulla
9545	Azhar Zabeer Sharief Din	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	957 25/12/03	Noor Bagh, Sopore, Distt. Baramulla
9546	Azmat Johon Kawa Bashir Ah. Kawa	BUMS MUHS, Nasik 2005	1335 01/10/05	VIII. Hardib Shiva, Sopore, (Baramulla)
9547	Bahar Ah. Bhat Mohd. Ramzan Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	948 25/12/03	Sultanpora, Kandl, Baramulla

9548	Bal Jee Pandita Parsad Ram	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	203 05/07/72	Chogue Handwara, Tehsil Kupwara Distt. Kashmir
9549	Bal Krishna Bhatt Shamial Bhatt	BUMS Muslim Univ. Aligarh 1963	15 23/10/71	Karan Nagar, Srinagar (Kashmir)
9550	Bansil Lal Pandita Jia Lal Pandita	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1962	45 23/10/71	Siru Dangarpura, Tehsil Pattan, Distt. Baramulla
9551	Bashir Ahmad Belg Mohd. Ayoo Belg	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	122 06/09/73	Devi Angan, Hariparbat, Srinagar (Kashmir)
9552	Bashir Ahmad Dar Ab. Khalq Dar	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	277 22/10/03	VIII. K. Kallan, Tehsil Bijbehra, Distt. Anantnag
9553	Bashir Ahmad Lone Nabi Lone	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	248 26/06/03	VIII. Haffshimal, Tehsil Shopian, Distt. Pulwama, Kashmir
9554	Bashir Ahmad Qureshi Master Gh. Mohi-ud-din	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	123 11/09/73	VIII. Kalam Ghakia, Tehsil Handwara Distt. Kupwara, Kashmir
9555	Bashir Ahmad Shah Ghulam Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1964	68 23/10/71	Dangarpura, Nawakadal, Srinagar (Kashmir)
9556	Bashir Ahmad Sofi Ismail Sofi	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	491 26/06/03	VIII. Jahama, Distt. Baramulla
9557	Bashir Ahmad Teeli Ab. Ahmad Teeli	BUMS Delhi Univ., Delhi 1998	349 16/03/03	Narwa, Tehsil Tral, Distt. Pulwama
9558	Benefer Maqbool Mohd. Maqbool	BUMS MUHS, Nasik 2004	1074 03/08/04	Sheri Bhat, Alamgar Bazar, Srinagar
9559	Benazir Ali Ali Mohd. Dar	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	1257 05/04/05	VIII. Wagub, Sopore, Distt. Baramulla
9560	Bhushan Lal Kar Janak Nath Kar	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	201 05/07/72	Karapora Rainawari Srinagar, Kashmir
9561	Bigh Parvez Ahmad Mohd. Ashraf Beg	BUMS Univ. of Poona, Pune 2004	1114 29/10/04	Badawari, Devi Angan, Srinagar

9562	Bilal Ah. Sheikh Ab. Guyom Sheikh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	449 02/09/03	VIII. Kachwar, Shopian, Distt. & Tehsil Pulwama
9563	Bilal Ahmad Mohd. Maqbool	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	804 16/10/03	Jaleel Sahib, Presently JK Road, Kroja Bagh, Baramulla
9564	Bimla Koul Naranjan Nath Koul	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	99 20/09/72	Nazuk Mohalla Anantnag, Kashmir
9565	Bisher Ahmad Ab. Rehman	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	199 05/07/72	Shah Mohalla Nawa Bazar, Srinagar, Kashmir
9566	Bodh Raj Bhatt Prithvi Nath Bhatt	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1966	9 23/10/71	Shalayer, 2nd Bridge, Srinagar (Kashmir)
9567	Brij Nath Bhat Tara Chand Bhat	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	101 06/10/72	H.No. 49, Balgarden, Srinagar, Kashmir
9568	Bushan Lal Fotadar Ganesh Dass Fotedar	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	34 23/10/71	H.No. 433, Cankhan, Chalpan Kucha, Srinagar (Kashmir)
9569	Chadury Guizar Hussain Mohd. Anwar	BUMS Univ. of Poona, Pune 2000	531 22/07/03	VIII. Nauka, Manyam, Tehsil Mandhar, Distt. Poonch
9570	Chaman Lal Prem Nath Khazanchi	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1969	154 07/09/82	20 Shastri Nagar Iqbalabad, Opp. Degree College, Srinagar
9571	Chaman Lal Jad Vish Nath Jad	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1969	53 23/10/71	Nazki Mohalla, Anantnag, Kashmir
9572	Chandi Lal Tikoo Janki Nath Tikoo	BUMS Kashmir Univ. Srinagar. 1971	14 23/10/71	Shashyaar Habba Kadal, Srinagar (Kashmir)
9573	Chaman Singh S. Gian Singh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2004	1061 20/07/04	H.No. 204, Lainagar, Chanpora, Srinagar
9574	Chuni Lal Raina Shamboo Nath Raina	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	325 01/06/03	Gandessal, Srinagar, Kashmir
9575	Daya Krishna Koul Gobind Koul	BUMS J&K Univ. 1969	1212 27/12/04	Shadipora, Budgam, A/P H.No. 416 JMC, Sec. 3 Bhagwati Nagar, Jammu

9576	Des Raj Koul Pt. Dinanath Koul	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1974	128 02/08/74	Saeedafar, Safa Kadal, Srinagar, Kashmir
9577	Dil Afroz Akhtar Ch. Nabi Baa	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	458 09/07/03	Mehmood Abed Doori, Distt. Anantnag, Kashmir
9578	Dilshada Ch. Ahmed Tantray	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	628 23/06/03	Neidkhai, Sonawari, Distt. Baramulla
9579	Dilshada Banoo Ali Mohd. Rather	BUMS Devl Ahilya Vish., Indore 1997	293 19/08/03	Garoora, Bandipora, Distt. Baramulla
9580	Ehtesham-ud-din Ch. Mohd. Khuroo	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	302 23/09/03	Doabgarh Khuroo Park, Sopore, Distt. Baramulla
9581	Elles Ahmad Ab. Rashid Bhat	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	327 21/10/03	VIII. Puha, Ashajipora, Anantnag
9582	Farah Ahmed Khan Noor Ahmad Khan	BUMS Delhi Univ., Delhi 2003	397 09/07/03	Moh. Daribul, Khanyaar, Srinagar
9583	Farahat-un-Nissa Koul Nazir Ahmed	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	342 16/03/03	Malaratta, Srinagar, Kashmir
9584	Farid Ah. Anzan Md. Rehman Anzan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	500 17/12/03	VIII. Sai, Dodi City, Distt. Doda
9585	Farid Ahmad Ab. Rehman Anjan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	949 25/12/03	Doda City, Distt. Doda
9586	Farid Hussain Abh. Subhan Najar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1970	135 09/10/74	Moh. Sarafan, PO Bhadarwah, Distt. Doda
9587	Farooq Ahmad Ch. Nabi Rather	BUMS Dr. H.G. Vish. Sagar 1995	300 23/09/03	VIII. Dangarpore Sopore, Distt. Baramulla
9588	Farooq Ahmad Ch. Mohd. Wani	BUMS Delhi Univ., Delhi 1987	226 22/10/03	VIII. Dalina, Distt. Baramulla
9589	Farooq Ahmad Habib Ullah Wani	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	604 02/09/03	Kulgam, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag

9590	Farooq Ahmad Sheikh Mohd. Sultan Sheikh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	560 22/07/03	Achabal, Anantnag, Kashmir
9591	Farooq Ah. Dar Ah. Ahsan Dar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2000	521 16/10/03	Azadganj, Distt. Baramulla
9592	Farukh Badakshan Mohd. Maqbool Bhat	BUMS MUHS, Nasik 2004	1039 17/06/04	Noorbagh, Sopore, Distt. Baramulla
9593	Fayaz Ahmad Ali Mohd.	BUMS Devi Ahilya Vish. . Indore 2001	555 17/10/03	Durbagh, Chadura, Distt. Budgam
9594	Fayaz Ahmad Mir Mohd. Ishaq Mir	BUMS CSM Univ. Kanpur 2003	636 14/08/04	Sehpora, Magam, Distt. Budgam
9595	Fayaz Ahmad Wani Mohd. Ahsan Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	434 22/07/03	Ramohu, Pulwama
9596	Fazil Sumaira Mohd. Ashraf Tyagi	BUMS Univ. of Poona, Pune 2000	916 25/12/03	62, Ampora, Butakadal, Lal Bazar, Srinagar
9597	Feroz Ahmad Dar Sona ulia Dhar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	925 25/12/03	Waripora, Ganipora, Handwara, Distt. Kupwara
9598	Feroz Ahmad Wani Ab. Gani Wani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1998	345 16/03/03	Narwah, Pulwama, Distt. Pulwama
9599	Fiaz Ahmad Sheikh Mohd. Yousuf Sheikh	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1997	932 25/12/03	Dhaneao, Chawalgam, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9600	Fida Abdul Qayoom Malik Ab. Aziz Malik	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	803 21/10/03	Singpora, Pattan, Distt. Baramulla
9601	Fidrah Hussain Abdul Rehman Mir	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 2001	369 16/10/03	Gundi Repah, Ghadoora, Distt. Budgam, Kashmir
9602	Firdous Ah. Najjar Gh. Rasool Najjar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	1225 14/01/05	Sangam Id-gah Srinagar
9603	Firdous Ahmad Sona Ullah	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1995	412 17/10/03	VIII. Kadipora, Syed Sahib, Anantnag, Kashmir

9604	Firdous Ahmed Dar Gh. Mohd. Dar	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2001	685 17/10/03	Wathora, Tehsil Chadoora, Distt. Budgam
9605	Firdous Ahmed Khan Ab. Qyum Khan	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1984	554 17/10/03	Noorbagh, Sopore, Distt. Baramulla
9606	Fozila Javaid Javaid Iqbal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	740 31/07/03	172, Lal Nagar, Near PO Chadoora, Srinagar
9607	G. Mohi-ud-din Peer Habib Ullah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	146 24/10/78	VIII. Noorpora, Trel, Distt. Pulwama, Kashmir
9608	Gani Qadri Peer Mohd Akbar	BUMS A&U Tib. Coll., Delhi 1937	35 23/10/74	Pattan Pushwani Distt. Baramullah, Kashmir
9609	Gh. Hassan Malik Gh. Mohd. Malik	BUMS Univ. of Delhi, Delhi 1982	157 11/04/83	VIII. Ashabal, Tehsil Sopore, Distt. Baramulla Kashmir
9610	Gh. Jeelani Mohiud-din Jeelani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	465 23/06/03	Dangarpore, Shadimarg, Pulwama, Kashmir
9611	Gh. Mohd. Wani Gh. Qadir Wani	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	104 23/10/72	Kadi Kadal, Srinagar, Kashmir
9612	Gh. Mohd. Zakir Ali Mohd. Zakir	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1969	6 23/10/71	Zadibal, Srinagar (Kashmir)
9613	Gh. Mohd. Raina Abdul Aziz Raina	Fazil-i-Tib-o-Jarahat Board of AUSM, Delhi Admn. 1963	110 31/10/72	Hoshpoora, Tehsil Chadura, Distt. Budgam, Kashmir
9614	Gh. Mohd. Yattoo Gh. Ahmed Tattoo	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	605 09/07/03	Nagam, Dolipora, Tehsil Chadoora, Budgam
9615	Gh. Mohi-ud-din Gh. Hassan Wani	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	130 29/09/74	VIII. Zungulipura, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9616	Gh. Nabi Mir Ab. Gani Mir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	475 26/06/03	Kewangam, Anantnag, Kashmir
9617	Gh. Nabi Parray Gh. Ahmad Parray	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1974	127 01/08/72	VIII. Uglan, PO Dialgam, Distt. Anantnag, Kashmir

9618	Gh. Nabi Wani Mohd. Abdullah	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2000	322 14/08/03	Barwah, Tehsil Pulwama, Distt. Pulwama
9619	Gh. Nabi Wani Mohd. Abdullah Wani	BUMS Devf Ahilya Vish., Indore 2000	920 25/12/03	Ranwah Lajuran, Pulwama, Distt. Pulwama
9620	Gh. Quadir Kh. Mohd. Ramzan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1965	132 09/10/74	Khounawari 3rd Bridge, Srinagar, Kashmir
9621	Gh. Rasool Wani Anwar JooWMani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1963	113 23/10/71	Gratbal, PO Salpora, Kashmir
9622	Ghulam Hassan Sultanpuri Abdul Ahad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1961	59 23/10/71	Mohalla Sofi Hamam, Sopre, Kashmir
9623	Ghulam Hussain Gh. Ahmed Shapoo	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	173 05/07/72	Bugam, Tehsil Kulgam, Kashmir
9624	Ghulam Mohd. Bhatt Mohd. Shaban Bhatt	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	19 23/10/71	Tral Saimooh Pulwama (Kashmir)
9625	Ghulam Mohd. Kina Rasool Jee Kina	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1965	44 23/10/71	Bilbehara, Kashmir
9626	Ghulam Mohd. Parrey Gh. Quadir Parrey	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	5 23/12/71	Bunh Makhana, PO Rattsun, Beetua (Kashmir)
9627	Ghulam Mohd. ud-din Habib Shah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	20 23/10/71	Nutmoosa, PO Handwara, Kashmir
9628	Ghulam Nabi Rangraz Ghulam Rasool	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1969	60 23/10/71	C/o Haji Ghulam Mohd. Pattar Masjid Srinagar (Kashmir)
9629	Ghulam Nabi Tell Ali Mohd. Tell	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	455 23/06/03	Wanigam Payeen, Baramulla, Kashmir
9630	Girdhari Lal Bamzai Janki Nath Bamzai	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	131 09/10/74	H/O A.K. Koul, Opp. Fire Station, Kanna Kadal, Srinagar (Kashmir)
9631	Girdhari Lal Pandira Prithvi Nath	BUMS Delhi Univ. Delhi 1980	152 04/08/81	Kulgam, Kashmir

9632	Girdhari Lal Razdan Pt. Radha Krishan Razdan	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1969	142 16/05/77	H.No. 25, Betyaar, Ailkadal, Srinagar, Kashmir
9633	Gopi Nath Dhar Krishan Joo Dhar	Hazib-ul-Hukma Bupindra Tib. Coll. Patiala 1940	101 23/10/74	Motyaaar Raina Warl Kashmir
9634	Gul Mohd. Lone Gulam Mohd. Lone	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1984	70 23/10/71	Nowpora, Khanyaar, PO Rainawari, Kashmir
9635	Gulam Mohiuddin Sofi Ab. Ahad Sofi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1997	535 22/07/03	VIII. Sheerwan, Thagpora, Krid Pattan, Distt. Baramulla
9636	Gulzar Ah. Zargar Mohd. Yousuf Zargar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2003	809 03/12/03	Chewar, Distt. Budgam
9637	Gulzar Ahmad Bhat Gh. Hassan Bhat	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 1999	365 16/10/03	Dodora, Tehsil Pulwama, Distt. Pulwama, Kashmir
9638	H. Zia-ud-din Hakim Gh. Hassan	Hakim-i- Hazik Islamia Tibia College, Lahore 1945	89 23/10/71	Later Chadura Tehsil Budgam Distt. Kashmir
9639	Habib Ullah Alaqband K. Abdullah Joo	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1961	161 08/09/83	New Basti Anantnag, Kashmir
9640	Habib Ullah Kumar Abdul Rahim	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	69 23/10/71	Ahama, Tehsil Gandharbal, Srinagar (Kashmir)
9641	Habib Ullah Shah Ab. Ahad Shah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 1999	323 14/08/03	Wadwan, PO Solbugh, Distt. Budgam
9642	Harizul Rehman Peer Ab. Ganl Tewheedl	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1996	581 24/09/03	Moh. Mir Sahib, Distt. Baramulla
9643	Hakim Shabirul Hassan Ghulam Hassan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	573 22/07/03	Gadipora, Anantnag, Kashmir
9644	Hakim Shoukat Qureshi Hakim Noor-ud-din Qureshi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	254 09/07/03	VIII. Ghattan, Chakpura, Tehsil Booru, Distt. Budgam
9645	Hamdani Anillaysim Mohd. Yasin Hamdani	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	710 26/06/03	Near Colony Lal Bazar, Srinagar



9846	Hari Krishna Pandit Raghunath Pandit	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	177 05/07/72	Batagund, Tehsil Handwara, Distt. Kupwara, Kashmir
9847	Harmukh Singh Surjit Singh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	813 14/12/03	H.No.332, Sheerwani Colony, Khujbagh, Baramulla
9848	Hasan Dar Gh. Ali Dar	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	174 05/07/72	Khandra, PO Nehama, Via. Pampora, Kashmir
9849	Hilal Ah. Wani Mohd. Ak. Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	425 26/06/03	VIII. Karimabad, Pulwama
9850	Hilal Ahmad Lone Gh. Quedir Lone	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	309 23/06/03	VIII. Udipur, Tehsil Handwara, Distt. Kupwara
9851	Hilal Ahmad Mailla Gh. Mohiud din Mailla	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	492 14/08/03	Sonlm, Distt. Baramulla
9852	Hira Lal Pandita Shabadi Pt. Damoodhar Pandita	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1970	76 23/10/71	Qaziyar Zainakadal, Srinagar (Kashmir)
9853	Hirday Nath Dhar Pt. Mukand Ram Dhar	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	172 05/07/72	Man Zawa, PO Murtand, Anantnag, Kashmir
9854	Humera Munir Munir Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	805 16/10/03	Moh. Ustad Jammu, presently GT Road, Khoja Bagh, Baramulla
9855	Iazla Wakil Mohd. Ashraf Wakil	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	437 22/10/03	Haji Bagh, Saspora, Srinagar
9856	Iffat Kawosa Muzaffar Ah. Kawosa	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	571 22/07/03	Firdous Colony, Baspora, Srinagar
9857	Ifrikhar Ahmed Gh. Mohd. Malik	BUMS Devil Ahilya Vish, Indore 2001	558 17/10/03	VIII. BA Noon Kishtwar, Distt. Doda
9858	Ifrikhar Hussain Mir G. M. Mir	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2000	518 07/09/03	Rampora, Gund, PO Nadihal, Bandipora
9859	Ifrikhar Khazir Khazir Mohd. Dar	BUMS BBA Univ., Muzaffarpur 2001	402 30/07/03	Merzigund, Baramulla, Kashmir

9660	Ilyas Ahmed Bhat Gh. Ahmed Bhat	BUMS MUHS, Nasik 2005	1337 01/10/05	VIII. Naid Khai, Sonawari, Distt. Baramulla
9661	Imran Shafi Mohd. Shafi Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2004	1155 29/10/04	Mattan, Distt. Anantnag, Kashmir
9662	Indra Zadoo NL Zadoo	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1970	32 23/10/71	Purshyar, Habba Kadal, Srinagar (Kashmir)
9663	Iqbal Ah. Kar Gh. Nabi Kar	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1995	1038 08/03/04	Tral Balla Distt. Pulwama
9664	Iqbal Singh Low S. Beanth Singh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1996	381 09/07/03	Khawja Bagh, H.NO. 144, Baramullah, Kashmir
9665	Irfan Bashir Bashir Ah. Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	839 17/12/03	Gulshanabad, Anantnag, A/P KP Road, Anantnag
9666	Irfan Hussain Bandey Gh. Hassan Bandey	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	494 19/01/04	Onagam, Bandipora, Distt. Baramulla
9667	Irfan Siddiqui Mohd. Siddiq Zaki	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2000	352 16/10/03	Babua Yousuf Sopore, Distt. Baramulla
9668	Irfane Gundroo Gh. Ahmed Gundroo	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	329 07/09/03	Daribal, Khanyaar, Srinagar
9669	Irfat Ara Gurkoo Gh. Mohd. Gurku	BUMS SV Univ., Tirupati 1992	1322 03/08/05	Private Colony, Lal Bazar, Srinagar
9670	Ishad Ah. Wani Ab. Gani Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1997	497 23/06/03	VIII. Zangulpore Kulgam, Distt. Anantnag
9671	Ishad Hussain Dar Mohd. Hussain Dar	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 1999	648 23/09/02	VIII. Mangol, Tehsil and Distt. Anantnag
9672	Ishfaq Ahmad Rather Ab. Gani Rather	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	689 01/08/03	VIII. Panzeth, Wanpora, Tehsil Dooru (Anantnag) Kashmir
9673	Ishfaq Majeed Kackroo Ab. Majid Kackroo	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	391 09/07/03	Sheerwani Colony, Baramulla

9674	Ishrat Area Bhat Gh. Nabi Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	385 07/09/03	VIII. Sangampora, Sopore, Distt. Baramulla
9675	Ishrat Rassol Gh. Rasool Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	472 14/08/03	Bhagt Barzulla Srinagar, Kashmir
9676	Ishrat Sultan Mohd. Sultan Wani	BUMS CSM Univ. Kanpur 2001	486 22/07/03	Town Avantipora, Distt. Anantnag, Kashmir
9677	Jagan Nath Dewan Madhu Ram Dewan	Haziq-ul-Hukma Bupindra Tib. Coll. Patiala 1947	98 23/10/71	Dewani Nilwas Doodganga Road, Karan Nagar, Srinagar (Kashmir)
9678	Jahanara Ishaq Mohd. Ishaq	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1997	1014 22/02/04	Chanapora, Srinagar
9679	Jahngir Ahmad Sheikh Ahmed Sheikh	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1993	218 04/ 1/03	Red Cross Road, Goa Kadal, Srinagar
9680	Janki Nath Koul Tara Chand Koul	Haziq-ul Hakma Bupindra Tib. Coll. Patiala 1950	95 23/10/71	Vassu Distt. Anantnag, Kashmir
9681	Jamal Singh Dermodhar Singh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1995	578 24/09/03	VIII. Chetoosa, Sopore, Distt. Baramulla
9682	Javald Ah. Bhat Ab. Majid Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	440 09/07/03	VIII. Tharu, Gandarbal, Srinagar, presently Aliyalpora, Shopian
9683	Javald Ah. Wani Gh. Rasool Wani	BUMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1994	448 07/09/03	Kulgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9684	Javald Ahmad Gh. Hassan Bulla	BUMS Devl Ahliya Vish, Indore 2000	510 16/10/03	Nageen Bagh, Bonagam, Sopore, Distt. Baramulla
9685	Javald Ahmad Lone Ab. Mana Lone	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	474 09/07/03	VII. Laroo, Distt. Anantnag
9686	Javald Ahmed Sharifud din	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	431 14/08/03	Pachhar, Rajpora, Distt. Pulwama
9687	Javald Ahmed Dar Gh. Mohd. Dar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2000	392 09/07/03	Quazipur, Bandipora, Distt. Baramulla

9688	Javald Ahmed Mir Hamid Ullah Mir	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1992	198 24/04/03	Paristan, Khanpura, Distt. Baramulla, Kashmir
9689	Javald Hussain Zargar Gh. Hassan Zargar	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	683 17/10/03	Begund, Kulgam, Distt. Anantnag
9690	Javald Iqbal Gh. Ab. Wani	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	332 16/10/03	Zongripore, Kulgam, Distt. Anantnag
9691	Javald Iqbal Lone Mohd. Ramzan Lone	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	708 26/06/03	Durugmulla, Distt. Kupwara
9692	Jawahar Lal Pandita Kashi Nath Pandita	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1974	129 07/08/74	VIII. Chitraram Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9693	Jawahar Lal Tutoo Vish Nath Tutoo	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	111 01/11/72	Shashyer 2nd Bridge, Srinagar
9694	Kashmiri Lal Gopi Nath Bhatt	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	107 31/10/72	160, Jawahar Nagar, Srinagar
9695	Kazi Tufail Habib Quazi Habib Ullah	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 1996	372 18/09/03	VIII. Warwan, Tehsil Solbugh, Distt. Budgam, Kashmir
9696	Khalid Yousuf Koka Mohd. Yousuf Koka	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	420 14/06/03	VIII. Seerhamdan, Awantipura, Distt. Anantnag
9697	Khursheed Ah. Dar Gh. Hassan Dar	BUMS Osmania Univ., Hyderabad 1992	1200 19/10/04	Ashmuji, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9698	Khursheed Ah. Mir Ab. Majid Mir	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	593 14/08/03	VIII. Bumthan, Distt. Anantnag
9699	Khursheed Ah. Mir Gh. Mohd. Mir	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1996	837 17/12/03	Trail Bala, Distt. Pulwama
9700	Khursheed Ahmad Ab. Khaliq Dar	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	562 30/07/03	Seer Jagir, Sopore, Distt. Baramulla
9701	Khursheed Ahmad Ab. Majid Shah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2002	633 24/06/03	Moh. Kadibal, Pampora, Distt. Pulwama

9702	Khurshed Ahmad Gh. Mohd. Bhat	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	641 29/05/03	VIII. Seer, Handwara, Distt. Kupwara
9703	Liyaqat Ali Mohd. Sidiq	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	758 13/08/03	Dodasan Bala, Tehsil Thannamandi, Rajouri
9704	Liyaqat Ali Sona Ullah Malik	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	613 01/08/03	VIII. Kalhasna, Tehsil Handwara, Distt. Kupwara
9705	Madhusudhan Raina Tara Chand Raina	BUMS Board of AUSM, Delhi 1959	10 23/10/71	Wagam, Tehsil Chodura, Kashmir
9706	Mahmood Ahmad Rather Gh. Mohd. Rather	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1979	153 13/08/81	VIII. Gohnd PO Harman Shopian, Distt. Pulwama, Kashmir
9707	Mahrajuddin Masoodi Mohd. Sharief Ud din	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	707 28/05/03	Tragpora, Rohama, Distt. Baramulla
9708	Majid Ahmad Dar Ab. Ahad Dar	BUMS Devi Ahilya Vish. Indore 2002	253 14/08/03	VIII. Chadoora, Distt. Budgam
9709	Makhan Lal Koul Sarwanand Koul	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	168 05/07/72	Kharpore, Bandipore, Baramulla, Kashmir
9710	Malik Tassaduq Hussain Gh. Hussain Malik	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1998	318 14/08/03	VIII. Alloosa, Tehsil Bandipora, Distt. Baramulla
9711	Manzoor Ahmad Abdul Khaliq Mir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	250 24/06/03	VIII. Barmoo, Distt. Pulwama, Kashmir
9712	Manzoor Ahmad Ab. Ahad Khanday	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	488 14/08/03	VIII. Hanjwara, Pattan, Distt. Baramulla
9713	Manzoor Ahmad Gh. Mohd. Khan	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1999	283 22/10/03	Mazipora, Tehsil Bandipora, Distt. Baramulla
9714	Manzoor Ahmad Wani Gh. Nabi Wani	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1998	316 28/03/98	VIII. Narawa Bagli (Tirchi) PO Ratnipora, Distt. Pulwama
9715	Manzoor Ahmad Zarger Gh. Hassan Zarger	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	330 16/10/03	VIII. Baba Taza, Sopore, Kashmir

9716	Manzoor Ahmed Haidar Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	640 17/08/03	Moh. Solina, Srinagar
9717	Manzoor Ahmed Bhat Gh. Mohd. Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	378 09/07/03	Harjuna, Tehsil Chadoora, Distt. Budgam, Kashmir
9718	Manzoor Hussain Qureshi Badardin Qureshi	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	380 09/07/03	Chakirco, Tehsil Havell, Distt. Poonch, Jammu Province
9719	Manzoor Qadir Rather Kamal-ud-din	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	271 28/06/03	VIII. Lowdora, Tehsil Bandipora, Distt. Baramulla
9720	Mariya Ansari	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2003	789 23/09/03	VIII. Bejbehara, Distt. Anantnag
9721	Masood Ahmad Noor Ahmad	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1989	37 23/10/71	VIII. Koral, Tehsil Kulgam, PO Nasnoor, Shopian (Kashmir)
9722	Masood M. Naziki Mufti Zila-ul-Haq	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	821 15/12/03	Bijsbehara, Anantnag
9723	Masrat Shaheen Gh. Quadir Pandit	BUMS Poona Univ., Pune 1999	495 23/06/03	Moh. Syed Kucha Havell, Srinagar
9724	Massarat Fatima Ab. Rahim Bhat	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2004	1068 20/07/04	Munar, Ganderbal, Srinagar
9725	Mehraj-udin Gh. Mohd. Wani	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	713 07/09/03	Sultanpora, Sumbal, Sonwarl, Distt. Baramulla
9726	Midhat Chisti AM Chisti	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	348 16/03/03	Rawalpota, Srinagar
9727	Mimal Sharma Desraj Sharma	BUMS Delhi Univ., Delhi 1989	180 17/04/03	Railway Line Gadama, RS Pura, Jammu
9728	Mir Gowhar Amin Mohd. Amin Mir	BUMS NTR Univ. of Health Sciences, V 1995	399 30/7/3	Sadarbal, Srinagar
9729	Mir Hissam-ud-din Mir Abdul Khaliq	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1984	52 23/10/71	Gharani Sharief, Distt. Budgam, Kashmir

9730	Mir Latief Hassani Gh. Nabi	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	357 16/10/03	Housing Colony, Sangri Kanibagh, Distt. Baramulla
9731	Mir Muzaflar Hussain Nissar Sonaullah	BUMS Osmania Univ., Hyderabad 1982	842 17/12/03	50, SICOP Road, Bijbehara, Kashmir
9732	Mir Zarnuda Ali Ali Mohd. Mir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	257 24/06/03	VIII. Gulshanpura Tral, Distt. Pulwama
9733	Miyan Itikhar Gh. Nabi Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	430 14/08/03	Khrew, Tehsil Pulwama, Distt. Pulwama
9734	Mohammood Ahmad Mubark Ah. Lone	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1986	822 15/12/03	Noorabad, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9735	Mohan Lal Fotadar Jia Lal Fotadar	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	178 05/07/72	Sahpora, PO Kapla, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag (Kashmir)
9736	Mohan Singh Hakim Singh	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	103 23/10/72	VIII. Hutmura, PO Mattan, Anantnag, Kashmir
9737	Mohd. Abdullah Gani Gh. Hassan Gani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1976	141 30/03/77	VIII. Pawee non Samal Distt. Anantnag, Kashmir
9738	Mohd. Akbar Shah Mohd. Abdullah Shah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	175 05/07/72	Tutlipora, Charisharief, Budgam, Kashmir
9739	Mohd. Amin Gaddi Ab. Khaliq Gaddi	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1982	572 22/07/03	Iqbal Colony, Sopore, Distt. Baramulla
9740	Mohd. Amin Hella Gh. Mohd. Hella	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	249 28/08/03	Alam Garg, PO Harman Shopian, Distt. Pulwama
9741	Mohd. Amin Kawa Habibullah Kawa	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1985	301 23/09/03	Botingoo Sopore, Distt. Baramulla
9742	Mohd. Amin Masoodi Peer Khaili Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1971	107 23/10/71	Narwana, Srinagar, Kashmir
9743	Mohd. Amin Mir Bhar Ahmed Mir	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	481 01/08/03	VIII. Logripore, Sopore, Distt. Baramulla

9744	Mohd. Amin Qureshi Mohd. Qureshi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1958	1 23/10/71	VIII. Manigam, Gandherbal, Srinagar (Kashmir)
9745	Mohd. Ashraf Magrey Gh. Ahmed Magray	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	791 23/09/03	VIII. Batpora, Kanihama, Distt. Budgam
9746	Mohd. Ashraf Abd. Gaffar dar	BUMS Devil Ahilya Univ., Indore 1986	576 02/09/03	VIII. Wadwan, Budgam, Distt. Budgam
9747	Mohd. Ashraf Gh. Rasool Wagey	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	614 23/06/03	Moh. Jalal, Sopore, Distt. Baramulla
9748	Mohd. Ashraf Parray Ab. Guffar Parray	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	176 16/04/03	Path Makama, PO Megam, Tehsil Baru, Distt. Budgam, Kashmir
9749	Mohd. Ashraf Rather Sultan Rather	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	315 23/06/03	VIII. Chanderhama, Distt. Baramulla
9750	Mohd. Ashraf Shah Gh. Mohiud din Shah	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1998	924 25/12/03	Tral Payeen, Pulwama, Kashmir
9751	Mohd. Ashraf Wani Ab. Gani Wani	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	436 22/07/03	Malik Mohalla, Shopian
9752	Mohd. Aslam Gh. Nabi Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	625 14/08/03	VIII. Chanderhara, Pampora, Distt. Pulwama
9753	Mohd. Aslam Belg Ishaq Belg	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1964	91 23/10/71	Khanopura, PO Chandusa, Baramulla (Kashmir)
9754	Mohd. Assadullah Mir Hazi Abdullah Mir	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1962	40 23/10/71	VIII. Langat, Handwara, Kashmir
9755	Mohd. Ayub Khan Gh. Mohd. Khan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	1035 28/05/04	Baramulla Town, Distt. Baramulla
9756	Mohd. Ayub Wani Mohd. Sultan Wani	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	668 02/09/03	VIII. Naidihal, Distt. Baramulla
9757	Mohd. Ayub Sofi Mohd. Abdulla Sofi	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	398 30/07/03	VIII. Ashtangoo, Bandipora, Baramulla



9758	Mohd. Baqir Mir Gh. Quadir Mir	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	780 17/09/03	Vill. Sanzipora, Tehsil Choudoora, Budgam, Kashmir
9759	Mohd. Bhatt Rasool Bhatt	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1969	143 08/02/72	Vill. Manigam, Tehsil and Distt. Gandharbal, Kashmir
9760	Mohd. Farooq Dar Ali Mohd. Dar	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1997	287 22/10/03	Wadwan, Distt. Budgam
9761	Mohd. Habi Ahmed Habi	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	100 06/07/72	Ghairar Sharief Budgam, Kashmir
9762	Mohd. Hamid Belg Hanif Belg	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	114 06/02/73	Vill. Balkota, Tehsil Uri, Distt. Baramulla, Kashmir
9763	Mohd. Hanief Ganai Ab. Rehman Ganai	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	506 16/10/03	Vill. Adina Magam, Distt. Budgam
9764	Mohd. Haq Nawaz Mohd. Akbar Najar	BUMS Muslim Univ. Aligarh 1974	139 14/04/76	Kishtwar Distt. Doda
9765	Mohd. Ibrahim Bhat Gh. Rasool Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	722 27/06/03	Archgam, Banipora, At present Nowshera, Srinagar
9766	Mohd. Iqbal Bhat Gh. Rasool Bhat	BUMS Muslim Univ. Aligarh 1964	125 05/03/74	Masjid Moh. Badarnah, Distt. Doda
9767	Mohd. Iqbal Wani Ab. Rehman Wani	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	759 13/08/03	Gaserena, Kulgam, At present New Colony, Bejabela, Anantnag
9768	Mohd. Iqbal Wani Bashir Ah. Wani	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	815 14/12/03	Babpora, Khrew, Pampora, Distt. Pulwama
9769	Mohd. Ishaq Wani Ali Mohd. Wani	BUMS Dev. Ahilya Vish., Indore 1998	557 17/10/03	Vill. Chawa, PO Arth, Budgam, Distt. Anantnag
9770	Mohd. Jamal Bhat Mohd. Sikinder Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	670 14/08/03	Set No. 3, Old Building Karitbagh, Tehsil Handwara
9771	Mohd. Khaliq Anjam Nazir Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	396 09/07/03	Distt. Poonch

9772	Mohd. Maroof Mohd. Farooq	BUMS MUHS, Nasik 2003	1237 10/03/05	Darhal, Malkan(Topa), Distt. Rajouri
9773	Mohd. Munawar Abdul Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	629 09/07/03	Mattiong, Sopore, Distt. Baramulla
9774	Mohd. Muzaffar Jan Gh. Mohiuddin	BUMS Delhi Univ., Delhi 1999	534 22/07/03	Pollpora, Safapora, Sonawari, Distt. Baramulla
9775	Mohd. Rafi Thokur Ab. Ahsad Thokur	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	498 09/07/03	Wagoora, Distt. Baramulla
9776	Mohd. Saif-ud-din Mohd. Amin	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	169 05/07/72	Vijl. Wadwan, PO Solbug, Budgam, Kashmir
9777	Mohd. Saleem Gadoo Gh. Rasool Gadoo	BUMS Univ. of Poona, Pune 2005	1323 10/06/05	Kranushuka Colony, Nageen Bagh, Sopore, Baramulla
9778	Mohd. Shafi Noor Mohd. Dar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	611 01/09/03	VIII. Russu, Beerwa, Distt. Budgam
9779	Mohd. Shafi Bhat Gh. Ahmed Bhat	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	725 09/07/03	VIII. Chevera, Magam, Distt. Budgam
9780	Mohd. Shafi Dar Gh. Mohd. Dar	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1998	296 27/06/03	Hathlangoo, Sopore, Distt. Baramulla
9781	Mohd. Shahaneez Makdoom Ghulam Nabi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2002	252 14/08/03	VIII. Tujar, Sharief, Sopore
9782	Mohd. Sharief Dewani Zila-ud-din	Hakim-Hazik Tibbia College, Lahore 1941	65 23/10/71	VIII. Kanan, Bandipora, Kashmir
9783	Mohd. Sharif-ud-din Qureshi Mohd. Syeed	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1958	111 23/10/71	Manigam Gandherbal Srinagar (Kashmir)
9784	Mohd. Sultan Mohd. Maqbool Sheikh	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 2000	384 16/10/03	VIII. Doyan, Tehsil, Chadoora, Distt. Budgam
9785	Mohd. Sultan Paray Mohd. Maqbool Paray	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	676 02/12/03	Wadipora, Sopore, Distt. Baramulla

9786	Mohd. Syed Rather Gh. Quadir Rather	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	620 25/06/03	Aramwara, Via. Yargama, Shopian, Distt. Pulwama
9787	Mohd. Taayub Shah Peer Mohd. Arsadullah	Fazl-e-Tib-o-Jarahat A&U Tib Coll., Delhi 1946	50 23/10/71	Ash-Muqam Anantnag, Kashmir
9788	Mohd. Yaqoob Bhat Gh. Mohd. Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	424 22/07/03	VIII. Nayra, Poorahba, Pulwama, Distt. Pulwama,
9789	Mohd. Yaseen Ganai Ab. Salam Ganai	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	644 24/06/03	Panzgam, Muggund, Distt. Baramulla
9790	Mohd. Yousuf Dintoo Ab. Rahim Dintoo	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	699 27/05/03	Chenkipora, Sopore, Distt. Baramulla
9791	Mohd. Yousuf Hussain Bashir Bahudin Hakim	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	919 25/12/03	Sherwani Colony, Khujabagh, Baramulla
9792	Mohd. Yusuf Langoo Gh. Mohd. ud-din Langoo	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1969	142 08/02/72	Moharan Sapore, Kashmir
9793	Mohd. ud-din Mohd. Sadiq Wani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1972	118 03/08/73	Bijbehara Distt. Anantnag, Kashmir
9794	Mufti Mohd. Tahir Mufti Mohd. Qasim-ud-din	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1960	133 04/02/76	Bechapura Soura-2, Srinagar, Kashmir
9795	Mukhtiar Ahmad Habib Ullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	1332 26/08/05	Bezgam, Kellan, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9796	Mumtaz Parrey Ahad Parrey	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	768 02/09/03	VIII. Sabos, PO Kreeni, Distt. Baramulla
9797	Munawar Arifa Ab. Rahim Bhat	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	937 25/12/03	Nunar Ganderbal, Srinagar
9798	Munawar Iqbal Mohd. Iqbal	BUMS MUHS, Nasik 2004	1283 20/04/05	Mir Brothers House, Flourdoss Abad, Sunjwan Road, Near Masjid, Jammu
9799	Muneer Ahmad Wani Ali Mohd. Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	753 13/08/03	VIII. Panzan, Distt. Kupwara

9800	Muneera Akhtar Gh.Nabi Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	476 26/06/03	VII. Shripura, Tehsil Kulgam, Kashmir
9801	Munish Kumar Koul NN Koul	BUMS Rajasthan Univ., Sagar 1988	559 22/07/03	Sangrampora, Tehsil Sopore, Presently Zhen Srinagar
9802	Munshi Shabam Amin Munshi Mohd.Amin	BUMS MUHS, Nasik 2004	1290 03/06/05	Zarimohalla, Ampora, Lal Bazar, Srinagar
9803	Murasaleem Hassan Gh.Hassan	BUMS Univ. of Poona, Pune 2001	588 17/09/03	Moh.Zadi Masjid, Safakadal, Srinagar
9804	Mushtaq Ah. Ali Mohd.Dar	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	742 30/07/03	Chountipora, Mawar, Handipora, Distt. Kupwara
9805	Mushtaq Ah. Bhat Gh.Quadir Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1988	841 17/12/03	Changa, Tehsil Bhalessa, Distt. Doda
9806	Mushtaq Ah. Malik Mohd. Yousuf Malik	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1985	1321 29/07/05	Tuler Phathihar, Sopore, Distt. Baramulla
9807	Mushtaq Ah. Ganai Gh.Nabi Ganai	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	471 14/08/03	VII. Dhangund, Sri Guffara, Tehsil Belbehra, Distt. Anantnag
9808	Mushtaq Ah. Naikoo Gh.Hassan Naikoo	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1982	786 17/09/03	Qadeem, Idd-Gah, Distt. Baramulla
9809	Mushtaq Ah. Wani Mohd.Abdullah Wani	BUMS Dr. H.G. Vish., Sagar 1985	409 01/08/03	VII. Wedwan, Solbug, Distt. Budgam
9810	Mushtaq Ahmad Bashir Ahmed Aga	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 1997	646 16/10/03	VII. Kulangam, Tehsil Handwara, Distt. Kupwar
9811	Mushtaq Ahmed Mohd. Shah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	166 08/07/72	Moh. Jamia Masjid Bhadarwah, Jammu Province
9812	Mushtaq Ahmed Dar Ali Mohd.Dar	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	439 22/06/03	VII. Samboora, Tehsil Pumpora, Distt. Poonch
9813	Mushtaq Mohd. Bhat Mohd. Ismail	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1988	406 14/08/03	VII. Saloo, Sopore, Baramulla

9814	Mushtaq Naiku Gh. Hassan Naiku	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1994	515 14/08/03	Mon. Qadeem, Idgah, Baramulla
9815	Mushtaq-ul Ahmed Bhat Nabi Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	258 24/06/03	VIII. Noida, Kralmod, Tehsil Dooru, Distt. Anantnag
9816	Mustaq Ah. Kumar Ab. Ahmad Kumar	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2004	1062 20/06/04	Magam, Tehsil Chadura, Distt. Budgam
9817	Muzaffar Ah. Malik Gh. Hassan Malik	BUMS Delhi Univ., Delhi 2001	735 01/08/03	VIII. Lowheri, Check, Beerwa, Distt. Budgam
9818	Muzaffar Ah. Wani Gh. Mohd. Wani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	575 17/10/03	VIII. Palhalan, Pattan, Distt. Baramulla
9819	Muzaffar Ahmad Abdul Aziz Mir	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	687 17/10/03	VIII. Gund Regch, Chandoora, Distt. Budgam
9820	Muzaffar Ahmad Gh. Mohd. Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2005	1235 01/03/05	Chinagund, Kanelwan, Tehsil Bejbehara, Distt. Anantnag
9821	Muzaffar Ahmad Qureshi Bashir-ud-din	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1997	317 14/08/03	Naid Khai Tehsil Sunawari, Distt. Baramulla
9822	Muzaffar Din Ahmad Gh. Ah. Bhat	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	1231 03/02/05	Alas Bazipora, Bandipora, Distt. Baramulla
9823	Muzaffar Hussain Nizimud Din Mintoo	BUMS Nagpur Univ., Nagpur 1998	661 16/10/03	Atholi, Paddar, Tehsil Kishtwar, Distt. Doda
9824	Muzaffar Hussain Nazimud-Din	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	661 16/10/03	Atholi, Baddar Tehsil Kishtwar, Distt. Doda
9825	Muzaffar Hussain Khan Mohiuddin Khan	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1998	294 01/08/03	VIII. Achabal Sopore
9826	Muzamil Jeelani Gh. Jeelani Zargar	BUMS Univ. of Poona, Pune 2004	986 04/02/04	Lal Bazar, Srinagar
9827	Muzamil Mubarak Mubarak Ahmed	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2004	1055 01/06/03	Guru Bazar, Srinagar, A/P Lal Nagar, Chanpora, Srinagar

9828	Muzamil Shafi Mohd. Shafi	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2001	513 16/10/03	Chantipora, Veerinnag, Distt. Anantnag
9829	Muzmil Saleem Abdul Salam Wani	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	645 14/08/03	VIII. Sharisharief, Distt. Budgam
9830	Nadlern Nazir Ahmad Nazir Ahmed	BUMS MUHS, Nasik 2005	1241 10/03/05	Town Hall, Sopore, Distt. Baramulla
9831	Naseer Ahmad Peerzada Gh. Ah. Peerzada	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2003	739 01/06/03	VIII. Naidkthey, Sonawari, Distt. Baramulla
9832	Nayama Ahmad Mohd. Shafi Wani	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 2000	306 16/10/03	VIII. Trailbala, Distt. Pulwama
9833	Nazima Tabasum Ab. Majid Zargar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	746 01/08/03	VIII. Bhalla, Tehsil Thathri, Distt. Doda
9834	Nazir Ah. Ganai Gh. Nabi Ganai	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	502 14/08/03	VIII. Adna, Magam, Distt. Budgam
9835	Nazir Ah. Wani Gh. Mohd. Wani	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2003	980 08/01/04	Lawrence Chak, Supnen, Magam, Distt. Bulgam
9836	Nazir Ahmad Satar Rather	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	619 22/07/03	VIII. Trail, Distt. Pulwama
9837	Nazir Ahmad Hussain Hakim	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	170 05/07/72	Dalgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9838	Nazir Ahmad Mohd. Maqbool	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2000	511 16/10/03	VIII. Checkhama, Tehsil, Pattan, Distt. Baramulla
9839	Nazir Ahmad Gh. Rasool	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	177 17/04/03	Rawal Pura, Bye Pass, Srinagar, Kashmir
9840	Nazir Ahmad Abdul Rahim Bhat	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1997	777 07/09/03	Aglar, Goshbough, Pattan, Distt. Baramulla
9841	Nazir Ahmad Bhat Abdul Ahad Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	1338 01/10/05	VIII. Moosa, Tehsil Bandipora, Distt. Baramulla

9842	Nazir Ahmad Kundroo Gh. Mohd. Kundroo	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1972	141 08/02/72	Bragam, P.O. Duru Tehsil Anantnag, Kashmir
9843	Nazir Ahmad Mir Gh. Quadir Mir	BUMS Delhi Univ., Delhi 1998	350 16/03/03	Gundipora, Pulwama, Kashmir
9844	Nazir Ahmad Nakash Armin Nakash	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	67 23/10/71	Malik Sahib Safakadal, Srinagar (Kashmir)
9845	Neelam Salam Abdul Salam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	427 27/06/03	Podgampoor, Anantnag, Kashmir
9846	Neelofar Akram Dar Mohd. Akram Dar	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 1999	264 22/07/03	Town Pulwama, Distt. Pulwama, (VIII. Deelipora) Kashmir
9847	Nighat Jabeen Gh. Mohd. Zaz	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	278 22/10/03	Moh. Saboon, Kucha, Zanakadal, Srinagar
9848	Nighat Nassrin Bashiruddin Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	715 23/06/03	Nageen Bagh, (Krantasheve) Sopora, Distt. Baramulla
9849	Nighat Rashid Abdul Rashid	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	632 16/10/03	VIII. Adroo, Magam, Distt. Budgam
9850	Nili Kant Bhat Sarwanand Bhat	Haziq-ul-Hukma Bupindra Tib. Coll. Patiala 1940	97 23/10/71	Shalyaar Habakadal, Srinagar, Kashmir
9851	Nirinder Singh S. Uttam Singh	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2000	596 07/09/03	VIII. Srangsoo, Phulitani, Anantnag
9852	Nirmala Kumari Magazine Shiv Jee Magazine	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	110 23/10/71	C/o 04 Gali Khilonian, Pacca Danga, Jammu
9853	Nisar Ah. Langoo Mohd. Yaseen Langoo	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	697 27/05/03	Bilal Colony, Sopore, Distt. Baramulla
9854	Nisar Ah. Mir Mohd. Dillewar Mir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	971 01/01/04	Ahmabad, Kulgam, Distt. Anantnag
9855	Nisar Ahmad Kar Gh. Nabi Kar	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore. 1997	308 16/10/03	Trail Bhalla, Distt. Pulwama

9856	Nisar Ahmed Abdul Rashid Baig	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1997	654 16/10/03	Khojpora, Nowshera, Srinagar
9857	Nisar Ahmed Bhat Mohd. Abdullah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	310 23/06/03	Awantipora, Distt. Pulwama
9858	Nisar Ahmed Wagey Ab. Ahad Wagey	BUMS Devi Ahilya Vish, Indore 1997	467 22/07/03	Ghadi Mujkund, Srinagar, Kashmir
9859	Nissar Ali Mir Mohd. Ramzan Mir	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	751 14/08/03	Abutrus Chowk, Safdon, Distt. Budgam
9860	Nusrat Bashir Bashir Ahmed Belg	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	231 14/08/03	Devi Aangan, Hari Parbat, Srinagar, Kashmir
9861	Nusrat Jeelani Gh. Jeelani	BUMS Univ. of Poona, Pune 2003	451 14/08/03	Lal Bazar, Srinagar, Kashmir
9862	Nusrat Kawosa Muzaffar Ah. Kawoosa	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	597 20/07/03	Damoley Pulwama Presently at Firdous Colony, Baspura, Srinagar
9863	Nuzhat Manzoor Manzoor Ahmed	BUMS Delhi Univ. Delhi 1999	314 23/06/03	Moh. Hamambal, Khanyaar Presently Raiteng Khanyaar Srinagar
9864	Nuzhat Rashid Ab. Rashid	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	303 23/09/03	Moh. Narsingh Garh, Srinagar
9865	Panna Lal Nihal Chand	Haziz-i-uli Hukma Bupindra Tib. Coll. Patiala 1950	134 20/03/76	Muthi Miran Tehsil Akhnoor, Jammu
9866	Parveer Ahmed Ghulam Nabi	BUMS Delhi Univ., Delhi 1990	959 25/12/03	Sopore, Distt. Baramulla
9867	Parveez Ahmad Shah Gh. Mohd. Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	240 23/06/03	VIII. Ussion Solepura Kunzer, Tehsil Tehgmarg, Distt. Baramulla
9868	Parvez Ah. Rather Gh. Ahmed Rather	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	832 17/12/03	Shirpora, Distt. Anantnag, Kashmir
9869	Parvez Ahmad Gh. Mohd. Teeli	BUMS Univ. of Sagar, Sagar 1996	711 24/06/03	Manigam, Gandharbal, Srinagar



9870	Parvez Mir Mohd. Sharief Mir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	741 30/07/03	Soti Blessa Gondhu Doda
9871	Parvez Wani Prof. PM wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	701 28/05/03	Nishab Bagh, Paray Pora, Bhagati Barzulla, Srinagar
9872	Peer Abdul Qayum Peer Noor-ud-Din	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1962	7 23/10/71	Barzulla-5, Srinagar (Kashmir)
9873	Peer Altaf Hussain Peer Kutub Din	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	587 17/09/03	Fureh Kulgam, Distt. Anantnag
9874	Peer Shamsu-din Parisa Peer Gh. Ahmad Paras	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	108 31/08/72	VIII. Pachan, PO Dandipura, Distt. Baramulla, Kashmir
9875	Peer Zada Ifkhar Ahmad Peer Zada Gh. Ahmad	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1998	524 16/10/03	VIII. Kanangund, Bandipora, Distt. Baramulla
9876	Peerzada Nisar Ahmed Mohd. Rafeeq	BUMS Dr. HG Vish., Sagar 1995	564 28/10/04	VIII. Firsai, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9877	Perzada Sajad Hussain Peerzada Abdul Atta Zahora	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	480 26/06/03	Simani Colony, Distt. Anantnag
9878	Pran Nath Dhar Pt. Madhooju Dhar	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	30 23/10/71	Dhar Niwas, Bagh-i-Sunder Chattabal, Srinagar (Kashmir)
9879	Pran Nath Pandita Radha Krishan	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	1028 23/03/04	H.No. 121/5, Shanti Niwas, Muthi Chowk, Jammu
9880	Prince Ashaq Nabi Mir Gh. Nabi Mir	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	456 23/06/03	Kellar, Pulwama, Kashmir
9881	Pushkar Nath Kailash Ram	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	16 23/10/71	Lajura Pulwama Srinagar (Kashmir)
9882	Pushkar Nath Madho Ram	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	139 08/02/72	VPO Trehgam, Distt. Kupwara, Kashmir
9883	Pushkar Nath Madhu Ram	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1970	162 13/09/83	VIII. Trehgam, Distt. Kupwara, Kashmir

9884	Qayoom Shah Mohd. Sarwar Shah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	115 06/02/73	VIII. Drugmulla, PO Drugmulla, Distt. Kupwara, Kashmir
9885	Qazi Ab. Ghani Qazi Gh. Mohi-ud-din	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1962	116 18/06/73	C/o Govt. Dispensary Vassu, Distt. Anantnag
9886	Qudsia Nizami Gh. Mohd.	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	935 25/12/03	Gurwar, Bejbehara, Anantnag
9887	Qurat-ul-ein Nazir Ahmed Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	651 24/01/03	Baspaur, Srinagar, Kashmir
9888	Rafi Ahmed Bhat Ab. Rashid Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	639 27/06/03	Aragram Bandipooora, Distt. Baramulla
9889	Rafia Aziz Aziz ud din	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	723 09/02/03	Wagora, Distt. Baramulla
9890	Rafiq Ahmed Sofi Mohd. Sultan Sofi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	464 23/06/03	Bazar Batmali, Srinagar, Kashmir
9891	Rafiq Banoo Ghulam Nabi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	634 26/06/03	Duddipora, Handwara, Distt. Kupwara
9892	Raj Kumar Kilam Prem Nath Kallim	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	120 08/08/73	Karfalli Moh and Bridge Srinagar, Kashmir
9893	Rajiv Parvez Mohd. Yousuf	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	577 14/08/03	Bazar Masjid, Nohri Kadal, Srinagar (Kashmir)
9894	Rakesh Kumar Pandit Mohan Krishan Pandit	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1995	529 22/07/03	VIII. Zalpora, Sopore (A/P), H.No. 128, Lane No. 4, Anand Nagar, Patoli, Jammu
9895	Raleema Farooq Mohd. farooq Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	1266 16/05/05	Gupt Ganga Ishber, Nishat, Srinagar
9896	Raqia Akhtar Gh. Mohd. Malik	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	256 24/06/03	Ashabel, Sopora, Distt. Baramulla
9897	Rasool Ahenger Rashid Ahenger	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1964	204 05/07/72	Bhadenwah, Distt. Doda, Jammu Province

9896	Rasool Bhai Anand Bhatt	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1971	112 23/10/71	322, Jawahir Nagar, Srinagar, Kashmir
9899	Rasool Mir Ab. Aziz Mir	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	197 05/07/72	VIII. Bugam, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9900	Rattan Lal Koul Bhagwan Dass Koul	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1971	33 23/10/71	VIII. Hardutoru, Distt. Anantnag, Kashmir
9901	Ravinder Kumar Pandita Bansi Lal Pandita	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1991	172 16/04/02	H. No. 83, Lane No. 3, Adarsh Nagar, Batalab Jammu
9902	Reena Zutshi Autar Krishan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	319 16/10/03	Vichamag, Nowshera, Srinagar
9903	Refat Nazir Nazir Ah. Shah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1998	601 25/07/03	VIII. Ashajipora, Anantnag, Kashmir
9904	Rehana Farooq Farooq Ab. Ganai	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	1033 17/05/04	Bag-i-ali Mardan Khan, Now Shera, Srinagar
9905	Rehana Ganni Abdul Gani	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1995	720 27/06/03	New Colony Sopore, Distt. Baramulla
9906	Rehana Maqsood Maqsood Ahmed	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	717 23/06/03	Azad Basti, Natipora, Srinagar
9907	Reyaz Ahmad Dar Ab. Rehman Dar	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1997	279 22/10/03	VIII. Warwan, Distt. Budgam
9908	Riaz Ah. Dar Mohd. Shaban Dar	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1997	313 23/06/03	Ranju Sopore, Distt. Baramulla
9909	Riaz Ah. Khan Abdul Majid Khan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	757 18/08/03	Iqbal Colony, Baramulla
9910	Riaz Ah. Tantrey Gh. Rasool Tantrey	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1993	703 28/05/03	Bollpora, Distt. Kupwara
9911	Riaz Ah. Wani Ali Mohd. Wani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	435 22/07/03	Shopian, Tehsil & Distt. Pulwama

9912	Riaz Ahmad Dar Ab. Samad Dar	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	452 09/07/03	Viii. Wagula, Distt. Baramulla, Kashmir
9913	Riaz Ahmad Dar Gh. Rasool Dar	BUMS SV Univ., Tirupati 1992	716 09/07/03	Bonapora, Batamalo, Srinagar,
9914	Riyaz Ab. Tele Ab. Gani Tele	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2001	724 09/07/03	Noor Bagh, Bhagwanpura, Srinagar
9915	Riyaz Ahmed Mehboobi Nazir Ahmed	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 2000	410 01/08/03	Viii. Panjgam, Pulwama, Distt. Pulwama, Kashmir
9916	Riyaz Ahmed Wani Ab. Ahad Wani	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	747 14/08/03	Viii. Hardushiel, PO Dialgam, Anantnag
9917	Riyaz-ul-Hassan Gh. Hassan Bhat	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1997	373 09/07/03	Hanjiwara, Pattan, Distt. Baramulla
9918	Riyaz-ul-Rehman Lone Gh. Mohd. Lone	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1999	376 09/07/03	Ward No. 7, Bandipora, Baramulla, Kashmir
9919	Roheul Nissax Gh. Mohiuddin Beg	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	775 01/09/03	H.No. 8, Rose Lane, New Colony, Baspota, Srinagar
9920	Rooli Bashir Bashir Ahmed Hajni	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	415 01/08/03	Viii. Anghidora, Distt. Kupwara, Kashmir
9921	Roop Krishan Kiku Shanker Nath Tiku	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	196 05/07/72	Viii. Ratnipura, Pulwama, Kashmir
9922	Roshan Lal Nand Lal Lahaori	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1970	137 08/02/72	Shopian, PO Shopian, Kashmir
9923	Roshan Lal Dhar Bishamber Nath Dhar	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1963	8 23/10/71	Karfa Mohalla Srinagar (Kashmir)
9924	Rouf Ahmad Beg Zaffar Ullah Beg	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	421 14/08/03	C/o Shah & Co. Uri, Distt. Baramulla
9925	Rouf Saleem Khan Mohd. Saleem Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	370 01/09/03	Hafiz Bagh, Naseem Bagh, Srinagar, Kashmir

9926	Rubeena Mustafa Gh. Mustafa Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	346 16/03/03	Baspura, Srinagar
9927	Rubia Khatoon Shoukat Ali	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 1998	341 14/08/03	Narorabad, Khanpura, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
9928	Rubina Aazimi Ghulam Mohd. Kababi	BUMS MUHS, Nasik 2005	1302 21/06/05	Nageen Bagh, Sopore, Distt. Baramulla
9929	Ruhall John Mohd. Yousuf	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	583 22/07/03	40 A, New Colony, Belmaloo, Srinagar
9930	Ruhee Jan GM Mir	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	164 08/04/03	Rawalpura, Srinagar, Kashmir
9931	Ruquiya Karim Ab. Karim	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	379 09/7/03	Baghisunder Pain, Ghattahal, Srinagar
9932	Sabia Jaan Sheikh Ghulam	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	311 22/10/03	Lal Bazar, Srinagar
9933	Sabia Kawosa Gh. Nabi Kawosa	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	442 02/09/03	Firdous Colony, Baspura, Srinagar
9934	Sabia Yashmeen Gul Mohd. Keena	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	259 09/07/03	SICOP Road, Bij Behra, Distt. Anantnag, Kashmir
9935	Sabha Hamid Syed Hamid Ullah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	796 17/10/03	Vill. Agler Shopian, Quazi Bagh, Rawalpura, Srinagar
9936	Sadarf Yasin Mohd. Yasin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	270 18/06/03	Moh. Azad Gunj, Distt. Baramulla
9937	Saheena Khurshid Khurshid Ahmed Lolu	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	163 08/04/03	Bakshibag, Anantnag, Kashmir
9938	Sahidakarim Abdul Karim Bhatt	BUMS Jamia Hamdard Univ., Delhi 2002	275 09/07/03	Baghi Sunder At present H.No. 19 A, Jawahar Nagar, Srinagar
9939	Sahila Bashir Bashir Ahmed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	273 09/07/03	Yaseen Colony, Arampora, Sopore, Distt. Baramulla

9940	Sahmir Ahmad Bhat Gh. Nabi Bhat	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2003	798 17/10/03	Wanganpora, Idd-Gah, Sringar
9941	Salman Shabnam Gh. Mohd. Bhat	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	712 26/06/03	Kadalebal, Pampora, Distt. Pulwama
9942	Sajad Ahmad Malik Ab. Satar Malik	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2003	774 01/09/03	Peer Bagh, Hyderpora, Distt. Budgam
9943	Sajad Ahmad Bhat Nabi Bhat	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore 1997	501 18/10/03	Poshware, Khannabal, Distt. Anantnag, Kashmir
9944	Sajad Ahmad Sheikh Hamid Sheikh	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	463 4/4/03	Vill. Shalpora, PO Achabal, Distt. Anantnag, Kashmir
9945	Sajad Ahmad Sheikh Abdul Hamid Sheikh	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	831 17/12/03	Shehallipora, Achabal, Anantnag
9946	Sajad Ahmed Gh. Nabi Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	649 21/10/03	Gulahan Abad Samal A/P KP Road, Anantnag
9947	Sajad Bashir Bashir Ahmed	BUMS Univ. of Sagar, Sagar 2001	551 23/06/03	Mugdoom Mohalla, Tral, Distt. Pulwama
9948	Sajad Hussain Risho Nazir Ab. Risho	BUMS CSM Univ. Kanpur 2002	698 23/06/03	Barshella, Distt. Doda A/P Upper Soura, Srinagar
9949	Sajadul Rehman Ab. Rehman Sheikh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	255 27/06/03	Jadind Nowshera (Ur) Distt. Baramulla
9950	Sejaf Bashir Bashir Ahmed Gunjoo	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	347 18/03/03	Ahmad Nagar, Baspura, Srinagar
9951	Salma Gulzar Ghulam Nabi	BUMS CSM Univ. Kanpur 2003	1026 29/07/04	Jodgan Kadim, Baramulla
9952	Sameen Ahmad Ahmed Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	165 08/04/03	Mohalla Lal Bazar, (Budshah Mohalla) Srinagar, Kashmir
9953	Sameena Amin Mohd. Amin Quazi	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	359 16/10/03	Gulshan Nagar, Nowgam, Distt. Budgam

9954	Samina Gh.Nabi Sheikh Gh.Nabi Sheikh	BUMS MUHS, Nasik 2005	1240 10/03/05	Nageen Bagh, Krank Shivam Colony, Sopore, Distt Baramulla
9955	Sanjay Dhar Omkar Nath	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	509 16/10/03	Presently H.No.5, Talab Tillo, Jammu
9956	Sanjay Gunju Shibal Lal Gunjoo	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2003	806 17/10/03	Moh. Malpora, Srinagar A/P, Gudboha, Bantatalab, Jammu
9957	Sanjay Kumar Koul ML Koul	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	810 07/12/03	H.No.26, Lane No.1, Laxminagar, Muthi, Jammu
9958	Sanjay Kumar Pandita Ghaman Lal Pandita	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1997	194 23/04/03	84, Adarsh Nagar, Bantatalab, Jammu
9959	Sanjay Kumar Pandita Hadey Nath Pandita	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	602 25/07/03	701, Subhash Nagar, Jammu
9960	Sanjay Raina JN Raina	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	512 18/10/03	Seerjagir, Sopore, Distt Baramulla
9961	Sanjeev Kumar Koul Radha Krishan Koul	BUMS Delhi Univ., Delhi 1993	516 14/08/03	Kachwa Mulan, Baramulla, Kashmir, (A/P) 442, Goggvitib, Topsharkhanja, Jammu
9962	Sareer Ahmed Jan Nizam ud din Khan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	843 17/12/03	Achabal, Sopore, Distt Baramulla
9963	Sartaj Ahmed Abdul Samad Khandey	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	621 14/08/03	Lolan, Monghalli, Anantnag (Kashmir)
9964	Sarwan Nath Maya Dass	Kamil-e-Tib-o-Jarahat A&U Tib Coll., Delhi 1928	23 23/10/71	C/o Aftab Clinic, Poonch, Jammu
9965	Satish Kumar Lassa Kak Raina	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1993	544 23/06/03	Bantatalab, Jammu
9966	Sayed Ali Asghar Shah Ali Hyder Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1999	940 25/12/03	Gursai, Tehsil Mandar, Distt. Poonch
9967	Sayka Mustaq Mushtaq Ahmed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	797 17/03/03	Sheerwani Colony, Distt Baramulla

9968	Seema Mustaffa Gh. Mustaffa Shah	BUMS Delhi Univ., Delhi 2002	484 14/08/03	Amrida Kadal, Nowshera, Srinagar
9969	Seema Shah Aman Ullah Shah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	356 16/10/03	Tral pain, Distt. Pulwama, Kashmir
9970	Sqafaq Ahmed Regoo Mohd. Shabir Ragoo	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	454 09/07/03	Moh. Jalal, Jalal Sahib, Baramulla
9971	Shabana Gundnu Gh. Ah. Gundroo	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	447 02/09/03	Zadibal, Khanyaar, Srinagar
9972	Shabana Khan Asif Mohd. Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	706 28/05/03	Vill. Ongam, Bandipora, Distt. Baramulla
9973	Shabeer Ahmed Ab. Gaffar	BUMS Osmania Univ., Hyderabad 1998	1016 25/02/04	Batapora, Ratsoln, Kanihama, Magam, Distt. Budgam
9974	Shabir Ah. Bhat Mohd. Shabir Bhat	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2001	533 22/07/03	Vill. Hanjwara, Tehsil Pattan, Distt. Baramulla
9975	Shabir Ah. Dar Ab. Ahad Dar	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	377 09/07/03	Oazipora, Putushay, Bandipora, Distt. Baramulla
9976	Shabir Ah. Dar Gh. Quadir Dar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2003	744 30/07/03	Vill. Shanow, Tehsil Handwara, Distt. Pulwama
9977	Shabir Ahmad Parray Gh. Mohd. Parray	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	704 28/05/03	Handipora, (Paraypora Sopore), Distt. Baramulla
9978	Shabir Ahmad Qureshi Ab. Rashid Qureshi	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	401 30/07/03	Baharabad, Hajan Sonwarl, Baramulla, Kashmir
9979	Shabir Hussain Shah Munir Hussain Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1996	958 25/12/03	Sethwah, Poondh
9980	Shadi Lal Pandita Pyara Lal Pandita	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1996	206 25/04/03	H.No. 79, Gola Pulli, Lane No. 4, Sham Viher, Talabillo, Jammu
9981	Shafaqat Salim Ahad Saleem Turay	BUMS CSM Univ. Kanpur 2003	972 01/01/04	New Colony, Shopian, Distt. Pulwama



9982	Shafi Ah. Shah Gh. Mohiuddin Shah	BUMS Dr.HG Vish, Sagar 1995	553 23/06/03	Sangam, Tehsil Bejbehra, Distt. Anantnag
9983	Shaheen Shafi Mohd. Shafi Mir	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	836 12/12/03	New Colony, Bijbehra, Kashmir
9984	Shaheena Akhtar Lassa Sahikh	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2002	612 01/08/03	K. Kalan, Bajbehra, Distt. Anantnag
9985	Shaheena Qazi Mohd. Ali Qazi	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	167 08/04/03	Badamwari, Haval, Srinagar, Kashmir
9986	Shaheena Shabnam Mohd. Ashraf	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	799 16/10/03	Bathama, Distt. Budgam
9987	Shah Jajan Wani Gh. Mohd. Wani	BUMS Univ. of Poona, Pune 1999	973 20/06/04	Moh. Mamkhali, Sopore, Barmulla
9988	Shaid Hussain Bhat Gh. Mohd. Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	934 25/12/03	Khanwarari, PO Bazgam, Kulgam, Anantnag
9989	Shaida Hassan Gh. Mohd. Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	450 25/06/03	VIII. Khanrari, PO Bhugam, Tehsil Bhugam, Distt. Anantnag,
9990	Shakeel Ah. Lone Hassan Lone	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	938 25/12/03	Darshipora, Banihal, Doda
9991	Shakeel Ahmad Gh. Ahmed Rather	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	631 / /	VIII. Chakaroo, Tehsil and Distt. Pulwama
9992	Shamas-ud-din Jalal Din	Kamil-e-Tib-o-Jaraht A&U, Tib Coll, Delhi 1939	121 08/02/72	Narpirstan, Fateh Kadal, Srinagar (Kashmir)
9993	Shamim Ah. Shontu GM Sontu	BUMS SV Univ., Tirupati 1994	783 17/09/03	Moh. Chalpan Kocha, KK Mohalla, Srinagar, Presently, H.No. 337-38, Begh-I-Mehtab, Srinagar
9994	Shamim Ahmed Bhat Ali Mohd. Bhat	BUMS CSM Univ. Kanpur 2003	419 31/07/03	VIII. Sondu Shimal, Tehsil Shopian, Distt. Pulwama
9995	Shamim Ahmed Rather Gh. Ahmed Rather	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	394 09/07/03	VIII. Watergam, Sopore, Kashmir

9996	Shanti Swaroop Kaphal Bhagat Ram	Hakim-i-Haziq Tibbia College, Lahore 1944	13 23/10/71	18, Reharl Exchange Road, Jammu
9997	Shariff-ud-din Ab. Ahsad Shah	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1974	126 01/08/74	Viii. Bugam, Tehsil Kudgam, Distt. Anantnag, Kashmir
9998	Shazia Mujeeb Mujeeb Ali Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	680 02/12/03	Bhagati Shora, Srinagar, Kashmir
9999	Shazia Mukhtar Mukhtar Ahmed Pandey	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	653 16/10/03	Presently Goripoor, Sanat Nagar, Srinagar
10000	Sheikh Mohd. Gh. Ahmad Sheikh	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2000	517 22/03/03	Songram, Dooru, Distt. Anantnag
10001	Sheikh Mohd. Ashraf Gh. Mohd. Sheikh	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2003	626 07/09/03	Iqbal Colony, Deelgam, Distt. Anantnag
10002	Sheikh Munir Majid Sheikh Ab. Majid	BUMS Delhi Univ., Delhi 1998	166 08/04/03	Sharwani Colony, Khujia Bagh, Baramulla, Kashmir
10003	Shenaz Rasool Gh. Rasool Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	331 16/10/03	Srinagar
10004	Shenez Altaf Peer Zada Altaf Ahmed	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	1236 07/03/05	Molvamohalla, Kadalbal, Pampora, Distt. Pulwama
10005	Shiban Lal Ganju Vish Nath Ganju	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1973	113 28/01/73	Mallapora, Habba Kadal, Srinagar, Kashmir
10006	Shibina Rasool Gh. Rasool Sofi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	694 25/06/03	Brellang, Sopore, Distt. Baramulla
10007	Shoukat Ahmad Wani Gh. Hassan Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2002	460 14/08/03	Viii. Manchowa, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag, Kashmir
10008	Shoukat Ahsan Wagey Mohd. Ahsan Wagey	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	718 26/06/03	Hardu Mandha Gusee, PODH Pora, Tehsil Kulgam (Anantnag)
10009	Shoukat Ali Abdul Gani	BUMS Muslim Univ Aligarh 1965	54 23/10/71	Khrew, Srinagar, Kashmir

10010	Shoukat Ali Ali Mohd. Bhat	BUMS Univ. of Poona, Pune 1999	583 29/09/03	Baba Raza Neegam, Sopore, Baramulla
10011	Shoukat Ali Shah Gh. Nabi Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	788 18/09/03	Naina Sangam, Tehsil Kulgam, Distt. Anantnag
10012	Showkat Ahmed Malik Ab. Rashid Malik	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	403 30/07/03	Warapora, Sopore, Distt. Baramulla
10013	Siama Ahmed Gh. Ahmed Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1999	286 22/10/03	Budshah Mohalla, Lal Bazar, Srinagar
10014	Siraj-ud-din H. Saifud din	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	98 18/09/72	Dhobipora, Gandharbal, Srinagar (Kashmir)
10015	Sofi Mehboba Gh. Quadir Sofi	BUMS Univ. of Poona, Pune 2002	930 25/12/03	New Colony, Sopore, Distt. Baramulla
10016	Sofia Ahmad Gh. Ahmad Najar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	175 16/04/03	Bih Behra, Distt. Anantnag, Kashmir
10017	Soom Nath Koul Bishamber Nath Koul	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1960	102 12/10/72	Dadi Kadal, Tankipora, Srinagar
10018	Soshan Ara Gh. Hassan Yetoo	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	426 27/06/03	Kadipora, Anantnag
10019	Sugad Hussain Shuja Abdul Rashid	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1993	1054 30/06/04	Singpora Kalan., Tehsil & Distt. Baramulla
10020	Suhail Anjum Peerzada Bashair Ahmad	BUMS Jamia Hamdard Univ. Delhi 2001	276 09/07/03	Kaldi Kadal, PO SR Gunj, Srinagar
10021	Sunil Dhar Bansi Lal Dhar	BUMS Delhi Univ., Delhi 1996	527 23/06/03	Palhalan, Pattan, Distt. Baramulla, C/o H.No. 53, Patoli Chowk, Jammu
10022	Sunil Koul Tej Bahadur Koul	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1998	203 25/04/03	137 F Janipura, Jammu (A/P)
10023	Sunil Koul Teh. Bahadur	BUMS Delhi Univ., Delhi 1994	528 23/06/03	VIII. Bangar, Choudhara, Distt. Budgam

10024	Sunil Kumar Maharaj Krishan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	569 22/07/03	VIII. Hanjiwarl, Pattan, Kashmir presently Deena Nagar, Jammu
10025	Suresh Kumar Pandita Makhan Lal Pandita	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1992	543 23/06/03	VIII. Siron, Dangarpore, Pattan, C/o 53 Colony Bohri, Jammu
10026	Suresh Kumar Tiku Soomnath Tiku	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1993	542 23/06/03	VIII. Rohama, Tehsil Sopore, Distt. Baramulla
10027	Suresh Kumar Tiku Soomnath Tiku	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1993	811 13/12/03	Lane No. 11, Surya Vihar, Bohri, Jammu
10028	Surinder Krishna Pandita Maheshwar Nath Pandita	BUMS Delhi Univ., Delhi 1985	943 25/12/03	D 1/19, Sector I, Durganagar, Jammu
10029	Sushil Kumar Bhat Brij Nath Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1997	568 22/07/03	VIII. Adina Beerwa, At present Gandhinagar, Jammu
10030	Syed Ab. Hussain Syed Rashid Ahmed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	433 23/06/03	Rajnipora, Pulwama
10031	Syed Abul Hassan Syed Ahmed Shah	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2000	732 25/07/03	Dab Wakora, Ganderbal, Srinagar
10032	Syed Altaf Hussain Syed Mohd. Abbas	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	745 01/08/03	Wahabpore, Distt. Budgam
10033	Syed Ashiq Hussain Shah Syed Farooq Ahmed	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1999	486 14/08/03	Dhobipora, Ganderbal, Srinagar
10034	Syed Basharat Gh. Jeelani	BUMS Delhi Univ., Delhi 1999	366 16/10/03	Budubagh, Khanyaar, Srinagar (Kashmir)
10035	Syed Gh. Hyder Shah Ali Hyder Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1995	567 22/07/03	VIII. Gurasal, Tehsil Mandhar, Distt. Poonch
10036	Syed Halder Syed Rasool	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	195 05/07/72	Ghattargam, Tehsil Chodhura, Distt. Budgam, Kashmir
10037	Syed Hussain Shah Mustaffa Shah	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	782 17/10/03	Chayara, PO Magam, Distt. Budgam

10038	Syed Irfana Latief Abdul Latief	BUMS Delhi Univ., Delhi 1995	672 01/08/03	Lal Bazar Srinagar, Kashmir
10039	Syed Mohd. Yousuf Syed Mohd. Jaffar	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	305 16/10/03	Vill. Graend Kalan, Distt. Budgam
10040	Syed Muzaffar Shah Syed Rasool Shah	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2001	693 14/08/03	Mathipora, Pattan, Distt. Baramulla
10041	Syed Shamim Parvez Syed Mohd. Mir	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2002	489 14/08/03	Kumell, Tehsil Handwara, Distt. Kupwara
10042	Syed Tahir Quadri Mohd. Hussain	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2002	235 08/07/03	Vill. Kaari, Tehsil Pattan, Baramulla, Kashmir
10043	Syed Tasaduq Jeelani Mahraj-ud-din	BUMS Delhi Univ., Delhi 1999	337 23/06/03	Raiteng, Khanyaar, Srinagar
10044	Syed Tehseen Syed Mohd. Syed	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	615 07/09/03	Vill. Kapran, Shopian, Distt. Pulwama
10045	Syed Zahora Razvi Syed Hussain Razvi	BUMS Univ. of Poona, Pune 1998	923 25/12/03	Dab Gandharbal, Srinagar
10046	Syed Mohd. Shafi Mohd. Amin	BUMS Kashmir Univ. Srinagar 1972	80 23/10/71	Dana Mazar Safakadal, Srinagar (Kashmir)
10047	Tahira Sharief Sharief-ud-din Shah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	174 16/04/03	Uhaunashal, Handwara, Distt. Kupwara, Kashmir
10048	Tahiya Quari Gh. Jeelani Quari	BUMS Univ. of Poona Pune 2002	445 14/08/03	Lal Bazar, Main stop, Srinagar
10049	Tajalli Zunooran Gani Gh. Hassan Masroor	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2002	438 09/07/03	Sangrama, Sopore
10050	Tamina Mushtaq Mushtaq Ah. Haroon	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2004	1034 17/05/04	Shajipora, Heven Colony, Anantnag, Kashmir
10051	Tankeera Yaseen Mohd. Yaseen Beg	BUMS Univ. of Poona, Pune 2001	444 22/10/03	Devi Angan, Hariparbat, Srinagar

10052	Tanveer Ahmed Nazir Ahmed	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2003	981 19/01/04	Near Girls Hr. Sec. School, Doda
10053	Tanveer Ahmed Zargar Mohd. Ishaq Zargar	BUMS Nagpur Univ., Nagpur 1998	678 02/12/03	Idd-gha Road, Doda City, Distt. Doda
10054	Tanveer Bashir Bashir Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	272 09/07/03	Yaseen Colony, Arampora, Sopore, Distt. Baramulla
10055	Tanveer Fatima Tariq Rahim	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	1017 25/02/04	Manzgam, Handwara, Distt. Kupwara
10056	Tanveer Riyaz Maqdomi Riaz Ah. Aaqdomi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	1234 22/02/05	Danglwacha, Rafiabab, Distt. Baramulla
10057	Tanveera Yousuf Mohd. Yousuf Bhat	BUMS Univ. of Poona, Pune 2001	457 23/06/03	Baghat, Sopore, Distt. Baramulla
10058	Taqidis Gulzar Gh. Ali Gulzar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	743 01/08/03	Hasnabad, Rainawari, Srinagar
10059	Tariq Ah. Bhat Gh. Hassan Bhat	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	817 14/12/03	Sherwani Colony, Khujbagh, Baramulla
10060	Tariq Ah. Jan Ab. Aziz Jan	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2000	519 07/09/03	Alosa, Tehsil Bandipora, Distt. Baramulla
10061	Tariq Ahmad Ab. Rashid	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1982	155 11/11/82	Vill. Chikaira, PO Magam, Distt. Baramulla, Kashmir
10062	Tariq Ahmad H. Ab. Wahid	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	355 16/10/03	Vill. Khaja-eligit Sopore, Distt. Baramulla
10063	Tariq Ahmad Kaloo Ab. Rehman Kaloo	BUMS Dr. H.G. Vish. Sagar 1995	299 29/05/03	Syed Sultanpur Sopore, Distt. Baramulla
10064	Tariq Hussain Mohd. Ramzan Ahenger	BUMS Rajasthan Univ., Jaipur 2001	558 22/07/03	Vill. Dool, Kishtwar, Distt. Doda
10065	Tariq Hussain Bhat Quadir Bhat	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	251 31/07/03	Vill. Liver, Tehsil Phalgam, Distt. Anantnag

Sl. No.	Name of the Candidate	Qualification	Age	Place of Birth
10067	Tariq Rahim Malik Ab. Rahim Malik	BUMS Devi Ahilya Vish., Indore, 2001	265 22/07/03	Vill Mazgam, Tehsil Handwara, Distt Kupwara
10068	Tasweer Fathima Khadam Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1996	545 23/06/03	Vill. Gussan, Tehsil Mandhar, Distt. Poonch
10069	Tej Krishna Bhat Soom Nanth Bhatt	BUMS Kashmir Univ., Srinagar 1972	106 26/10/72	Vill. Nagam, Tehsil Choudhura, Distt. Budgam, Kashmir
10070	Tejamul Malik GM Malik	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	1267 16/05/05	Manwal, Pampora, Distt. Pulwama
10071	Tkaha Nadeem Munawar Din	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	1224 14/01/05	Thathri, Distt. Doda
10072	Umar Majid Gh Rasool Ganai	BUMS CSJM Univ., Kanpur 2001	453 30/07/03	Vill. Kothina, Tehsil Krelli, Distt. Baramulla
10073	Vijay Pandit Shahwy Pandita	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 1997	193 23/04/03	16/7, Sector 1, Durganagar, Bantala, Jammu
10074	Wahid-ul-Hassan Gh. Hassan Mir	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2000	333 14/08/03	Budshahnagar, Natipora, Srinagar
10075	Yasir Aijaz Shah Aijaz Ahmed Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2001	422 14/08/03	Rashi Bazar, Anantnag, Kashmir
10076	Yasir Latief Ab. Latief Sheikh	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	790 24/09/03	Vill. Bhalla, Tehsil Bhadarwah, Distt. Doda
10077	Yousuf Saleem Ahad Ullah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1999	950 25/12/03	New Colony, New Road, Pulwama, Distt. Pulwama
10078	Zahid Hussain Gh. Mohiuddin	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2002	684 17/10/03	Gopalgora, Kulgam, Distt. Anantnag
10079	Zahida Nasir Nasirullah Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	473 09/07/03	Nowpora, Srinagar

10080	Zahoor Ab. Dar Gh. Ahmed Dar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	459 01/08/03	VIII. Sangam, Eidgah, Snnagar
10081	Zahoor Ah. Bandey Ali Mohd. Bandey	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	507 16/10/03	Gulshanabd, Sumal Puen, Anantnag
10082	Zahoor Ah. Shah Gh. Mohd. Shah	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2000	503 14/08/03	Nal Basti, Khannabal, Distt. Anantnag
10083	Zahoor Ahmad Khan Ab. Khaliq Khan	BUMS Delhi Univ., Delhi 2002	705 28/05/03	Himaherna, Songam, Distt. Kupwara
10084	Zahoor Ahmad Khan Safdar Ali Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2000	719 27/06/03	Gopalpora, Kalan (Pattan), Distt. Anantnag
10085	Zahoor Ahmad Sofi Mohd. Ab. Sofi	BUMS Rajasthan Univ. Jaipur 1999	344 16/03/03	VIII. Onagam, Bandipora, Baramulla
10086	Zahoor Hussain Bashir Ahmed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	630 27/06/03	Magam, Kulgam, Distt. Anantnag
10087	Zahoor Iqbal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2003	622 23/10/03	VIII. Manzgam, Handwara, Distt. Kupwara
10088	Zakir Hussain Hakim Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1999	540 23/06/03	VIII. Gussain, Tehsil Mandher, Distt. Poonch
10089	Zakir Hussain Shamsuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore 1998	584 24/09/03	VIII. Chand, Distt. Doda
10090	Zakir Hussain Fazul Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	764 14/08/03	Dadasan Bala, Tehsil Thannamandi Distt. Rajouri
10091	Zakir Hussain Shah Noor Hussain Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1998	541 23/06/03	VIII. Gussain, Tehsil Mandher, Distt. Poonch
10092	Zakir Hussain Shah Noor Hussain Shah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 1998	1003 16/02/04	Gursai, Tehsil Mandher, Distt. Poonch
10093	Zameer Ahmad Khota Ab. Gaffar Khota	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2004	1029 07/04/04	Mominabad, Ashajipora, Distt. Anantnag



10094	Zia Muneer Munir Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2002	989 01/01/04	Jetty Road, Khujabagh Baramulla
10095	Zeenak Rubina Sharief Din	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	731 22/07/03	Town Handwara, Distt. Kupwara
10096	Zilhume Nazir Ahmad Wani	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	360 24/11/03	Haji Bagh, New Colony, Bassapora, Srinagar
				P. R. SHARMA Registrar

### NEW DELHI 110058

13 MAY, 2008

No. 20-5/2008—CR Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Haryana and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto March 2007, by inserting serial No. 102342 of Ayurveda and 10097 of Unani onwards after the existing last Serial No. 102848 of Ayurved and 10102 for Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Haryana) from 1st April 2005 to 31<sup>st</sup> March 2007 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA  
Registrar

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

HARYANA

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
102342	Abhishek Bhardwaj Vishav Kirti Bhardwaj	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2004	21673 17/02/06	276, Sector-9, Ambala City.
102343	Abhishek Sharma Naresh Chander Sharma	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2003	21588 08/04/05	H.No.4117, Model Town, Bahadurgarh Distt., Jhajjar
102344	Achhru Ram Bansal Nattu Ram Bansal	Vaidya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	19021 18/09/90	11-C, Heera Nagar, Patiala
102345	Adesh Kumar Sunder Lal Sharma	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2003	21591 25/04/05	Opp. Police Thane Galli, Kharkhod, Distt Sonapat
102346	Ajay Kumar Zile Singh	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2004	21718 14/03/06	Sarai Aggarwal, Bahadurgarh (Jhajjar)
102347	Ajay Kumar Pandey Akhyawar Pandey	B.A.M.S S.S. Univ. Varanasi 2004	22000 20/10/06	SCO 72/73, Sector-20-C, Chandigarh
102348	Aman Singla Ganesh Dutt Singla	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2004	21747 28/03/06	Singla Nursing Home, Guhla Road, Cheeka (Kaithal)
102349	Amit Arora Rattan Lal Arora	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21642 03/11/05	807.B/23, Luxmi Gardan, Gurgaon
102350	Amit Batra Subhash Chander Batra	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2004	21729 20/03/06	Batra Hospital Chowk, Jind.
102351	Amit Gupta Surender Kumar Gupta	B.A.M.S Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2003	21644 11/11/05	H.No. 2555, HBC, Faridabad.
102352	Amit Kumar Vinod Kumar	B.A.M.S M.D. Univ. Rohtak 2003	21636 14/10/05	Hargobindpura Colony, Railway Road Barara, Distt. Ambala
102353	Amit Kumar Dwivedi Babu Lal Dwivedi	B.A.M.S Jiwaji Univ, Gwalior 2004	21987 12/10/06	C/o Aman Singh Shastri, 1116/37, Faridabad
102354	Amit Nakra K.G. Nakra	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2000	21837 01/06/06	H.No. 1974/7, Kamal

102355	Amit Sangwan Dharam Pal Sangwan	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2001	21765 12/04/06	Janla Chilo, near Railway station, Anoli Mandi, Distt. Mahendragarh.
102356	Amit Sharma Om Prakash	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2005	22063 23/03/07	8/386, Kaiyan Nagar, Sonapat
102357	Anita Kumari W/o Vipin Kumar	B.A.M.S. B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21865 05/07/06	444, Subhash Colony, Kamal
102358	Anita Mor Ram Karam Singh Mor	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2005	22076 23/03/07	H.No. 611/29, Tilak Nagar, Rohtak.
102359	Anita Sapra R.D. Wadhwa	B.A.M.S. G.D. Univ, Amritsar 1991	21937 24/08/06	Nohar Road, Ellenabad, (Sirsa)
102360	Anjali Faquir Chand	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2004	21714 09/03/06	80/12, Namaund, (Hisar)
102361	Anjali Ram Chander	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 1998	21886 17/07/06	603, Sector -14, Rohtak
102362	Anju Anil Kumar Syal	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 1995	21938 24/08/06	H.No. 2238, Sector -8, Faridabad
102363	Anju Bala Ram Mehar Singh	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2003	21598 03/05/05	H.No. 2/96, Arya Nagar, Sonapat
102364	Anju Bala W/o Anu Kumar	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2002	21626 25/08/05	C/o Shri Sita Ram Foreman, VPO Bapo
102365	Anju Bala Krishan Kumar	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2004	21838 02/06/06	H.No. 1117/1, Daya Nand Colony, Gurgaon
102366	Ankita Balbir Singh	B.A.M.S. Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22049 15/03/07	H.No. 95/27, Jawahar Nagar, Wall Gali, Sonapat
102367	Ankita Singh Rampal Singh	B.A.M.S. Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22042 14/03/07	861, Bula Gate, Jagadhari, (Yamuna Nagar)
102368	Anu Sharma Pawan Kumar Sharma	B.A.M.S. B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	22009 10/11/06	578, Sector -48, Chandigarh
102369	Anuj Kumar Ramesh Kumar	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 2004	21922 04/08/06	R.K. Villa, W.N.10, Manu Market, Julana Mandi, Distt. Jind.

102370	Anuja L.L. Bundela	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21830 11/05/06	H.No. 1949, Sector -13, Bhiwani
102371	Anurag Kailash Chander	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21594 28/04/05	H.No. 1818, New Basti, Rewari
102372	Anurag Gautam Hari Kumar Gautam	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21677 20/02/06	53, Agarwal Complex, Babyal Road Ambala Cantt.
102373	Archana Garg Rozil Garg	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2000	21888 17/07/06	H.No. 292, Sector -4, MDC, Panchkula
102374	Arti Gupta Surender Kumar Gupta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2003	21912 21/07/06	241, Sector -25, Panchkula
102375	Arti Singla Ram Dass	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21893 17/07/06	H. No. 614, Sector -17, Panchkula
102376	Arun Kumar R.B. Verma	B.A.M.S Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2004	22032 09/03/07	Bhiwani Memorial Hospital, Mahendergarh
102377	Arvind Kumar Dubey Anirudh Dubey	B.A.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2004	22026 13/02/07	Sahib Advertisers, Near Meenakshi Industries Main Juras Road Samalkha
102378	Arvind Dangi Alka Pertash Dangi	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2001	21597 05/05/05	Barsi Gate, Hansi (Hisar)
102379	Ashish Parma Nand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22097 23/03/07	H.No. 431/17, Subhash Nagar, Jhajjar
102380	Ashish Atri Tarsem Lal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21890 17/07/06	H.No., 57, Sector-14, HSAMB Colony, Panchkula
102381	Ashish Mishar Shiva Kant Mishar	B.A.M.S S.S. Univ, Varanasi 2004	21998 20/10/06	SCO 72/73, Sector -20-C, Chandigarh
102382	Ashok Kumar Ram Chander	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21834 19/05/06	VPO Bhambhewa, Distt. Jhajjar
102383	Ashok Kumar Sangwan Om Prakash Sangwan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21690 21/02/06	W.No.2, Kisan Chowk, Chhotu Ram Nagar, Ch. Dadri, Dt.- Bhiwani
102384	Ashwini Goyal Ishwer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21640 27/10/05	Vill. Kishangarh, Po Meham, Distt Rohtak

102385	Ashwini Khetan Shri Kirshan Khetan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21666 07/02/06	Khetan Clinic, Jhajjar Road, Ch. Dadri, Distt. Bhiwani
102386	Ashwini Kumar Sumer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21777 27/04/06	VPO Samchana, Distt. Rohtak
102387	Ashwini Kumar Satya pal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22058 15/03/07	Jagdish Colony, Hansi (Hisar)
102388	Atul Verma S.P. Verma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21705 08/03/06	Type-II/27, M.D.U. Campus, Rohtak
102389	Atulesh Kumar Puran Chand	B.A.M.S Punjab State Fac. of AUSM Chandigarh 1989	22027 13/02/07	C-Block, Flat No. 306, Rail Vivar, MDC, Sector -04, Panhukula
102390	Babita Kishan Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21764 12/04/06	H.No.1282, Gal No. 10, Hafed Road Prem Nagar, Rohtak
102391	Babita Kharb Ram Kumar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21870 12/07/06	H.No. A.543/19, Near Bhal Ji Hotel New Advocate Colony, Hansi (Hisar)
102392	Balkar Singh Ramphal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22072 23/03/07	VIII. Vazirpur Titana, Po. Didwari (Panipat)
102393	Balram Singh Ishwer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21721 14/03/06	VPO. Mehmoodpur, Distt. Sonapat
102394	Balwant Singh Bhag Chand	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	22021 04/01/07	Shop No. 149, Auto Market, Hisar
102395	Bandana B.R. Joshi	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21657 19/01/06	H.No. 1359, Sector -15, Panchkula
102396	Barkha Vats Ajay Vats	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21810 03/05/06	C/o Naval Kishore Hospital, Beri Distt. Jhajjar
102397	Bhajan Lal Dhanpat Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21858 28/06/06	VPO. Motla Kalan, Distt. Rewari
102398	Bhavesh Kumar Rameshwar Dutt	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21637 14/10/05	VIII. Ramalwas, The. Dadri (Bhiwani)
102399	Bhavesh Kumar Verma Kamal Kumar Verma	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21605 20/05/05	501, Bar Ki Gali Jagadhar (Yamuna Nagar)

102400	Bhawna Jit Ram Khokhar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21749 04/04/06	336, Opp. Power House, Near OBC Bank Model Town, Rohtak
102401	Bhawna Mahajan Shyam Lal	B.A.M.S G.D. Univ, Amritsar 1992	21880 14/07/06	50, Devi Murti Colony, Panipat
102402	Bhupender Singh Mahender Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21838 20/10/05	1088, Paravatia Colony, NIT, Faridabad
102403	Bhupender Singh Omni Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22063 23/03/07	VPO, Ranilla, Distt Bhiwani
102404	Birender Jit Kaur Jitender Singh Toor	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21616 14/07/05	Near New Bus Stand, Bhuna, (Fatehabad)
102405	Brijesh Trivedi B.D. Trivedi	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21915 21/07/06	Shop No. 568, Upper Bazar, Shimla Road Kalka, (Pannchkula)
102406	Chander Kant Mukesh Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21821 27/07/05	FCA-737-A, Bhim Sen Colony BLB, Faridabad
102407	Charu Shila Chawla Harish Chander Chawla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21704 06/03/06	Nand Hospital, Opp Krishna Founday, Naraigarh Road, Ambala City
102408	Daisy Prija Swarnj Prija	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2000	21933 11/08/06	274, Near Durga Sweets, Jandli, Ambala City
102409	Dalip Kumar Mishra Bhrigunath Mishra	B.A.M.S B.B.A. Bihar Univ, Muzaffarpur 2004	21985 11/10/06	House No. 385, Sector -2, Rohtak
102410	Deepa Jain W/o Vikram Jain	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2003	21910 18/07/06	C/o Shiva Cement Store, Near New Subzi Mandi Kaithal
102411	Deepak Jai Bhawan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1997	21876 12/07/06	1501/21, Prem Chowk, Rohtak
102412	Deepak Bansal Surinder Kumar Bansal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21711 08/03/06	Mewa Mohalla, Mustafabad Distt. Yamuna Nagar
102413	Deepak Bhatia Sita Ram Bhatia	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22082 26/03/07	C- II- 1429, Hanuman Gate, Jagadhari (Yamuna Nagar)
102414	Deepak Nandlal Dharambir Singh Nandlal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21641 27/10/95	245/29, Ram Gopal Colony, Sonapat Road Rohtak

102415	Deepati Bains Sohan Lal Bains	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2006	21896 17/07/06	H.No. 1187, Sector -04, Panchkula
102416	Deepthi Goyal Jatinder Kumar Goyal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21780 02/05/06	H.No. 442/9, Shiv Puri Gurgaon
102417	Dharam Pal Jaswant Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21596 02/05/05	VPO. Rahara, Tehsil Assandh (Kamal)
102418	Dharmbir Singh Jaipal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21719 14/03/06	VIII. Ghuskhani, Po, Tigrana Distt. Bhiwani
102419	Dharmender Kaushal Karta Ram	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21867 11/07/06	Street Lal Ji Near Punjab Bus Stand Dabwali (Sirsa)
102420	Dharmender Singh Dankhar Mahipal Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	21595 02/05/05	VPO. Chhitroli (Mahendergarh)
102421	Dheeraj Chawla Brij Mohan Chawla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22061 15/03/07	H.No. 164, Rampura Colony, Yamuna Nagar
102422	Dheeraj Saini Om Prakash Saini	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21841 02/06/06	372/16., Gali Hari Krishan Wakil Gali, Baroda Road, Kath Mandi Gohana
102423	Dhiraj Sharma Yash Atri	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21916 21/07/06	Kumar Clinic, Bhiwani Road Jind
102424	Dimple Manohar Lal Singla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21693 21/02/06	168/11, Market Committee Wali Gali Naewana (Jind)
102425	Dimple Chaudhary Vinay Chaudhary	B.A.M.S Bharati Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2002	21980 22/09/06	H. No. 136, Sector 11, Part A- Opp. Dr.G.C. Gupta Hospital, Panipat
102426	Diwan Ram Sarup	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	21808 03/05/06	H.No. 108, Mahesh Nagar, Kaimari Road, Hlsar
102427	Ekta Garg Saurabh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21963 04/09/06	42, Shadi Ram Building, Behind State Bank, (Yamuna Nagar)
102428	Ekta Saini Deepak Raj	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21709 09/03/06	H.No. 1460, Urban Estate, Jind
102429	Ganja Vishnu Chaudhary Anna Ram	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 2003	21981 06/10/06	C/o Ashok Kumar Bhatti Narnaul (Mahendergarh)

102430	Gaurav Prem Mehta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21758 07/04/06	Mehta Hospital, Main Road, Barwala (Hisar)
102431	Gaurav Batra Denender Batra	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21741 24/03/06	A/820., Sader Bazar, Karnal
102432	Gaurav Gandhi O.P. Gandhi	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21802 03/05/06	893/13, New Brahm Colony, Old D.C. Road Sonapat
102433	Gaurav Mohan Tokhi M.L. Tokhi	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21900 17/07/06	H.No. 281, Sector -10, Panchkula
102434	Gaurav singla Krishan Kumar Singla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22064 23/03/07	H.No. 08, Model Town, Pehowa (Kurukshetra)
102435	Gautam Maan Attar Singh Maan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	21775 27/04/06	H.No. 55, VPO Ishaheri Bahadurgarh Distt Jhajjar
102436	Geetika Narottam Kumar	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21955 28/08/06	Sushil Kumar Agarwal, 5, Model Town Ambala City
102437	Geetika Arora K.L. Arora	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21590 25/04/05	108/8, Shiveji Colony, Rohtak
102438	Gurmeet Kuar Sidana Sukhwinder	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	21853 16/06/06	Satnam Singh, Ladwa Road Babair (Kurukshetra)
102439	Gurprit Pal Singh Manjit Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21600 05/05/05	Guru Nanak Hospital, Old Bus Stand Rania Distt, Sirsa
102440	Guru Sharan Pal Gauri Shankar Pal	B.A.M.S B.B.A. Bihar Univ, Muzaffarpur 2003	21992 18/10/06	Nand Lal, 234-A, Industrial Area Phase 1, Chandigarh
102441	Gurvinder Kaur Amarjit Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21974 21/09/06	H.No. 694, Sector -8, Ambala City
102442	Harlom Satbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22095 23/03/07	VPO Matindlu (Sonapat)
102443	Harish Kumar Sharma Som Dutt Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21692 21/02/06	chowk Mohalla, Mahendergarh
102444	Harkiran Kaur Komalpreet Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21847 22/11/05	H.No. 33, Luxmi Garden Near ITI (Yamuna Nagar)



102445	Harleen Kaur Jaspal Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21925 07/08/06	H.No. 3254, Sector-27- D- Chandigarh
102446	Hemant Kumar Lal Chand	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	22008 10/11/06	1689, Sector- 16, Faridabad
102447	Hittender Vashisht Ram Diya Vashisht	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1993	21935 24/08/06	H.No. 7/38, Gali NO. 2, Model Town Bahadurgarh (Jhajjar)
102448	Ila Goel Puneet Goyal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2003	21582 04/04/05	1790, Sector- 16, Faridabad
102449	Indu Gupta Janinder Kumar Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22030 01/03/07	385/2, Ramblr Singh Colony, Jind
102450	Isha Thakral Atam Prakash Thakral	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	21782 02/05/06	854/17, Gandhi Nagar, (Hansi) Hisar
102451	Jagdeesh Parsad Shiv Chand	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 2002	21930 11/08/06	G- 303, Rail Vihar, Sector -04, MDC Panchkula
102452	Jai Bhagwan Zile Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22029 27/02/07	Budha Khara Gate , Uklana Mandi (Hisar)
102453	Jai Deep Om Prakash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21671 09/02/06	Deep Nursing Home, Opp. Taneja Dairy Rania Road, Sirsa
102454	Jai Prakash Kalyan Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21625 04/08/05	VPO Tigaon (Faridabad)
102455	Jai Prakash Verma Dhara Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1981	21715 09/03/06	Ch. Premchand Verma, Gali No. 02-K.C Nagar, Ganaur Mandi (Sonapat)
102456	Jimmy Vijay Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22050 15/03/07	425/7, Model Town, Narwana (Jind)
102457	Jitender Kumar Rajpaul Suhag	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21687 21/02/06	Civil Line, Anya Nagar Opp. Canal Rest House, Jhajjar
102458	Jitender Kumar Morya Ram Surat Morya	B.A.M.S S.S. Univ, Varanasi 2003	22002 24/10/06	H.No. B-4078, Refinery Township , Dadland Distt Panip
102459	Jyoti Bela Kishori Lal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21792 02/05/06	Khurana Bhawan, New Jawahar Nagar Mandi Adampur (Hisar)

102460	Jyoti Chaudhary Rajinder Kumar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21960 04/09/06	D.B. 36, Ashka Colony, Kamal
102461	Jyoti Mehta Fateh Chand Mehta	B.A.M.S Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2004	21954 24/08/06	Plot No 761, Ward No.3, Hisar Road Tosham, Distt. Bhiwani.
102462	Jyoti Sihag Jage Ram	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21867 07/02/06	VPO. Harsola (Kalthal)
102463	Jyotiraditya S.C. Agarwal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21898 17/07/06	SCO No. 06. Sector -16, Panchkula
102464	Jyotsana Rathee H.C. Rathee	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2000	22005 07/11/06	930, Sector -1, Rohtak
102465	Kamal Kumar Gupta Raj Kumar Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1995	21863 05/07/06	758/38, Janta Colony Rohtak
102466	Kamlesh Dhillon Mahavir Parsad Dhillon	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22086 26/03/05	1186/30, Chhotu Ram Colony, Kanhai Road, Rohtak
102467	Kamlesh Kumar Pandey Mahender Narain Pandey	B.A.M.S S.S. Univ, Varanasi 2003	21996 20/10/06	SCO, NO-72-73 Sector 20, Chandigarh
102468	Kanwal Preet Virk Jagtar Singh Virk	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21793 02/05/06	Kisan Rice Mill, Taraori (Kamal)
102469	Kapil Vijay Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22060 15/03/07	Lachhi Ram Vijay Kumar, Anaj Mand Ch. Dadri, (Bhiwani)
102470	Kapil Dev Bansal Satish Kumar Bansal	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 2001	21968 07/09/06	108/6, Sector -13, Kurukshetra
102471	Karuna Surajpal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21737 23/03/06	2110, Sector -04, Gurgaon
102472	Kaushal Kumar Umrac Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21611 30/06/05	VPO Wazirabad, Distt. Gurgaon
102473	Kavita Anya Om Parkash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21750 04/04/06	1570/31, Chhotu Ram Colony, Sonapat
102474	Kavita Goyat Jaipen Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21707 08/03/06	Vill. Kishangarh, Po Meham, Distt Rohtak

102475	Kavita Gullani Sanjeev	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	21926 07/08/06	2- H.B.1.Ram Nagar Jagadhari Gate Ambala City
102476	Kavita Rani Ram Kumar Kharb	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21726 20/03/06	H.No. 711/18, Vakil Colony Hansi Distt, Hisar
102477	Kavita Sehgal Amit Sehgal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21857 26/06/06	U 46/27, DLF Phase III, Sonla Physiotherapy Clinic Gurgaon
102478	Kavita Siwatch Krishan Siwatch	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22044 14/03/07	2841, Model Town, Astha Cottage, Bhuna (Fatehabad)
102479	Kiran Deep S. Moninder Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21839 02/06/06	VPO.Panjokhra Sahib, Near Canara Bank Ambala City
102480	Kiran Jit Kaur Yadwinder Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	21778 01/05/06	VPO Chautala, Distt. Sirsa
102481	Kiran Kaur Om Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21742 28/03/06	56, Jamally Colony Kamal
102482	Kirpal Singh Balbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21701 06/03/06	1885/83, Ranjit Nagar, Ambala City
102483	Kokila Megha Rameshwar Dayal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22097 26/03/07	Plot No. 60, Sajjan Colony, Jhajjar Road, Rewari.
102484	Komal Kankaran Ashok Ranga	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 1997	21982 11/10/06	VPO. Dhamar (Rohtak)
102485	Komal Parkash Om Parkash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22046 15/03/07	22, Defence Colony, Hisar
102486	Krishan Kant Chand Kiran Tyagi	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22080 26/03/07	52, Bhudutt Colony, Ballabgarh (Faridabad)
102487	Krishna Dahiya Major I.S. Dahiya	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2002	21668 07/02/06	309, Gandhi Nagar, Karnal
102488	Krishna Kumar Babu Ram Rathore	B.A.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2000	22025 13/02/07	H,NO, 774, Sector -07, Panchkula
102489	Kuldeep Jai Pal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1995	21948 24/03/06	257, Sector- 16-A- Faridabad

102490	Kuldeep Sharma Ravinder Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	22094 23/03/07	Brijwasi Colony, Near Rajindra Clinic Bhiwani
102491	Kuldeep Singh Manphool Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21808 03/05/06	VIII, Bahori Akbarpur, Po Uklana, (Hisar)
102492	Lalit Kumar Rohtas Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21776 27/04/06	Kothi No.2,33 KV Sub Station,Power House Colony, Model Town, Rohtak
102493	Lalit Mohan Bhagirath Parsad	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 1997	21995 18/10/06	VPO. Nangal Chaudhary (Mahendergarh)
102494	Latika Akash Deep Bawa	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	22010 10/11/06	213, Sector-10, Panchkula
102495	Latika Mann Gautam Mann	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21774 27/04/03	Kothi No.2,33 KV Sub Station,Power House Colony, Model Town, Rohtak
102496	Latika Marwaha Shiv Lal Marwaha	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21730 20/03/06	Gh-51, Flat No. 501, Sector -20, Panchkula
102497	Leenu Puri Mohinder Puri	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21953 24/08/06	H.No.1007, Sector-12-A, Panchkula
102498	Madhvi Yadav Shamsher Singh Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21751 04/04/06	4118, Defence Colony, Jind
102499	Manita Ram Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22070 23/03/07	487/15, Jatwara, Bahadurgarh (Jhajjar)
102500	Manita Mittal Suraj Bhan Mittal	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21969 07/09/06	SCF No, Sector-27, D- Chandigarh
102501	Mandip Kashyap Madan Lal Kashyap	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21769 19/04/06	1080, Sector -05, UE, Kurukshetra
102502	Mange Ram Roop Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22098 23/03/07	VPO. Satnall (Mahendergarh)
102503	Maninder Pal Kaur Sawran Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22043 14/03/07	160, Hamida Colony, Yamuna Nagar
102504	Manish Bansal Ram Bhaj Bansal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21761 12/04/06	1282, Gali No, 10/L, Hafed Road Prem Nagar, Rohtak

102505	Manish Sharma Narinder Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21675 20/02/06	3123/19, Sati Colony, Near Ahir College, Rewari
102506	Manish Sharma Dev Raj Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21748 03/04/06	1426, Sector -15, Sonipat
102507	Manish Sharma B.S. Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1996	21887 17/07/06	VPO, Chihara (Jhajjar)
102508	Manisha Dhiraj Saini	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21835 19/05/06	159, W.No, Power House, Gohana (Sonipat)
102509	Manisha Rajender Parsad Vashisht	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 2003	21975 22/09/06	VPO, Jesaur Khari (Jhajjar)
102510	Manisha Gupta Sandeep Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1997	21943 24/08/06	564, Sector -13, HUDA, Kurukshetra
102511	Manjeet Kaur Ravinder Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21909 18/07/06	Back Side Airport, Authority Office Loharu Road, Dadri, Distt. Bhiwani
102512	Manjit Singh Ajmer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21971 20/09/06	149, Sector-10, UE, Ambala City
102513	Manju Rajbir Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21791 02/05/06	VPO Bhambhewam, Distt. Jhaller
102514	Manju Gupta Madu Sudan Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1987	21882 17/07/06	86-L, Model Town, Rohtak
102515	Manju Kaushal Nand Lal Chawla	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 1989	21868 11/07/06	181, Shastri Colony, (Yamuna Nagar)
102516	Manjula Uppal Sham Uppal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21763 12/04/06	68, Sector -4, Gurgaon
102517	Manjusha Khurana Sanjiv Kumar Khurana	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1990	21928 10/08/06	7E, Dugal Colony, Karnal
102518	Manoj Kumar Chander Bhan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21688 21/02/06	109, Vikas Nagar, Bhiwani
102519	Manoj Kumar Shopat Ram	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21746 28/03/06	VPO Aboob Shahar (Sirsa)

102520	Manoj Kumar Ananda Ram	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 2003	21949 24/08/06	VPO Karontha, (Rohtak)
102521	Manoj Kumar Bhardwaj Uma Shankar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21773 27/04/06	Kothi No. 233 KV Sub Station, Power House Colony, Model Town, Rohtak
102522	Manoj Panwar Jai Parkash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22040 14/03/07	1585, Sector -7, Kurukshetra
102523	Manoj Virmani Harj Chand Virmani	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21854 03/01/06	A-128/L, New Colony, Palwal (Faridabad)
102524	Manorama Sharma Ashwini Sharma	B.A.M.S Shivaji Univ, Kolhapur 1988	21964 04/09/06	Sharma Hospital, Safidon Road, Assandh (Karnal)
102525	Mansi Nagpal Subhash Nagpal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21752 04/04/06	55/7, Subhash Nagar, Behind Dhoobi Ghat, Gurgaon
102526	Meenakshi Sharma Krishan Dev Sharma	B.A.M.S H.P. Univ, Shimla 2004	21957 29/08/06	H.No. 2145, Sector-42, C- Chandigarh
102527	Meenu Anil Payla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21994 18/10/06	85. B, Baselva Colony, Gali No. 03, Faridabad
102528	Minakshi Rajpal Chhikara	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21772 14/03/06	14/296, Dayanand Nagar, New Little Angel School, Bahadurgarh (Jhajjar)
102529	Minakshi Balwinder Kumar	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21734 23/03/06	54/2, Subhash Nagar, Near Police Line, Mani Majra, (Chandigarh)
102530	Minakshi Sharma Dalip Chand	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22050 15/03/07	H.No. 1267/15, Mohan Nagar Layalpur Basti, Kurukshetra
102531	Minaxi Jain Chander Kant	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21822 27/07/05	FCA-737-A, Bhim Sen Colony, Ballabgarh, (Faridabad)
102532	Miss Manisha Vinod Kumar Gupta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21894 17/07/06	1187/A, Sector -04, Panchkula
102533	Miss Nidhi Sham Lal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21808 23/06/05	77-E- Professor Colony, Yamuna Nagar
102534	Mohan Deep Kaur Kulwinder Singh Chahal	B.A.M.S B.F.U.H. 2003	21988 16/02/06	599, Sector-38, (West), D.M. Colony Chandigarh

102535	Monika Dayal Singh Malik	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21785 02/05/06	584, Sector -15- A, Hisar
102536	Monika Ravinder	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21852 16/06/06	Vill. Jhanwar, Tehsil -Tosham (Bhiwani)
102537	Monika Jaswant Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21945 24/08/06	101, Friend Colony, M. Dabwali (Sirsa)
102538	Monika Alias Isha Garg Gagan Deep Garg	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	21827 10/05/06	Kalyani Nursing Home, Rattia Road Tohana (Fatehabad)
102539	Monika Chauhan R.S. Chauhan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21634 20/09/05	1601, Sector -17., Jagadhari (Yamuna Nagar)
102540	Monika Garg Umesh Garg	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21788 02/05/06	437/77, Adarsh Nagar, New Colony Kurukshetra
102541	Monika Gill Dharam Singh Gill	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21844 02/06/06	H.No. 1989, Urban Estate, B- Block, Jind
102542	Monika Girdhar Hemant Girdhar	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1997	21907 18/07/06	178, Advocate Enclave, Sector-49 (A) Chandigarh
102543	Monika Gulia Inderjeet Gulia	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21883 17/07/06	14, Sugar Mills Campus, Rohtak
102544	Monika Sharma Manoj Sharma	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1999	21942 24/08/06	188-A, New Colony, Gurgaon
102545	Monika Tyagi Ravi Kant Tyagi	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21627 30/08/05	564, Sector -11, Panchkula
102546	Monika Yadav Sumer Singh Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21845 02/06/06	VPO Khatod (Mahendargarh)
102547	Monu Yadav Dhram Pal Yadav	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22052 15/03/07	1527, Urban Estate, Jind
102548	Mridu Gupta S.K. Gupta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21897 17/07/06	614, Sector- 17, Panchkula
102549	Mrudula Dagar Rajender Singh Dagar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21843 02/06/06	1106/1, Dayanand colony, Gurgaon

102550	Mukesh Kumari Rattan Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	22090 26/03/07	Vill- Dahanwas, Sailanga, Distt. Jhajjar
102551	Mukul Mani Mithlesh Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21824 10/05/06	Yugal Pharmacy & Chemical Works Aurangabad (Yamuna Nagar)
102552	Namita Bhardwaj Vijay Kumar Bhardwaj	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21786 02/05/06	232, KV Sub Station, DHVPL Colony, Hansi (Hisar)
102553	Narender Gupta Subhash Chand Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21812 03/05/06	4-B, Canal Colony, Kamal Road Kalthal
102554	Nareish Kumar Raghubir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21728 20/03/06	Vill. Dhandur Bir, Post, Sector-II Sirsa Road, Hisar
102555	Naveen Chatter Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22099 23/03/07	11-H/1, Old Campus, CCSHAU, Hisar
102556	Naveen Kumar Yadav Balvir Singh Yadav	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21851 08/06/06	VPO. Dundahera (Gurgaon)
102557	Navin Ram Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21689 21/02/06	Vill. Sekanderpur, Po Malikpur-2, Tehsil Bawani Khara (Bhiwani) Haryana
102558	Navin Kumar Dhillon Hoshilar Singh Dhillon	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	22003 06/11/06	Ganesh Market, Farukh Nagar, (Gurgaon)
102559	Navin Swami Ram Chander Swami	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21659 07/02/06	8A, W.No. 1, Shiv Colony, Bari Gate, Jhajjar
102560	Navneen Kaur Trivedi Brijesh Trivedi	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21914 21/07/06	Shop No. 568, Upper Bazar, Shimla Road Kaika, (Pannchkula)
102561	Navneet Dinodia Raj Kumar Dinodia	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21699 06/03/06	65-66, Housing Board Colony, Sirsa Road, Hisar
102562	Navneet Kaur Baldev Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21768 19/04/06	715/8, Partap Nagar Colony Kurukshetra
102563	Neelam Dhram Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2001	21632 20/09/05	H.No.45.-46, Jhvan Nagar, Bank Colony, Karnal
102564	Neelam Bagri Mahavir Lal Bagri	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22045 14/03/07	H.No. 85, Sector-1, Rohtak



102565	Neelam Kumari Ravinder Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21941 24/08/06	VPO, Jhohlu Kaian (Bhiwani)
102566	Neelam Rani Sharma Som Dutt Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21869 12/07/06	813, Sector-9 Panchkula
102567	Neeraj Kumar Manohar Lal Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21613 04/07/05	VPO, Nizampur Mandi (Mahendergarh)
102568	Neeru Shamsher Singh Chahal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21745 28/03/06	51/3, Chhotu Ram Colony, Narwana, (Jind)
102569	Neetu Singh Ram Babu	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21822 08/05/06	H.No. 1356, Sector-3, Faridabad
102570	Neetu Yadav Moti Lal Yadav	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21651 08/12/05	3095/1, Sector -22- D, Chandigarh
102571	Neha Mangla N.C. Mangla	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21820 03/05/06	H.No. 933, Sector-13, Kurukshetra
102572	Neha Sardana Madan Sardana	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21767 18/04/06	W.NO. 2, Near Police Station Barwala, (Hisar)
102573	Nidhi Bajaj K.C. Bajaj	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21766 12/04/06	133/4, Shivaji Colony, Rohtak
102574	Nidhi Mittal Shiv Kumar Mittal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22054 15/03/07	H.No.3118, Sector-47-D, Chandigarh
102575	Nirmal Yadav Ashok Yadav	B.A.M.S Univ of Delhi 1994	21962 04/09/06	471, Sector -14, Rohtak
102576	Nisha Verma Roop Chand Verma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22092 23/03/07	542/6, Kaithal, Pehowa (Kurukshetra)
102577	Nisha Rani Sham Lal	B.A.M.S Punjab Univ, Patiala 1991	21864 05/07/06	H. No. 1263, Sector-13, UE Kamal
102578	Nitin Dharampal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21754 04/04/06	Near Post Office, Badshahpur, (Gurgaon)
102579	Nitin Prashar Jagdish Parsad Sharma	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21801 03/05/06	H.NO. A-6, Sector -5, Chiranji Vihar, Ghaziabad

102580	Nitin Sharma Manish Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21977 04/10/06	VIII, Om Nagar, Po Budhera, (Gurgaon)
102581	Om Parkash Jagbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21700 06/03/06	VIII. Bharan, Tehsil Meham (Rohtak)
102582	Pankaj Maden Gulati	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21683 21/02/06	Q.No. 2, Old Police Line, Opp. Green Park, Hissar
102583	Pankaj Kansal Shyam Lal Kansal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21753 04/04/06	1306, Sector -05, Kurukshetra
102584	Pankaj Sharma Gobind Ram	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	22015 15/12/06	H.No. 290, Housing Board Colony, Jind
102585	Param Jeet Rai Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22067 23/03/07	1713, UE, Jind
102586	Parnod Amrit Lal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21825 10/05/06	Near NFL Colony, Vikas, Panipat
102587	Parul Budh Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21744 28/03/06	H.NO.43.Saraswati Colony, Jagadhari (Yamuna Nagar)
102588	Parveen Jitender	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21607 16/06/05	Sangam Charitable Hospital Tohana (Fatehabad)
102589	Parveen Chhatra Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22096 23/03/06	356/2, Ghikara Road, Near Harim Ashra, Charkhi, Dadri (Bhiwari)
102590	Parveen Kumar Satpal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21623 03/08/05	H.NO. 1315, Sector-1, Rohtak
102591	Parveen Kumar Subhesh Chander	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21874 12/07/06	H.No. 1080, Sector-5 UE, Kurukshetra
102592	Pawan Kumar Deswal Rajbir Singh Deswal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21818 03/05/06	E-6 Inderprastha Colony, Sonapat Road Rohtak
102593	Pawan Rajyan Umed Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21846 05/06/06	Bus Stand Road, Jhajjar
102594	Payal Preet Man Mohan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21908 18/08/06	Nalagam Road, Railway Road, Pinjore (Panchkula)

102595	Payal Yadav Laxman Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22062 23/03/07	H.NO.1022, Sector -03, Part -2, Rewari
102596	Pearl Som Nath	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21679 21/02/06	150/3, R.S.D.Colony, Janita Hospital Road Sirsa
102597	Pooja Khetarpal Kamal Khetarpal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	21771 19/04/06	55, Krishana Colony, Bye Pass Chowk (Yamuna Nagar)
102598	Pooja Sharma Rakesh Sharma	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21648 23/11/05	S-1, Nahar Colony, Ambala Road, Pehowa, (Kurukshetra)
102599	Poojit Mehta Ashok Mehta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21612 04/07/05	Mehta Hospital, Rania (Sirsa)
102600	Poonam Balbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21743 28/03/06	247, Daya Nand Colony, Model Town, Karnal
102601	Poonam S.P. Dabas	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1994	21965 05/09/06	260, Sunder Nagar, Hisar
102602	Poonam Bhatti Ram Pal Bhatti	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21694 27/02/06	H.NO. DC.717, Shiv Colony, Railway Road, Palwal (Faridabad)
102603	Poonam Dagar Partap Singh Dagar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1990	21929 11/08/06	H.No. 691/28, Subhash Nagar Rohtak
102604	Poonam Verma Sudhir Verma	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2002	21850 08/06/06	1562, Sector-7- C, Chandigarh
102605	Poonam Yadav Sahi Ram Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21681 21/02/06	VIII. Bhindawas, Post Blochpura, (Jhajar)
102606	Pradeep Kumar Ram Nayan	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22035 14/03/07	H.No.77, Ram Nagar, Jadadhar W/ Shop, (Yamuna Nagar)
102607	Pratibha Jindal Arvind Jindal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1999	21936 24/08/06	H.No. 108.-A, Sector -21, Panchkula
102608	Prayag Sharma Jagdish Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21635 20/09/05	C/o Ram Niwas Yadav, Yadav Colony, Leo Chowk, Rewari.
102609	Preeti Ramesh Chander	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21639 26/10/05	H, NO, 1305, UE-II, Hisar

102610	Preeti Pahwa A.P. Pahwa	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21780 02/05/06	H.No. 731, New H.B.C. Kamal
102611	Prena Tara Dayanand Tara	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1999	21592 25/04/05	68/1075, Baldev Nagar, Ambala City
102612	Prince Juneja Des Raj Juneja	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21665 07/02/06	Juneja Clinic, Barnala Road, Gohana (Sonapat)
102613	Pritti Sharma H.R. Sharma	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21586 08/04/05	157, Sector -17, Panchkula
102614	Priya Gupta Jai kumar Gupta	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22084 26/03/07	139, Sector-8, Panchkula
102615	Priyanka Goyal Deepak Goyal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21756 07/04/06	Goyal Hospital & Maternity Home, Apptosvh Road, Ukiana Mandi Hisar
102616	Priyanka Yadav Ram Niwas Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21593 25/04/05	H.No. 3126/1, Kansawas Road, Jagan Gate, Rewari
102617	Priyanka Singh R.P. Singh	B.A.M.S Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2004	21849 08/06/06	VPO Sainali (Mahendergarh)
102618	Puneet Kumar Om Prakash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22059 15/03/07	H.No.963, Ram Nagar, Jadadhari W/ Shop, (Yamuna Nagar)
102619	Rabina Devi Jagdev Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	22016 15/12/06	Janta Hospital, Near P.O., Ateli Mandi, Distt Mahendergarh
102620	Rahul Batra Birpal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21684 21/02/06	Near Post Office, Pataudi (Gurgaon)
102621	Rahul Kumar Agarwal R.M. Agarwal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21614 04/07/05	H.No. 1622(G.F.), Housing Board Colony, Sector -26, Panchkula
102622	Raj Kumar Rama Nand Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21662 07/02/06	Voil- Tigra, Po Ateli (Mahendergarh)
102623	Raj Kumar Glan Vir Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22034 14/03/07	579, Street No.10, Adarsh Colony, Palwal (Faridabad)
102624	Raja Tanwar Bhagwan Singh	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	21924 07/08/06	W.No. 8, Tauru (Nuh)

102625	Rajesh Kumar Charam Pal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21736 23/03/06	Mahavir Market, Uklana Mand (Hisar)
102626	Rajesh Kumar Ran Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22073 23/03/07	W.No. 6 Kotla Mohalla, Barwala (Hisar)
102627	Rajesh Kumar Mittal Sohan Lal Mittal	B.A.M.S Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh 1992	21620 21/07/05	1073, Sector -13, UJ Kamal
102628	Rajesh Sharma Som Dutt Sharma	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21826 10/05/06	Chowk Mohalla Mahendergarh
102629	Rajesh Tanwar Tek ChandTanwar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21735 23/03/06	500/20, Om Nagar, Khandsa Road Gurgaon
102630	Rajesh Yadav Shobh Nath Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21821 08/04/06	IC- 55 N.H. Faridabad
102631	Rajiv Mehta Vidya Mehta	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21920 01/08/06	Mehta Clinic, Barwala Panchkula
102632	Rajneesh Khushi Ram Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22071 23/03/07	New Colony, Jamalpur, Narnaul (Mahendergarh)
102633	Rajni Balbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21706 09/03/06	54/A, Sardaron Wali Gali, Near Jat College, Sonapat
102634	Rajni Madan Pal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21861 29/06/06	385, Sector -2, Rohtak
102635	Rajni Bansal Vijay Bansal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1996	21879 13/07/06	Civil Hospital Campus, Ambala Cantt.
102636	Rajni Kant Joginder Singh Rohilla	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22048 15/03/07	847, Sector-15, Sonapat
102637	RajniThukur Gagan Thakur	B.A.M.S H.P. Univ, Shimla 2000	21956 28/08/06	1112, Sector-15, Sonapat
102638	Rajpal Ajmer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21733 22/03/06	Moga Wala Hospital, Bhattu Kalan (Fatehabad)
102639	Rajpal Nain Nate Singh Nain	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22077 23/03/07	H.No. 226/19, Gali No. 3 Hanuman Nagar Narwana (Jind)

102640	Rajvinder Kaur Avtar Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21789 02/05/06	Vill, Mehalawali, Tehsil Jagadhari (Yamuna Nagar)
102641	Rakesh Jain Nem Chand Jain	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21803 03/05/06	Shekhar Chand Karam Chand Jain Anaj Mandi, Gohana Sonipat
102642	Rakesh Kumar Sushil Kumar	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	12797 03/05/06	66-A, Behind Hari Palace, Ambala City
102643	Rakesh Kumar Shyam Lal	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	21979 22/09/06	Vill. Nagla Mohanpur, Po Rasulpur (Mahenderpur)
102644	Rakesh Kumar Balwan Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22039 04/03/07	H.No. 110/1, Shekhpur, Post Nangal Teju, Tehsil Bawal, Distt Rewari
102645	Ram Niwas Rajpal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22047 15/03/07	VPO. Badli (Jhajjar)
102646	Rama Soni Ramesh Soni	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21695 21/02/06	H.No. 712, Sector -28, Faridabad
102647	Ramanjit Singh Gilan Singh Gill	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21606 30/05/05	VPO, Missimbal (Yamuna Nagar)
102648	Ramesh Kumar Yadav Bhaiya Ram Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22075 23/03/07	1931, Jwahar colony, Air Force Road NIT, Faridabad
102649	Ramnik Sangwan N.R. Sangwan	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22051 15/03/07	H.No. 741/5, Mohan Nagar, Thanesar (Kurukshetra)
102650	Ran Singh Om Prakash	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21814 03/05/06	Vill- Jandhera, PO Ladwa (Kurukshetra)
102651	Randhir Singh Lakhmi Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21661 07/02/06	VPO. Saccha Khara, Tehsil Narwana (Jind)
102652	Ranjana Garg Didar Singh Garg	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	22028 26/02/07	811, Sector-11, Ambala City
102653	Ranjit Kaur Kashmir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21629 14/09/05	Rishi Nagar, Near Bus Stand, Hisar
102654	Rashima Rohila Ranbir Singh Rohila	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21696 02/03/06	231/17, Ram Gali, Gohana (Sonipat)

102655	Rashmi Parbha Sandip Anya	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21848 08/06/06	VPO. Kasandi, Tehsil Gohana Sonipet
102656	Rashmi Saroha Narender Saroha	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21740 23/03/06	Opp. Raghu Gas Godown, Sasal Road Krishan Nagar, Gurgaon
102657	Ravi Dewan Surinder Parkash Dewan	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1995	21983 11/10/06	689, Sector -21, Panchkula
102658	Ravi Kant Chhabra Subhash Chander Chhabra	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21809 03/05/06	VPO. Raison Tehsil - Nollkheri Kamal
102659	Ravi Ranjan Parsad Devender Parsad	B.A.M.S B.B.A. Bihar Univ, Muzaffarpur 2003	21991 18/10/06	Nand Lal, 234, A, Sanjay Colony, Industrial Area, Chandigarh
102660	Ravinder Ram Nath	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21798 03/05/06	VPO. Dhani Goyal, Via Bhuna (Fatehabad)
102661	Ravinder Kashnia Satbir Singh Kashnia	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21655 03/01/06	Near Astha Synthetics, Kirti Nagar Bhiwani
102662	Ravinder Singh Dhankhar Om Prakash Dhankhar	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21899 17/07/06	1240, Sector-11, Panchkula
102663	Ravindra kumar Jai Kishan	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21931 11/08/06	2672, Namaund (Hisar)
102664	Ravita Ashok Kumar	B.A.M.S Punjab State Fac. Of AUSM Chandigarh 1990	21923 07/08/06	A-21, HMT. Colony, Pinjore Panchkula
102665	Reena Rajbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21680 21/02/06	Chintia Wala, Mehram Rohtak
102666	Reena Goyal Hanuman Goyal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21628 08/09/05	1072, Urban Estate-II Hisar
102667	Reena chauhan Ravinder Chauhan	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21783 02/05/06	VPO. Sultanpur (Karnal)
102668	Reetu Malik Mahender Singh Mailk	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21685 21/02/06	H.No. 3420, UE, Jind
102669	Rekha Rani Dharam Paul Garg	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	12779 02/05/06	Dharampal Masala Co, Near Vishwas Public School, Uklana Mandi Hisar

102670	Renu Uttam Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21723 14/03/06	H.No. 158/8, Jawahar Nagar, Hisar
102671	Renu Gupta Manoj Bindal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21631 14/09/05	H.No. 31-B, Near Telephone Exchange Cheeka (Kaithal)
102672	Renu Lata Ajit Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21698 02/03/06	380/16, Gali No.03, Uttar Nagar, Near Rohilla Dharamshala, Gohana (Sonapat)
102673	Renu Sharma Rajender Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22089 26/03/07	375, Sector, -13, Hisar
102674	Renuka Nikesh Bhagat	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	22006 6/1/06	H.No. 51, Shiv Colony Wall Gali Village Rattangarh, Ambala city
102675	Reshu Trehan Amolendra Trehan	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21873 12/07/06	104, Preet Nagar, Po Mahesh Nagar Ambala Cantonment
102676	Rima Badwal Kanwal Deep Singh Badwal	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	22017 15/12/06	C-12, Old Campus, CCS HAU, Hisar
102677	Ritesh Banka Shyam Sunder Banka	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21921 03/08/04	3121, Sector -20, D, Chandigarh
102678	Ritesh Sharma M.L. Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21645 11/11/05	265-B, New Sukhdev Nagar, Panipat
102679	Ritu Gupta Parvin Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21619 21/07/05	Santra Devi Memorial Hospital, Behind Municipal Committee, Mahendergarh
102680	Ritu Dahiya Om Parkash Dahiya	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21686 21/02/06	1209/21, Gali No. 09, Prem Nagar Rohtak
102681	Ritu Verma N.K. Verma	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21656 19/01/06	H.No. 4, Jagat Colony, Near Govt. Rest House, Bhiwani
102682	Ritu Yadav Abhaya Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	21585 08/04/05	Sundroj, Po Pithrawas, Distt, Rewari
102683	Rohit Mohinder Pal Monga	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21990 16/10/06	H.No. 88, Lal Dwara (Yamuna Nagar)
102684	Rohit Walla Jai Kumar Walla	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21903 17/07/06	23, Housing Board Colony, Baldev Nagar Ambala city



102685	Rosy Pandey Sunil Pandey	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21989 16/01/06	1545, Sector-10- A, Gurgaon
102686	Ruchi Yadav Attar Singh Yadav	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22083 26/03/07	Gandhi Nagar, Near Bountra School, Rewari
102687	Rupa Makan Subhash Chander Makan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21833 19/05/06	838, New Hamida Colony, (Yamuna Nagar)
102688	Sachit Manopali Manohar Lal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21717 14/03/06	Chhabil Das Colony, Uklana Mandi Hisar
102689	Sadhna Salni B.L. salni	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22041 14/03/07	Saini Bhawan, Hans Nagar, Bharawas Phatak, Rewari
102690	Sahdev Gurdial Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21816 03/05/06	VPO. Dhingsara, (Fatehabad)
102691	Saket Sharma Ashutosh Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21682 21/02/06	C/o B.D. Sharma Hospital, Sainian Mohalla, Hisar
102692	Salim Ahmad Rashid Ahmed	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21601 16/05/05	Vill. Kangraha, Po Tauru (Gurgaon)
102693	Samidha Sharma Kirti Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21966 06/09/06	1607, kacha Bazar, Ambala Cantt.
102694	Sandeep Kumar B.K. Agarwal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1995	21908 18/07/06	1470, Sector- 4, Panchkula
102695	Sandeep Kumar Suresh Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21663 07/02/06	C/o Rakhi Cloth House, Jind Road Bus Stand, Naranaund ( Hisar)
102696	Sandeep Sangwan Ranbir Sarwan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21643 8/1/15	H.No.886/21,Geeta Colony, Old Circular Road, Double phatak. Rohtak
102697	Sandeep kalra D.D. Kalra	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21702 06/03/06	51/5, Sethan Mohalla, Near Anya Samaj Mandir, kaithal
102698	Sandep Dua Shiv Ram Dua	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21609 23/06/05	VPO. Alrawar, Near Isaltabad (Kurukshetra)
102699	Sangeeta Gulshan Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	21630 14/09/05	Near Durga Mandir, Birbal Nagar Narwana (Jind)

102700	Sangeeta Bishnoi Rajender Kumar	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2001	21859 28/06/06	H.No. 670/20, Prem Nagar, Rohtak
102701	Sangeeta Ram Kishan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22053 15/03/07	H.NO. 120-A, Scheme No. 19, Jind
102702	Sanjay Bindeshwari Singh	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21832 12/05/06	HUDA Colony, Sri Nagar, Delhi Road Sonapat
102703	Sanjay Panwar Ram Ji Lal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21703 06/03/06	248/22, Bhatnagar Colony, Rohtak Road Jind
102704	Sanjay Ram Jai Ram	B.A.M.S B.B.A. Bihar Univ, Muzaffarpur 2004	22024 18/01/07	C/o Nand Lal, 234-A, Sanjay Colony, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh
102705	Sanjeev Kaushik Rajinder Prasad	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 2001	21951 24/08/06	709, Sector-37, Faridabad
102706	Sanjeev Kumar Satya Pal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22081 26/03/07	VPO. Bastara, Tehsil Ghaunda Kanai
102707	Sanjiv Baisla D.S. Baisla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21856 21/06/06	H.No. 270, Sector -21-A- NIT, Faridabad
102708	Sapna Godara Dhram Pal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21633 20/09/05	H.No. 16/834, Dabwali Road, Sirsa
102709	Sarita Saroha Zile Singh Saroha	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21762 12/04/06	VOP, Harsana Kalan (Sonapat)
102710	Satender Devi Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21684 07/02/06	54-A, Sardaro Wali Gali, Jawahar Nagar Sonapat
102711	Savita Dinodia Navneet Dinodia	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2002	21770 19/04/06	H.No. 65-66, HBC, Sirsa Road Hisar
102712	Seema Dialip Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21697 02/03/06	VIII. Garhi Ujale Khan, Panipat Road, Daryapur, Gohana Sonapat
102713	Seema Taneja Dina Nath	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21784 02/05/06	H.No. 11790, Sector -14, Hisar
102714	Seeru Devdhar Balu Ram	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21862 03/07/06	H.No. D/674, Chevvala Colony, Ballabgarh (Faridabad)

102715	Shailender Chauhan Kehar Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21589 11/04/05	VPO, Pataudi (Gurgaon)
102716	Shally Ganender Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21712 09/03/06	H.No. B-15/223, Bansal Colony, Sirsa
102717	Shakina Banoo Sharbati Khan	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21794 03/05/06	H.No. 2246, Sector -7, Kurukshetra
102718	Shakshi Om Prakash Bagri	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21781 02/05/06	H.No. 367, Sector -3, Rewari
102719	Shakti Singh Yadav Yad Ram Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21772 27/04/06	VIII, Khampura, Post. Sihna, Tehsil Nameul (Mahendergarh)
102720	Shalini Rath S.S. Rath	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21602 18/05/06	L-204, Model Town, Rohtak
102721	Shalini Sharma Mahesh Sharma	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21617 21/07/05	252, B-XI, Shastri Nagar, Ambala City
102722	Shalu Jarath Saurabh Jerath	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	22007 10/11/06	376, Sector -18, HUDA, Jagadhari (Yamuna Nagar)
102723	Shashi Raj Rajeshwar Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21795 03/05/06	1521, Sector -7, UE, Kurukshetra
102724	Shasun Goyal Vinod Goyal	B.A.M.S Himachal Pradesh Univ, Shimla 2004	21828 11/05/06	H.No. 55, Laxmi Nagar, Near Sarojini Colony, Yamuna Nagar
102725	Shaweta Chawla Chander Parkash Chawla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21584 08/04/05	Near Sewa Simiti, Hira Chowk, Dadri (Bhiwani)
102726	Shefali Khambra Khem Chand Khambra	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21724 14/03/06	141, Vijay Colony Jewahar Nagar, Hisar
102727	Sheikha Bhardwaj Paras Bhardwaj	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21658 20/01/06	Near B.D.O. Office, Ganaur (Sonapat)
102728	Shikha Khurana Girish Kumar Khurana	B.A.M.S G.D. Univ, Amritsar 1998	21919 27/07/06	Khurana Dental Clinic, Geeta Bhawan Chowk, Sonapat
102729	Shirshan Bala Raghunandan Parsad Deepak	B.A.M.S S.S. Univ, Varanasi 2004	21998 20/10/06	C/o Sanjay Kumar Mishra, SCO No 72-73 Sector-20- C, Chandigarh

102730	Shiv Kumar Rishal singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1997	VIII. Kishangarh, Tehsil Meham (Rohtak)	21807 03/05/06
102731	Shiva Arora Prem nath Arora	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	10, Savi Murti Colony, Panipat	22023 09/01/07
102732	Shivam Arya Naresh Arya	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	Naresh Clinic, Gohana Road, Rohtak	22057 15/03/07
102733	Shruti Gupta Yash Pal Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2000	2456, Sector-12-C, Chandigarh	22018 15/12/06
102734	Shukram Pal Lakshmi Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	VPO Sheikhpura Khalsa, Tehsil Gurgaon Distt. Karnal	21904 17/07/06
102735	Shweta Laxman Singh	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 2005	Civil Line, Arya Nagar, W.NO. 16, Jhaljar	22020 29/12/06
102736	Singh Dinker Kumar Rajendra Rajendra Singh Saasar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	C/o Malkhan Singh, Plot No. 5146/31, Surat Nagar, Gurgaon	21973 20/09/06
102737	Sneh Kumar Gupta Ramesh Chander Gupta	B.A.M.S S.S. Univ, Varanasi 2004	C/o Sanjay Kumar Mishra, SCO No 72-73 Sector-20-C, Chandigarh	21997 20/10/06
102738	Sohan Lal Salini Khemi Raj Salini	B.A.M.S Rajasthan Univ, Jaipur 2003	1346, Sector -03, Pipli, Kurukshetra	22013 30/11/06
102739	Som Prakash Ranjit singh	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	Chaudhary Aushdhalya, Patiala Chowk, Jind	21829 11/05/06
102740	Somya Ved Pal singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	959, Sector -15, Sonipet	22065 23/03/07
102741	Sonia Ravi Agarwal	B.A.M.S G.D. Univ, Amritsar 1999	Raj Maternity & GK Nursing Home Hisar Road, Sirsa	21877 13/07/06
102742	Sonia Joshi Raj Kumar Joshi	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	927, Sector -25, Panchkula	22001 20/10/06
102743	Sonia Sood Gaurav Sood	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	26, Old Housing Board Colony, Sonapat	21901 17/07/06
102744	Sonika Bhup Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	Sanwan Nursing Home, Sirsa	21583 08/04/05

102745	Sonika Surender Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21725 14/03/06	H.No.499,W.No.15,7 Biswa, Jatwara Mohalla, Bahadurgarh (Jhajjar)
102746	Sonika Sharma Dharamender Kaushik	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21652 12/12/05	494, Sector -8, Faridabad
102747	Sonika Yadav Ram Nives Yadav	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22085 28/03/07	VIII. Shahvezpur Khalsa, Po Majra Gurdas Distt, Rewari
102748	Soniya Yadav Yogesh Yadav	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21972 20/09/06	Amar Hospital, Jatauli Gurgaon
102749	Subhash Khandelwal Suraj Bhan	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22037 14/03/07	VPO, Nindana, Tehsil. Meham (Rohtak)
102750	Subhash Chander Jha Shambhu Nath Jha	B.A.M.S B.B.A. Bihar Univ, Muzaffarpur 2001	21984 11/10/06	C/o Raman Jha, Flat No.2075/B, Sector 41-C, Block No.09, Chandigarh
102751	Sudhir Singh Rishal Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21800 03/05/06	H.No. 30, W.N.2, Kachoria Niwas Old Mandi Road Hisar
102752	Sulochana Mukesh Kumar Sharma	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21913 21/07/06	891/7, New Court Road, Anli Vihar Sonapat
102753	Suman Nahar Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21732 22/03/06	385, Sector -2, Rohtak
102754	Suman Bala Parmanand Jengra	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21670 09/02/06	H.NO. 1407/1, Sanjay Colony, Rohtak
102755	Suman Kumar Harpal Singh	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21650 08/12/05	H.No. 1031, Sector-23-B, Chandigarh
102756	Suman Rani Sumer Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21755 07/04/06	H.No.196/14,Fauji Plot, Near Primary School, Pehowa (Kurukshetra)
102757	Suman Yadav Atal Singh Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21840 02/06/06	1108/1, Daya Nand Colony, Gurgaon
102758	Sumit Mital Inder Jeet Mital	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2001	21944 24/08/06	1241, Sector-51B, Chandigarh
102759	Sumit Salni Ishwer Singh Salni	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21738 23/03/06	H.No. 15, Type-II, MDU Univ, Campus Rohtak

102760	Sunayana Khushal Deep Goyal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21823 10/05/06	SCF No.71-72, Thana Road, New Anaj Mandi Kalanwali (Sirsa)
102761	Sunil Gupta Satpal Gupta	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21817 03/05/06	525/4, Gupta Colony, Mata Gate Kalthal
102762	Sunil Kumar Om Parkash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21691 21/02/06	606-G/29, Ram Gopal Colony, Rohtak
102763	Sunil Kumar Jai Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21708 08/03/06	VPO. Kharkhari, (Bhiwani)
102764	Sunil Kumar Som Dutt	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1993	21875 12/07/05	1593, Sector -15- Panchkula
102765	Sunil Kumar Amir Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21889 17/07/06	VPO. Shodapur, Assamdh Road Panipat
102766	Sunil Kumar Gopi Ram	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22069 23/03/07	Co Gopi Automobiles, Tosharn Road Swani (Bhiwani)
102767	Sunil Saini Gansham Dass Saini	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21813 03/05/06	H.No. 3090/A, Mohalla Ram Bass Bharawas Gate, Rewari
102768	Sunil Sangwan Nand Lal Sangwan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22088 26/03/07	H.NO. 423, D.C. Colony Backside BTM Bhiwani
102769	Sunil Sharma Suresh Kumar Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21811 03/05/06	Anand Saini, 318/21, Mohalla Sukhpura Sukhpur Chowk, Rohtak
102770	Sunil Taneja Shambhu Nath Taneja	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21978 04/10/06	73/33, U-Block, DLF Phase -II, Gurgaon
102771	Sunil Yadav Krishan Dutt	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21819 03/05/06	VPO. Chang Road Distt, Bhiwani
102772	Sunita Hanuman Parsad	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22091 26/03/07	H.NO. 735., Rishi Nagar, Behind Bus Stand, Hissar
102773	Sunita Beniwal Manoj Kumar Beniwal	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 1991	22022 04/01/07	VPO. Jant (Rewari)
102774	Sunita Parashar R.P. Parashar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1994	21934 24/08/06	H.No. 7/38, Gali No.02/ Model Town Bahadurgarh (Jhajjar)

102775	Sunita Rana Dhram Pal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21872 12/07/06	VPO Rahra (Karnal)
102776	Sunita Rani Suresh Chander	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21731 22/03/06	H.No. 235, Sector , 20-I, HUDA Colony, Sirsa
102777	Sunjit Kaur Bharpoor Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2005	21961 04/09/06	307, W.No. 18, Dheram kanta, Sirsa Road, mandi Dabwali (Sirsa)
102778	Suraj Bhan Rameshwar Parsad	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21815 03/05/06	A-284, Dabua Colony, NIT Faridabad
102779	Surbhi Bhanot R.S. Bhanot	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21891 17/07/06	5777, Sector-38 (West), Chandigarh
102780	Surbhi Chawla Ashok Chawla	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21939 24/09/06	762/12, Bala Sundri Road Pehowa (Kurukshetra)
102781	Surbhi Pareek Akhok Pareek	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21760 10/04/06	414, Agaesen Colony , Sirsa
102782	Surender Hawa Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21836 19/05/06	382, Sector -1, Rohtak
102783	Surender Kumar Chaudhary Ram Mehar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21854 17/07/06	VPO. Ballana (Rohtak)
102784	Surender Kumar Jindal Om Prakash Jindal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1998	21649 28/11/05	H.No. 818, Sector -7, Ambala City
102785	Surender Pal Daryav Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21847 07/06/06	VIII. Gandhi Nagar , Post Mangali (Hisar)
102786	Suresh Kumar Ram Dhari	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21885 17/07/06	VPO, Nandal (Rohtak)
102787	Surya Partap Singh Rajbir Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22066 23/03/07	Near Buthan Chopal, Village Fatehpur (Kaithal)
102788	Sushil Kumar Om Parkash	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21869 17/07/06	137/4, Ram Richpal Colony, Opp Saini College , Rohtak
102789	Sushil Kumar Ram Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22011 15/11/06	H.No.727/29, Vikas Nagar, Street No.01, Kakrai Road Sonapat

102790	Sushil Sharma Prem Singh	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21599 03/05/05	75/30, Subhash Nagar, Rohtak Road, Jind
102791	Sushila Rana Sushil Kumar Rana	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1988	21911 20/07/06	2323-MIG, Housing Board Colony, Sector-3, Rohtak
102792	Sushila Singh Har Kishan	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1991	21902 17/07/06	2316, Sector-3, Rohtak
102793	Sushma Ram Dhari	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21855 16/06/06	H.No.32, PWD, B& R. Colony Near Civil Hospital, Panipat
102794	Sushma Yadav Hari Yadav	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21940 24/08/06	VPO Naya Gaon (Rewari)
102795	Sushma Bajaj Chander Mohan Bajaj	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1993	21610 24/06/05	Flat No. 3C, Block No.03, Rail Vihar Gurgaon
102796	Tanu Sharma Deepak Kumar Sharma	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2003	21927 10/08/06	1213, Sector-23 B, Chandigarh
102797	Tarun Gulani B.L. Gulani	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21678 20/02/06	B-II, H.No. 751, Pardhana Mohalla, Rohtak
102798	Tarun Raina Karam Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21846 17/11/05	C/o Budh Singh, Nagar sham Lal, Ex MLA, Shelkhpura, Patwal (Faridabad)
102799	Taruna Premi Meher Chand Premi	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21892 17/07/06	1243-F, Sector-04, Panchkula
102800	Tijender Ravi Dutt Sharma	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 2000	21952 24/08/06	VPO Safiabab (Sonapat)
102801	Triptat Pal Kaur Surender Singh Monga	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21672 10/02/06	Rori Gatta, Jagdev Singh Chowk, Ciraula Road, Opp. Chawla Sweets, Sirsa
102802	Uday Vir Singh Budh Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21624 05/08/05	Shelkhpura Mohalla, Patwal (Faridabad)
102803	Umesh Sehgal Krishan Sehgal	B.A.M.S Jiwaji Univ, Gwalior 2002	22033 09/03/07	C/o Aman Singh 111/37, Faridabad
102804	Upasana Goyal Rajnish K. Goyal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1997	21932 11/08/06	98-E, Rani Bagh, Mahesh Nagar Ambala Cantt.



102805	Unvishi Gupta Jagan Nath Gupta	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21790 02/05/06	839, Sector -28, Faridabad
102806	Usha Rani Rajpal Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21618 21/07/05	Ghikara Road, Ch. Dadri (Bhiwani)
102807	Vaishali Verma Vimal Kumar	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2003	21604 20/05/05	C-6, 1509, Chhotee Line, Jagadhar (Yamuna Nagar)
102808	Vandana Prem Sagar Mittal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 1993	21959 28/09/06	Bawasir Hospital, Near Hafed, Radaur (Yamuna Nagar)
102809	Vandna Yogesh Khanna	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 1999	21757 07/04/06	H.No.13991,M.K.Salai School, Near EST Dispensary, Khalipur (Sirsa)
102810	Vandna Gupta Ramesh Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1996	21871 12/07/06	Hira chowk, Ch. Dadri (Bhiwani)
102811	Varun Dalal Ishwer Singh Dalai	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21804 03/05/06	H.NO. 04, Canal Colony, Ch. Dadri Bhiwani
102812	Vatika Sunder Lal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21710 09/03/06	83, Gandhi Colony, Sirsa
102813	Vidushi Sabharwal H.K. Sabharwal	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2000	21958 29/03/06	331, Sector -9, Panchkula
102814	Vijay Dharamvir Singh	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22035 14/03/07	VPO, Jhaljar Road Sampla, Rohtak
102815	Vijay Chaudhary Mahabir Singh	B.A.M.S Bharati Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ) 2000	21976 27/09/06	C/o Som Nath Malhotra, Kothi No.13-B HUDA, Sector -11, Part Panipat
102816	Vijay Kumar Jagdish Parsad	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22078 23/03/07	VPO Narsingh Pur (Gurgaon)
102817	Vijay Kumar Dhingra Muleeta Raj Dhingra	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21653 23/12/05	VPO Khetparail (Panchkula)
102818	Vikas Budh Ram	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21713 09/03/06	303/6, Gyan Nagar, Purkhas Road, Sonapat
102819	Vikas Mehar Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22079 23/03/07	VPO, Imiota (Bhiwani)

102820	Vikas Yadav Abhey Singh Yadav	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21799 03/05/06	355, Sector -10, Gurgaon
102821	Vikas Sehgal Tara Chand	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2005	22036 14/03/07	J.K.Electronic,Behind Cloth Market, Barwala (Hisar)
102822	Vikram Laxmi Chand	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21674 20/02/06	533/3, Sant Nagar, Patiala Chowk, Jind
102823	Vimal Chhabra Subhash Chhabra	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2002	21905 17/07/06	H.No. 104, GS-17, MDC, Sector-5 Panchkula
102824	Vimmi Gupta Tarsem Lal Gupta	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21947 24/08/06	14, Patel Nagar, Ambala City
102825	Vinay Kaushik Daya Chand Kaushik	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22068 23/03/07	H.No. 189, Sector -23, Gall No.05, Bahadurgarh (Jhajjar)
102826	Vinay Kumar Subhash Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21842 02/06/06	Dhanwanthy Hospital, Bazar Vakilan, Inside Nagori Gate, Hisar
102827	Vinay Pal Verma Benarasi Das	G.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 1978	22012 30/11/06	Verma Nursing Home, 37, HUDA Complex, Rohtak
102828	Vinod Kumar Surat Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21676 20/02/06	VPO. Atta (Panipat)
102829	Vipin Dalal Bhim Singh Dalal	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21759 10/04/06	C/o Sh. Bhim Singh Dalal SDO (Agriculture) Mehendergarh
102830	Vishal Goyal Vijay Goyal	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2004	21866 10/07/06	26, Kashi Nagar, Ambala City
102831	Vishal Gupta A.K. Gupta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21669 09/02/06	582/11, Panchkula
102832	Vishal Sharma Baljit Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21603 19/05/05	Near Canal Rest House, Kirti Nagar Bhiwani
102833	Vishal Sharma Shiv Persad Sharma	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22074 23/03/07	3349, Sector-32 D- Chandigarh
102834	Vishav Bhardi Ashok Kumar	B.A.M.S Delhi Univ, Delhi 1987	22019 15/12/06	18/278, Baldev Nagar, Ambala

102835	Vishav Parkash Parkash Saini	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21796 03/05/06	Paritash Hospital & Nursing Home, Dharuhera Distt. Rewari
102836	Vishwas Chhabra Subhash Chhabra	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21716 13/03/06	K.D. Nagar, Gali NO.02, Block B, Ganaur (Sonapat)
102837	Vivek Ahlawat Satbir Singh Ahlawat	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21727 20/03/06	180/17, Arya Nagar, Jhajjar
102838	Vivek Bhardwaj Maha Singh	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21918 25/07/06	1462, Sector-03, Rohtak
102839	Vivek Gupta Jaipal Gupta	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2005	22055 15/03/07	Gupta Nursing Home, Raipur Rani Panchkula
102840	Vivek Kumar Suresh Pal	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21739 23/03/06	Khokhar Nowas, West Ram Nagar Kakrol Chungi, Sonapat
102841	Vivek Singh Rana Rajender Singh Rana	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2003	21587 08/06/05	1246, Sector-1, Rohtak
102842	Yadvinder Singh Jasbir Singh	B.A.M.S B.F.U.H. Sciences, Faridkot 2003	21615 08/07/05	VPO. Chautala, Tehsil Dabwali (Sirsa)
102843	Yamini Gupta M.L. Gupta	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2004	21917 25/07/06	H.No. 1901, Sector -39-B, Chandigarh
102844	Yash Pal Phogat Rajender Phogat	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21680 07/02/06	VPO. Dawla (Jhajjar)
102845	Yaspal Ram Kumar	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21860 28/06/06	VPO. Misri, Tehsil. Ch. Dadri (Bhiwani)
102846	Yogesh Mittal Jagdish Chander	B.A.M.S Kurukshetra Univ, Kurukshetra 2004	21805 03/05/06	82/6, Gali No. 10, Patram Nagar Narwanana (Jind)
102847	Yoginder Kumar Satbir Singh Yadav	B.A.M.S M.D. Univ, Rohtak 2004	21720 14/03/06	H.No.291/23, Gali No. 3, Hira Nagar Gurgaon
102848	Yogita Yadav Ramphal Yadav	B.A.M.S Punjab Univ, Chandigarh 2005	21895 17/07/06	VOP. Ralliy, Sector -12-A, Panchkula

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## HARYANA

## PART.II UNANI


CR NO	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
10097	Abdul Gaffar Khan Mohd. Saed	B.U.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2002	22004 07.11.06	Village Solkho Tehsil. Tauru, Gurgaon
10098	Mohd. Rafique Ahmed Mukta Khan	B.U.M.S Univ Of Rajasthan Jaipur 2004	22031 30.01.07	Archana Nursing Home Hathin , Nooh Mewat
10099	Mohd. Usman Zabir Hasan	B.U.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2001	21686 11.10.06	Mohalla.. Ghantaghar Karnal
10010	MoHD. Wazim Ahmed Kamruddin	B.U.M.S Delhi. Univ. Delhi 2003	22014 04.12.06	At & P.O. Asoti Tehsil Palval Faridabad
100101	Nounman Khan Abdul	B.U.M.S Delhi. Univ. Delhi 2002	21854 16.06.06	Village. Babupur Po.Malai Tehsil Hathin Faridabad
100102	Tahira Begum Akhtar Hasan	B.U.M.S Jamia Hamdard Delhi 1997	21967 06.09.06	House. No. 659. Sector 12 A. Panchkula

**NEW DELHI 110058****16 JULY, 2008**

No. 20-04/2008 –CR (Gujarat) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Gujarat and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto December 2006, by inserting serial No.107744 of Ayurveda and 12626 of Unani onwards after the existing last Serial No.108191 of Ayurved and 12637 for Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Gujarat) from 1st April 2005 to 31<sup>st</sup> December 2006 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.



P. R. SHARMA  
Registrar

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## GUJARAT

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
107744	Abhay Kanabar Girishchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15389 01/11/06	United India Insurance Company, Near Bhutnath Temple, Lohana Student Bhavan, Junagadh
107745	Abhishek Tripathi Jagballi	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15391 01/11/06	A- 11, Pushavihar Baunglous, B/h, Annapurna Hotel, Jasoda Cross Road Ahmedabad
107746	Abidhusen Idariya Mohmadhabib	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15405 30/11/06	Amreana Sarlat. Street, Opp. Panwella House Pologround, At, Himatnagar, Distt. Sabarkanth,
107747	Ajay Trivedi	B.A.M.S. Devi Ahilya Univ, Indore 2004	15262 30/06/06	1159, Sudamanagar Opp. Gurudwara, At. & Distt. Indore(M.P.)
107748	Ajaykumar Vaniya Kanthadbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15363 30/09/06	Kalayanagar Opp. High School At: Dungar Tal, Rajula, Distt, Amreli
107749	Ajitdan Charan Ambadan	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15157 29/10/05	9, Shiv Shakti Society, Behind New Court Mahuha Road, Tal. Mahemdavad, Distt. Kheda
107750	Akbar Patel Sulemanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15146 30/09/06	At. Vankai, Tal; Mangrol, Distt, Surat,
107751	Akiko Tokinobu Takeyuki	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15230 31/03/06	705-15, Fujita, Okayama- Shi, Okayama,
107752	Alpakumari Patel Rajnikant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15145 30/09/05	At. Vankai, Tal; Mangrol, Distt. Surat
107753	Alpesh Sorathiya Pragibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15283 31/08/06	Harl Om Rajaramnagar Main Road, B/h. Saint Kabir Road, Rajkot
107754	Alpeshbhai Nimavat Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15193 31/01/06	At: Jangar, Tal; Kunkavav, Distt, Amreli
107755	Alpeshkumar Sadhu Harshadbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15048 31/05/05	At, Vanpardl, Tal; Mandai, Distt, Ahmedabad
107756	Amee Amrutia Sureshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15295 31/08/06	Ranjit Nagar, Block No. C. 2/251, Jamnagar

107757	Anil Panchal Maheshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15220 31/03/06	3768, West Main Street, Batavian, N.Y. 14020, U.S.A.
107758	Amirhusain Ghoghari Kurbanhusain	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1985	15229 31/03/06	Baharpura, Vohravad, At: Dhoraji, Distt, Rajkot
107759	Amita Gondalla Hematriam	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15291 31/08/06	"Matru Smriti", 3, Naval Nagar, Mavdi Plot, Rajkot
107760	Amitaben Patel Nagimbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15292 31/08/06	Block No. 345/4, Chh' Type, Sector 28- Gandhinagar
107761	Amitaben Patel Trikambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15011 30/04/05	Kuivalu Faliyu, Kamla At: Nadlad Distt. Kheda
107762	Amitkumar Patel Bhailabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15033 30/04/05	43, Anandnagar Society, Nagar B. K. Cinema Vlsnagar Distt, Mehsana
107763	Anand Mali Pavaba	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15021 30/04/05	18, Savali Shri Shivrji Colony Ta Navapur Distt, Nandurbar
107764	Anitaben Patel Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15422 30/11/06	At: Ugat (Sarvodaya) Tal: Navsari Distt, Navsari
107765	Anitaben Suthar Mahendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14995 30/04/05	At: Lunawada, Dungebhint, B/h The Raifal House Shriji, Krupa' Distt. Panchmahal
107766	Anjana Sharma Ranchhodibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14990 30/04/05	Plot No. 401/1, Sector 12 B, Gandhinagar
107767	Anjum Khokhar Abdulvahid	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15153 29/10/05	Plot No. 488/11, Mehvish, Near Prabhudas Talav Chowk, Bhavnagar
107768	Ankitaben Vaghela Ajitsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15368 30/09/06	A- 37, Ram Krishna Colony, Near Uttamnagar Nikol Gam Road, Ahmedabad
107769	Ankur Mishra Dayanath	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15354 30/09/06	B- 5, Shyam Darshan Society, Nava Naroda, Parshvanth Township, Ahmedabad
107770	Anuja Sarant Divakar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15259 30/06/06	3, Pushkaraj Society, Veer Savarkar Marg, Near Gornantak Hotel, At: Dombvi (East) Thane (Maha).
107771	Aratiben Patel Mahendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15345 30/09/06	Stationpura, B/h. Primary School, Post Kukarvada, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana, N.G.

107772	Arunaben Varla Sardulbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15408 30/11/06	7475, Vishalnagar, 1, Near Health Centre, Katargam Road, Surat
107773	Asha Karkar Kishorbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15054 31/05/05	At & Post Mota Ankadia, Ta. & Dist Amreli,
107774	Ashaben Agrawal Surajmal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15045 31/05/05	3, New Kamlesh Society, Nr. Prajapati Society Rajendra Park Road, Odhav, Ahmedabad
107775	Ashaben Patel Ishwarlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15037 31/05/05	Yogeshwar Nagar, Ravapar Road Morbi, Dist, Rajkot
107776	Asmita Hirpara Purushottambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15316 30/09/06	4/A, Sardarnagar Society, Jaydeep, Mavdi Plot, Near Patel Boarding, Rajkot
107777	Asmitaben Gabani Gordhanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15083 30/06/05	C-49/Radhesyam Soc. Singanpor Cross Road Ved, Road, Surat
107778	Avanibahen Patel Bipinchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14987 30/04/05	A/F/2, Jalvihar Flats, Opp. Rajmani Society, Times of India Pl. Satellite, Ahmedabad
107779	Avinash Patil Mohan	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15184 31/12/05	At Purushottamnagar, Tal; Shaheda Dist, Nandubhar, (Maharashtra)
107780	Avni Parmar Pratapbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15013 30/04/05	Chandrapark Soc. Block No.230, Street No 15. Opp. Pranijat Party Plot, 150. Ft. Ring Road Rajkot
107781	Bankim Gandhi Pankajkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15108 30/07/05	21, Shrinagar Society- Part-II, Govinnagar At, Dahod, Dist, Dahod
107782	Bhakti Chhaya Muljibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15257 30/06/06	Out Side Purwa Darwaja (East Gate) At; Dwarika, Dist. Porbandar
107783	Bhaktiben Bhavsar Padmakant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15111 30/07/05	A- 77, Manasnagar At, Zadeshwar Dist, Bharuch
107784	Bhanumatiben Dabhi Dasharthisinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15306 30/09/06	203/2, Sector-4' A' On G. Road Gandhinagar
107785	Bharat Patil Ramesh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15168 30/11/05	Ch Nirmal D. Patel, At; Khokwad Tal; Kamrej, Dist. Surat
107786	Bharatkumar Dalsaniya Devjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15135 31/08/05	At; Lakhtar, Ta. Jodiya Dist Jamnagar



107787	Bharatkumar Dholariya Ranchhodbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15276 31/08/06	Patel Park, Pedak Road, Near Paras Trading Co. Rajkot,
107788	Bharatkumar Kariyani Bhanubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15223 31/03/06	Opp. G.E.B. At: Dhasagam, Tal. Gadhada Distt, Bhavnagar
107789	Bharatkumar Mungara Ambabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14936 30/04/05	At: Dhanera, Gayatri Society, Tharad Road Street No.5, Ward 1/634, Ta. Dhanera, Banaskantha
107790	Bharatkumar Prajapati Maganbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15119 31/08/05	At: Metrana, Tal. Siddhapur Dist. Patan N.G
107791	Bhariben Umretia Labhendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15041 31/05/05	6/B. Vallabh Street, Sardar Nagar Nizampura, Baroda
107792	Bhetrusha Patel Vinodchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15433 30/11/06	Plot. No. 464/244, Sagvadi, Kalavibid Bhavnagar
107793	Bhaumik Prajapati Ghanshyambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14975 30/04/05	13, Jayshree, Nivas, Vimal Park Society Arbudanagar Road Odhav, Ahmedabad
107794	Bhevana Mishra Arvindkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15299 31/08/06	C-10, Anushaktinagar, New Sarma Road Vadodara
107795	Bhavanaben Prajapati Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15425 30/11/06	At: Bajipura, (Kumbharvad) Tal, Valod Dist. Surat
107796	Bhaveshkumar Jogi Sanalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15201 28/02/06	Near, Water Tank At; & Post; Meu, Tal; & Dist. Mehsana
107797	Bhaveshkumar Patel Mohanlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15182 31/12/05	AT; Ramos (Modasa), Tal; Dhanasura, Dist. Sabarkantha.
107798	Bhaveshkumar Chauhan Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14973 30/04/05	8, Indrajit Society, Opp. Dalmond Mill Nilkol Gam Road, Thakkamagar Ahmedabad
107799	Bhaveshkumar Tagadiya Zinabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15082 30/06/05	136, Ganga Jamma Soc., B/h Jeevanchara Opp. New Chopaty, Varechha Rd. Surat
107800	Bhavikaben Pancholi Maheshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15091 30/06/05	"Dharant", 12, Somnath Soc. Bodelli 391135, Dist. Baroda
107801	Bhavikaben Patel Dhirajlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15347 30/09/06	C-15, Ila Colony, India Colony, Ahmedabad

107802	Bhavikkumar Patel Jashubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15019 30/04/05	251, Narayan Nagar Soc. At. & PO. Bayad Dist. Sabarkantha.
107803	Bhavishababen Patel Deshrathlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15348 30/09/06	158/1244, Gujarat Housing Board, Khokhara, Ahmedabad
107804	Bhika Shivaji Bhamare	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1988	15376 01/11/06	Bazar Peth, At: Pimpalner, Tal: Sakri Dhule, Maharashtra
107805	Bhumi Patel Vishnubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15332 30/09/06	F-16, Champaknagar Flats, Opp: Swastik School, Nava Vadaj, Ahmedabad
107806	Bhumika Patel Narendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15125 31/08/05	B/41, Patara Type, Kevadia Colony, Tal: Nandod, Dist: Narmada
107807	Bhumika Prajapati Maheshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15016 30/04/05	Plot No. 240/1, Sector, A, Gandhinagar
107808	Bhupal Deshmukh Tryambak	B.A.M.S. Nagpur Univ, Nagpur 1984	15213 28/02/06	Braham Gali, At: Pimpalner, Tal: Sakri Dhule, Maharashtra
107809	Binaben Vansh Hathisinibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15311 30/09/06	At: Alidar, Tal: Kodinar, Dist Junagadh
107810	Bindu Pandor Punaji	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15120 31/08/05	Village: Limba, Tal: Vijaynagar Dist: Sabarkantha
107811	Binita Tala Valejibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15081 30/06/05	203, Ravikiran App. Akshar Nagar, Nr. Health Centre Katargam Rd. Surat
107812	Birva Patel Nareshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15340 30/09/06	12 Parnesh Society, Opp. Tulsi Raw House Jodhpur Gam, Setellile, Ahmedabad
107813	Brjeshkumar Vankar Dahyabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15058 31/05/05	28, Shantiniketan Soc. B/h Ashirwad Marriage Hall, Juna Bazar, Karzan, Dist: Baroda
107814	Chanchal Gupta Sunderlal	B.A.M.S. M.D. Univ, Rohtak 1988	15436 30/11/06	10, Jivrajnagar Society, Opp. Police Comm. Office, Shahibaug, Ahmedabad
107815	Chandni Pandhi Ratilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15160 30/11/05	Nilkanth Park, Anand Nagar, M-16 Rajkot
107816	Chandrika Asodaria Manubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15080 30/06/05	26, Anandnagar Soc. Nr. Puri Soc. Hira Baug, Varachha Rd. Surat

107817	Chandrikaben Patel Anrutlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15043 31/05/05	Becharpura, B/h Bhagavati Society, Ta; Palanpur, Dist; Banaskantha
107818	Chandrikaben Patel Dineshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15010 30/04/04	28, Chandralok Society, Near The Lucky Park Modhera Road, Dist; Mehsana
107819	Chetankumar Brahmkshetriya	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	15439 30/11/06	Hinglajnegar, Nenava Road, At; Dhanera Dist; Banaskantha
107820	Chetnaben Kanani Himmatlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15274 31/08/06	Near Darbari Chora, At; Hadlana; Tal; Jodia, Dist. Jamnagar
107821	Chirag Patel Bansibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15318 30/09/06	23, New Rajhans Society, Near Nav Nirman High School, Ranip, Ahmedabad
107822	Chirag Patel Satishkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15358 30/09/06	275/8, 3, Champa Nivas, Near, Varsodani Chaili, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad
107823	Chiragnhai Patel Meghijibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15065 31/05/05	115, Krushnanagar Society, Coz-way Road Nr. Singanpur Charasta, Surat
107824	Darshanaben Vaghela Nathabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15349 30/09/06	E-275, Manisha Park, Ambicanagar, Odhav Road, Ahmedabad
107825	Darshanben Joshi Yogeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15090 30/06/05	Datt; Krupa; Darbar Rd, B/h Library Shukal Sheri Rajpipla, Ta; Narmada
107826	Darshankumar Parmar Kishorbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15335 30/09/06	Jinvadi Para, At; Khambha Dist. Amreli,
107827	Daxa Parikh Hasmukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15124 31/08/05	A/18, Avadhupuri Tenament, Near Tapobhumi Society, Part -1, Isanpur, Ahmedabad
107828	Daxesh Patel Kanabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15117 31/08/05	A-15, Sangath-2, Motera Stadium Road Sabarmati, Ahmedabad
107829	Deepak Modi Natavarlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15378 01/11/06	N.R. Park, At; New Deesa, Dist; Banaskantha
107830	Devabhai Patel Amarabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14974 30/04/05	At; Salimgadh, Ta; Kamrej Dist; Banaskantha Post; Terwad
107831	Devang Patel Mukeshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15047 31/05/06	Block No. D-11-B/h Gokulnagar Junagadh

107832	Devendra Patil Ramchandra	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 1988	15096 30/06/05	14, Sonal Row House, Opp., L.P. Swavani School Honey Park Chowk Pal, Surat
107833	Devendrasingh Rathod Alubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15197 31/01/06	Pat. Street, At: Barwala (Ghe), Tal. Barwala, Dist. Ahmedabad
107834	Dhara Metha Kaushikkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15333 30/09/06	D-1, Simandhar Complex Ranna Park, Ghatlodia, Ahmedabad
107835	Dharini Buch Ashokbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15281 31/08/06	G-7/2085, Ranjit Nagar, Jamnagar
107836	Dharmendrakumar Vaghadiya Ambaram	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15419 30/11/06	89, Avenuepark Society, Ravapar Road At: Morbi, Dist: Rajkot
107837	Dharmishthaben Ramani Dhanjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15057 31/05/05	19, National Park Society, opp. Sarathana Octroi naka, Ta; Choryasi, Dist. Surat
107838	Dhaval Trivedi Jitendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15204 28/02/06	Om. 21" Station Plot Near Rly Station, At: Gondal, Dist: Rajkot
107839	Dhavalben Kalavadia Shantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15271 31/08/06	B/1, Royal Park, Near. Filter Plant, Kolki Road, At: Upleta, Dist: Rajkot
107840	Dhruiben Gandhi Rasikbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14980 30/04/05	Near Gandhi Sadan, Station Road Bilimora 396321, Dist. Navsari
107841	Dhvani Rami Dilipkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15336 30/09/06	18, Sametshikhar Society, Shantivan Narayannagar Road, Paldi, Ahmedabad
107842	Digvijaysinh Raol Parbatsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15012 30/04/05	Devada Vas, Near Abhaysing Madh, S.T. Road Ta: Mansa, Dist. Gandhinagar
107843	Dilipkumar Prabhani Pravinchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15236 31/03/06	Plot No. 742/2, Jagruti Park Society, Sector-30, Gandhinagar
107844	Dilipkumar Prajapati Kantibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15110 30/07/05	At: Mandali, Tal: Danta, Dist: Beneskantha
107845	Dimple Pandya Pratapray	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15297 31/08/06	D-1/5, Bedeshwar Govt. Colony, Valsura Road, Jamnagar
107846	Dinesh Patil Narottam	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2003	15104 30/06/05	4, Doctor House, 3rd Floor, KDH Gohil Hos, Navsari

107847	Dinesh Patil Purushottam	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15165 30/11/06	C/o Nirmal D. Patel, At: Kholawad, Ta: Kamrej, Dist: Surat
107848	Dinesh Patil Uddav	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15166 30/11/06	Dhanwantari Clinic, Darshana Nagar, Moyl Road, Netrang, Tal; Valia, Dist: Bharuch
107849	Dineshbhai Ray Savjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15428 30/11/06	63, Aaravuri Society, Opp: Vivek Motors, Chansma Highway Road, At: Patan, Dist: Patan
107850	Dineshkumar Baldaniya Khodabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15237 31/03/06	At: Bordi, Tal: Mahuva, Dist: Bhavnagar
107851	Dineshkumar Gajjar Bhagvanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15196 31/01/06	4, Shreyash Society, At: Bhabhar, Dist: Banaskantha
107852	Dineshkumar Prajapati Haribhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15109 30/07/05	43, Ayodhyanager, Near Kakoshi Railway Crossing, At: Sidhapur, Dist: Patan
107853	Dinkarbai Solanki Uttambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15161 30/11/05	Ambika Chock, Tal: Palanpur Dist: Banaskantha
107854	Dipakkumar Darji Mansukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15092 30/06/05	68, Meghdhanush Soc, Nr. Tube Company Old Padra Rd., Rajpath Soc. Baroda
107855	Dipakkumar Hanath Ujabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15426 30/11/06	At: Madana (Gadh), Tal: Palanpur, Dist: Banaskantha
107856	Dipal Shah Dineshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15084 30/06/05	Mahavir Dental Care, J.B. Complex Gandhi Chowk, Ta: Pettlad Dist: Anand
107857	Dipali Roz Pankajkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15248 31/05/08	3, Amardeep Society, Near, Pankaj Society Chakaliya Road, At: Dahod, Dist: Dahod
107858	Dipankumar Tripathi Harishkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15323 30/09/06	10, Hariharanand Tenament, Opp. Rajvadu Hotel, Malav Talav, Jivaraj, Park Ahmedabad
107859	Dipen Thaker Ashokkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15346 30/09/06	Mahajan Vado, Mandi Bazar, Opp: Govind Madhav Temple, At: Sidhpur, Dist: Patan
107860	Dipti Jogia Harilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15279 31/08/06	Sandhaya" Opp: Pranarni School, Hirji Mistri Road, Jamnagar
107861	Dipti Rajvir Vinodkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15289 31/08/06	"Aashirwad" Block No.56, Sadguni Park 150, Flt. New Ring Road, Rajkot

107862	Diptiben Sheta Manubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15416 30/11/06	34/A, Puri Society, Hirabaug, Varachha Road, Surat
107863	Divya Patel Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15142 30/09/05	A/2, Dist. Panchayat Officer Qua, Opp. DDO Bunglow, Tithal Road Valsad
107864	Dnyaneshwar Pawar Dinesh	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 1997	15303 31/08/06	At. Suthardada, Post Barpada Tal; Kadarada, Dist; Valsad
107865	Falguniben Chauhan Chhimanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15240 31/03/06	B/45, Jalaram Soc. Nr. Tube Company Old Padara Road Akota, Baroda
107866	Farhanben Sherasiya Ahmadbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15141 30/09/05	Opp. SKM. High School, Amanpark At & PO. Kahodar, Ta; Palanpur, Dist. B.K.
107867	Fatema Munshi Sahibbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1999	15018 30/04/05	"Yusuf Manji" Baharpura, Voravad Dhoraji-360410, Dist Rajkot
107868	Ganesh Padvi Krishna	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15100 30/06/05	72, Datt Colony Tal & Dist. Nandurbar
107869	Ganesh Patil Yashavant	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15098 30/06/05	Tekara Faliya Mandir, Post Vedachha, Tal; Jalapur, Dist; Navsari
107870	Gopi Jodav Haribhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15287 31/03/06	Plot. No. 1223/2, Sector -3A, Gandhinagar
107871	Gunjan Mehta Manibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15074 30/06/05	At & Post. Kapadvanj, D. 163, Somnath Society, Nana Ratnaker Mata Road, Dist. Kheda
107872	Hardikkumar Bhatt Kirankumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14985 30/04/05	A-161, Radhaswami Raw House, Near Chankyapuri Ghatlodia, Ahmedabad
107873	Hardighri Goswami Baturghri	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15235 31/03/06	D-965, Hill Drive, Government Quarters, Vaghawadi Road, Near, Circuit House, At Bhavnagar
107874	Harshaben Sudani Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15163 30/11/05	15/B, Sapna Society, Near Abhay Nagar Hirabaug, Varachha Road, Surat
107875	Harshadkumar Mor Dahyalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15095 30/06/05	At. Chital Saraniya Street, Harani Sheri, Nr. Patel Vadi, Dist & Ta; Chital
107876	Harshadkumar Patel Govindbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15325 30/09/06	Ahijola Street, At. Lakhnar, Dist; Surendranagar

107877	Harshal Bhatt Shirishbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15044- 31/08/06	Block No. 137/10, "B-1" Type, Sector 23- Gandhinagar
107878	Harshkumar Patel Kishorchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15088 31/05/05	15, Karmachari Nagar, Abu Road Highway Hanuman Tekri, Palanpur, Banaskantha
107879	Hasmukh Baraiya Bagheebhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15194 31/01/06	Muni Dairy, B/h. Patel Plot No, 899-A Air Port Road, At, Bhavnagar
107880	Hasmukhbhai Prajapati Ramanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15359 30/09/06	At, Nava Revas Tai, Idar, Dist, Sabarkantha
107881	Hasubhai Patel Vanabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15006 30/04/05	At, Paldi (Mithiy) Tai, Diyodar Dist, Banaskantha
107882	Heenaben Pavasiya Jerambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15178 30/11/05	Plot, No. 395/A, Street No. 04, Vijayrajnagar, Bhavnagar
107883	Hemali Tailor Nareshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14983 30/04/05	No. 1, Heera Panna App, Kailashnagar Surat
107884	Hemkant Chaudhari Mohan	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 1998	15304 31/08/06	At, Bamkheda, Tai, Shahada Dist, Nandurbar
107885	Hemlataben Rathod Jagdishbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1999	15183 31/12/05	A-101 Sagun Castle, Nagar Satellite Park, Satellite, Ahmedabad
107886	Hetal Mistri Jitendraabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15407 30/11/06	"Shantisharm" 17, Surajpark Society, Subhanpura, Baroda
107887	Hetal Nirmal Naneetray	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15002 30/04/05	68, Surabhai Raw House, B/h L.P Savani School, Honey Park Road, Palanpur Jakatnaka, Surat
107888	Hetal Thakor Shaileshsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15069 31/05/05	A-1, Shivdarsan Apartment, Nr. Jain Derasar, New Colony, GIDC, Ankleswar, Dist. Bharuch
107889	Hetalbahen Prajapati Narsinhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14906 30/04/05	2, Chitrakut Apartment, Nr. Vastrapur Railway Station Vejalpur, Ahmedabad
107890	Hetalben Chauhan Vikramsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15411 30/11/06	Q.No.3, 57/3, GSECL Colony, WTPS, Tai, Thasra, Dist. Kheda
107891	Hetalben Hudda Hasmukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2001	15077 30/06/05	At, Patan, 10 Vannaj Society, Opp. Railway Station

107892	Hetalben Kubavat Jugalkishor	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15414 30/11/06	At; Chital Tal; Amreli, Dist. Amreli
107893	Himmatlal Kalsariya Kanubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14979 30/04/05	Khodiyar Nagar 1, At; Bhadrud, Ta; Mahuva Dist. Bhavnagar
107894	Himmatrao Valvi Arjunsing	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15097 30/06/05	At; Ziri, Post; Nalgavhn Ta; Talod, Dist. Nandurbar, Maharashtra
107895	Hinaben Patel Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15393 01/11/06	28., Vivekanand Society, Dehgam Road At; Bayed, Sabarkantha
107896	Hinalben Vyas Kaniyalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15352 30/09/06	C-351, Vastrapur Government Colony, Gurukul. Drive in Road, Ahmedabad
107897	Hirai Modh Dhirajlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15384 01/1/06	10, "Maa" Goga Park Society, Jagana Road Opp; Water Tank, At; Palanpur, Banaskantha
107898	Hiren Jogi Chandrakant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15232 31/03/06	"Prabhu Kamla" 6, Radha Krishnanagar At; Gondal, Rajkot
107899	Hirenkumar Vaishnav Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15338 30/09/06	"Shri Datar Knpa", Sasan Road. At; Mendarda, Dist. Junagadh
107900	Hitendra Patil Khushal	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15216 28/02/06	At; Kotha, Vaya; Amalsad, Tali, Gandevi, Dist; Navsari
107901	Hitisha Vasava Tukarambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15064 31/05/05	A/4 Chitrakut Society-2, Zadeswar Road Maklampur, Bharuch
107902	Ilaaben Chavda Jasvantsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14999 30/04/05	At; Jay Somnath Society, Near GEB. Vasai (Dabhla), Ta; Vija Dist; Mehsana
107903	Indrajeet Charan Bedidaniji	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15365 30/09/06	G.H. Board, 2227/397, Shivshaktinagar Chandkheda, Ghandhinagar
107904	Ishwarbhai Bhayani Bhagvanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15055 31/05/05	105, Shri Shakti Apartment, Kamal Park Society -2 Varacha Rd. Kapodra, Surat
107905	Ivaben Suthar Kantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15004 30/04/05	5, Satyam Society, Balahanuman Road, At; Lodra, Tal; Mansa, Dist; Gandhinagar
107906	Jagadish Patel Shankar	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 1986	15169 30/11/05	Guj. House, Bo. Kanpura, At; Vgara, Dist. Surat



107907	Jagruta Makawna Hanubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14984 30/04/05	42/A, Krishna Baug Society, Tai; Dhandhuka Dist, Ahmedabad
107908	Jagruti Prajapati Hasmukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15001 30/04/05	Plot, No 136/1, Sector-3/A, Gandhinagar,
107909	Jashubhai Unava Jayanibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15225 31/03/06	Jalaram Society, Jesar Road, At; Savarkundia, Dist, Amreli
107910	Jasmitababen Patel; Mahendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14994 30/04/05	B-9, Navdeep Flat, Bhimajipura, Opp. Janaki Nandan Society Navavadaj, Ahmedabad
107911	Javnikababen Pamar Dahyabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15068 31/05/05	Bhadran Nr. Veterinary Hospital, Ta; Borsad Dist, Anand,
107912	Jay Kantharia Hasmukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14991 30/04/05	270, Premchandranagar, Judge Banglow Road Satellite, Ahmedabad
107913	Jayashree Ahir Chandubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15362 30/09/06	D-90, Jayshree Tenament Part-1, Rajendrapark Arbudanagar Road Odhav, Ahmedabad
107914	Jayashukhbhai Dayani Viththalibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15427 30/11/06	27/2, Vandana Society, Nana Varachha Road, Surat
107915	Jaydev Kilji Batukrai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15128 31/08/05	P & T Colony, Block No. C/2 Relendrabhavan Road, At, Veraval
107916	Jaydipsinh Jadeja Pravinsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15396 30/11/06	Near Petrol Pump, Cinema Road, At, Katavad (Shitla) Tal; Kalavad, Dist, Jamnagar
107917	Jayesh Gameti Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15180 30/11/05	Via, Darnor At; Biladiya Tal; Vilayanagar, Dist Saberkantha
107918	Jayeshkumar Shrimali Satishchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15126 31/08/05	D/163, Somnath Society, Nana Ratnakar Mata Road, At & Post, Kapadwari, Dist: Kheda
107919	Jayprakash Wagh Bhila	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15103 30/06/05	58/ Khodiyarnagar, Navagam, Dindoli Rd. Udhana, Ta, Chauryasi, Dist. Surat
107920	Jayshree Sharma Ramkishan	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15321 30/09/06	9, Adhikar Society, Part II, D-Cabin Sabarmati, Ahmedabad
107921	Jayshree Udani Dinkarra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15293 31/08/06	72/B, Gaushala Compound, Panchavati Jamnagar

107922	Jayshriaben Patel Chandulal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15386 01/11/06	Archon Hospital Khancho, Near Post Office, Tal; Lunavada, Dist Panchmahal
107923	Jayshriaben Sodavadia Kalubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15290 31/08/06	"Madhav Jeweller's G-21 Sahajanand Market Station Road, Amreli
107924	Jigarkumar Patel Kantibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15116 31/08/05	At; Shivpurakampa, Post Shinol, Tal; Dhansura, Sabarkantha
107925	Jigishababen Patel Dahyabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15000 30/04/05	125, Indraprasth Soc. Panvadi, At; Chikhaldia Tal; Vyara, Surat
107926	Jigna Chauhan Dilipkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15430 30/11/06	At; Waghal, Tal; Ahwa, Dist; Dang
107927	Jignabababen Dave Bhargavrushhi	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15300 31/8/8	Shree Ganesh Bhuvan, Chautachook At; Lunawada, Dist, Panchmahal
107928	Jignaben Chavda Bharatsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15356 30/09/06	B-375, Nisitpark, Adinathnagar, Odhav, Ahmedabad
107929	Jignaben Shah Surendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15298 31/09/06	B- Vrundavan Township, Hami Road Opp Nageshwar Mahadev Temple, Vadodara
107930	Jignakumari Patel Mohanlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15030 30/04/05	Part 4(402), Asopalav Complex, Chhanwada Road, At, Vapi, Ta; Pradi, Dist. Valsad
107931	Jignasa Makadia Suryakant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15284 31/08/06	Krishna Krishna Nagar Society, At; Bhayavader Tal; Upleta, Dist. Rajkot
107932	Jignasa Patel Dalubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15143 30/09/05	Anand Manuti Krupa, Opp. Prajapathvadi At, Vijalpur, Tal; Jalalpur Dist, Navsari
107933	Jignasha Nakum Sudhirkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15113 31/08/05	Vrajbhoomi Shyam Park Opp; Motibaug Radhakrushnanagar, A' Zone Main Road, At, Junagadh
107934	Jigneshkumar Borsaniya Devkrushna	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15226 31/03/06	Kubernagar-3, Navlakhi Road At; Morbi Dist; Rajkot
107935	Jitendra Patil Laxman	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2004	15167 30/11/05	Flat No. 1, Poonam Park Ajitnagar, Near Mohit Tower, Chala, Tal; Vapi, Dist; Valsad
107936	Jitendra Patil Sudam	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2004	15260 30/06/06	Room No. 671, Gujarat Housing Board Jalaramnagar, Near Water Tank, Pandesara, Surat

107937	Jitenkumar Parekh Navnitbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15224 31/03/06	Plot No 303, Harinagar-2, Opp; Racheysham App. At; Udhana, Dist; Surat
107938	Jitesh Patel Rambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14998 30/04/05	2, Shriji Prakash Society, Opp. Madhuvan Flats Amraiwadi, Ahmedabad
107939	Jyoti Dholakiya Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15035 31/05/05	Shantinagar-2 B/h, College, Junagadh Road, Jetpur, Rajkot
107940	Jyotiben Mulani Chunilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15431 30/11/06	79, Puspak Society, B/h; Dharamnagar A.K.Road, Surat
107941	Jyotsna Tadv Narsinhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15265 31/07/06	Jeevan Deep Society-2, B/h; I.T.I. College Zalod Road, Tal; Dahod, Dist; Dahod
107942	Kajal Khadadiya Madhukant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15280 31/08/06	Shree Darshnam" Panchavati Park Society Mahova Road, At; Sevarkundla, Dist, Amreli,
107943	Kajal Tanti Dhirjalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15296 31/08/06	Bharat" Jay Park 1, Near Parnkutr Society Nana Mahuva Main Road, Rajkot
107944	Kajalben Vaghela Lavjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15394 01/11/06	D.M.2, Lakhubhai Hall, Kaliyabid Shri Mandi Motors, Bhavnagar
107945	Kaigiben Santoki Harilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15273 31/08/06	C/o 108 Block No. 8/44, Govt. Quarter, University Road, Dist, Rajkot
107946	Kamalmami Joshi Hanumanprasad	B.A.M.S. Rajasthan Univ, Jaipur 1997	15071 31/05/05	Shrut Hospital, Kim Cross Road, Ta; Mangrol, Dist; Surat
107947	Kamina Patel Dasharthibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14993 30/04/05	A/301, Harvila Apartment, opp. Kargil Petrol Pumpo, Surkhej Highway, Ahmedabad
107948	Karunaben Ameena Hirabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15075 30/06/05	649/4203 G.H.B. B/h. 137 Bus Stand, New Bapunagar, Ahmedabad,
107949	Kashmira Vaishnav Harteshandas	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15199 28/02/06	" Shri Madhav Krupa Shri Nathaji Society, Timbavadi, Junagadh
107950	Kasim Rangla Aiyub	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15254 31/05/06	At; Bodhan, Tal; Mandvi, Dist; Surat,
107951	Kaushal Valoya Ashutoshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15066 31/05/05	Omkarani" Bazar Street, Ta; Gandevi Dist; Navsari

107952	Kavita Thacker Jayasinhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15270 31/08/06	3, Ghanshyam Nagar, Savesar Gate, At: Anjar, Dist: Kutch
107953	Ketankumar Patel Narasinhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15221 31/03/06	30/B, Gordhan Park Opp. Baroda Ex. Highway, Amraivadi, Ahmedabad
107954	Khodidas Shukla Himmatlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15130 31/08/05	Azad Chok, B/h Keshavnagar, Ganesh Nagar Savarkundala
107955	Khyati Jethwani Thakurdes	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15330 30/09/06	"Manthan" Dwarakesh Park, Near Guruprasad Society, Doshi Hospital Road, Rajkot
107956	Khyati Santwani Manohar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15202 28/02/06	C-3, Medical Campus, Jamnagar
107957	Khyati Shah Sureshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15351 30/09/06	A-205, Parmeshwar, Avenue, Opp, Nutan Nagrik Bank, Shantivan, Paldi, Ahmedabad
107958	Khyatiben Raghavani Bhimjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15329 30/09/06	"Shital" Vallabhnagar, Near Gayatri School Vanthli Road, Timbavadi, Junagadh
107959	Kinnari Tank Maganbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15219 31/03/06	21, Arvind Society, Infirmary of Dalmil, At: Surendranagar, Dist, Surendranagar
107960	Kiranben Prajapati Satishkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15361 30/09/06	At: Kanpur, Tal: Idar, Dist, Sabarkantha
107961	Kirankumar Bhalakhiya Sureshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15028 30/04/05	At: Palanpur, Out Side Meera Gate, Nr. Son Pati Hanuman Temple, Banaskantha
107962	Kirti Prashad Chothani Panchabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15179 30/11/05	Via: Sarsai, At: Dadar (Gir) Tal; Visavadar, Dist, Junagadh
107963	Komal Kumari Modi Mukeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15319 30/09/06	4, Panchdev Society, Near Shuftharvadi, Vishvakarma Nagar, At: Himmatnagar, Sabarkantha
107964	Krishaben Gadhai Prakashchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14981 30/04/05	C-55, Payal Nagar Naroda Ahmedabad
107965	Krunal Agravat Kiritbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15218 31/03/06	14, Gayatri Society, Batarwadi, At: & Post Amreli, Dist, Amreli
107966	Krunal Patanwala Motilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15342 30/09/06	36, Sarinarti Duplex Raw House, Nagar Palika Road, B/h Chandkheda Bus Stand, Chandkheda, Ahmedabad

107967	Krupababen Chauhan Vikramsinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15089 30/06/05	Wanakbori, Thermal Power Station, Opp. E.B Colony Q.No. III/ 57/3, Ta, Thasra, Kheda
107968	Kundanben Gediya Balubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15350 30/09/06	19, Jay Bajrang Society B/h Shastri Stadium Bapunagar, Ahmedabad
107969	Kureshi Muslim	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2003	15252 31/05/06	At: Kharod, Tal: Ankleshwar, Dist: Bharuch
107970	Kurvi Patel Kaushikbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2002	15239 31/03/06	Sarasvati Soc. B/h Vardhaman Soc. Morbi, Dist: Rajkot
107971	Kuryantpuri Goswami Mahendrapuri	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15093 30/06/05	At& PO Gambhol, Shivam Hospital Ta: Himmatnagar Dist: S.K.
107972	Kvinjalben Paneriy Jarambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15409 30/11/06	Jay Jodhnagar, At: Kadrama, Tal: Olpad, Dist: Surat
107973	Lataben Barad Rambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15228 31/03/06	Opp. Kodinar -Veraval Highway, At: Kodinar Dist: Junagadh
107974	Lataben Solanki Bijalbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15063 31/05/05	Plot No. 220/2, Sector No. 5A, Gandhinagar
107975	Leena Chaudhary Vishwanath	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2002	15267 31/07/06	8, Shidivas, Near GCET. Engg. • College, Bakrol Road, V.V. Nagar At: Anand, Dist: Anand
107976	Leena Suthar Narendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15031 30/04/05	33, Mehsana Nagar Soc., Radhanpur Road Ta.& Dist: Mehsana
107977	Lopa Deshni Sureshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15133 31/08/05	Virmanii 19-B, Opp. Baudin College, Kalyanmaagr Soc. Junagadh
107978	Madhavi Patel Jivrajbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15357 30/09/06	B-35, Amrutapark Society, Near, Satyam School, Nikol Road, Naroda, Ahmedabad
107979	Madhavi Rankia Pranjivambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15302 31/08/06	A-2, Bahuchar Nivas", B/h Rubi Complex, Santadevi Road, Navsari
107980	Madhavi Sakaria Popatlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15046 31/05/05	Dharmajivani, Shreecha Society, Nr. Bus Stand, Junagadh
107981	Maharshi Nimbark Hasmukhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15162 30/11/05	"Maharshi Clinic, Purnima Sheri, Near Gandhi Chowk, At& Tal: Khamtha, Dist: Amreli

107982	Mahendra Patti Jagannath	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2000	15214 28/02/06	17, Yogeswar Prasad Shri Krishna Colony At: Shahada, Nandurbar
107983	Maheeshchandra Patel Somabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15309 30/09/06	At: Veraiya, Tai; Khanpur, Dist; Panchmahal,
107984	Maheeshkumar Parajapati Anrutlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15134 31/08/05	B-23, Tirupati Township, Palanpur Disa Highway Palanpur, Dist, Banaskantha
107985	Maheeshkumar Parmar Babulal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14997 30/04/05	Block No. 59/7/12, Category-3, Sector-21, Gandhinagar
107986	Maheeshkumar Rathod Rameshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15537 30/09/06	"Akshar Kuni, Raj Tenament, B/h. Yamuna Vadi, Zanzarada Road, Junagadh
107987	Maheeshkumar Thakar Farsuram	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15195 31/04/06	5, Mehul Park Flat Near, Swastik High School Delhi Highway Road, At: Palanpur, Banaskantha
107988	Mahmadruf Memon Abdulkadar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15314 30/09/06	Alkapuri Char Rasta, Polo Ground At: Himmatnagar, Sabarkantha
107989	Maltiben Dave Maheeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15334 30/09/06	18/3, "Ch", Type Sector, 7, Gandhinagar
107990	Maritaben Sherdiwala Dilipkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15424 30/1/06	36/37, Ishwamnagar Society, Near Bhatar Char Rasta, U.M. Road, Surat
107991	Manharbhai Prajapati Maganbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15355 30/09/06	38, Marutnagar, Mahavimagar, At: Himmatnagar, Sabarkantha
107992	Manish Shah Mahendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14976 30/04/05	13, Mahavirham, Manpada Road, Wadi Dombivli East, 421201, Dist; Thane (Maharashtra)
107993	Manisha Cashyap	B.A.M.S. Amravati Univ, Amravati 1992	15377 01/11/06	1, L.I.C. Society, Tagore Marg, Rajkot
107994	Manishaben Kanjariya Nathalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15326 30/09/06	Shriji" Krupa" Junagadh Road, Near Canal Opp: Krishnanagar, At: Jetpur, Dist, Rajkot
107995	Manishkumar Sharma Dineshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15222 31/03/06	14/320, Guj. Hou. Bo. Colony, Meghaninagar, Ahmedabad
107996	Manishkumar Vora Dhiralal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15417 30/11/06	304/F, Sukhasagar App, Near Kshama Society Dharamnagar Road, Varachina, Surat

107997	Manojkumar Patel Ranchhodhbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15050 31/05/05	At& PO.Moti Shiholi, Keshav Farm, Ta & Dist; Gandhinagar
107998	Mansi Sheth Rajendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15059 31/05/05	At:Dahod, Khadayatawad, Desaiwad Dist- Dahod
107999	Manubhai Ladumor Bhikhabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15372 01/11/06	At: Dungar, Tal; Rajula, Dist; Amreli
108000	Mayuri Gurjar Premjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2002	15094 30/06/05	Plot No. 259/4, Sector -22, Gandhinagar
108001	Mayurika Aghera Ramniklal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15373 01/11/06	"Bhagavati" Vijaynagar -2, B.h Ambavadi, Joshipura, Junagarh
108002	Mayurkumar Raval Bhanushankar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14988 30/04/05	At: Ishwariya, Ta; Kutliya Dist. Porbandar
108003	Meena Purohit	B.A.M.S. Jiwaji Univ, Gwalior 1994	15190 31/01/06	5, Surya Darshna Society B/h Tulsidham Zadeshwar Road, At: Bharuch, Gujarat
108004	Meenaben Prajapati Bhartkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15421 30/11/06	2nd, Floor, Hiral Shopp. Centre Opp. Vijay Co.Bank, Near Ramnagar Bus Stop Sabarmati, Ahmedabad
108005	Meenal Patel Shirish	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15253 31/05/06	C/o. Jotindrakumar Desai, C/2 Swastiknagar At: Chalthan, Tal; Palsana, Dist; Surat
108006	Meeta Koli Manharbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15086 30/06/05	At Post; Kalarani, Pavi Jetpur District, Baroda
108007	Meetaben Chauhan Rashiklal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15150 29/10/05	Plot No.115/B, Hariram Nagar-1, Ajaywadi, Subhash Nagar, Bhavnagar
108008	Megha Pathak Jagdishbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15278 31/08/06	3, Asdarsh Society, B/h Khodiar Mandir Aerodrome Road, Jamnagar
108009	Mehul Joshi Harish	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15353 30/09/06	Poker Seri, At: Ludva, Tal; Mandvi, Dist; Kutch
108010	Miloni Patel Mahendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2002	15025 30/04/05	R-B/8, Manuti Row House, Near Subhash Chowk, Gunakul Road, Ahmedabad
108011	Minakshiba Gohil Kirtisinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15151 29/10/05	3, Shivam Virbhadrnagar, SBS, Ho. Nirmalgaug Chowk Bhavnagar

108012	Minal Gohil Mahendra	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15211 28/02/06	8, Indrajit Society, Diamond Mill, Nikol Gam Road, Thakkar Bapa Nagar, Ahmedabad
108013	Mital Soni Hiralal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15294 31/08/06	54/B, Bankers Colony, Near, Jubeli Ground, Bhuj- Kutch
108014	Mittal Patel Aswinbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15121 31/08/05	B-15, Ratnamani Tenament, Gyand Girls High School Road, Opp. KK Nagar, Ghatfodia, Ahmedabad
108015	Mitul Kumar Patel Babubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15008 30/04/05	B/29, Thupati Banglows, Near Dudh Sagar Dairy, Radhanpur Road, Mahesana
108016	Mohammedshoeb Shaikh Ismailbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15136 31/08/05	1488, Opp. Sona Type Class, Navovas Raikhed, Ahmedabad
108017	Monaben Parmar Kanaliyalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15402 30/11/06	22, Jay Yogeshwar Society, Navjivan Ajwa Road, Baroda,
108018	Mudiyanseelaje Marasinghe Pamodani	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15198 28/02/06	No. 38, 4th, Lane Siddhamulla, Piliyandala, Shri Lanka
108019	Mukesh Patani Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15155 28/10/05	Block No. 620/3975, Guj. Hou. Board Nikol Road New Bapunagar, Ahmedabad
108020	Naresh Patil Nagin	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 1999	15250 31/05/06	At: M. Mohide, Tal: Shahda, Dist: Nandurpur, Maharashtra
108021	Naresh Kumar Makawana Kalabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15328 30/09/06	At: Rasulabad, Tal Patoli, Post, Jainabad Dist: Surendranagar
108022	Nayanabhai Patel Ishwarbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15144 30/09/05	Near Telephone Exchange, At: Vansda, Tal: Vansda, Dist: Navsari
108023	Nayanaben Shihora Vithalibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15432 30/11/06	115, Krushannagar Society, Colway Road, Near Singanpur Char Rasta, Surat
108024	Naziyabanu Mansuri Mahomedhusen	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15189 31/01/06	15, Mandi Society, Dugarwada Road, At: Modasa, Sabarkantha
108025	Nazneen Rengrej Maksudbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15140 30/09/05	23, Sardar Society, B/h Kabadi Market No. 03, Behrampur, Ahmedabad
108026	Neelaben Gosai Kailasgar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15029 30/04/05	35, Panchvari Society, Sampa Road, B/h FCI, Godhra- Dist: Panchmahal



108027	Neha Kolak Kishorkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15423 30/11/06	"Madhuram" Kalyan Society, Veraval, Dist; Junagadh
108028	Nehaben Patel Rajendrakumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15324 30/09/06	5/42, Natubhai's Jin, At; Khavd Tal; Kadi, Dist; Mehsana
108029	Nehal Gohil Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15156 29/10/05	C/144" Smeel" Hudco Society, Near Rameshwar Temple, Anandnagar, Bhavnagar
108030	Nikeshkumar Ghanchi Amrutlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	10515 30/04/05	Rajkewado, Kalibazar Road, Nr. Khamar's Street Patan
108031	Nikhilesh Kulkarni Ashok	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15105 30/06/05	Renuka Hospital, Umbergaon Dist; Valsad,
108032	Nikita Thakkar Rakeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15181 31/12/05	2, Vinayak Park Society, Near, Ashvud Flats, At; Mehsana
108033	Nilam Kanani Rasiklal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1999	15118 31/08/05	B- 37" Kalindi" Navrang Society, Gorwa Karodia Road, Baroda
108034	Nileshkumar Virani Vashrambhal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15420 30/11/06	252/D, Vitthalnagar Society, Hirabai, Varachha Road, Surat
108035	Nimisha Nagar Jivanlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15275 31/08/06	Nagar Footwear, M.G. Road, Porbandar,
108036	Nimitkumar Gadhave Hirdanji	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14977 30/04/05	A/8 Po; Idar, 5, Saraswati Society Ta; Idar, Dist Sabakantha
108037	Nirav Trivedi Kiritbhal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15158 29/10/05	5, Govt. Society, Idgah Road, opp; New Jain Temple At; Palanpur, Banaskantha
108038	Nirupa Vadhiya Jayantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15305 30/09/06	Linda Line, Bhidhanjan Street, Jamnagar
108039	Nish Suryavanshi Brijlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15381 01/11/06	19, Jupiter Society, Near Shivanand Apartment Ghatodia, Ahmedabad
108040	Nishant Baraiya Amrutlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15138 30/09/05	Anand Bhuvan, Nr. Somnath Temple Prabhas Patan, Ta; Veraval, Dist; Junagadh,
108041	Nihaben Kolediya Bhikhabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15412 30/11/06	165, Bhidhanjan Society, Near, Mothagar Shyamdharmroad, Nana Varachha, Road, Surat

108042	Nitaben Virani Keshubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15056 31/05/05	105. Shakti Apartment-2, Kapodra, Varachha Road Surat
108043	Nital Shah Hasmukhray	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15266 31/07/06	Block No. A. 18, Devyani App. Khodpara, At, Jelpur, Dist, Rajkot
108044	Niti Jha Pranodbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15061 31/05/05	Madhav, Plot. No. 2677, A- 1, Collector's Society B/h Rupani Building, Bhavnagar
108045	Nitin Dabhi Nanjisinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15366 30/09/06	Ravechi Krupa, At: Thol, Tal; Kadi Dist, Mehsana
108046	Nitin Parmar Babubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15390 01/11/06	C/7 Vaishnidevi Duplex, Mehsana Highway, Chandkheda, Dist, Gandhinagar
108047	Nitinkumar Vagharia Ramaniklal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15205 28/02/06	Juna Panchpola Road, Near; Gyaniyot Vidhyalya, Opp. Kuldevi At; Navagadh Tal; Jetbu
108048	Palak Thaker Harishkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15177 30/11/05	"Narayan Kunj; Mobdykrupa Society Pramukh Swami Marg, At. Anand
108049	Paileviben Bharai Kanjiabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15206 28/02/06	Opp; New Bansl Hotel, Yogeshvar Nagar Probandar Road, Tal; Upleta; Dist, Rajkot
108050	Pankajkumar Baria Karsanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15060 31/05/05	At; & Post Nargol, Tal; Umargaoon, Dist; Valsad
108051	Parashkumar Sachdev Pravinchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15234 31/03/06	"Tribhuvan -Nivas Station Road, Opp; K.K.Hospital At, Savarkundla
108052	Parlikababen Pramar Prabhudas	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15076 30/06/05	32, Shri Shakti Society, Kansudi Road, Jafraabad, Godhra
108053	Payalbahen Vekaroya Nanubhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15413 30/11/06	350, Rachana Society, Kapodra Onhar Rasta, Varachha Road, Surat
108054	Petrisa Patel Ganpatbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15383 01/11/06	At; Talodara, Tal; Jhagadia, Dist; Bharuch
108055	Plulkit Pancholi Chandrakant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15042 31/05/05	35/451, Gujarat Housing Board, Ajwa Road, Vadodara
108056	Piyushkumar Parsana Kantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15410 30/11/06	47, Sarita Society, Hirabaug, B/h PP Savani School, Surat

108057	Poonam Makawana Pratulbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15406 30/11/06	189, Vrundavan Township, Temple Road, Gotri Road, Baroda
108058	Pragneshkumar Gohel Muljibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15085 30/06/05	A/2, Medhav Park Soc. Nr. Sigunpoor Rd. Char Rasta Ved Rd. Surat
108059	Prakashkumar Jain Khemchand	Ayurvedacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1996	15099 30/06/05	25/292, Netajinagar, Meghaninagar Ahmedabad
108060	Prakashkumar Pandya Shivrambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15123 31/08/05	F-30/8, SK. Nagar Gujarat, Knushi Univ, Tal: Dantiwada, Dist: Banaskantha
108061	Pranita Patil Damu	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15251 31/05/06	At: M. Mohide, Tal: Shahda, Dist: Nandurbar (Maharashtra)
108062	Prasad Patel Laxman	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15101 30/06/05	At: Kacchiyawadi, Mandir Faliya Nr. Amba Mata Temple, Ta& Dist. Navsari
108063	Pratik Bagadiya Mahendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15367 30/09/06	C/o Adinath Complex, Vegetable Market Road Para, At: Botad, Dist: Bhavnagar
108064	Pratiksha Roy Naginbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15392 01/11/06	17, Rushiprasad Raw-House, Near Shivdarsan Raw-House Honey Park Road, Adajan, Surat
108065	Pravin Padvi Jammansing	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 2000	15072 30/05/05	At: Borda, Post: Borthia, Ta: Nizar Dist: Surat
108066	Pritesh Dave Ashvinbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15106 30/07/06	Rajeshnagar, Qa. B-3, 147, Near Patel Samaj, Jamnagar
108067	Priti Patil Dasharath	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15212 28/02/06	C/o Narendra Metha Patel Farla, At: Mandir, Post: Vedcha, Tal. Jalalpor: Navsari
108068	Priti Vyas Navnitlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2000	15192 31/01/06	Gopi Duplex-3, opp. Dena Bank Society At: Amreli, Dist: Amreli
108069	Priyank Kumari Dubey Jokhanprasad	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15322 30/09/06	A/3, Radhika Bungalow, Near Cadilla High Way Ghodasar, Ahmedabad
108070	Priyanka Pandya Harikrishna	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15403 30/11/06	48/B, Shivam Society, Near Chhani Jakatnaka Baroda
108071	Priyankaben Shah Vinodkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15341 30/09/06	128, Azad Society, 301, Sarthi Apartment Gate. No. 1, Armenadi, Ahmedabad

108072	Pujit Vaghasiya Rattilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15308 30/09/06	72, Vikram Park (Plot) Opp Bajarang Ashram National High Way: -8 Thektarnagar, Ahmedabad
108073	Punita Nimbark Hareishbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15127 31/08/06	C/o M.A. Nimavat Near Sakmarkat, Main Bazar At: Modi Kukavav, Dist: Amreli
108074	Punitababen Panchal Rameshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15315 30/09/06	A-6, Jai Darshan Society, Near: Janimbhumi Society Karan Nagar Road, At: Kadi Dist: Mehsana
108075	Purvibahen Shah Jagdishchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15088 30/06/05	506, Sunstar App. Nr. Kidney Hospital, Anand Mahal Rd. Adajan, Surat
108076	Purviben Patel Thakorbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15360 30/09/06	90, Manlagar, Opp. Devesh Auto Garage, At: Chhapra, Tal: Navsari, Dist: Navsari
108077	Purviben Soni Rohitkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15312 30/09/06	Revakak, Pole, Sunder Bazar, At: Umreth, Dist: Anand
108078	Pushpaben Patel Raychandbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15032 30/04/05	Choksi Block, Juna Road, B/h State Bank of India, Ta: Palanpur, Dist: Banaskantha
108079	Rachana Dhare Dilipbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14978 30/04/05	7/A, Kumbhnath Society, Opp: Water Tank, Civil Road, Nadiad
108080	Radhika Majithia Gordhanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15036 31/05/06	Shree, Chamunda Krupa 5, Manhar Plot, Rajkot
108081	Rafique Mohammed Ansari	B.A.M.S. Devi Ahilya Univ, Indore 1999	15173 30/11/05	C/o Fatha Medical & Ganral Store, Near Jengal Shababa Ki Da Pratapnagar, Limbayat, Surat
108082	Rajesh Chaudhari Laxman	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2003	15434 30/11/06	At: Bharawada, Tal: Shirapur Dist: Duliya (Maharashtra)
108083	Rajeshkumar Kundaniya Jasmat	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15382 01/11/06	At: Nichi Mandai, Tal: Morbi Dist: Rajkot
108084	Rajeshkumar Maniya Dudabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15397 30/11/06	Roy Street, Limbada Chowk, At: Gariyadhar Tal: Bhavnagar
108085	Rakesh Galaliya Jagdishbhai	B.A.M.S. Univ. of Mumbai, Mumbai 1997	15244 01/05/06	4, Nilkamal Soc. 4th House Opp. Raj Chambers, Jamnagar
108086	Rakeshkumar Patel Mansukhlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15053 31/05/05	B-21, Trikarn Nagar -1, L.H. Road, Surat B/h Afeel Tower

108087	Rakeshkumar Patel Nathabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15079 30/06/05	38, Pramanik Society, Radhaswanii Satsang Rd. Ranip, Ahmedabad
108088	Rakeshkumar Prajapati Kantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15007 30/04/05	16, Arbudanagar Society-2, Chanasma Highway Road, Bih : G.E.B. Tal: & Dist: Patan
108089	Rakeshkumar Vala Hamirbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15371 01/11/06	At: Pedhavada, Tal: Kodinar, Dist: Junagadh
108090	Rashmi Kalkani Narshibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15038 31/05/05	Shriraj, Rameshvar Park No. 20, Rajkot
108091	Rashmikaben Patel Somabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15070 31/05/05	At: Godhra, Shree Arbuda Krupa' Vavdi Buzarg Dahod Road, Dist, Panchmahal
108092	Rasikbhai Patel Narayandas	Ayurvedacharya Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1969	15264 30/06/06	At: Wamaj, Tal: Kadi, Mehsana
108093	Ravin Hemani Rajnikant	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15154 29/10/05	Plot. No. 45/A, "Kavita" Varsha Society, Subhash Nagar, Bhavnagar.
108094	Rejoice Macwan Nilayanand	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15374 01/11/06	12, Saurathi Society, Pavanchakki Road, Nadiad
108095	Renu Singh	B.A.M.S. Univ. of Mumbai, Mumbai 1998	15438 30/11/06	104, Adarsh Society, Near Aas Paasmandir Godadara, Surat,
108096	Riddhi Purohit Pranodkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15049 31/05/05	Harsh 10/3, Petal Colony, Pranav Duplex, Jamnagar
108097	Rinkuben Mata Pradipkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15327 30/09/06	Doshi Street, Opp: Ashish Bungalow, Toliya Road At: Upleta, Dist: Rajkot
108098	Riteshkumar Patel Bhulabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15380 01/11/06	At: Mota Vadadala, Post: Nana Vadadala, Tal: Lunavada, Dist: Panchmahal
108099	Rohini Patel Maganbhai	B.A.M.S. Univ. Of Bumbay, Bombay 2002	15026 30/04/05	At & Po: Amroli, Ta: Choryasi Dist: Surat
108100	Rohitkumar Patel Hargovanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15009 30/04/05	A/4, Dattnagar Society, Opp: Baliyahanuman Temple, Patan
108101	Rohitkumar Thakor Pratapji	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15200 28/02/06	Mahakali Vas, (Khanavas), Village Shertha, Tal: & Dist: Gandhinagar

108102	Ronakben Kharadi Sureshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2006	15385 01/11/06	G/94, R.B.I. Staff Quarter's, Opp. Collector Office, Subhash Bridge, Ahmedabad
108103	Roshani Kalsariya Hijibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15401 30/11/06	44/B, Rangdarshan Part-1, Dhanmona Circle, Singanpor Road, Katargam, Surat
108104	Ruchitaben Dave Pravin Kumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14972 30/04/05	Mahdavi Sheri, Mandi Bazar Sidhpur
108105	Ruchitakumari Agravat Dineshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15313 30/09/06	11, Mangal Dhvani Society, Near Ramrajy Nagar BD, Sarswati School, N- H- 8, Odhav, Ahmedabad
108106	Rudreshkumar Pandya Bharatbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15017 30/04/05	D- 0332, Laxmikrupa Society, Arbudanagar Odhav, Ahmedabad
108107	Rupal Parmar Vajjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15307 30/09/06	Plot. No. 593/1, Sector -8, Gandhinagar
108108	Sachin Patil Kashinath	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2004	15256 31/05/06	A- 11, Vrajdharm Society, B/h; Air Force Station, Makarpura, Baroda
108109	Sachin Tilavat Manilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15231 31/03/06	Vijaynagar Society, Bhagavati B/h Ambavadi, Joshipura, At; Junagadh
108110	Salim Gohel Dadabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15277 31/08/06	Ghanchiwada, Luhar Street, At; Patan Somanath Tal; Veraval, Dist; Junagadh
108111	Sandeep Bhuvra Vithalbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15114 31/08/05	Muninagar, Block No. 67 Bhidbhanjan Krupa' A8 Post; Mahuva, Dist. Bhavnagar
108112	Sapana Patil Sahebrao	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15210 28/02/06	Green Avenue, Near Jalaram Temple A- 2, 402, Adajan, Surat
108113	Sarveshkumar Gotti Savlibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15418 30/11/06	Bajarnagar, Adamji Road, At; Jasdan, Dist, Rajkot,
108114	Satishkumar Padhsala Vashrambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15285 31/08/06	Shreeji Niwas Opp. Rahimnagar Near Sugar Fectori, At; Uha, Dist; Junagadh,
108115	Sejal Rathod Naranbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2002	15115 31/08/05	6/A, Africa Colony, Water Tank Street 150 Feet, Road, Rajkot
108116	Shabanabanu Dadu Ibrahimbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15062 31/05/05	51, Ashvana Society, Dugarwada Road, Modasa, Sabarkantha

108117	Shahin Sheikh Dilshadhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15132 31/08/05	Sohel Manzil, Nr. Madhusudan Laboratory Amreli,
108118	Shahinabenu Patel Ismail	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15388 01/11/06	Rocked Chal, Near, Makka Masjid, At & Post, Palej, Tal; & Dist, Bharuch
108119	Shaifali Rana Kanchanlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14982 30/04/05	30, Shree Ramnivas Society, Navsan Bazar Dhabuwala's Street Surat
108120	Shaileshkumar Patel Bansibhai	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15249 31/05/06	At & Post, Chinchoda, Tal; Nizar, Dist; Surat,
108121	Shalleshkumar Prajapati Gandela	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15014 30/04/05	648/1, Brahmani Nagar, Shavagadh Ta; Himmatnagar, Sabarkantha
108122	Sharadrao Patil Kashinath	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15102 30/06/05	58// Khodiyamagar, Navagam, Dindoli Rd. Udhana, Ta; Chauryasi, Dist. Surat
108123	Sheetal Joshi Anil	B.A.M.S. Goa Univ, Goa 2003	15435 30/11/06	104/A, Krishnashanti Society, Near Munjmoudha, Akota Road, Baroda
108124	Sheetaliben Adhvanyu Sanjaykumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2001	15073 31/05/05	L-602, Shilalekh Flats, Near; Subhash Bridge Corner, Shahibaug, Ahmedabad
108125	Shital Parmar Premjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15159 30/11/05	Plot No 7 Krishna Society Bfh. Guj. Hou. Bo. Nari Road, Kumbharwade, Bhavnagar
108126	Shitalbahen Bhavsar Tribhovandas	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15051 31/05/05	Bhavsarwad, Gol Bazar, Lunawada, Tal; Panchmahals,
108127	Shyamkuamr Patel Kamleshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15107 30/07/05	56, Hari Bhakti Colony, Race Course Road, Baroda
108128	Shwapsradan V,	B.A.M.S. Univ, of Calicut 2001	15215 28/02/06	Santhigiri Aturved Clinic, APM Shopping Mall, 100 F. T. Ring Road, Satellite, Ahmedabad
108129	Soham Bhatt Suchirkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15310 30/09/06	69, Trithnagar-1, Opp. H.B. Kapadiya School, Gurukul Road Mernagar, Ahmedabad
108130	Sonal Karmal Dilipbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15286 31/08/06	"Kaip- Vruksha" Pavan Chakdi, Near Old Bus Stand, Jamnagar
108131	Sonal Rabadia Gordhanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15331 30/09/06	Dipanjali Society -2, Gokul, Near Gardi Chock, Timbavadi, Junagadh.

108132	Sonali Panjvani Pyarali	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15272 31/08/06	Parvez Park, Jinpala, At; Wankaner Dist; Rajkot
108133	Stuti Raval Rajeshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15344 30/03/06	Plot No. 1671/2, Sector -2-D, Gandhinagar
108134	Sumit Gadhave Ghansyambhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15227 31/03/06	Saureshtra Kala Kendra -10, Hira Jivan Near, Kalevad Road, Rajkot
108135	Sunilkumar Damor Adesinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15233 31/03/06	A. 101, Jivanjyot Society, Malhotra Rolling Mill Road, Odhav, Ahmedabad
108136	Sunita Galiyal Rupchand	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 1994	15440 30/11/06	A-5/203, Akshardhan, Chaprabhatra Road, At; Amroli, Dist. Surat
108137	Suresh Patel Damu	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 1990	15176 30/11/05	Marfadedvnagar, Near Godadra Neher At; Pravat Dist; Surat
108138	Suresh Patil Shamrao	B.A.M.S. Nagpur Univ, Nagpur 1987	15243 01/05/06	Prajapatti Bhavan, Kumbharvada, At; Bigni, Tal; Gandevi, Navasari
108139	Sureshkumar Panchal Annrutlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15139 30/09/05	At & Po. Bandhavad, Ta; Radhanpur Dist. Patan
108140	Sushant Sud Subhashchander	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15203 28/02/06	B- 6, Lane, -1, Himnashmi" Sector-1, New Shimla
108141	Sushil Mishra Kumar	B.A.M.S. Gauhati Univ, Guwahati 1996	15238 31/03/06	C/o; Dr.R.U.Shukla, Mansarovar, Gokul Path North- Patel Nagar, At; Patan
108142	Sushmaben Rathod Jagdishbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15301 31/08/06	81, Hari Om. Nagar Society -1, New Kosad Road, Amroli, Surat
108143	Swapnil Modi Bharatkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14989 30/04/05	Shyam-Kutir, 312/1, Sector, 7/A, Gandhinagar
108144	Swati Chanpaneri Mukeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15429 30/11/06	2530, A/5, Kartik Tenaments, Opp; Shikshak Society, Bharatnagar Char Rasta, Bhavnagar
108145	Tahimakkash Chokiwala Yunush	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15387 01/11/06	27, Patel Welfare Society, Near; Ambaji Bhagol, At; Jambusar, Tal; Jambusar, Bharuch
108146	Tanuna Girota Hansraj	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15087 30/06/05	B-13, Sidharth Nagar Nr. Mehsana Nagar Garba Ground Nizampur, Baroda



108147	Tarunaben Bokade Lakshmanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15003 30/04/05	201, Limboj, Flats, Ranchhodnagar Society, At: Katargam, Dist: Surat
108148	Tejal Parekh Satishkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15415 30/11/06	78, Snehsmiti Society, Adajanpatia, Rander Road, Surat
108149	Tejal Patel Arvindkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15078 30/06/05	252/1, Sector, 7A- Gandhinagar
108150	Tejalben Joshi Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15395 30/11/06	198/450, Near Ayappa Temple, Sagvadi, Kalvibid, Bhavnagar
108151	Toral Patel Rameshchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15343 30/09/06	At: Hunj, Tal: Himmatnagar Dist: Sabarkantha
108152	Truptiben Patel Babulal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15320 30/09/06	21/4, Chh' Type, Sector-23, Gandhinagar
108153	Tusharkumar Patel Ambalal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15370 01/11/06	B-105, Dharti Avenue, Opp. Gayatri Temple Near, Modhera Circle, Highway, Mehsana
108154	Twinkle Devda Girendrabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15191 31/01/06	65, Ashishnagar, B/H: I.T.I. College, At: Jafarabad, Tal: Godhera, Panchmahal
108155	Ujjvali Thakkar Subhashchandra	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15258 30/06/06	1, Kohinoor Society, Vijaynagar Road, Naranpura, Ahmedabad
108156	Ujjwala Mehar Ashokrao	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 2001	15170 30/11/05	71 B, 84 Krishna Estate, Krishnagar Road, Saljpur, Ahmedabad
108157	Umi Patel Rameshbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15147 30/09/05	51, Umivijay Society, Mahavimnagar At: Himmatnagar, Sabarkantha
108158	Urmila Padi Pralhad	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15175 30/11/05	Dhanwantari Clinic, Dershana Nagar, Mowl Road, Netroang, Tal: Vaila, Dist: Bharuch
108159	Urveshben Gangara Shantikal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15207 28/02/06	Vadi Colony, At: Nar, Tal: Pedlad, Dist: Anand
108160	Urveshben Vachadiya Manjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15389 01/11/06	Urviyanagar Society, Near, Canal, Sanala Road At: Morbi, Dist: Rajkot
108161	Utpalkumar Nakum Nanijibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15129 31/08/05	Shree No.3, Block No.6, Panchvati Society, At: Gondal

108162	Valshailben Sontl Yogeshkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15400 30/11/06	58, Rameshwar Society, Near Nageshwar Temple, Hami Road, Karelibaug, Baroda
108163	Vandana Dave Ashokbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15152 29/10/05	Plot No. 643, Sharda, Geeta Chowk, Darf Road, Bhavnagar
108164	Varitabaihen Shah Thekoral	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15052 31/05/05	B-41/2, Prabhat Society, Waghodia Road, Vadodara
108165	Varitaben Khani Manjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14971 30/04/05	276, Varsha Society, Part-1, L.H. Road Varachha Road, Surat
108166	Varshaben Chaudhari Mayjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15389 30/11/06	15, Ganesh Society, At: Tharad, Tal: Tharad Dist Banaskantha
108167	Vasantiben Solanki Udaysinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15404 30/11/06	19/D, Harlom Society, Atladara, Padara Road, Baroda
108168	Vibha Sinha Kapildevprasad	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15005 30/04/05	38, Mangleshwar Society, B/h Rajpath Hotel Highway Road, Mehsana
108169	Vibhaben Patel Savjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15317 30/09/06	22, Madhujvan Society, Ankur Char Rasta Naranpura, Ahmedabad
108170	Vidya Vasave Amarsing	B.A.M.S. Univ. of Poona, Pune 2002	15112 30/07/05	At: Kelpada, Post: Sonare, Tal: Navapur, Dist: Nandurbar
108171	Vijay Kubavat Bhaskarrav	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15067 31/05/05	Sant Krupa' Plot No. 53, Satya Sadan Society Tal: Mahuva, Dist: Bhavnagar
108172	Vijay Patil Narayan	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15022 30/04/05	Ved Clinic, C. Mohsinh Complex Karanji GIDC, Kim Mandir Road, Tal: Mandvi, Surat
108173	Vijay Patil Ramdas	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15172 30/11/05	Co.Jagdish Patil, Benglow No.2496, Gul-Hau, Swarajnaga HIG-36, Pandesara, Surat
108174	Vijay Patil Tumbadu	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15255 31/05/06	At & Post: Raikhed, Tal: Shahada, Dist: Nandurbar (Maharashtra)
108175	Vijaykumar Patel Bhikhabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	14992 30/04/05	At & Post: Gundrasan, Near Primary School Tal- Vijapur, Mehsana
108176	Vijaykumar Patil Tryambaklal	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2002	15020 30/04/05	Nehru Road, In Front of Ramrao Bank At & Post Navapur, Dist: Nandurbar

108177	Vilaykumar Zankat Muljibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15364 30/09/06	At; Panadar, Via; Pandar (Mirapur) Tal; Kodinar, Dist, Junagadh
108178	Viral Kumar Vaghela Devjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15149 29/10/05	13/ B, Kama Nagari, Near Dutta Nagar, Opp Ramdev Mandir, Pij Road, Nadiad
108179	Virendragiri Goswami Pratapgiri	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15148 29/10/05	31, Royal Nagar Society, Opp; Nirma Factory Modhera Road, Mahasana
108180	Vishakha Zala Kantibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2004	15131 31/08/05	"Santichaya" 4777, 8- Gitanjali Soc., Bharatnagar, Bhavnagar
108181	Vishal Patil Prakash	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15164 30/11/05	C/o. Nirmal D. Patel, At; Kholawad, Tal; Kamrej, Dist. Surat
108182	Yash Patel Bhagvanji	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15034 30/04/05	Plot No. 424/A/2, Sector 6- A, Gandhinagar
108183	Yashwantsinh Dodiya Ukabhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15040 31/05/05	At; & Post Simar, Tal; Veraval, Via Shebag, Dist, Junagadh
108184	Yashwantsinh Gohil Narendrasinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15398 30/11/06	Nonghanavadar, Via, Sanosara, Tal; Palitana, Dist, Bhavnagar
108185	Yogesh Patil Madhukar	B.A.M.S. North. Maha. Univ, Jalgaon 2000	15245 01/05/06	At & Post; Kakamunda, Tal; Nizar Dist, Surat
108186	Yogesh Patil Fakira	B.A.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15171 30/11/05	C/o Prashant R. Patil, At; Devgad Tal; Mandavi, Dist. Surat
108187	Yogesh Vilpara Gordhanbhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15379 01/11/06	At; Sherdanagar, Tal; Morbi, Dist; Rajkot
108188	Yogeshkumar Vasava Rupsing	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15282 31/08/06	Post, Rozdev, At; Nandodaramba, Tal; Sagbara, Dist; Narmada
108189	Yoginiben Asari Dhanjibhai	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2005	15339 30/09/06	29, Shivam Akalviya Society, Bhokeshwar P. Kalwad, At; Himmatnagar
108190	Zankhana Jedav Fatesinh	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15122 31/08/05	Saved Colony, Harni Road, Baroda
108191	Zaranakumari Sonagra Mohanlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	15039 31/05/05	Kalikaplot, Street, No. 1 Ravapur Road, Morbi- Dist; Rajkot

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## GUJARAT

## PART-II-UNANI


CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION/ AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN NO. & DATE	ADDRESS
12626	Ab. Sattar Pathan Sarmakhan	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15246 01.05.06	At. Boarsad, Fatehpur, Rabari Chakla Dist. Anand,
12627	Azmatullah Siddiqui Rehmatullah	B.U.M.S. Davi Ahilya Univ, Indore 2003	15247 01.05.06	Opp. Medina Masjid, Limbayat, Udhna, Surat
12628	Baitullah Malik	B.U.M.S. Kanpur Univ, Kanpur 1980	15437 30.11.06	N.H. No. 8, Near Lueky Petrol Pump, At. Palsana Dist. Surat
12629	Firoz Khan	B.U.M.S. Davi Ahilya Univ, Indore 1997	15263 30.06.06	Noor Clinic, Razanagar, At. Bhatena, Dist. Surat
12630	Gulam Waris Malik Hasrat	B.U.M.S. Nagpur Univ, Nagpur 1997	15137 31.08.05	Post. Asanahara, Village: Dubouli Dist. Basti
12631	Khattoon Ansari Abdul Hameed	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15209 28.02.06	228, Noor Bhai Dhibi's Chawli, Ampali Cinema Road, Gomtipur, Ahmedabad
12632	Mohammed Tahir Rajput Rehmatullah	B.U.M.S. Univ. of Rajasthan, Jaipur 1995	15174 30.11.05	Block No. 157/842, Guj. Hou. Bo. Morarji Chowk Bapunagar, Ahmedabad
12633	Mohammedali Ughratdar Ayyub	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2004	15268 31.07.06	Timol Mohalla, At. Kathor, Tal. Kamrej, Dist. Surat
12634	Mohd. Anees Mohd. Islam	B.U.M.S. Univ. of Rajasthan, Jaipur 1995	15188 31.12.05	Plot No. 250, Darbamagar, Unan, Surat
12635	Samiullah Khan Bhure	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15375 01.11.06	25, Azadmarg, Masjid Mohaloha, At. Kasrawad, Khargone, (M.P.)
12636	Samiullah Khan Pathan Sipai Hidayatullah Khan	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2003	15208 28.02.06	228, Noor Bhai Dhibi's Chawli, Ampali Cinema Road, Gomtipur, Ahmedabad
12637	Sayyed Azam Sayyed Yusuf	B.U.M.S. M.U.H.S. Nashik 2002	15027 30.04.05	Aman Colony, Bih Manoj Flour Mill, Khadka Road, Bhusawal, Jalgaon

**NEW DELHI 110058****17 JULY, 2008**

No. 10-15/2008 –CR (Orissa) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Orissa and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto March 2007, by inserting serial No.103107 of Ayurveda and 10103 of Unani onwards after the existing last Serial No.103314 of Ayurved and 10103 for Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Orissa) from 1st June 2005 to 07 March 2007 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

  
(P.R.SHARMA)  
REGISTRAR

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## ORISSA

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REG. NO. & DATE	ADDRESS
103107	A. Srinivas Rao A. Krishna Rao	B.A.M.S. Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2005	5119 06/10/05	At Jagannathpur Post Keonjhar P.S. Keonjhar Town Distt Keonjhar
103108	Abhijit Parida Shishir Ku. Parida	B.A.M.S. Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2005	5069 02/08/05	At Po. Khalebadia Via P.S. Bhogarei Distt Belasore
103109	Abhijit Rout Sankartha Rout	B.A.M.S. North Orissa Univ., Baripada 2004	5262 19/01/07	Sriramcharapur Ward No. 16, Baripada Distt, Mayurbhanj
103110	Abhiram Thakur Gokulananda Thakur	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2006	5166 20/02/06	At Post - Bijinara Via- Jalpatna P.S. Distt. Kalahandi
103111	Ajay Kumar Patra Jhadeswar Patra	B.A.M.S. Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2006	5102 03/08/05	At Putugoon Post- Chenana Via Post Tunumunga Distt- Keonjhar
103112	Ajaya Kumar Rout Niranjan Rout	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2006	5151 09/02/06	At Post. Singa Khuntia Via- Soro Distt Belasore
103113	Ajit Ku. Shasamal Padma Charan Shasamal	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2007	5267 09/02/07	At Po. Patapur Via, Kalaitpur Distt Puri
103114	Ambika Rani Nath Arjun Charan Nath	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5149 09/02/06	At- Sansuar Post Markandapur Via- Devdwar Distt, Jeipur
103115	Ambikaya Dash Paramoda Chandra Dash	B.A.M.S. North Orissa Univ., Baripada 2007	5240 12/01/07	At Kanakuturu Po, Sankuru Via, Buguda Distt, Ganjam
103116	Amerendra Prakash Dash Subash Chandra Dash	B.A.M.S. Berhampur Univ., Berhampur 2005	5139 12/12/05	At-Banlapashi Post Turuan Via Sainkul PS. Ramechandrapur Distt Keonjhar
103117	Amit Kumar Das Blmal Ku. Das	B.A.M.S. Berhampur Univ., Berhampur 2006	5232 29/12/06	Kedar Lane Rohini Bhawan Po. Old Town Distt, Khurda
103118	Amita Pradhan Lambodar Pradhan	B.A.M.S. Utkal Univ., Bhubaneswar 2007	5269 09/02/07	At Po. Budhapal Via, Reamal PS. Kumdhelgola Distt, Deoghian
103119	Amita Ranjan Mohanta Ananda Chandra Mohanta	B.A.M.S. North Orissa Univ., Baripada 2004	5258 12/01/07	At Sansladimal Po. Revanapalaspai Via Bhagamunda Distt Keonjhar

103120	Ananda Sankar Patra Abhinna Sundar Patra	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5261 17/01/07	At- Belpal Po. Khuntapal Via- Badasahi Distt, Mayurbhanj
103121	Anil Ku. Jayaswal Bechanlal Jayaswal	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5235 11/01/07	At/ Po, Tusra Distt- Belangir
103122	Anita Jena Sanatan Jena	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5270 09/02/07	At/ Anlekuda Po, Chilikanuapada Via Brahmagiri Distt, Puri
103123	Anshupa Kumari Bhoi Tau Bhoi	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5183 30/06/06	QR. No. M/ 132. Sunabeda Via. Township Distt, Koraput
103124	Arun Kumar Sahoo Gokulnanda Sahoo	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5185 09/02/06	At/Post Brahman Gaon Via.Arel Distt - Jajpur
103125	Ashok Kumar Behera Dayabodhi Behera	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5188 20/02/06	At/Post/ P.S. Chhendipada Distt- Angul
103126	Ashok Kumar Meher Hiradhar Meher	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5179 26/06/06	At/Post - Khallipathar Via/P. S. Belpara Distt, Angul
103127	Asim Basanta Behera Madhusudan Behera	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5172 08/06/06	At/ PO- Marshaghai Via. P. S. Patkura Distt Ken
103128	Asit Kumar Das Kalipada Das	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5268 09/02/07	At/ Po. Tadada Via- Jamsuli Distt, Balasore
103129	Aswini Kumar Purohit Binod Bihari Purohit	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2007	5247 12/01/07	At/Po. Maidapur Via Papadahandi Distt, Nabarangapur
103130	Atal Bihari Guru Golek Charan Guru	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5111 16/08/05	At/PO- Kesalbahal Via/Kuchinda P.S- Mahulpali Distt Sambalpur
103131	Atanu Pattanaik Abhinam Pattanaik	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5087 28/07/05	At Garhtalmul, Post Talmul Distt Angul
103132	Aurobinda Acharya Nityananda Acharya	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5260 15/01/07	At/ Barikoti Po. Ultrakulhatt Via Pritipur Distt, Jeipur
103133	Avinashy Behera Arjuna Charan Behera	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5211 28/09/06	At- Hatibandha Po. Purulia Via, Salapada P. S. Ghasipura Distt Keonjhar
103134	Babita Meher Laxman Meher	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5180 30/06/06	Gr.No.E/29,Hai Town Ship At/Po- Sundabeda Distt, Koraput,

103135	Baby Coalone Bhuban Mohan Dash	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5176 23/06/06	Plot.No.2128, Chintamani Swararea Post Budheswari, BBSR-6, P.S. Laxmi Sagar, Khurda
103136	Balkuntha Bihari Mahandia Jayindra Mahanandia	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5237 11/01/07	At/Po, Ratanpur Via, Sankra Distt, Sundargarh
103137	Ballindra Ku. Sahu Baikuntha Bihari Sahu	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5277 09/02/07	At- Ranjo, Po. Dimirla Via- Pallahara Distt, Angul
103138	Balram Patra Prafulla Ku. Patra	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5123 29/11/05	At- Ratanpur Post, Kuhurj P.S. Via/ Tangi Distt, Khurda
103139	Banaja Pattanalk Purna Chandra Pattanalk	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5128 30/11/05	At- Nrusinghpur Po/Ps. - Pipili Distt, Puri
103140	Banibrata Samal Panchanan Samal	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5263 20/01/07	At/ Ketuapal Po. Dadhibamanpur Via. Govindapur Kachery Distt, Kendrapara
103141	Barsha Samantaray Prafulla Ch. Samantaray	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5289 07/03/07	At- Labanya Vihar Sarbodaya Road Kumbharpada, Puri
103142	Bhabani Sankar Tipira Gadadhar Tipira	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5245 12/01/07	At. Kalikapur Po, Takatpur Via, Baripada Distt, Mayurbhanj
103143	Bibhu Prasad Nath Sharma Adhar Chandra Nath Sharma	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5105 05/08/05	At/ Post. Dabidwar Via/ P.S. Distt, Jajpur
103144	Bibhudatta Patra Amulya Ku. Patra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5084 28/07/05	At/Mains apata Post, Jageswarpada Via- Gopalpur Distt, Balasore
103145	Bijayalaxmi Jena Benudhar Jena	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5106 05/08/05	At/ Nankera Post. Badas P.S. Via- Kanas Distt, Puri
103146	Bikash Ranjan Babu Ananda Kumar Babu	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5254 12/01/07	At/ Brahmanpali Po/ Via- Binka Distt, Sonapur
103147	Binod Bihari Dora Jogesh Chandra Dora	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5212 28/09/06	At/Po. Bhawanipatna Hill Town Via, Bhawanipatna Distt, Kalahandi
103148	Biranchi Narayan Behera Banshidhar Behera	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5216 12/10/06	At/ Khulisha Po, Amanakuda Via. Banamalipur Distt, Khurda
103149	Bismaya Kumar Sahoo Bishnu Charan Sahoo	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5133 05/12/05	At. Tomanpur (Ballapada ) Post & Via Rahama P.S, Tiroi Distt, Jagatsinghpur



103150	Blswambhara Meher Jugalsai Meher	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5178 26/06/06	At/PO.Bhalumunda Via/Bangomunda PS. Bangomunda- Distt, Balanglr
103151	Blswanathpradhan K. Jogesh Ch. Pradhan	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5142 14/12/05	At/PO. Humma Via/ Ps Rambha Distt. Ganjam
103152	Blswaranjan Mishra Nrusingha Charan Mishra	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5198 21/07/06	At/ Muktaidelpur Po. Arakhatpatna Via, Athagarn Distt, Cuttack
103153	Braja Gopal Das Purana Chandra Das	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5225 17/10/06	At. Sadanandapur Po, Amardaroad Via Basta, Distt, Balasore
103154	Chhanda Charan Sahu Yudhisthir Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5192 12/07/06	At/ Sinakhaman PO, Kandhakeigoan Via. Deogaon, Balanglr
103155	Chin Tadu Manoj Kumar Patro Ch. Biswanath Patro	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5077 18/07/05	At & PO Jagdalpur Via-Nimakhandli PS. Berhampur
103156	Chinmaya Bhabani Prasad Ghansyam Dora	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5287 21/02/07	Gunubhar, Matlapada Kumbharpada, Puri
103157	Debadutta Panigrahi Dillip Ku. Panigrahi	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5085 28/07/05	At/ Post. Gelpur Distt, Bhadrak.
103158	Debaraj Sahu Maheswar Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5091 29/07/05	At- Khadinali, Post- Kaila Via/ PS. Barkote, Distt Deogarh
103159	Debashi s Kanungo Gagan Behari Kanungo	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5206 17/08/06	Ragunathnivas, Jamuna Road Po/ Via. Markandeswarsahi Puri
103160	Debasis Mohanty Nilamani Mohanty	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5208 22/08/06	At/ Po. Panikolli Via, J. K. Road Distt, Jajpur
103161	Debasish Mohanta Srihari Mohanta	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5200 27/07/06	At/ Po. Kulliposi Via- Karanjia Distt, Mayurbhanj
103162	Debasmita Mohanty Dillip Ku. Mohanty	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5137 12/12/05	At-Dharmagarpur Post Mirzapur Via Sungura, PS.Saipur Distt, Cuttack
103163	Deepak Ku. Das Keshab Ch. Das	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5205 17/08/06	At. Achhada Po. Sanbelakuti Via. Purunbaripada Distt, Mayurbhanj
103164	Deepak Kumar Bhuyan Bimal Ku. Bhuyan	B.A.M.S North Orissa Univ.,Baripada 2003	5241 12/01/07	At. Bisipali Tikira Po, Satalama Via, Baripali Distt, Bargarh

103165	Devidatta Parida Basant Ku. Parida	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5141 14/12/05	At/C-42, W.No.8, Deulasahi Baripada Distt, Mayurbhanj
103166	Dibyā Anupama Lakra Banjaramin Lakra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5110 16/08/05	Premi Anna Ekka C/o- Sri Junas Ekka At/PO Bijunagar, Jharsuguda
103167	Dimple Sanghamitra Ghanashyam Dora	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5282 21/02/07	Guru Vihar Matipada Po. Kumbharpada Puri
103168	Dipak Ranjan Mahapatra Bansidhar Mahapatra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5196 19/07/06	At. Narayankhairapali Po. Karлага Via. Rearnal Distt, Deogarh
103169	Dipti Das Gadadhar Das	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5238 12/01/07	At/Po, Baruni Road Lane -3, Baripada Distt, Mayurbhanj
103170	Diptimayee Sarangi Durga Charan Sarangi	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5283 21/02/07	CH- 20, Co-operative Colony, At/Po- KIIT Campus, Chandrasekhar Pur, Bhubaneswar
103171	Durga Charan Dash Krushna Chandra Dash	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5170 07/06/06	At-Haripur, Post Buxibazar Via- Badambadi, P.S. Purlighat, Cuttack
103172	Durgamedhab Dey Bipin Bihari Dey	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5239 12/01/07	At- Majhika, Po, Baneswar Via, Rasulpur Distt, Balasore
103173	Dusmanta Ku. Panda Ajay Ku. Panda	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5083 28/07/05	At/ Po. Kurunta, Via- Turigaria Distt, Balasore
103174	Dusmanta Naik Kandarpa Naik	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5275 09/02/07	At/ Po, Sagjori Via, Talsara Distt, Sundargarh
103175	Gajendra Sahu Gopaljee Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5082 28/07/05	At/ Post. Remta, Via. Barpali Distt, Bargarh
103176	Gati Krushna Panda Girija Sankar Panda	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5161 09/02/06	At- Alnri, Post Anantapur Distt. Balasore
103177	Gayatri Pradhan Ratnakar Pradhan	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5150 09/02/06	At/ Po- Odasingh Via- Rameswar Distt, Cuttack
103178	Geetanjali Mishra Binod Bihari Mishra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5086 02/08/05	At/ Post. P.S. Binka, Distt. Sonapur
103179	Girish Chandra Adhikari Bhagaban Adhikari	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5227 17/10/06	At/ Debasthal Po, Saigaon Via, Manatri Distt, Mayurbhanj

103180	Gitanjali Pattayat Gounabari Pattayat	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5272 09/02/07	At/ Kalesimull Po, Jambhral Via, Langaleswar Distt, Balasore
103181	Gitika Giri Gayadhar Giri	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5213 03/10/06	At/ Po. Azimabad(Western Side of Nupokhari Via, Distt, Balasore
103182	Gyanaranjan Mishra Babaji Charan Mishra	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2005	5136 12/12/05	At Goudasahi Post, Mahshada Via/ PS, Binjharpur Distt, Jalpur
103183	Harekrushana Naik Satyananda Naik	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5146 09/02/06	At/ Po. Gichibias Via. Ukhunda PS. Barla Keonjhar
103184	Hemanta Ku. Mohanta Purusottam Mohanta	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5184 11/07/06	At/ Po, Kalaranglattia Via, Sukinda Distt, Jalpur
103185	Ipsita Bohidar Niranjan Bohidar	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5181 30/06/06	At/ Badmanpur Post- Rajborasamb Via/ PS. Padampur Distt, Bargarh
103186	Jagdish Prasad Mohanta Madhu Sudan Mohanta	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5086 28/07/05	At Badaj Mupashi Post. Sara Skola Via- Swampanta Distt. Keonjhar
103187	Jaidev Sahani Ram Pratap Sahani	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5248 12/01/07	PTN- 119/, Sector -06. Rourkela,
103188	Jajati Keshari Behera Gourhari Behera	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5156 09/02/06	At Bolpal Post, Khuntapal Via Barshahi Distt, Mayurbhanj
103189	Janmejava Behera Ram Charan Behera	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5204 17/08/06	At Tulamtuta Po/ Via- Betada Distt, Bhadrak
103190	Jasbanta Pradhan Chaitanya Pradhan	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5079 27/07/05	At Badmanpur PostMadhyapur Via/ PS. Barkote Distt. Deogarh
103191	Jayadev Bhattachary Nirmal Charan Bhattachary	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5104 03/09/05	At/ Po- Ratrapada P.S. Khandagiri Distt, Khurda
103192	Jayadrath Nath Adilkanda Nath	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2005	5117 02/09/05	Narasinghpur Post. Via, Mitrapur P.S. Nilagiri Distt, Balasore
103193	Jayashyam Pasa Ghanshyam Pasa	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5189 11/07/06	At/ Po. Sanbelakuti Via - Pununabari Pada Distt, Mayurbhanj
103194	Jitendra Samal Narayan Chandra Samal	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5094 02/08/05	At Cherantapara Post. Via/PS. Rajkanika Kendrapara

103195	Jogamaya Nayak Sanatan Nayak	B.A.M.S. North Orissa Univ., Baripada 2003	5252 12/01/07	At- Sikoruan Po. Urali, Via Gopalpur Distt, Cuttack
103196	Jujhar Naik Berga Naik	B.A.M.S. Utkal Univ, Bhubaneswar 2005	5115 22/08/05	At Tandipani Post, Luhasila Via-Bijaitala PS.Gorumohisanl Distt Mayurbhanj
103197	Jyoti Ranjan Jena Damodar Jena	B.A.M.S. Berhampur Univ, Berhampur 2006	5226 17/10/06	At/ Po. Pahanga Via. PS.Niali Distt, Cuttack
103198	Jyotipriya Singh Purandara Singh	B.A.M.S. Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5159 09/02/06	At/ Nihuan Post, Via/ PS. - Turumunda Distt, Keonjhar
103199	Jyotimita Sahoo Pitabas Sahoo	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5093 01/08/05	At/ Post. PS. Odagaon At. Nayagarh
103200	Kabita Mallik Muralidhar Mallik	B.A.M.S. Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5145 09/02/06	At Sidho, Post. Bhimdaspur Distt, Cuttack
103201	Kallaski Shore Pradhan Puran Chandra Pradhan	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5109 05/08/05	At/ Post. Kalla Via. PS. Barkote Distt, Deogarh
103202	Kalinkar Pravakar Rath	B.A.M.S. Berhampur Univ, Berhampur 2005	5134 05/12/05	At/ Sahadevkhunta Po/PS/ Via/ Distt- Balasore
103203	Kamtakanta Mohanta Dhaneswar Mahanta	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5188 11/07/06	At- Basubahal Po. Kaleiposh Via - Lahunlapada Distt, Sundargarh
103204	Khilod Prasad Ojha Ardhendu Sekhar Ojha	B.A.M.S. North Orissa Univ., Baripada 2003	5244 12/01/07	At/ Po, Anla Via, Jugpura Distt, Mayurbhanj
103205	Krushan Chandra Mahapatra Purusottam Mahapatra	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5089 28/07/05	At. Asanabani Post, Panasadiha Via. Anandpur Keonjhar
103206	Kshirabdi Tanaya Rautray Bipin Bihari Rautaray	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5108 05/08/05	At/ Po. Narangarh Via/ Ps. - Jankla Distt Khurda
103207	Kundan Prasad Vinod Prasad	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5186 11/07/06	At- Khaprakhal Po. Ghasipura Via- Anandapur Distt, Keonjhar
103208	Lipsa Padhy Simanchal Padhy	B.A.M.S. Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5202 04/08/06	At/ Po. Distt, Nuapada
103209	Madan Gopal Sahoo Siba Charan Sahoo	B.A.M.S. Berhampur Univ, Berhampur 2006	5223 17/10/06	At/ Kherashbela Pokhari, P.O/ Distt. Jagatsingpur

103210	Madhu Smita Pati Simancal Pati	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5234 11/01/07	At/ Po. Papadahandi Distt, Nawarangapur
103211	Madhusmita Duradersini Nirmal Chandra Samal	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5153 09/02/06	At/Po. Bidyachampur Via - Bhanmandal Distt, Jaipur
103212	Madhusmita Kar Premnanda Kar	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5177 26/06/06	At/Po- Oupada Via- Alaba PS, Pattamunda Distt, Kendrapara
103213	Mahamaya Mohanty Kailash Ch. Mohanty	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5218 12/10/06	At. Brahmenakhanda Po. Orkantia Via- Lemalo, Distt, Cuttack
103214	Manasmita Sundara Hedibandhu Sundara	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5253 12/01/07	Malisahi Patma Po. Daspalla Distt, Nayagarh
103215	Mandakini Tripathy Madhusudan Tripathy	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5152 09/02/06	At/ Po.-K- Sikharpur Via/ PS - Khandapara Distt, Nayagarh
103216	Manmath Ku. Kar Pratfulla Ch. Kar	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5242 12/01/07	At- Kabisuryanagar Po. Kharlamakundapur Sasan, Distt, Ganjam
103217	Meera Lenka Nrusingh Charan Lenka	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5278 21/02/07	C/ 79, N.I.G. Duplex Taramahal, OSNB, Colony Barmunda Bhubaneswar
103218	Mohammed Asjad Khan Mohd. Yusuf Khan	B.A.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2002	5120 18/10/05	At. Borapadakhamar Post, Gahamikhunti Distt, Dhenkanal
103219	Nani Gopal Adhek Puram Chandra Adhek	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5171 08/06/06	At. Sandabha Po/ Bajipur Via- Kekhara Distt, Balasore
103220	Narendra Ku. Sahu Arjun Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5197 21/07/06	At/Po/Via- Dunguripalli Distt, Sonepur
103221	Nibedita Mohanta Nakul Ch. Mohanta	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5280 21/02/07	Plot No. 17, G.G. P. Enclave, Rasulgarh Mancheswar, Khurda
103222	Nibedita Ray Boxl Uttash Ku. Ray Bidhar	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5209 28/09/06	At: Bikash Nagar Po/ Via-Jatni Distt, Khurda
103223	Nilamadhasahu Bipin Bihari Sahu	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5138 12/01/05	At/Po. Masabadi Vja- Kullada, PS, Tarasigh Distt, Ganjam
103224	Nilima Jena Rajakishore Jena	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5207 22/08/06	At- Kanas Golabazar Po/ Via- Kanas Distt Puri

103225	Omrakash Lenka Sudarsan Lenka	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5284 21/02/07	At- Amalapara Po. Nimapara , Puri
103226	Padmalaya Behera Pranajit Shina Behera	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5285 09/02/07	At Po. Panchapada Via, Naladiapada Distt, Belasore
103227	Parajnaparamita Barik Pravekar Barik	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2005	5145 27/12/05	Sanatan Nayak Stage-II, M-3 Jharapada, Front of Jali Jharapada Distt Khurda
103228	Parthasarathi Mishra Bipin Bihari Mishra	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5157 09/02/06	Balarampur Talagadh Post, Jenaipur PS, Bhatrasala, Jajpur
103229	Pradeep Ku. Bindhani Mukunda Ch. Bindhani	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5147 09/02/06	At Talabani Post, Colagadia Via - Kaptipada Distt, Mayurbhanj
103230	Pradepta Ku. Singh Siba Prasad Singh	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5285 21/02/07	Hotel Sea "N" Sand C.T. Road, Puri
103231	Prajna Paramita Mishra Chittaranjan Mishra	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5224 17/10/06	Auto Via- Rajnagar Distt, Kendrapara
103232	Pramodini Gartia Bipin Bihari Gartia	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5182 30/06/06	Seed Processing Plant Ekamba Chowk Post, Sarsara Distt, Bargarh
103233	Pranab Ku. Jena Jadunath Jena	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5144 21/12/05	At Po. Jala Swarup Via, Dehurd, PS, Bhugari Distt, Belasore
103234	Prantimani Sharma Alekh Prasad Sharma	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2005	5127 30/11/05	At- Sorisada, PO. Patrapur Via, Pattamundi PS, Aul, Kendrapada
103235	Prasana Ku. Patra Paramanda Patra	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2003	5143 16/12/05	At Ballamunduli Post Via/Shyamakhunta Distt, Mayurbhanj
103236	Prasanta Ku. Das Jitendra Nath Das	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5243 12/01/07	At- Angargadia Po- Via/ Kuchel Distt, Mayurbhanj
103237	Pravatareshu Kar Prananda Kar	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5288 28/02/07	At Po. Cupada Via, Alva, Kendrapara
103238	Praveena Patnaik Choudhary Bhuban Mohan Patnaik	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5222 13/10/06	Sri Jagannath Niketan Ranchandrapur, Behind M.P.O. Jetni, Khurda
103239	Pranananda Jhanekar Narandra Jhanekar	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5148 09/02/06	At Bhabanipalli Post, Rampur VPS, Bhinka, Sonapur

103240	Pritish Ku. Mishra Kantik Ch. Mishra	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5251 12/01/07	At/Po. Dantamuhan Via, Rushnachandrapur, Mayurbhanj
103241	Pritish Ranjan Mahapatra Guneridhi Mahapatra	B.A.M.S Utkal Univ., Bhubaneswar 2006	5158 09/02/06	At/Nijambalpur Post, Barabahalchandrapur Via/PS. Chandanpur, Puri
103242	Prityabrata Arun Ku. Sahu Haranta Kumar Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2005	5088 02/08/05	At/Po. Kaila, Via/PS. Barkote Deogarh
103243	Prityabrata Rout Jagad Kishore Rout	B.A.M.S Bharatpur Univ., Bharatpur 2005	5123 28/11/05	At/Satala PO, Dhanu Via Manjuriroad PS. Nandipara Distt, Konjhar
103244	Prityabrata Rout Dayanidhi Rout	B.A.M.S Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5112 18/08/05	Qr. No. VII/15, Unit-1- Bhubaneswar
103245	Pustanidhi Behera Mahendra Behera	B.A.M.S Bharatpur Univ., Bharatpur 2006	5210 28/09/06	At Raimpa, Po., Bari Cuttack, Via -Bari Distt, Jajpur
103246	Pustanidhi Behera Govind Ch. Pailur	B.A.M.S Bharatpur Univ., Bharatpur 2006	5219 12/10/06	At- Kharigarh Po. Bagabo Sahi Via Nilail Cuttack
103247	Rajesh Lochan Sanapati Sallendra Ku. Sanapati	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5256 12/01/07	At/Po. Punjabandha Goda, Via- Salikul Distt- Keonjhar
103248	Rajkumar Sahoo Bishnu Charan Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2006	5185 11/07/06	At/Po. Chhapada Via- Gohiradamside Distt, Deogarh
103249	Rakhee Panda Rabindra Ku. Panda	B.A.M.S Utkal Univ., Bhubaneswar 2006	5136 09/02/06	Plot. No. N-878, I.R.C. Via. Nayapalli, BBSR-4
103250	Rama Prasad Sahoo Dandapani Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2005	5080 28/07/05	At/Po. Madanpur Via/ Kural, PS. Odagaon Distt Nayagam
103251	Ranjan Ku. Kasta Anarendra Kasta	B.A.M.S Utkal Univ., Bhubaneswar 2006	5164 09/02/06	At Kamarsole Post Baradiha Via- Hatigarh Distt, Balasore
103252	Ranjan Ku. Pradharth Chintamani Pradharth	B.A.M.S Bharatpur Univ., Bharatpur 2005	5132 01/12/05	At. Mritunj Lyapur (Badha) Post. Konha PS. Via-Jajpur Road
103253	Ranjan Kumar Mishra Radheshyam Mishra	B.A.M.S Bharatpur Univ., Bharatpur 2005	5135 06/12/05	At. Jagannathpur Po. Ranapur, Via, Masra Distt, Jajpur
103254	Ranjan Mishra Raja Kishore Mishra	B.A.M.S Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5116 01/09/05	Plot. No. 1080/2977 Unit-20, Khandagiri Distt, Khurda

103255	Rashmi Ranjan Sahoo Batakrushna Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5203 17/08/06	At/Po. Gop, Distt, Puri
103256	Rashmi Ranjan Nayak Pravru Charan Nayak	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2005	5121 22/11/05	At/ Post. Panhanga Via/ P.S. Nail Distt, Cuttack
103257	Rebeshisendra Bahadur Singh Ramanath Chama	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5187 11/07/06	At/Po. Bhaleswar Via- Kharlaroad Distt, Nuapada
103258	Salram Mahapatra Puran Ch. Mahapatra	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5286 21/02/07	Ar- Badagorada Po, Kesharpur Via- Mandhatapur Distt Nayagarh
103259	Sakuntala Parida Niranjan Parida	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5271 09/02/07	At- Ambiligan Po, Dhanitri Distt. Puri
103260	Sangita Maharathi Padma Charan Maharathi	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5221 13/10/06	E-60, K-6(A), Kalinga Vihar, Patrapada Bhubaneswar
103261	Sangita Prusty Narayan Prusty	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5286 09/02/07	At- Dharmpur Po- Mahanga Distt, Cuttack
103262	Sanjaya Ku. Sethy Buddha Dev Sethy	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2006	5230 17/11/06	At- Gopinathpur Hatbazar, Po/Via Jatni, Distt, Puri
103263	Sanjib Biswal Purna Chandra Biswal	B.A.M.S Berhampur Univ, Behrampur 2005	5125 29/11/05	At/Po. Via- Darada Distt, Balasore
103264	Sarika Virkhede Purusottam Virkhede	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2003	5118 08/09/05	At/ Po/ Kharlar Road Distt, Nuapada
103265	Sarita Mishra Basudev Mishra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5114 18/08/06	C.No.C/31, SBI Colony Shastrinagar, BBSRI
103266	Sartajayanti Mellick Upendranath Mellick	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5174 12/06/06	At/ Pingu, P.O. Nudadhia Via- Udalla Distt, Mayurbhanj
103267	Sarmistha Das Nalini Ranjan Das	B.A.M.S North Orissa Univ, Baripada 2004	5257 12/01/07	At- Mallibandha Po. Gopal Prasad Via, Derakali Distt, Angul
103268	Saroj Ku. Barik Rama Ch. Barik	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2008	5191 11/07/06	At/Po. Derki Via- Nuagson Distt, Jagatsinghpur
103269	Saroj Kumar Pradhan Anand Chandra Pradhan	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5081 28/07/05	At/Po. Badapandusar Via, Itanadi Distt, Nayagarh



103270	Sarojini Pattanayak Rajkshore Pattanayak	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5273 09/02/07	At- Sabalanga Po- Raypur, Via- Jankia Distt, Puri
103271	Sashikanta Majhi Chandramani Majhi	B.A.M.S Behrampur Univ, Behrampur 2006	5214 09/10/06	At/Po. Batto via- Salinkul Distt, Keonjhar
103272	Sasmita Bhatia Suresh Ch. Bhatia	B.A.M.S Behrampur Univ, Behrampur 2006	5215 09/10/06	At/Po. Bankol Via- Bolagarh Distt, Khurda
103273	Satyaban Mahalik Alekhya Prasad Mahalik	B.A.M.S Behrampur Univ, Behrampur 2005	5122 29/11/05	At/Kanakthal Po. Anantapur Via - Bhuban Distt. Dhenkanal
103274	Satyannarayan Sahoo Gadachar Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5103 03/08/05	At Gadacharmasagar Biswanath Colony PO/PS. Jatni, Distt, Khurda
103275	Saubhagya Ku. Mahalik Bichitra Mahalik	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5101 02/08/05	At/po. Tuhilamal Via /PS. Reamal Distt. Deogarh
103276	Saumyasnidha Panda Dilip Ku. Panda	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5259 12/01/07	At/Po. Balsinga Distt, Mayurbhanj
103277	Sesod Ku. Buda Kandhu Charan Buda	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5126 29/11/05	At/Po. Samashgha Via/PS. Kolabira Distt. Jharsuguda
103278	Shiva Prasad Mohanty Umesh Ch. Mohanty	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5107 05/08/05	At Kushikona Po-Olakana Via, Nimapara Distt, Puri
103279	Shivasankar Swain Sashibhusan Swain	B.A.M.S Behrampur Univ, Behrampur 2006	5217 12/10/06	Or/No. 33/(IVR), Unit- II, Ashoknagar BBSR
103280	Showbhiney Ywotimayee Kiran KU. Sethy	B.A.M.S Behrampur Univ, Behrampur 2006	5229 02/11/06	At/Po. Anandapur Patrasahi Distt, Keonjhar
103281	Shraddhanjali Dash Pratulla Ku. Dash	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5095 02/08/05	At Malpara Post./Distt.- Balangir
103282	Shrikumar Dash Bibhutibhusan Dash	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5250 12/01/07	BG. Pharmaceutical Mancheswar Sector -A, Zone R-B Bhubaneswar
103283	ShriRam Mohanty Batakrushna Mohanty	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5249 12/01/07	At/po. - Sartha Via- Haladipada Distt, Balasore
103284	Sibasankar Sahu Laxman Sahu	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5088 28/07/06	At/Po. Paikmal Distt, Bargarh

103285	Silkantha Sahoo Dwitaya Charan Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5194 12/07/06	Kalkiprasad Via- Via- Rimuli Distt, Keonjhar
103286	Smita Tripathy Dillip Ku. Tripathy	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5140 12/12/05	At Sagarpara Po/Distt - Bolangir
103287	Snigdha Mohapatra Premnanda Nayak	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5279 21/02/07	At Karmamakul Po, Ashtambalikuda Via- Marshaghal Distt, Kendrapara
103288	Snigdhanjali Bariki Jaladhar Bariki	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5092 29/07/05	At Basudevpur PO Ganthanrusinghpur Via/Mathakargola Distt Dhenkanal
103289	Srikanta Puthal Santosh Ku. Puthal	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5220 13/10/06	At PO- Sanbelakuti Via- Purnababapada Distt, Mayurbhanj
103290	Suchi Smita Sahoo Satyananda Sahoo	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5193 12/07/06	Natisalpara, Balangir
103291	Suchismita Rout Achyutananda Rout	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5281 21/02/07	At- Po, Laljal Via. Gandia Distt- Dhenkanal
103292	Suchitra Mohanty Chitrangan Mohanty	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5113 18/08/05	O.No.L/12, Batramunda Housing Board Colony Bhubaneswar, Distt. Khurda
103293	Sudeshna Meher Dukhishyam Meher	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5100 02/08/05	At Po, Dhallumunda Via. Bhangomunda Distt, Balangir
103294	Sudhir Bada Ghanshyam Bada	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5201 01/08/06	At- Kandamara Po/ Val- Bargaon Distt, Sundargarh
103295	Sudhir Ku. Behera Achikan Behera	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5090 29/07/05	Anand Bazar At Kathagada Post. Distt/ Dhenkanal
103296	Sujit Ku. Dash Laxman Dash	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5199 24/07/06	At- Nugasani Po, Tigiria Distt, Cuttack
103297	Sunita Behera Narayan Behera	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5233 11/01/07	At Po, Sakhipara Near Mission Church Distt, Sambalpur
103298	Supriya Jena Suresh Ch. Jena	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5162 09/02/06	At Po, Aliba, Pattamundel Via - Kendrapara
103299	Supriya Rautray Purna Ch. Rautray	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5274 09/02/07	At Po, Junel Via- Konark Distt. Puri

103300	Surya Kanti Prusty Ratnakar Prusty	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5155 09/02/06	At. Allinagar Post, Sohada Via Dhamnagar, Bhadrak
103301	Susanta Ku. Mahapatra Gopabandhu Mahapatra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5190 11/07/06	Ramjee Chowk Patnagarh, Balangir
103302	Susanta Ku. Pradhan Subal Charan Pradhan	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2003	5246 12/01/07	At/ Po, Kahidharpur Via- Hindol Distt, Angul
103303	Sushri Sangita Behera Rajaki Shor Behera	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2005	5129 30/11/05	Chhayapathline At/Po.Dt. Nayagarh Via-I Tamati
103304	Susila Panda Puran Ch. Panda	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5173 12/08/06	At/ Jamalpur, Po.Remu Via- Jamsuli, Balesore
103305	Susmita Pradhan Dhyanidhar Pradhan	B.A.M.S North Orissa Univ., Baripada 2004	5255 12/01/07	At/ Po- Southbelanda Via, Talcher Distt, Angul
103306	Swapna Swayamprava Sansari Ku. Raut	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5167 20/02/06	At/Po. Rajrakhol Distt. Sambalpur
103307	Swapneswar Sahu Panchanan Sahu	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2006	5160 09/02/06	At/Po. Bhejurmunda Via. PS- Bangomunda Distt. Balangir
103308	Swarna Prava Rath Bhikari Charan Rath	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2005	5131 30/11/05	CDA.3EC, -7/ Block -3, Plot No. 253, G.Cuttack
103309	Swati Ranjan Sen Suresh Ku. Sen	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5236 11/01/07	At/po. Baripali Distt, Bargarh
103310	Tapaswini Naik Puren Naik	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5228 17/10/06	Or.-L-249, 1st Floor Housing Board Colony Distt Mayurbhanj
103311	Trilochan Baral Sadananda Baral	B.A.M.S Berhampur Univ, Berhampur 2006	5231 01/01/06	At- Po. Junel Junel Bezar Via- Konaik Distt, Puri
103312	Truptidayini Acharya Puran Chandra Acharya	B.A.M.S Utkal Univ, Bhubaneswar 2007	5276 09/02/07	At. Nuashasan Po, Barchan Via. Dhammandal Distt, Jajpur
103313	Trupti Mishra Ajun Mishra	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2005	5097 02/08/05	At/Po. Kantamal Distt- Boudh,
103314	Umasankar Dash Baidyanath Dash	B.A.M.S Sambalpur Univ, Burla Sambalpur 2006	5195 17/07/06	Purighat, Telenga Bazar, Cuttack

P. R. SHARMA

# CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

ORISSA

## PART - II - UNNANI

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
10103	Sayed Mazharuddin Sayed Fakhruddin	B.U.M.S C.S.M. Univ, Kanpur 2002	5175 17/08/06	Air Kanpur, Po-Kood Via- Salepur Cuttack

P. R. SHARMA  
Registrar

New Delhi-110058, the 17th July 2008

No. 20-22/2008-CR (West Bengal)—Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of West Bengal and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto January, 2007, by inserting serial No. 102849 of Ayurveda existing last Serial No. 102986 of Ayurved which to be published in the Gazette of India for general information.

Note :—While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (West Bengal) from 1st April 2004 to 1st January 2007 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61—65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA  
Registrar

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## WEST BENGAL

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGD. NO. & DATE	ADDRESS
102849	Abdul Khaleque Laskar Md. Chhalemat Laskar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11495 10/80/04	VIII, Nataberia, Post. Natua P.S. Matthurapur (R.S.) Distt South 24. Parganas, West Bengal
102850	Abhijit Biswas Gokul Chandra Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11591 23/08/06	VIII, Sabjee Katra Colony Post & P.S. & Distt Murshidabad
102851	Abhijit Som Kartick Ch. Som	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11512 07/09/04	Nirvoypur, Post Arambagh Distt Hooghly
102852	Ajoy Bhakat Sarbananda Bhakat	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11578 09/08/06	VIII & Post Shabari, P.S. Boxihat Distt. Cooch Behar
102853	Amit Dey Anil Kumar Dey	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11550 27/09/05	At. Subhaspally, Post Belda P.S. Belda Distt Midnapore
102854	Amitabha Mapdar Anata Mapdar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11533 10/08/05	VIII, Dharepara, Post Begpur P.S. Kalna, Distt Burdwan
102855	Amrita Chandra Subhasish Chandra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11561 26/07/06	13, Ramkrishna Pally (East) Kalna Road Post & Distt Burdwan
102856	Anindita Datta Chowdhary Ashim Dutta Chowdhary	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11521 09/08/05	* Dutta Chaudhary Bari Shitalatala, Paschimpara Barabagan, Bakuiati, Kolkata 45, Amherst, Street, Kolkata
102857	Anindya Bhattacharya Pitabas Bhattacharya	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11479 26/07/04	VIII & Post, Sashinara Distt, Burwan West Bengal
102858	Aniruddha Pan Sanjib Kumar Pan	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11562 26/07/06	VIII, West Sapulpara, Post Sapulpara P.S. Bally Distt Howrah
102859	Anupam Sinha Paribosh Sinha	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11599 23/08/06	Shanlekar Road, Amtala Burdwan West Bengal
102860	Arghya Chatterjee Bhabani Prosad Chatterjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11473 19/07/04	63 N.S. Road, Post New Barrackpur, P.S. Ghola Distt, North 24 Parganas Kolkata
102861	Arijit Khan Golak Chandra Khan	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11530 10/08/05	

102862	Ashis Das Amulya Chandra Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11523 09/08/05	Co Krishna Bandhu De VIII- Purbasthali Station Bazar PO & P.S. Purbasthali Distt Burdwan
102863	Atanu Patra Sushil Kr. Patra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11475 19/07/04	Tital Colliery, Post Kalipahar Distt. Burdwan
102864	B. Lakshmi Narayan L. Balasubramanian	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11568 09/08/06	C5/2, Indralok Estare Paikpara Kolkata
102865	Badal Chandra De, Krishna Bandhu De	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11526 09/08/05	VIII. Purbasthali Station Bazar P.O. & P.S. Purbasthali Distt. Burdwan
102866	Bebobrata Bhattacharyya Opriyabeswar Bhattacharyya	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11580 09/08/06	VIII. Sahanul, Post Rasulpur, P.S. Memari Distt Burdwan
102867	Bikash Kumar Dash Bishnu Pada Dash	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11583 26/07/06	VIII & Post Alangiri, P.S. Egra Distt. Purba Medinipore
102868	Biswanath Biswas Dhirendranath Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11499 12/08/04	VIII & Post Shibpur P.S. Nakashi Para Distt. Nadia West Bengal
102869	Brati Nag Nirmal Kumar Nag	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11565 09/08/06	BC-37/3, Salt Lake City Sector-1 Kolkata
102870	Chandranil Pal Haripada Pal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11538 10/08/06	20/C2, Nandankanan, Post Hindmotor Distt Hooghly
102871	Chiranjit Biswas Chitta Ranjan Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11502 17/08/04	Baro Jonepur, Post Kanchrapara Distt North 24, Paraganas
102872	Debarata Ghose Nabaram Ghose	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11604 15/11/06	VIII. Kalipur Post. Garaigachha Distt Hooghly
102873	Debashis Dutta Gopal Chandra Dutta	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11477 22/07/04	VIII. Bamda, Post Jhargam Distt Midnapur
102874	Debasis Kundu Sant Ram Kundu	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11564 26/07/06	12/N. Jannagar Road Mahesh -1. Serampore Hooghly
102875	Debasish Niyogi Late Nandlal Neogy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11480 26/07/04	85, Ghosh Para Lane Post, Bhadrakali Distt Hooghly
102876	Debdatta Ghosh Mahadeb Ghosh	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11534 10/08/05	VIII. & Post Soaluk, P.S. Pursurah Distt Hooghly

102877	Dhiman Sarma Sri Nilrod Chandra Sama	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11598 20/09/06	C/o Smt. Arati Sharma, Vill. Nilbedila Nagar Post Nona Chandanpukur, P.S. Titagarh West Bengal 125/1, B.M. Roy Road, Kolkata
102878	Dhritibikash Mandal Atul Krishana Mandal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11554 18/01/06	
102879	Dibendu Banerjee Shuvendu Banerjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11474 19/07/04	108.J.B. Mitra Road, Singha Darja Post Rajbarti, Distt Burdwan
102880	Dilip Sarkar Lalmohan Sarkar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11555 18/01/06	11/A, Daskhin Purbachal Hospital Road Post. Haitu, P.S. Kasba, Kolkata
102881	Dipankrita Halder Rabindranath Halder	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11596 23/08/06	Vill. Anandamath, Post Chuchura Post Chuchura R.S. Distt Hooghly
102882	Dipto Datta Choudhuri Iete Dinesh Ch. Dutta Choudhuri	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11558 25/01/06	A-8/9, Barasat Housing Estate Post Noapara (Barasat) Kolkata
102883	Doly Das Balleav Chandra Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11520 08/09/05	A.G. Bengal Staff Quarter, Flat -24, 1/5 C.I.T. Scheme -VII. M. Ultadanga, Kolkata
102884	Ganesh Chaudhary Bishwambhar Chaudhary	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11584 17/08/06	Vill. Ram Ji Singh Bagan. Post. Sapulpura P.S. Bally Distt Howrah
102885	Gautam Roy Late Prafulla Ch. Roy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11609 03/01/07	Vill. Palpara (W) Sukhasagar Rd. Post. & P.S. Chakdah, Distt. Nadia
102886	Gobinda Paul Gangadhar Paul	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11608 23/11/06	Vill. & Post Duttapulia P.S. Dhanatala Distt Nadia
102887	Himadri Sekhar Chandra Haripada Chandra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11536 10/08/05	59.8B, M.G. Pargatipally, P.S. Thakur, Pukar, Kolkata
102888	Indrani Halder Sunil Halder	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11488 29/07/04	Vill. Barasat, Post Aushberia P.S. Falta, Distt. South 24, Parganas
102889	Jahnuji Korani Asraf Ali Korani	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11583 10/08/06	Vill. Bayer Dengi, Post Nabrupdaha P.S. Hanskhali, Distt. Nadia
102890	Jaydeep Chakraborty Nity Ranjan Chakraborty	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11515 28/01/05	C/o Goulam Chakraborty 17/1/ B/1/1, Mondalpara Lane Kolkata
102891	Jaydip Tripathi Ajoy Kumar Tripathi	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11510 27/08/04	Lahabagan, Tolephatak Chinsurah Post, Chinsurah, Hooghly

102892	Japan Chakma Rajkumar Chakma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11559 31/01/06	171, Rajarhat Road, Teghoria Hatlana, Kolkata
102893	Joy Ganguly Kailas Ganguly	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11503 19/08/04	Chekda Milan Paili Post Purbaputary, Kolkata
102894	Kanchan Chowdhury Raj Kishore Chowdhury	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11585 22/06/06	6, Canal South Road, Kolkata
102895	Kasab Chandra Jalui Bharat Chandra Jalui	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11542 11/03/05	VIII. Ichapur, Post Dafeapur P.S. Domjur Distt Howrah
102896	Kaushik Chattopadhyay Suersh Chaandra Chattopadhyay	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11560 26/07/06	VIII & Post Barjora, Post Bankura West Bengal
102897	Kaushik Kumar Konar Basudeb Konar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11540 10/08/05	VIII. & Post Jamar, Distt Burdwan
102898	Kaushik Mukherjee Shiba Kinkar Mukherjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11606 15/11/06	Magra Barowarital Vill. & Post Magra Distt Hooghly West Bengal
102899	Keya Deb Barma Krishna Deb Barma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11528 10/08/05	Dr. Arjit Khan, 63, N.S. Road Post New Barrackpur, P.S. Ghola Distt, North 24 Parganas
102900	Krishnayan Chatterjee Tapan Kr. Chatterjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11571 09/06/06	31/1B., Adibardma, Post Nabagram Distt Hooghly, West Bengal
102901	Lawsree Majumder Sumit Baran Majumder	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11579 09/08/06	45, R.N. Tagore Road, Nabapally Post & P.S. Thakurpukur Kolkata
102902	Lopa Samra Byomkesh Samra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11570 09/08/06	VIII, Bhabanipur Post, Debhog, P.S. Haldia, Distt East Midnapur
102903	Lopamudra Chakraborty Somnath Chakraborty	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11518 08/08/05	63, Amritlal Daw Road Post Baranagar Tatini Abasan, Block-B-3rd Floor, Kolkata
102904	Madhumita Dutta Biswannath Dutta	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11548 16/08/05	2/3B, Karim Hossain Lane, Kol-700
102905	Mahammed Mestagim Mohammed Mustafa	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11481 26/07/04	33, Debendra Chandra Dey Road, Post & P.S. Tangra, Kolkata
102906	Mahua Dhar Sri Anadi Nath Dhar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11497 11/08/04	VIII & Post kimahar Distt Birbhum West Bengal



102892	Japan Chakma Rajkumar Chakma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11559 31/01/06	171, Rajarhat Road, Tegharia Hatia, Kolkata
102893	Joy Ganguly Kalidas Ganguly	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11503 19/08/04	Chakda Milan Pali Post Purbapuri, Kolkata
102894	Kanchan Chowdhury Raj Kishore Chowdhury	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11585 22/08/06	6, Canal South Road, Kolkata
102895	Kasab Chandra Jalui Bharat Chandra Jalui	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11542 11/03/05	VIII, Ichapur, Post Dafapur P.S. Domjur Distt Howrah
102896	Kaushik Chattopadhyay Suersh Chandra Chattopadhyay	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11560 26/07/06	VIII & Post Barjora, Post Bankura West Bengal
102897	Kaushik Kumar Konar Basudeb Konar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11540 10/08/05	VIII. & Post Jamar, Distt Burdwan
102898	Kaushik Mukherjee Shiba Kinkar Mukherjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11606 15/11/06	Magra Barowarital Vill. & Post Magra Distt Hooghly West Bengal
102899	Keya Deb Barma Krishna Deb Barma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11528 10/08/05	Dr. Arjit Khan, 63, N.S. Road Post New Barrackpur, P.S. Ghola Distt, North 24 Parganas
102900	Krishnayan Chatterjee Tapen Kr. Chatterjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11571 09/08/06	31/1B, Adibartma, Post Nabagram Distt Hooghly, West Bengal
102901	Lawsree Majumder Sunil Baran Majumder	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11579 09/08/06	45, R.N. Tagore Road, Nabapally Post & P.S. Thakurpukur Kolkata
102902	Lopa Sarma Byomkesh Sarma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11570 09/08/06	VIII, Bhabanipur Post, Debnog, P.S. Haldia, Distt East Midnapur
102903	Lopamudra Chakraborty Somnath Chakraborty	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11518 08/08/05	63, Amritlal Daw Road Post Baranagar Tatini Abasan, Block-B-3rd Floor, Kolkata
102904	Madhumita Dutta Biswamath Dutta	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11548 16/08/05	2/38, Karim Hossain Lane, Kol-700
102905	Mahammed Mestaquim Mohammed Mustafa	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11481 26/07/04	33, Debendra Chandra Dey Road, Post & P.S. Tangra, Kolkata
102906	Mehua Dhar Sri Anadi Nath Dhar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11497 11/08/04	VIII & Post kimaheer Distt Birbhum West Bengal

102907	Mamala Kanti Prajapati Ram Nwas Prajapati	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11522 09/08/05	Bally Jute Mill. Mess Quarter Hapta Bazar, Room No. 8A, B.T. Ganguly Road, Post-Bally Howrah Ramkrishna Pally (West) Post Nimta, P.S. Nimta Kolkata
102908	Milan Mishra Jatindra Nath Mishra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11552 18/01/06	
102909	Mithun Biswas Pankaj Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11605 15/11/06	Pallybaria Road, Paschimpara Bongaon, North 24, Parganas
102910	Mohd. Nawab Imam Mollah Mohd. Mahtbul Haque Mollah	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11539 10/08/05	Vill. Chhatrashal, Post Ghole P.S. Khanakul Distt Hooghly
102911	Mousmi Sinha Atul Chandra Sinha	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11529 10/08/05	Dr. Arjit Khan, 63 N.S. Road Post New Barrackpur, P.S. Ghola Distt, North 24 Parganas
102912	Mousumi Biswas Dulal Chandra Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11567 09/08/06	15 NO., Motilheel Avenue Kolkata West Bengal
102913	Mousumi Roy Arabinda Roy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11506 20/08/04	C/o Ghittaranjan, Charterjee 2/42, Naktala, Kolkata
102914	Mriganka Mandal Manmatha Nath Mandal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11531 10/08/05	197/1/ Janta Road P.O. New Barrackpur, P.S. Ghola Distt, North 24 Parganas, Kolkata
102915	Nabamita Banerjee Chandidas Banerjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11532 10/08/05	Millanpally Banerjee Bagan, Post Hridaypur P.S. Barasat
102916	Narayan Mitra Kartick Chandra Mitra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11544 11/08/05	62, Ramnagar Colony Post Kankinara Distt, North 24, Parganas
102917	Nauros Jabeen Shaikat Ali	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11517 08/08/05	11-D., Tantl Bagan Road Kolkata
102918	Nilanjana Datta Kalipada Datta	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11586 22/08/06	703/1, R.N. Tagore Road Post Bedinpara, Kolkata
102919	Nilmadhab Banerjee Molay Banerjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11569 09/08/06	N.N. Bose Road C/o B.B. Engineering, Durgapur
102920	Nitish Ranjan Pathak Sudhir Ranjan Pathak	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11547 16/08/05	244/3, Acharya Parafula Chandra Road, Kolkata
102921	Nurpur Das Nepal Ch. Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11519 08/08/05	Karali Mohan Patra, Vill. & Post Katulpur Distt. Bankura

102922	Palas Mukhopadhyay Late Makhan Lal Mukhopadhyay	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11491 05/08/04	Vasundhara Park, Khan Md, Road P.S. Thakurpukur, Kolkata
102923	Pallavi Deb Barmen B.L. Deb Barmen	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11576 09/08/06	C/o BL Debbarman C-24/3, ECTP PHASE-IV Manjilika Housing Complex, Kolkata
102924	Panna Das Anil Baran Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11575 09/08/06	C/o Tapan Chowdhuri 7/N Algar Mistry Lane, Kolkata
102925	Partha Naskar Kshudiram Naskar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11489 29/07/04	VIII, Post Srikrishana Nagar P.S. Jaynagar, Distt South 24, Parganas
102926	Partha Sarathill Guha Tarun Kant Guha	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11577 09/08/06	148, Dr. Akshoy Kumar Paul Road Behala Kolkata
102927	Pavitter Kaur Surinderjit Singh	B.A.M.S Punjab Univ., Chandigarh 2003	11476 21/07/04	32/1A, Chakra Beria Road (South) Kolkata
102928	Phaiguni Bhattacharya Sallaje Kr. Bhattacharya	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11511 07/09/04	VIII. Barankua, Post Ballisai P.S. Ramnagar Distt-Purba Mindaipur
102929	Pradip Biswas Ramesh Chandra Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11527 10/08/05	VIII & Post Banpur R.S. Road P.S. Habra Distt North 24. Parganas
102930	Priya Ranjan Mandal Jiten Mandal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11496 10/08/04	VIII, Simuldih, Post Nabason, P.S. Kankarola, Distt Birbhum
102931	Protap Kumar Rakshit Gour Chandra Rakshit	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2002	11472 18/09/04	VIII & Post Ajhapur Distt. Burdwan
102932	Rajan Sinha Roy Sasanka Sekhar Sinha Roy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11545 12/08/05	VIII. & Post Mandra, PS.Dhaniakhali Distt Hooghly
102933	Rajib Kundu Ruplal Kundu	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11589 20/09/06	Khudiram Basu Sarani Post. Kenduadihi Distt Bankura
102934	Rama Nath Mudi Bhandulal Mudi	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11514 28/01/05	VIII. Bandwan, Post Bandwan, P.S. Bandwan Distt Purulia
102935	Ramkrishana Patra Karell Mohan Patra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11546 16/08/05	VIII. & Post Kotulpur, Distt Bankura
102936	Ratish Chaudhuri Ratan Chaudhuri	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11524 09/08/05	C/o Ashutosh Samadder, Janakalyan Palli, Habra-Nailhati 1. Rd. P.S. Ashok, Nagar, North 24. Parganas

102937	Rijoy Krishna Nath Bijoy Krishna Nath	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11602 15/11/06	161, MB. Road Post Nimata Ratna P.S. Nimta Kolkata
102938	Ruby Roy Choudhury Sabyaschi Roy Choudhury	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11597 23/08/06	2/1, Kashinath Chatterjee Lane Shilpore, Howrah
102939	Rumpa Chatterjee Chitta Ranjan Chatterjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11508 20/08/04	2/42, Nakatala, Kolkata
102940	Sabyasachi Ghosal Netai Ghosal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11504 19/08/04	VIII, Napatti Post Sanpulpara P.S. Bailey, Howrah
102941	Sagarika Das Gupta Saroj Kr. Das Gupta	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11592 23/08/06	Post, Belda Distt. West Midnapore
102942	Sahidul Islam Late Mozammel Hoque	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11582 10/08/06	VIII, Sherpur Post. Gangin P.S. Suli Distt Murshidabad
102943	Saibal Kumar Pahari Tarapada Pahari	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 1998	11557 25/01/06	At. & PO Mirzapur, Belda Via-Kharkada P.S. Dantan Distt. West Midnapore West Bengal
102944	Saibal Mandal Bimal Mondal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11553 18/01/06	VIII- Uttar Kalitapur Post Dakshin Barasat P.S, Jaynagar Distt. South 24, Paraganas
102945	Samhita Das Sailan Kumar Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11509 20/08/04	Chitta ranjan Chatterjee 2/42, Nakatala, Kolkata
102946	Samir Golan Sanwar Rafiqueal Islam	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11513 14/10/04	VIII- Bhawanipur, Post Purandarapur P.S. Kand', Distt Murshidabad
102947	Samrat Mukhopadhyay Satyendy Mukherjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11484 26/07/04	5A, Nerodh Behari Mullick Road Kolkata
102948	Sanchari Roy Ananta Roy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11507 20/08/04	6/1, Banerjee Para Road, Behala Kolkata
102949	Sanchita Bandyopadhyay Samar Banerjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11487 28/07/04	43, Bose Para Lane, Baghbazar Kolkata
102950	Sandip Ghosh Hajari Lal Ghosh	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11590 23/08/06	Gauranga Para, Post Madanpur Distt, Nadia, West Bengal
102951	Sandip Mandal Tunulal Mandal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11574 09/08/06	VIII, Simulidhi, Post Nabasan, Kankartala Distt, Birbhum,

102952	Sangeeta Maity Lakshmi Narayan Maity	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11492 05/08/04	At 141- Sreenagar , Garia Station Post. Panchasayar, Distt South 24, Parganas
102953	Sanjay Ghosh Sachindra Nath Ghose	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2006	11566 09/08/06	Rajyadharpur (Near Harihar Nursery) Post Mallickpara, P.S.
102954	Sanjay Yadav Ram Nayan Yadav	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11595 23/08/06	Serampore Distt. Hooghly 2432A, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata
102955	Santanu Jamatia Dayananda Jamatia	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11485 27/07/04	Hera Parsad Sen, Nazarganj Kaigang Road Post & Distt, Paschim Midnapur
102956	Samilla Das Ranjit Kr. Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11607 22/11/06	Salt Lake City Shyamall Housing Estate Block 0A/4, Kolkata
102957	Saroj Kumar Dhal Late Dharani Dhar Dhal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11581 10/0/06	Villg. Post Chilkigam, Distt Paschim Midnapur
102958	Satyaben Mondal Tulsi Charan Mondal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11500 13/08/04	Vill & Post Barampur, Via Srikhandra P.S. Kalwa, Distt Burdwan
102959	Shyamsree Choudhury Gopal Krishna Choudhury	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11601 15/11/06	Plot No.32/D, Anupama Housing Complex VIP Road (Near Haldibrans) Kolkata
102960	Sk. Noor Hasan Amir Ali Sk.	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11597 06/09/06	Vill. Kamar Pole North Post Sarisha P.S. Diamond Harbour, Distt South 24. Parganas
102961	Somenath Dhara Asoke Dhara	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11543 11/08/05	Post Dubrajpur, Distt Birbhum
102962	Sougata Banerjee Samarendra Narayan Banerjee	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11482 26/07/04	377A, Khelat Babu Lane P.S. Chitpur, Kolkata
102963	Subharata Roy Aresh Ray	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11551 18/01/06	11, Vevi Bari (Nutan Para) Post & Distt. Cooch Behar
102964	Subhendu Saha Ram Chandra Saha	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11493 09/08/04	35, Shibkala Bye Lane, Sashtitale Sheoraphuly, Hooghly
102965	Subrata Mal Mohan Chandra Mal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11594 23/08/06	Vill & Post Krishna Chandrapur P.S. Mathurapur, South 24, Parganas
102966	Subrata Sarkar Late Sripada Sarkar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11478 23/07/04	Vill. Islampur, Post Nahata Distt North 24, Parganas

102967	Sudha Mondal Susanta Kr. Mondal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11603 15/11/06	VIII. Lepur Upar Para Post Ramsagar PS. Onda Distt Bankura
102968	Sudipa Rudra Nani Gopal Rudra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11588 23/08/06	109A/1, M.L.B. Road Post & P.S. Bally Distt Hosrah
102969	Sukanta Ray Tapan Ray	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11541 10/08/05	51/D/8, Barabagan Lane, Serampore Hooghly West Bengal
102970	Suman Biswas Santi Ranjan Biswas	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11516 06/08/05	VIII. & P.O. Thakurnagar Distt., North 24 Parganas
102971	Suman Nanda Byomkes Nanda	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11537 10/08/05	"Labyana" Narayanpur Tentulata R-Gopalpur P.S. Airport North 24. Parganas, Kolkata
102972	Suman Sarkar Himansu Sarkar	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11600 28/09/06	Purbayan, Manaspur Road Post Sohaganj PS. Chinsurah, Hooghly
102973	Suman Sasmal Birman Gopal Sasmal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11549 27/08/05	Deulpara, Nandipukur, Naihati North 24 Pargans
102974	Suman Sen Hara Prasad Sen	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11490 04/08/04	Nazarganj, Kalgang Road Distt. Paschim Medinipur, West Bengal
102975	Sumita Paul Late Anutosh Kr. Paul	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11556 18/01/06	R.H.E. Type.DI.Flat NO. A/6 Kalyani, Nadia, West Bengal
102976	Superatim Bir Ranjit Chandra Bir	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11593 23/08/06	C/o Bidhu Ranjan Chaudhary Olai Chandl 2nd Bye Lane Kolkata
102977	Supriya Nandi Sukumar Nandi	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11501 17/08/04	VIII- Kamarpukur, Post Shripur Distt. Hooghly
102978	Suranjan Mondal Nalini Ranjan Mondal	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11494 09/08/04	VIII & Post Daudpur, P.S. Sandeshkhali Distt, North 24. Parganas
102979	Surya Kanta Mahapatra Jharieswar Mahapatra	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11525 09/08/05	VIII. & Post Alangiri, P.S. Egra Distt. Purba Midnapore
102980	Tanushree Ray Tapan Kumar Ray	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11498 11/08/04	C/o Anadinath Dhar Vill & Post Kimahar Distt- Birbhum
102981	Tapas Bhaduri Sukumar Bhaduri	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11573 09/08/06	6/1, Brojo Saha Lane P.O. & P.S. Berhampur Distt Murshidabad

102982	Tarak Nath Ganguly Bata Krishana Ganguly	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11483 26/07/04	Viii & Post Chhatna, P.S. Chhatna Distt Bankura,
102983	Tushar Kanti Roy Bidyendu Bikash Roy	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2005	11572 09/08/06	Viii, Sagardighi, Post P.S. Sagardighi Distt Murshidabad
102984	Urbil Das Narayan Kumar Das	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2004	11535 10/08/05	C/o N.K.Das 172, Rifle Club East Post Basdiani, Kolkata
102985	Utpal Deb Barma Arun Deb Barma	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11486 27/07/04	C/o Hara Parsad Sen, Nazraiganj Kalganj Post & Distt. Paschim Midnapur
102986	Uttam Mallick Karnal Mallick	B.A.M.S Univ. of Calcutta, Kolkata 2003	11505 19/08/04	Viii & Post Nabastha, P.S. Memari Distt. Burdwan

P. R. SHARMA  
Registrar

#### CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 17th July 2008

No. 20-33/2008-CR (Goa)—Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Goa and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto September, 2006, by inserting serial No. 102987 of Ayurveda existing last Serial No. 103106 of Ayurved which to be published in the Gazette of India for general information.

Note :—While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Goa) from 1st April 2004 to September 2006 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61—65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA  
Registrar

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

## GOA

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
102987	Akhargekar Joshna Nagorao	BAMS Goa Univ., Goa 1999	285 19/05/06	Parvati Nivas, H.No.348, B/4, Shetye, Wado, Duler, Mapusa Goa
102988	Andhale Mangala Ramchandra	BAMS Goa Univ., Goa 2005	290 29/09/06	Sunrise Co-op. Housing Society, 151/ 5014, Near Tilak Nagar Station, Mumbai
102989	Bandekar Sidhesh Subhash	BAMS Goa Univ., Goa 2004	253 29/03/06	994-B, Gajantlaxmi, Vidyanagar Colony, Chafaleli, Kolgown, Sawantwadi
102990	Bandodkar Tanya Ashok	BAMS Goa Univ., Goa 2003	208 23/02/05	Galaxy Apts F/No.25, 1st floor, Aquem, Margao, Goa
102991	Bapat Kishor Bharat	BAMS Goa Univ., Goa 2003	210 23/02/05	At Post Naringre Tal. Devagad, Distt. Shidhurdurg
102992	Bene Prashila Satchidananda	BAMS Goa Univ., Goa 2002	202 18/12/04	H.No. M-67, Housing Board Colony, Gogol Margao, Goa
102993	Betgeri Santosh Shrikant	BAMS Goa Univ., Goa 2002	200 01/11/04	H.No. 641/B, New Vadem, Vassco, Goa
102994	Bhandari Mayur Gopinath	BAMS Goa Univ., Goa 2004	252 29/03/06	Galgibaga, Colsor, Canacona, Goa
102995	Bhanu Jyoti Hemchand	BAMS Goa Univ., Goa 2003	234 06/06/05	H.No. D-F/4, Perelra, Residency, Gogol, Margao, Goa
102996	Bhat Anuja Pramod	BAMS Goa Univ., Goa 2000	201 18/12/04	F. No. 1, Nageckar Bldg, Canacona, Chawdi, Goa First Floor Old Municipality Bldg., Chawdi, Canacona, Goa
102997	Borcar Rohit Ratankumar	BAMS Goa Univ., Goa 2004	254 29/03/06	Opp. Xavier Research Centre Alto Porvorim, Goa
102998	Borkar Shilpa Laxmikant	BAMS Goa Univ., Goa 2003	217 06/05/05	H.No. 241, Navelin Shirwodan, Margao, Goa
102999	Brahmananda Bindu	BAMS Goa Univ., Goa 1999	246 23/12/05	C/o DR. Reshma P. Sangekkr, F-14 The Orchids Co-op. Hsg. Society Arlem, Reia, Salcette, Goa



103000	Budigop Rajesh Laxman	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	204 17/01/05	C/o Mr. Allayyanavar Ningaraj, Plot No. 51/B, Near Rani Constructions, Khadpakāndh, Ponda
103001	Budkuley Aditi Jayant	BAMS Goa Univ., Goa 2004	286 19/05/06	M 52, Housing Board Colony, Alto Porvorim, Goa
103002	Chodankar Nandadeep Vijay	BAMS Goa Univ., Goa 2004	251 29/03/06	F 129, Salai Wada, Sawantwadi, Distt. Sindhudurg
103003	Coutinho Seema	BAMS Goa Univ., Goa 2003	218 06/05/05	Near Augustias Chapel, H.No. 50, Vaddy, Mercas, Goa
103004	D'Silva Flossy	BAMS Goa Univ., Goa 2004	255 29/03/06	Gulimohar E, 1st floor, Near Syndicate Bank, Caranzalen, Panaji, Goa
103005	D'Souza Shirmona	BAMS Goa Univ., Goa 2003	220 06/06/05	74, Sagar Society, Dona, Pola, Goa
103006	D'Souza Elmarch	BAMS Goa Univ., Goa 2004	241 12/09/05	Housing Board Colony, Plot No. C-39, Margao, Goa
103007	Da Costa Correia Krenza Rita	BAMS Goa Univ., Goa 2004	288 25/05/06	Kadamba Road, Alto Porvorim, Bardez Goa
103008	Dantas Milton Elepin	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1996	186 11/06/04	At Post Mandren, Madlamaj, Pemen
103009	Desai Gaurav	BAMS Goa Univ., Goa 2004	257 29/03/06	S 3, Gautam Apartments, Near Maruti Temple, Aquem, Margao, Goa
103010	Desai Manohar Manjunath	DSAC Board of Studies in I.M., Bangalore 1963	181 11/06/04	Sanskar Coop. Housing Society, 2nd floor, S-5, Opp. Post Office, Aquem, Margao Goa
103011	Desai Nishchal Pranod	BAMS Goa Univ., Goa 2003	219 06/06/05	Ganganagar, Dairy Product, Kurti, Ponda, Goa
103012	Desai Poornima Shyam	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1998	247 27/12/05	HIF 45, Goa Housing Board Complex, Near Sanjay School, Pundalik Nagar, Alto Porvorim
103013	Deshmukh Asmita Vinodrao	BAMS Goa Univ., Goa 2004	256 29/03/06	Goa Housing Board Colony, Bldg II, M-9, Curti, Ponda, Goa
103014	Dhawde Sayoguni Ganesh	BAMS Goa Univ., Goa 2003	237 06/06/05	H.No. 219, Behind Baira Church, Sasmolem, Baira, Vasco-da-Gama, Goa

103015	Dias Chelsia Candolina	BAMS Goa Univ., Goa 2003	207 11/01/05	Souza Enclave, Flat H 4, 2nd floor, Madaj, Margao Salcate, Goa
103016	Dileep Senan KK Chandra Senan	BAMS Dr.MGR Med. Univ., Chennai 1996	183 11/06/04	F 15, Celyn Apartment, Behind Vaddan, Lake, Vasco Kottakal Arya Vaidya Sala, 1st floor, Apria Bazar, Vasco
103017	Dixit Madhavilata Upendra	BAMS Gujarat Ay. Univ., Jamnagar 1991	192 28/06/04	F2, Saraswati Apts, Opp. Singbal Hospital, Khadapabandi, Ponda Goa
103018	Fernandes Joseph Francis	BAMS Goa Univ., Goa 2003	209 23/02/05	H.No. 969, Madhatemaj, Mandren, Goa
103019	G.Gilja	BAMS Goa Univ., Goa 2004	259 29/03/06	P 36/1, Vanunapuri, III, Mangor Hills, Vasco-da-Gama, Goa
103020	Gaunekar Sweta Nyaneshwar	BAMS Goa Univ., Goa 2004	283 12/04/06	Mount View Apt. R.No. 6, Mangor, Vasco Goa
103021	Gawas Bindidya Sornnath	BAMS Goa Univ., Goa 2004	258 29/03/06	H.No. 2162, Sangam Building, Valshi, Bicholim, Goa
103022	Gopalkrishna Sujata	BAMS Goa Univ., Goa 2003	221 06/06/05	988, Torda Road, Alto Parvorim, Goa
103023	Inamdar Abhijit Anant	BAMS Goa Univ., Goa 2003	213 30/03/05	Ambika Sadan, Palkar Vada, Shanivar Chowk, Panchavati Nasik, Maharashtra
103024	Jadhav Sujata Sudam	BAMS Goa Univ., Goa 2004	280 29/03/06	National Palace, A 302, Old Panvel
103025	Jeware Abhijit Pramod	BAMS Goa Univ., Goa 2002	180 22/05/04	At Post Karjat, Tal. Karjat, Distt. Ahmednagar Maharashtra
103026	John Vieira Algrretta F.J.	BAMS Goa Univ., Goa 2004	260 29/03/06	H.No. 362, I, Dandora, Cuncolim, Salketa, Goa
103027	Joshi Kavita Naresh	BAMS Goa Univ., Goa 2004	261 29/03/06	B 5/42, GIDC Colony, Umbergaon, Gujarat
103028	Joshi Kiran Kumar Induprasad	BSAM Gujarat Ay. Univ., Jamnagar 1980	289 12/06/06	S-1/104 Nandanvan Apartment, Tarsali, Vadodara
103029	Joshi Sheetal Anil	BAMS Goa Univ., Goa 2003	215 30/03/05	Samhita? 124 A, Lane No.9, Mahatma Society Behind Gandhi Bhavan, Kothrud, Pune

103030	Kale Archana Sharad	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1994	190 11/06/04	At Post Valpoi T. Sattari, Goa
103031	Kalro Natasha Ramchandria	BAMS Goa Univ., Goa 2003	222 06/06/05	Sanchayari Anant Vishwa, A-14, Gogal, Margao, Goa
103032	Kamat Roopa Mukund	BAMS Goa Univ., Goa 2003	216 30/03/05	F-27D? Bldg., Vrindavan Gardens, Warkhande, Ponda, Goa
103033	Karnat Sulaksha Ratnakar	BAMS Goa Univ., Goa 2002	171 06/04/04	House No. 65, Gokulwadi, Sanquellin, Goa
103034	Kavlekar Sujata Laxman	BAMS Goa Univ., Goa 2002	173 06/04/04	?Sairam? Vijaynagar, Torda, Porvorim, Goa
103035	Kelkar Madhwa Manohar	BAMS Goa Univ., Goa 2003	223 06/06/05	Vithalapur, Karapur, Tisk, Sankhali, Goa
103036	Kumari Singh Vijay Rajinder	BAMS Goa Univ., Goa 2002	179 13/04/04	HN. 189, Central Horta, Near Ganpati Temple, Margao Goa
103037	Kumbhare Anukanga Prabhakar	BAMS Goa Univ., Goa 2002	175 10/04/04	Gharkul Housing Society, Balguinim, Old Goa, Tiswadi, Goa
103038	Kumthekar Padmaja Madan	BAMS Goa Univ., Goa 2004	262 29/03/06	HN. 1368, Housing Board Colony, Sankhali, Goa
103039	Kundalkar Vinda Vishwas	BAMS Goa Univ., Goa 2003	224 06/05/05	Vishwadeep Near Police Station, Margao, Goa
103040	Lourenco Glenda Transico	BAMS Goa Univ., Goa 2002	172 06/04/04	Oliveira Mansion H.N.E. 21, Bondix, Santa Cruz, Ilhas, Goa
103041	Manen Alex	BAMS Goa Univ., Goa 2004	250 29/03/06	Mangalodayam House Poruvazhy North Chetha Kulam PO Kollam, Kerala State
103042	Manerikar Shiv Datta alias Viraj Madhav	BAMS Goa Univ., Goa 2002	170 06/04/04	Shivayan Appts. Chandrawoda, Fatorda, Margao Goa
103043	Mangaonkar Sushant Arvind	BAMS Goa Univ., Goa 2003	211 23/02/05	AP Kottamate, Tal Devgad, Distt. Sindhudurg,
103044	Mirashi Sneha Suresh	BAMS Goa Univ., Goa 2003	233 06/06/05	Snehpruya? Near Sai Baba Mandir, Aquem, Alto, Margao

103045	Mishra Umesh Ramchandra	BAMS Goa Univ., Goa 2004	265 29/03/06	703, Shubh Apt. Kurar Village Shantaram Talao, Maled(E) Mumbai
103046	Morajkar Deepali Narendra	BAMS Goa Univ., Goa 2004	264 29/03/06	L-3-4 Housing Board, Sancoale, Goa
103047	Morajkar Vaibhav Kumar Nikhant	BAMS Goa Univ., Goa 2004	239 12/09/06	Sapna Vihar, F-6-A, First floor, Vaddem, Vasco-Goa
103048	Morajkar Vedangi Darmodar	BAMS Univ. of Mumbai, Mumbai 2001	248 27/02/06	192, Betalwad, Amonta PO Marcella, Goa
103049	Mule Nina Anand	BAMS Goa Univ., Goa 2004	242 19/09/06	H.No. 1837, Mule Nivas, Fatorda, Margao, Goa
103050	Nagvenkar Smruti Rohidas	BAMS Goa Univ., Goa 2004	268 29/03/06	H.No. 798, Behind Canara Bank, Fatorda, Margao, Goa
103051	Naik Deepti Mohan	BAMS Goa Univ., Goa 2004	266 29/03/06	H.No. 1468, Fajj Housing Colony, Modai, Thivim, Goa
103052	Naik Pooja Mahadev	BAMS Goa Univ., Goa 2003	225 06/06/06	H.No. 171, Datta Sadan, Borda, Margao Goa
103053	Naik Poonam Maruthi	BAMS Goa Univ., Goa 2003	235 06/06/06	Bldg. No. 81/1/4, St. Desiderio, Chapel, Vasco Goa
103054	Naik Poonam Uday	BAMS Goa Univ., Goa 2004	267 29/03/06	Block No. 11, Medha Apartment, Shantinagar, Ponda, Goa
103055	Naik Sunil Waman	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1996	187 11/06/04	At/Post Maneri Tal Dodamarg, Dist. Sindhudurg, H.No. 24, Panwad, Mollem Assonora, Bardez, Goa
103056	Naik Supriya Vishwes	BAMS Goa Univ., Goa 2003	236 06/06/06	Ghanemrod, Xelden, Quepem, Goa
103057	Namshikar Vaishali Govind	BAMS Goa Univ., Goa 2003	226 06/06/06	?Ashliwad?, Near Post Office, Mardo, Goa
103058	Narvekar Yogita Murlidhar	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1994	189 11/06/04	MI-IN-42, Head Land Sada, Marmugao, Mangore Hill, Vasco
103059	Nerulkar Navdipa Navnath	BAMS Goa Univ., Goa 2004	284 12/04/06	6, Dhanashree Apts., Agalli Road, Gogol, Fatorda, Goa

103060	Pai Sonal Laxmikant	BAMS Goa Univ., Goa 2003	227 06/06/05	C/o Laxmikant Pai, Parsulem, Canacona, Goa
103061	Palakonda Sajprasad	BAMS Goa Univ., Goa 2004	269 29/03/06	S/o P. Narayan H.No. 68, Near Sheikh Ayub Chawl, Cotto, Sanguem, Goa
103062	Parab Rupali Dilip	BAMS Goa Univ., Goa 2003	196 03/09/04	22, Ajanta Vishal Co-op. Housing Society, Sainathnagar, Eksar Road, Borivall (W), Mumbai
103063	Parab Sunita Ganpati	BAMS Goa Univ., Goa 2004	271 29/03/06	H.No. 1306, Arady, Vaddo, Candolin, Bardez, Goa
103064	Parimala K	BAMS Goa Univ., Goa 2001	245 28/11/05	Dr. Ganesh Shenoy, Flat No. F. 4, Shridhar Apartments, Mercos, Goa Panaji
103065	Patil Anija Anil	BAMS Goa Univ., Goa 2004	249 29/03/06	C/o Mrs. Vijaya G. Kamat, Igranol, Quepem, Goa
103066	Patil Sanjay Gopal	BAMS Goa Univ., Goa 2004	243 27/09/05	At/PO Sundi Tali-Chandgad, Distt. Kolhapur (Maharashtra)
103067	Patil Swati Raghunath	BAMS Goa Univ., Goa 2003	198 03/09/04	C/o Raghunath Patil, H.No. 54, Pontemol, Curchorem, Goa
103068	Patkar Rupali Anand	BAMS Goa Univ., Goa 2002	177 13/04/04	At Post Banda, Tal. Sawantwadi, Distt. Sindhudurg
103069	Patki Geeta Sanjay	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1993	184 11/06/04	8, Ramnath Apartment, Shantinagar, Ponda Goa/Gomantak Ayurveda Maha. & Research Centre, Shiroda, Goa
103070	Pawar Ganesh Janardhan	BAMS Univ. of Poona, Pune 1997	194 08/07/04	Colonla de Braganza S-16, Naika Waddo, Calangute, Goa
103071	Pawar Vinaya Ganesh	BAMS Univ. of Poona, Pune 1987	195 08/07/04	Colonla de Braganza S-16, Naika Waddo, Calangute, Goa
103072	Pol Anand Vasant	BAMS Gujarat Ay. Univ., Jamnagar 1994	182 11/06/04	H.No. 12, Krishna Kamal Apartment, Dhawali, Ponda, Goa Gomantak Ay. Maha. & Research Centre, Shiroda 3rd floor, Pinto Aparatment, Block B Oposite SBI, Vasco, Goa
103073	Prabhakaran Nithya	BAMS Goa Univ., Goa 2004	270 29/03/06	
103074	Prabhu Dessai Varur Gopal Krishna	BAMS Goa Univ., Goa 2003	228 06/06/05	B-S/4, Nupur Vastu, Opp. Old Survey Office, Borda, Margao Goa

103075	Prabhu Khope Reena Redhakant	BAMS Goa Univ., Goa 2003	229 06/06/05	?Damodar Sada? H.No.28, Cuncolin, Salcete, Goa
103076	Pradeep Dayanand Jelaulkar	BAMS Univ. of Poona, Pune 1975	193 08/06/04	Muridla, Cuncolin, Salcete, Goa/ Velim Salcete, Goa
103077	Railkar Sushant Babu	BAMS Goa Univ., Goa 2004	240 12/09/05	H.No.953/A, Welwada, Painglin, Canacona, Goa
103078	Rao Reshma	BAMS Goa Univ., Goa 2004	282 12/04/06	S 3/4, Riverview Residency St.Pawdro Ribandar, Goa
103079	Redkar Namrata Subhani	BAMS Goa Univ., Goa 2002	169 03/04/04	Opp.Dias Building Vadden, Vasco
103080	Redkar Bhagwan Bhiva	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1993	185 11/06/04	Paryam Sattari, Goa Post Sanquelin, Keri Bhaheeriwada, Sattari, Goa
103081	S.Sandhya Raveendran	BAMS Goa Univ., Goa 2004	273 29/03/06	Flat No. 1, Sinfreva Villa, Arneyawado, Tonca, Marceia, Goa
103082	Sadekar Sameer Dattaram	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1995	188 11/06/04	C/o BK Parab, Bandhwatwada, Pedne, Goa, Saraswati Dispensary, Near Bhagwati High School, Pedne, Goa
103083	Sadhala Varsha Vishwanath	BAMS Goa Univ., Goa 2003	212 23/02/05	Dattatray Niwas, Kapileshwari, Ponda Goa
103084	Sail Devdutt Mahabaleshwar	BAMS Goa Univ., Goa 2004	276 29/03/06	AF-1, Neel Tara Apartments, Behind RTO Arlem, Goa
103085	Sakhalkar Sapna Anand	BAMS Goa Univ., Goa 2004	287 25/05/06	MPT Nursing Quarters, Bldg No. 79, Room No.IV, II BAINA,
103086	Samant Anita Pancharinath	BAMS Univ. of Mumbai, Mumbai 1998	191 11/06/04	H.No.593/B, Pulwaddo, Benaulin, Salceta, Goa/AC.Pacheco Road, Ground Floor, Mahalsa Apartments, Margao
103087	Sangodkar Tirupiti Vinayek	BAMS Goa Univ., Goa 2003	230 06/06/05	H.No. 1024/Daswaddda, Socorro, Bardez, Goa
103088	Satan Balawant Prakash	BAMS Goa Univ., Goa 2004	272 29/03/06	Shiv Shakti Niwas, Shirgaon Tal Devged, Sindhudurg
103089	Sawant Bipin Vithal	BAMS Goa Univ., Goa 2004	277 29/03/06	H.No.W-9/14/B, SPG Temple Road, Khadapa Bandh, Ponda, Goa

103090	Sawant Priya Vithal	BAMS Goa Univ., Goa 2004	275 29/03/06	M 48, Housing Board Colony, Alto Porvorim, Goa
103091	Shet Punit Shivanand	BAMS Goa Univ., Goa 2004	274 29/03/06	HNo. 166, Parwadda Assonora, Bardez, Goa
103092	Shet Teja Shantaram	BAMS Goa Univ., Goa 2003	231 06/06/05	Samadhan Apts., B-4, 3rd Floor, Malbhat, Margao, Goa
103093	Shet Verenkar Roma Ramdas	BAMS Goa Univ., Goa 2002	176 13/04/04	Verenkar Appt., S-2, Near Kirti Hotel, Durgabhat, Ponda, Goa
103094	Sheth Pallavi Shantaram	BAMS Goa Univ., Goa 2003	232 06/06/05	Raghuvir? Opp. Godos Gift Khorlin, Mapura, Goa
103095	Silveira Serina Maria	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2004	244 28/11/05	HNo. 14, Tiwai, Waddo, Salmarina, Villa, Calangute, Bardez, Goa
103096	Singh Mukesh Kumar Ashok Kumar	BAMS Goa Univ., Goa 2003	238 12/09/05	F. No. 2 & 3, Sankekt Apt Plot No. 94, Green Lane, Sheroe Punjab Mahakali Cave Road, Mumbai
103097	Singh Nilesh Ashok Kumar	BAMS Goa Univ., Goa 2003	214 30/03/05	Sanket Appt, Plot No. 94, Flat 2 & 3 Green Lane, Mahakali Road, Shere Punjab, Andheri (E) Maharashtra
103098	T. Naveen Kumar	BAMS Goa Univ., Goa 2003	197 03/09/04	HNo. 1105, Ghotmord, Kakumudi, Curchoren, Goa
103099	Talewarnekar Diksha Dnyaneshwar	BAMS Goa Univ., Goa 2004	278 29/03/06	HNo. 111, H 3, Govind Nagar, Karaswada, Bardez Goa
103100	Tari Archana Satyapal	BAMS Goa Univ., Goa 2004	281 29/03/06	Housing Board, HNo. 353, Rumdamol, Margao, Goa
103101	Tryambak Vishnu Murgaonkar	BAMS Goa Univ., Goa 2004	263 29/03/06	HNo. 391, Khandiwada, Carambolin, Tiswadi, Goa
103102	Varlekar Pradnya Anand	BAMS Goa Univ., Goa 2002	174 06/04/04	Povasar Wodda, Molra, Bardez Goa
103103	Verenkar Virashree Vasudev	BAMS Goa Univ., Goa 2004	279 29/03/06	HNo. 679, Thana Cortalin, Goa
103104	Verlekar Mahesh Uttam	BAMS Goa Univ., 2002	178 13/04/04	Verle, Netravalin, Sohigum, Goa

103105	Vishal S.Desai Suresh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2003	205 17/01/05	56, Khaluli, Kirlapali, Tq. Sanguem, Goa, A/3, Super Market Complex, Ponda, Goa
103106	Volvolkar Sweta Pandurang	BAMS Goa Univ., Goa 2003	199 03/09/04	Chendrabhag, Opp. Water Tank, Atto Porvolum, Goa

P. R. SHARMA  
Registrar

### NEW DELHI 110058

17 JULY, 2008

No. 20-1/2008—CR (Andhra Pradesh) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Andhra Pradesh and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register upto March 2006, by inserting serial No. 103315 of Ayurveda and 10104 of Unani onwards after the existing last Serial No. 103805 of Ayurved and 10188 for Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Andhra Pradesh) from 1st April 2004 to 31<sup>st</sup> March 2006 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA  
Registrar



## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

ANDHRA PRADESH

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
103315	A. Anitha A. Subba Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21466 01/06/06	D No. 5-269, Muni Reddy Nagar M.R.Palle Rd, Tirupati, Chittoor Dist
103316	A. Gopi Krishna Umapathu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21721 22/01/07	Kothapally, Bhemderapally, Karimnagar
103317	A. Lavanya Devi A. Lilavathamma	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21705 19/01/07	C/o A. prajothi Kumar MDQ, Omk, Kurnool
103318	A. Nagaraju A. Venkata Ramana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1726 15/07/05	Plot No. 75, HCL Nagar, KL Reddy Nagar Mallapur, Hyderabad
103319	A. Pramoda Venkata Chary	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21658 05/01/07	H.No. 6-5696, Vidyannagar, Sircilla, Karimnagar
103320	A. Raghavendra A. Krishna Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21388 29/09/05	Gemdiganipalli, Gummagatta, Anantapur (Dist)
103321	A. Shashikanth A. Ramulu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21615 08/12/06	H.No. 8-6-171, Padavathi Colony, Mahabubnagar
103322	A. Srinivas A. Narayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21719 22/01/07	Kistampet, Veenavanka, Karimnagar
103323	A. Srisha A. Ramesh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21315 01/07/04	Sri Venkata Ramana Housing Colony, H.No. 43, Near M.G.H. City, Chirala, Prakasam
103324	A. Swaona Manjari A. Muni Rathnam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21664 08/01/07	H.No. 20/133, Konetipallyam, Punganur Chittoor
103325	A. Vamshidhar A. Baswaraj	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1649 18/10/04	H.No. 16-9-307/32/A New Shankar Nagar Old Malekpet, Hyderabad
103326	Abdul Kareem H H.M. Abdul Rahim	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21323 01/09/04	C/o G. Nizamuddin, JA Distt. Police Office Anantapur
103327	Adarsh Shrivastava Ramesh Chandra.S	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21462 24/04/06	H.No.3-4-313-319, B,Block 3rd Flr,Suryanarayan Apts, Lingampally, Kachiguda, Hyderabad

103328	Adilakshmi Vujji Kondala Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21366 22/03/05	H.No. Block No. 10Ct.No.82,Vyasnagar Near Manchiravu, Hyderabad
103329	Ajit Jagirdar Avinash Jagirdar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1750 10/10/05	H.No. 11-4-150/E, Rd. No. 3,S.V. Colony Saroomnagar, R.R.
103330	Akul Arvind Kumar A. Jalhind	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1798 10/01/06	H.No.18-7-607/1/B,HuppugudaRailway Station Road,Dhanavaninagar, Hyderabad
103331	Alibasha Dudekula D. Mowli Basha	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21344 04/01/05	Pedda Kottala (Po) Nandyal (M) Distt, Kumool
103332	Amanullah Sheriff Atauliah Sheriff	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1754 10/10/05	H.No. 3-6-102, Jan Mohd, Street, Mahaboonagar
103333	Amlreddy Radhika Reddy A. Ram Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1799 10/01/06	Plot No. 31, Flat No/408, Swagurtha Vengamamba,Hunda Cmpl, Kothapet, Saroomnagar, Hyderabad
103334	Amuluru Sunil Kumar A. Ankulalah	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 2001	21331 21/12/04	C/o Dr.A. Babu Rao, Praja Vidya Sala, North Rajupalam, Kondavajjuru(M) Nellore
103335	Anita Vinod Rao Veerachandar Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1717 28/06/05	H.No. 1-8-241/1, Library Lane, Balasamndram, Hanamkonda
103336	Annadata Sailaja Seshagiri Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	1865 03/01/05	H.No. 29-1410, Deendayal Nagar Neredimet Hyderabad
103337	Aparna Devi, P Panturi Sathaiiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1781 31/01/06	H.No. 11-27-87, C/O, Srinivas Nilayam Bank Colony-I Warangal
103338	Aparna Vithal Prasad Mishra Vithal Prasad Mishra	B.A.M.S Univ. of Poona, Pune 1993	1705 29/04/05	Plot No. 13, Chandragiri Colony R.K. Puram Hyderabad
103339	Appam. Anitha Kumari A. Gopal	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1787 31/01/06	H.No. C- 25, Goleti Township (Mn) Rebbana, Adilabad
103340	Aravind Kumar Hamilpur H. Subhash	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1773 14/12/05	H.No. 1-9-47, Mahankalinagar, Narayankhed, Distt Medak
103341	Aravinda Thalla Shankar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1686 03/01/05	C/o Aravinda Printers (Opp) MRP, Off) Metpally, Karimnagar
103342	Aruna K.M K.M. Sivananda	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	1658 17/11/04	C/o M. Brijesh H.No. MIG, II- 189, IX Phase KPFB Colony Hyderabad

103343	Anupati Mogili Posham	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1721 28/06/05	H.No. 18-191, Behind Andhra Bank, Thilak Nagar, Ramakrishnapur, Adilabad
103344	Ashmitha C C.S. Rao	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1645 09/09/04	H.No. S-B-64, Sachivayannagar Hyderabad
103345	Ashwani N B. Nagarajalah	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1629 07/07/04	H.No. 103, Sravyavilika Apts Behind Bluemoon Hotel, Begumpet, Hyderabad
103346	Asma Sultana Md. Sultna Mohiuddin	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21547 08/08/06	H.No. 16-B-702/71) B, New Malapet, Hyderabad
103347	Atal Kumar Gurram G. Rajashekar Goud	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1689 08/02/05	H.No. 2-10-239, Jyothinagar, Karninagar
103348	Avanch Shivaram Prasad A. Harischander	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21549 10/08/06	H.No. 19-3-39, Markandeya Colony, Godavari Khanl, Karimnagar
103349	Avula Sangita A. Krishna . Murthy	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1802 31/01/06	H.No. 10-3-282/2A37, Humayyunagar, Hyderabad
103350	Avula Saritha A. Butchi Reddy	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1806 31/01/06	H.No. 209, Vijaypuri Residency, Mother Teresa Collage, Annajuguda, Hyderabad
103351	Azhar Ahmed Md. Nazeer Ahmed Md	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1618 03/05/04	H.No. 1-10-87/4A, Shasabgutta Newtown (Behind ) Taj Function Hall Mahabubnagar Distt
103352	B. Asha Jyoti B. Rama Krishna Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21688 18/01/07	H.No. 61-25/4-11, Enadu Colony, R.L. Nagar Vijayawada
103353	B. Branthia Ramna Raju B. Venkata Ramana Raju	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21661 08/01/07	D. Nelatur, Chennampalla, Kadapa
103354	B. Jhansi B. Madhu Babu	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21511 21/07/06	Baskar Rao Pata, Santhoshoshapuram, Kalidindi, Krishna (Dist)
103355	B. Jhansi Rani B. Venkata Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21428 03/01/06	Rajniwas -1st Floor, Angwanwadi School, Guaur, Nellore Dist
103356	B. Krishana Chaitanya BSN Prasad	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21467 06/06/06	Medikondur, Dist Guntur
103357	B. Krishnaveni B. Prathakar	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21631 03/01/07	H.No. 7-2-123, Mantamma Thota, Karimnagar

103358	B. Laala Saraja Krishna B. Venkata Ramana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21701 19/01/07	H.No.21-99, Sanjay Nagar, Yellandu, Khammam
103359	B. Lakshmi Gayatri B. Raja Gopal Sama	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21884 18/01/07	F.F-3, Abhishek Apts, Ramalyam St, S.N.Puram, Vijayawada
103360	B. Leena Kezia B. Devadanam	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1643 23/08/04	Plot No. 69, Sri Colony Neredmet X. Road, Secunderabad
103361	B. Mantia B. Muralidhara	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21374 28/06/05	Fit No. 1/1 Many Annexa, Plt. No. 23, Rajendranagar, Visakhapatnam (Dist)
103362	B. Pavani B. Prabhakaj	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21704 19/01/07	H.No.25/54, Sanjeevanagar, Nandyal Kumool
103363	B. Raj Kumar B. Appa Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21896 18/01/07	H.No.12-3-191, Chinna Jalari Street Sompeta, Srikakulam
103364	B. Rajesh Kumar B. Venkatarathnam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21868 09/01/07	H.No. 4-12, L.B.S. Road, Piler, Chittoor
103365	B. Rajinikanth B. Rajarouli	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21487 13/07/06	H.No1-1-1310, Venkadri Nagar, Kazipet, Warangal
103366	B. Ramadevi B. Yekalavya	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1725 15/07/05	C/o M. Rana Rao plot No. 720, Vivakananda Nagar City, Kukatapilly, Hyderabad
103367	B. Ravi Kumar Reddy B. Laxman Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1652 16/10/04	H.No. 1-6-23/A Cili Lane, Narayanpet, Mahabubnagar
103368	B. Sandya Rani Ananda Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21500 19/07/06	Tumara, Ballipet, Vizianagaram
103369	B. Shilpa Rani B. Mohan Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1679 03/01/05	H.No.5-6-249, Kakateyanagari NGOS Colony Kamareddy, Nizamabad
103370	B. Sitarani B. Ramakrishna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21545 04/08/06	H.No. 18-79/1, Chandranagar, Gopalapatnam, Visakhapatnam
103371	B. Sravan Kumar B. Mohan Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2006	21486 12/07/06	H.No. 11-23-2344, Kalyani Nagar, Deshalpet Rd warangal
103372	B. Srinivas Venkataswamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1683 03/01/05	H.No.7-46, Market Road P.Kothapallay Karimnagar

103373	B. Swapna B. Sathya Narayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21663 08/01/07	Singanamala, Ananthapur
103374	Baddimela Gopinath B. Krishalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21431 04/01/06	D.No. 1-8015, Ranipet, Vankatagiri Town Dist, Nellore
103375	Bammidi Shivam Kumar B. Lahinna Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1626 02/07/05	C/o. Dr. J. Mahesh Babu, D. No. 11-171/26, R.No. 6, Telephone City, Saroornagar, Hyderabad
103376	Banangi Suhagini B. Jagannadha Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21689 18/01/07	Vallabha Roa Colony, Parvathipuram, Vizianagaram
103377	Bandi Maheswar B. Batallah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2000	1634 20/07/04	Raghavapur Siddipet Distt, Medak
103378	Banganu Varaprasad B. Krishna murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21555 18/08/06	Wadagudem, Mangapet, Warangal
103379	Basa Reena B. Rajeswara Roa	B.A.M.S Univ. of Mumbai, Mumbai 2003	1702 29/04/05	Apts, Room No.101, B-Block Street, No.08, Habisguda, Hyderabad
103380	Batchu Kranti Venkata Subbalah	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 2000	21363 18/05/05	North Rajupaleem, Kondavaluru Nellore (Distt)
103381	Battula Srujana B. Yadagiri	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1815 07/02/06	LIC, Of No.311, Ramnagar, Hanumakonda Distt, Warangal
103382	Beilam Nagi Reddy B. Ramasubba	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21728 07/02/07	H.No. 1-329, B.C. Colony Banaganpalli Kurmool
103383	Bheemanathi Venkata Sui Venkata Ramana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1715 28/06/05	Flat No. 203, Balaji Apts Bhalhanaga Clony, Kukatpally
103384	Bhimareddy Serikar Narasa Reddy	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 1998	1687 08/02/05	C/o Jaganneth Reddy Teacher Selapur Kohlr, Zaheerabad
103385	Bhimavarapu Keshava Bh. Krishna Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1766 29/10/05	Raj Towers, Flats No.105, D.K.Road Arneerpet, Hyderabad
103386	Bhoopathi . Avanthi B. Bhagawantha Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1805 31/01/06	H.No.8-50, G-2, Satyasal Nivas Apts. Garthamahal, Gaddaynam Disulchnagar, Hyderabad
103387	Bhita, Jayalaxmi B. Rajeskar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1689 03/01/05	H.No. 11-25-441, Kothavada, Warangal

103388	Bobba Mahesh Reddy B. Balakota Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1659 23/11/04	Plot No. 44, Seethapathay Colony West Maredpally, Secunderabad
103389	Bodakunta Ramesh B. Narayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1767 17/11/05	Nuaki Vankatapur, Dandyapally Distt, Adilabad
103390	Boddula Kishan B. Ramehandra	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1640 30/07/04	Flt. No. 401/B, Balaji Indrastha Gandhinagar, Mus
103391	Boddy Udayashankar B. Nageswara Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21387 19/09/05	SBI Street, Narayanapuram, Dachepalli, Guntur Dist
103392	Bodu Sucheta Jeevan Bodu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1742 20/09/05	H.NO. 24-7-102, Fatimanagar, Kaziplot Warangal
103393	C. M. Gopinath C. Muni Ratnam	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21546 08/08/06	Diguva Mathyam, Thananampalli Chittoor Dist
103394	C. Madhvi C. Venkatramna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21453 17/03/06	D.No. 9-115-6-B-1, Penchapadu Rd, Madanapalli Chittoor Dist
103395	C. Rajashekar Sri. C. Ravinder	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21586 20/08/06	H.No. 2-3-141/B. Near Old Petrol Bank, Narayanankhed, Medak
103396	C. Sriletha C. Suryanarayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1813 07/02/06	H.No. 1-1-475/3, Gandhunagar New Bolaram, Hyderabad
103397	CR. Satheesh Kumar C. Krishnappa	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21422 02/01/06	D.No. 4-54-2nd Floor Sunitha Nilayam Indira Nilayam, pillar, Chittoor
103398	Ch. Amrutha Valli Ch. Varada Charyulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21703 19/01/07	S-7, Manasa Apts, Motinagar, Sanathnagar Hyderabad
103399	Ch. Deepa Ch. Mahanadam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21833 05/01/07	H.No. 6-4, Post Office Road, Dubbak, Medak
103400	Ch. Ravi kiran Ch. Venkateswarlu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21510 21/07/06	H.No. 1-32-6, Vidhyadharapuram, Ramamandiram St, Vijayawada
103401	Ch. Vamsli krishna Ch. Ravinder	B.A.M.S SCSVM. Kancheepuram (Deemed Univ.) 2003	1696 15/04/05	H.No. 3-2-69, Gabhiraopet Karmilnagar
103402	Chandrasekhar A Bakkalah	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1753 10/10/05	Plot No. 1138 115, Vivekandanagar Colony, Narayanankhed, Medak

103403	Chinta Diya Rajasekhar Kumara Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21412 02/01/06	D.No. 4-121, SDA Church Strt, Lanbadipet Vijayawada
103404	Chittareddy Primaia Radhakrishna Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1786 31/01/06	H.No. 10-6-112/2, Burharpuram Near BK Nersek, Kharnam
103405	D. Aravind D. Ramesh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1775 31/01/06	H.NO. 5-8-920, Ashoknagar Colony Kamareddy, Distt Nizamabad.
103406	D. Bhagya Laxmi D.Lingalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21834 05/01/07	H.No. 11-57, Burdagudam, Mandamam, Mancherial, Adilabad
103407	D. Bhanuprakash D. Gangadhar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21435 09/01/06	D.No. 26/4/2504, Malapuram. Hindupur, Anantapur.
103408	D. Ravi Kumar D. Venkateswar Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21897 18/01/07	D.No.3-1-150,Kabela,Ramarajya Nagar Vijayawada
103409	D. Sai Balaji D.V. Ramana Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1693 27/03/05	H.No.1-5-280, Sanjeev Nagar Bhongir, Distt Nalgonda
103410	D. Sainath Narasimha Murthy	B.A.M.S Karnatak Univ, Dharwar 1996	1635 20/07/04	C/o D. Jayasimah 364A/ 365, Ashreya Home Apt Bandragiri Colony, Nerdinet, Hyderabad
103411	D. Sujatha Rejagopal Naidu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21880 18/01/07	Padiredlu, Vadamalepet (M) Chittoor
103412	D. Sunil Kumar D. Sharn Roa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1769 17/11/05	H.No. 1-1-23, Metpally Karimnagar
103413	D. Supraja Jayeramalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1730 15/07/05	G-6,Plot No.21, CSR Apts, Kothapet Hunda Complex , Saroomnagar , Hyderabad
103414	D. Tappa Ravichander Tappa Hanumathu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 1999	1771 14/12/05	Fiat No.504,Vijayasree Sal Apts,Chaitan yapuri Dilisukhnagar, Hyderabad
103415	D. Udaya Lakshmi D. Veeramallu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21836 05/01/07	Yernagunta, Chandragunda, Kharnam
103416	D. Usha Madhuri Satyanarayana Setty	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21378 30/05/05	H. No. 20/167A, Fort Nandyal , Kurnool (Dist)
103417	D. V.K. Bhaskara Rao D.Suri Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21335 22/12/04	Goveria Anakapalli, Thothead ( P ) Anakapalli, Vasakhapattam

103418	D. Vijaya Kumari D. Ramachandralah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1710 28/06/05	H.No. 7-3-59/1, Riceab Bazar Distt, Khammam
103419	Deepa Timba Chine Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21411 02/01/06	SVG Bank Manger, Rotary Nagar, Tekkali Srikakulam (Dist)
103420	Deevi Venkata Ramakrish D. Prajna Saradhi	B.A.M.S Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1997	21724 22/01/07	Vanukuru, Penamaluru, Vijayawada, krishna
103421	Dhumale Ashvani Kumar Digambar Rao Dhumale	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1628 07/07/04	H. No. 11-199, 47/C Aghapura Hyderabad
103422	Dinesh Thimpi K.A. Thampi	B.A.M.S Univ. of Kerala 1988	1638 27/07/04	C/o. Kameswari, H.No. 1/1/44, Mohan Nagar Colony, Kathapet, Hyderabad
103423	Dubasi Suvarna D. Buchimallu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1731 15/07/05	H.No. 1-8-702/51., Padama Nallakunta, Hyderabad
103424	Dungurothu Kumar D. Lal Singh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1821 07/02/06	Near mohan Theatre, Kesamudram, Distt, Warangal
103425	Durga Nagamalleswari G. Durga Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21368 22/06/05	C/o Satyanarayana, BFF9, Venkata Enclave, Ramcharitra Nagar, Vijayawada
103426	E. Bherathi E. Harah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21685 18/01/07	7-11-183/11, Ambedkar Nagar, Hanumkomda, Warangal
103427	E. Gayathri E. Suresh Kumar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1748 20/09/05	C/o Ramachandra Estate Cloth Merchant Narayanpet, Mahabubnagar
103428	E. Padmeja Damodar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21716 22/01/07	H.No. 16-3-694/1, Ekashilnagar, Ford Road, Warangal
103429	E. Paravathi Devi B. Ethiraj	B.A.M.S Dr. MGR. Med. Univ, Chennai 2000	21312 21/04/04	Alapakam (M&P), Nindra Chittoor
103430	E. R. Ajith Krishna E. Radha Krishna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21671 09/01/07	H.NO. 83/A.L.S. Nagar, Tirupati, Chittoor Dist
103431	E. Sucha Rani E. Mallesh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1789 31/01/06	H.NO. 1143, Spt DPV Colony, Manuguru Khammam
103432	E. Yamini E. Basli Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1622 22/06/04	H.NO. 7-4-53, Pedda Agraharam Gadwal- Mahabubnagar



103433	Edula Narendra Srinivas Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1632 20/07/05	Katikanpally, Dharmam Distt., Karnimnagar
103434	Eppakayala Sateesh Kun E. Shankarigam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1796 10/01/06	H.No. 10-10-30, Gimmajpet Distt Warangal
103435	Eswarappa ME Erappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21359 06/10/05	Gowdanakunta, Thamadepalli, Amarapuram Madakasira, Anantapur (Dist)
103436	G. Aruna G. Narayan Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21800 22/09/06	H.No. 2-80, Shernapally, Singaram, Makthal Narayanapet, Mahabubnagar
103437	G. Gayathri Venkatappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1762 15/10/05	H.No. 3-16-74, Subesh Road Narayanpet, Makthal Tq, Mahabubnagar
103438	G. Jhansi Rani G. Hanumanthu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21851 05/01/07	H.No. 3-168, Laxminarsimha Ciy, Shadanger, Mahabubnagar
103439	G. Keerthi Grace G. Mohan Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21891 18/01/07	D.No. 40. 1/1-2, Labbipet, Vijayawada
103440	G. Kranthi G. Ramulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21859 - 05/01/07	H.No. Newtown Ciy, Wanaparthy, Mahabubnagar
103441	G. Narasimha Reddy G. Ranga Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1761 15/10/05	Ujelly (Vili), Manganoor Mahabubnagar
103442	G. Pander Rangam G. Giddappa	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21683 18/01/07	H.No. 32/584-A, Madari Street, Kurnool
103443	G. Prema Latha G. Narsimulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1720 28/06/05	H.No. 5-3-91/913, Veldehinnagar, Colony Kannareddy, Nizamabad
103444	G. Saritha G. Chandralah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1777 31/01/06	Chalmanaguntapally, Wanaparthy Mahabubnagar
103445	G. Srinath G. Venkatnaidu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21474 20/06/06	Yadiki Tadipatri Anantapur
103446	G. Sudayasanath Raj G. Laxminarayana Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21713 22/01/07	Nagdhar, Kalher Medak
103447	G. Sushila Laxmanna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21638 05/01/07	Q. No. AE-49, Nagarjuna Sagar, Nalgonda

103448	G. Vasantha Kumar G. Krishna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1727 15/07/05	H.No. 4-5-17, Dhodpet, Naryanpet Mahabubnagar
103449	G. Venkateswarulu Mogili	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21702 19/01/07	H.NO.21-99, Sanjay Nagar, Yellandu, Khammam
103450	Gandham Neelima Gandham Sadashivudu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1660 23/11/04	H.No. 11-27-124, Kottawada, Warangal
103451	Gandla Manesh Kumar G. Krishnalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1782 31/01/06	H.No. 15-21- 150/3/3, New Balajinagar Kukatpally, Hyderabad
103452	Ganga Siva Prasad .K K. Thippe Swamy Setty	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1718 28/06/05	Plot. No.770, Valdehinagar Vanasthalipuram, Hyderabad
103453	Gangaraju Prasanna Laks G. Venkatarama Raju	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21401 30/12/05	H.No. 7/506-3, NGO'S Colony, Kadapa
103454	Gayathri Devi S.I.C.Swamy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21616 08/12/06	C/o Swamy Childem Hospital, Khaleewadi, Nizamabad
103455	Gedela Sangeeta G. Joseph	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 1999	21320 05/03/04	H.No. 50-50-23/1, Arundhathi, B.S. Layout Visakhapatnam
103456	Geeta Kanchan K. Babu Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1682 03/01/05	H.No. 4-115/A, Hussain Shanti Darga Golkonda, Hyderabad
103457	Golkonda Sunitha G. Narayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1816 07/02/06	H.NO. 25-6-270, Vidyanagar, Kazipet Distt, Warangal
103458	Gopala Krishna Pulakam Sudhakara Reddy.P	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	21348 10/02/05	Reddy Street, Bose Nagar, Chirala Distt, Prakasam
103459	Gopi Yellapu Y. Ramaappa Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21867 08/01/07	Gavarapalem. Shanthi Nagar, Anakapalli, Vizag
103460	Gotru Krishna Prasad G. Jagan Mohana Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21543 08/03/06	Tattivamu (V) Gudivada (M) Krishna
103461	Gottimukkula Kranti Kumar G. Uppalaih	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1668 03/01/05	H.NO. 11-22-425, Kashibuggi Warangal
103462	Gowli Anuradha G. Gopal Krishna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21442 08/02/06	D.No. 48-11/8-1, Curreneynagar Vijayawada

103463	Gudupeti Venkata Mohan Venkateswarlu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21418 02/01/06	C/o. Sri Raghuram Fertilizers, Mankapur Rd. Vinukonda] Guntur
103464	Gummadi Aruna Pullalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1757 10/10/05	Opp. MRO'S Office, Manuguru, Distt Khammam
103465	Guthina Harini G. Raghunath Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1667 03/01/05	Plot No.162/A, Sharavanagar Vanasthalipuram, Hyderabad
103466	Gutti Ranganath G. Sanjeeva Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21336 22/12/04	H.No. G, F2, Sai Towers, Ramavesapadu, Vijayawada
103467	H. Santosh H. Bandath	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1695 15/04/05	H.No. 1-1-1126, Singerbasse Narayanpet Mahabubnagar
103468	H. Sucharitha Bai Gopal Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21637 05/01/07	H.NO. 6-104/2, Damargidda, Narayanpet, Mahabubnagar
103469	Hafiz Abdul Lateef Sri . Sadi Miah	B.A.M.S S.V. Ay. Kalasala, Vijayawada 1974	21313 10/06/04	H.No. 36-207, Chittart Street, Kurnool
103470	Harisha Rani .M M. Kumara Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1819 07/02/06	H.No. 6-3-86, Imlipura St, HanumakondaSt, Dist , Warangal
103471	Haritha Naidu Dr. M. Jagan Mohan Rao	B.A.M.S SCSVM. Kancheepuram (Deemed Univ.) 2000	21327 17/11/04	Jhansi Nursing Home, Labbipet, Vijayawada
103472	Himabindu Chiluvuru Ch. Nageswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21351 22/02/05	Near Railway Station, Chiluvuru (P) Distt, Guntur
103473	Hinge Soujanya H. Manohar Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1673 03/01/05	H.No. 2-8-471, Sreenagar Colony, Wodepally Hanamakonda
103474	I. Haritha I. Ramabhadralah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21740 24/02/07	H.No. 2/388-1 Nehrunagar, Kadapa
103475	India Shushma I. Ramdas	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1671 03/01/05	H.No. 3-9-662, New Reddy Colony Hanamakonda, Warangal
103476	Indu Vucha V. Kondalaih	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21434 09/01/06	Near RTC, Depot, L.R. Palli Atmakur, Nellore
103477	J. Chandra Singh J. Tulsiya	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21849 05/01/07	Dubba Tanda chedurupally, Veldanda, Mahabubnagar

103478	J. Kavitha Sri. Malleshham	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21739 20/02/07	H.No. 3-3-282/3, Gayatri Nagar, Nizamabad
103479	J. Swapna J. Krishnalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1723 28/06/05	H.No. 1-9-328, PRK, Marston Flat No. 302, Vidyannagar, Hyderabad
103480	Jagadish P P. Naga Koteswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21692 18/01/07	Vijayalaxmi Timber Dept. G.T. Road Mangalagiri
103481	Jagan Mohan Reddy V. Narsi Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1784 31/01/06	Sarvastapur, Villi, Kduri (P) Makhtal (Mn) Mahaboobnagar
103482	Jagdish Kumar K.P M.P. Balakrishna Marar	B.A.M.S Univ. of Kerala 1983	1654 01/10/04	H.No. 1-7-81, Opp Telephone Exchange Mushheerabad, Secunderabad
103483	Jahnavi Br N. Raimakirshna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21343 04/01/05	D. No. 12-257, Redcross Extension, Mittoor, Distt, Chittoor
103484	Janardhan J J. Ajanevulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21424 02/01/06	146D, T.K. Street, Tirupathi
103485	Jannaramu Srinivas Narsalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1783 31/01/06	H.No. 6-113, Gattudenapally Manakondur, Karimnagar
103486	Javaji Aruna Devi J. Subbanaju Gupta	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21334 22/12/04	H.NO. 7-119, Nehru Street, Markapur Distt, Prakasam
103487	Jaya Laxmi Vennelaganti V. Sitaramanjaneya Sarma	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21341 04/01/05	H.NO. 12-1-92, Near Railway Over Bridge Perela Chirala Distt Prakasam
103488	Jayapal Reddy Ravula Linga Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21604 26/10/06	Vellampally, Parkal Distt. Warangal
103489	Jayasmitha Genta G.P. Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21352 22/02/05	H.No. 55-10-22, MMTC Colony, Visakhapatnam
103490	Jhansi Ponduri Kondamm	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21687 18/01/07	Annebolnapalle, Pedapavani, Prakasham
103491	Jyoti B Laxman Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1651 16/10/04	H.No. 1-6-23/A CHI Lane, Narayanpet, Mahaboobnagar
103492	Jyoti Patil Sharanappa Patil	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21403 31/12/05	Pit. No. 52, Dattatreya Colony, Asif Nagar Hyderabad

103493	K. Baslingappa K. Manikappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21455 27/03/06	H.No. 1-53, Rajintal, Zaheerabad, Medak
103494	K. Bhargav Nalsurtha Chary	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21478 03/02/06	H.No. 6-3-158/1, Opp. Aramghar, Shivarampally Rajendranagar, R.R. Dist
103495	K. Ch. Surya Narayana K. Ch. Hemantha Kumar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21652 05/01/07	Pit. No. 82, Narsimha Rao Nagar, Vanasthalipuram, Hyderabad
103496	K. Gopal Pathy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1812 07/02/06	Lingotam Thanda (VIII), Achampeta(m) Mahaboobnagar
103497	K. Jamuna K. Shanmuga Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21426 03/01/06	Mahasangam, Bangarupalem, Chittoor Dist
103498	K. Komuriah K. Balalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21711 22/01/07	Kunaram, Kalavasirampur, Karimnagar
103499	K. Kudikala Apama K. Anil	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21489 14/07/06	H.No. 11-29-213, Deshpote Road, Warangal
103500	K. Lavanya Yellappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1758 10/10/05	H.No. 1-6-38/C, Bharatnillayam Satyasaal Colony, Naryanpet
103501	K. Lavanya K. Ashok Surya Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21410 02/01/06	T-4, 3Rd, Floor Emerald Apts Raghman St, Revenue City, Mogapraipuram Vijayawada
103502	K. Narasimhulu Balappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1657 17/11/04	Kollur (Post) Litkur (m) Mahaboobnagar
103503	K. Rajeswari K. Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21430 04/01/06	H.No. 28/208, Jakir Hussain Nagar Satya Narayansapuram, Dist. Nellore
103504	K. Ranjith Babu K. Satyanarayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21644 05/01/07	H.No. 2-6-136, Market, Road, Karimnagar
103505	K. Ratna Sri Innalan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21710 20/01/07	D.No. 6-8-10, Pillavari Street, Gangannimpet, Tenali, Guntur
103506	K. Satish Kumar K. Ilaiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1800 31/01/06	H.No. 2-1-673, Nainnagar Hanumakonda Dist. Warangal
103507	K. Satyanarayana K. Pochanna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21497 19/07/06	Lingl. Talamedugu, Adilabad

103508	K. Shalindra K. Shiva Kumar	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21592 13/09/06	Pt. No. 58, Gandhi Nagar, Libra Enclave Bedangpet Kanchanbagh, Hyderabad
103509	K. Shesh Kumar Anantha Narayana Kumar	B.A.M.S. Bangalore Univ, Bangalore 1987	21314 19/06/04	H.No. 31/55, Jaya Prakash Road Newpet Kuppam, Chittoor
103510	K. Shobha Rani K. Sree. Ramulu	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1756 10/10/05	H.No. 5-1-55, Kondapur (VIII)
103511	K. Silpa Kumari K. Rama Krishniah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21677 18/01/07	D.No. 1/579-2, Nandyal Road, Tadipatri, Ananthapur (Dist)
103512	K. Sri Siva K. Adeyya	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21695 18/01/07	Near Power Station, Kothapeta East Godavari
103513	K. Sujana Sanjeeva Reddy	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2001	1625 15/06/04	H.No. 34, Unit B, State Bank Colony Saudabad, Hyderabad
103514	K. Sujatha K. Ravindar	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1621 22/05/04	Qt. No. 340- BDL - Township BDL - Bhanoor, Medak Dist
103515	K. Suresh K. Radha Krishniah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21860 07/01/07	Kadapur, Sullurupet, Nellore Dist
103516	K. Venkanna Malliah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1824 27/02/06	H.No. 2-92, Post Paskal, Distt, Warangal
103517	K. Vijay Kumari K. Vesuseva Chari	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21531 25/07/06	Gajulapalli, Tihavanampalli Chittoor Dist
103518	K. Vijaya Bhaskar K. Venateswarlu	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21469 13/06/06	D.No. 16-5-231, Kusumahara Street, Balaji Nagar, Old Guntur, Guntur
103519	K. Vijeetha K. Narayana	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21712 22/01/07	H.No. 1-1-750/11/A, Gandhi Nagar Hyderabad
103520	K.A.P. Kishore K. Seshagiri Roa	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21353 04/03/05	Sri Narehari Clinic, Rahuldar, Rayadung Distt, Anantapur
103521	K.S. Duttasharma Ganti G. Kalyan Sharma	B.A.M.S. SCSVM. Kancheepuram (Deemed Univ.) 2004	1636 27/07/04	H.No. B-4, Satya Sai Apt Kamalapur Colony, Jubilee Hills, Hyderabad
103522	K.V.R.S.S Ramgopal KVs. Prabhakaram	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1674 03/01/05	I-J-40, Erramanjili, Hyderabad

103523	Kadiri Prasad K. Thirupataiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2001	1714 28/06/05	H.No. 9-90, Sri Gayatri Colony Konda Ramalayam Valshali Nagar, Rangareddy
103524	Kahaja Khan M.D. M.D. Chan Khan	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1692 27/03/05	H.No. 1-5-280, Sanjeev Nagar Bhongir, Nalgonda Distt
103525	Kalaiger Abdul Kabeer K., Abdul Samad	B.A.M.S R.G.U.H. Science, Bangalore 2004	21495 18/07/06	H.No. 11-1-50, Bellary Road, Raydurg, Anantapur
103526	Kalapala Tina K. Mathews	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21504 19/07/06	H.No. 1-9-243/201, Ashirvada Apts, Raminagar Hyderabad
103527	Kamlepure Anand Nagu Sri K. Nagu Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21810 21/11/06	H.No. 100, Gandhi Nagar, Narayanpet, Mahabubnagar
103528	Kammu Pravathamma Muthalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1734 15/07/05	Uppalahad, Tekamalia Suryapet, Distt, Nalgonda
103529	Kanchi Kommulu Kranthi K. Anjaneyulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1794 31/01/06	H.No. 8-142, Damaracherla (VIII) Distt Nalgonda
103530	Karwa Poonam Gangabishanji Karwa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21806 14/11/06	Sweeti Enclave. 16-2-146/5/1C Fit No.203 Malakpet, Hyderabad
103531	Kasam Padma Kumari K. Bagath	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1811 31/01/06	H.No. 5-3-334, Vidyanagar City, Kamareddy, Distt, Nizamabad
103532	Kasarala Veerasomulu Geethalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1793 31/01/06	Karvula, Kothagudem Thungathunthy Distt. Nalgonda
103533	Kastoori Venkanna K. Raja Ram	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21473 20/06/06	H.No. 3-133, Chandupatia, Bhongir Nalgonda
103534	Kavitha .G G. Sidda Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21345 04/01/05	D. No. 1-1125-3-4 (Up Stairs) Adapala Street, Kadiri, Anantapur
103535	Kavitha Lehenna L. Venkatarajanya	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1706 29/04/05	H.No. 2-9-529-1st Floor, Srinagar City NGO'S City Road Hanumanakonda, Warangal
103536	Kilari Sreesam Yadav K. Jawahar Lal	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1619 03/05/04	C/o Dr. Ramenadram House Bapuji Rd. Madhira, Khammam Distt
103537	Kiran Balabhadru Sadanandan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21720 22/01/07	H.No. 1-7-212/1, Pragathi Nagar-I, Revenue City, Subesari, Hanumanakonda, Warangal

103538	Kiran Kumar Komrewar Bashethy K	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21459 19/04/06	D.No.9-103/1, Teacher's Colony, Adilabad
103539	Kishore Babu Rao Yellath	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21384 14/09/05	H.No. 8/176-2A, Prakashnagar, YM Paili, Kadapa (Dist)
103540	Kodiyala Sarath Babu K. Subbanachari	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21425 02/01/06	Duthulur, Nellore
103541	Konda Manjunath Kumar K. Rajashakar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21436 18/01/06	S.K.D. City 3rd, Adoni, Dist, Kumool
103542	Krishna Jijiya Bai D.B.K. Kumar Singh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21873 18/01/07	Penesgonda, West Godavari
103543	Kurakula Anitha Jyoti K. Ananda Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21380 13/07/05	H.No. 63, Govindarajanagar Qts, Thrupathi, Chittoor (Dist)
103544	Kusuma Kumari Anumala Chinnapulla Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21811 27/11/06	Rangapuram, Dhone, Kumool
103545	L. bhagya Laxmi L. Chanbeseliah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21854 05/01/07	H.No. 4-1-73, Mahankali Street, Narayanaipet, Mahabubnagar
103546	Lakshmi Soujanya Neelam N. Rama Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21433 08/01/06	MIG-II-84, PM Palem, Vasakhapatnam
103547	Lalitha Dokola Janaki Naidu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21338 22/12/04	D.No. 48-97, Velamapeta, Saluru Vizianagaram
103548	M. Chaitanya M. Bikshameiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21855 05/01/07	L.I.G. 41, A.P.B.H. City, Jadcherla, Mahabubnagar
103549	M. Chandra Mohan Rameshchandra Rao Misikin	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1688 08/02/05	H.No. 4-8-98, Market Road Narayanpet Mahabubnagar
103550	M. Deepak M. Gnaneshwar Goud	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21841 05/01/07	H.No. 3-1-131, North Market, Kachiguda, Hyderabad
103551	M. Geeta M. Anjaneyulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1733 15/07/05	H.No. 10-5-127/2, Tukaram, Gate North Aguda, Secunderabad
103552	M. Harika M.V. Appa Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1808 31/01/06	H.No. 1-9-837, Suppedari Postal City, Hanumakonda, Warangal



103553	M. Manohar Krishnaiah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21498 19/07/06	H.No. 1-3-470, Chaitanyanagar, Metpally, Karimnagar
103554	M. Naveen M. Bhaskar Rao	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	21358 18/04/05	Distt Dccational Officer, Opp To Arts College Kadapa
103555	M. Prathyusha M. Veeralah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21707 19/01/07	A.P.I.C. Colony, LIG-58, Autonagar, Vijayawada
103556	M. Pratima Uday Sri M.V. Udaya Bhaskar	B.A.M.S. Dr. MGR. Med. Univ, Chennai 2004	21397 21/12/05	H.No.14779, Venkateswara SLCTM Road, Madanapalle, Chittoor (Dist)
103557	M. Praveen Kumar M. Yadaiah	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1700 24/04/05	C/o, Dr. Padma, H.No.122-36/A/27, Zeba Bagh, Asig Nagar, Hyderabad
103558	M. Rajendra Prasad M. Rajasekhari	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21870 09/01/07	H.No.23/67, Near, Kanyakameswari Temple, Atmakur, Kumool
103559	M. Ravi Kumar M. Suryanarayana	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21708 20/01/07	D.NO. 8-18-200, Reddiveedhi, V.T. Agraharam, Vizianagaram
103560	M. Seshaleela Dr. M. Purnachandra Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2002	21328 10/11/04	D.No.12-18-15, Muppuri Setti Vari Street, Kothapet, Guntur
103561	M. Surekha M. Mahesh Kumar	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21647 05/01/07	H.No. 6-3-120/9, Premnagar City, Khairatabad Hyderabad
103562	M. Swarnalatha M. Panduraju	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21743 06/03/07	Kanapalli, Brahmanpalli, Piduguralla, Guntur
103563	M.K. Santhoshi M. Narsimha Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1790 31/01/06	Plot No.175, Krishna Nivas Vasavinegar (old), Khairathanna, Secunderabad
103564	M.R. Kavitha B. Venkateswara Rao	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21304 18/11/05	Hemmuram, Papladi Ananthapur (Dist)
103565	M.V.N.S. Lakshmi M. Yekambreswar Rao	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21472 19/06/06	H.No. 18-44, Rd. No.4, Sri Krishna Nagar City, Alesund Nagar, Hyderabad
103566	M.V.V. Sunil Kumar M. Jagannadham	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21324 30/10/04	H.NO. 18-10-99, New Indira Nagar, Near, SGS Arts College Thirupati Chittoor
103567	Madhavi Latha Gadam G.L. Lakshman	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21342 04/01/05	H.NO.18/1, Bonthalastreet, Nandyal Distt Kumool

103568	Madiga Erappa M. Narasappa	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21470 18/08/08	Kinahal, Atur, Halavali, Kumool
103569	Mahdulaatha Tirikovalikuri Rajendra Babu	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21414 02/01/08	D.No. 21-10/5, 58 E, Sai Nilayam, Teachers 3rd Lane Mutvelavada, Vijayawada
103570	Mahendra Kumar S. Narasimulu	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21853 05/01/07	H.No. 3-1-313, Nimballi Adda, Kachiguda Hyderabad
103571	Maheswari Subrahmanyam	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21881 18/01/07	Tada Kandring, Tada Nellore
103572	Maipal Reddy Mohan Reddy	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21802 07/10/06	C/o. Vijay Bhaskar Reddy, Phediliphat, Medkur Kodangal, Mahabubnagar
103573	Malik Tehsin Malik Ajiz Hussain.A	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 2003	1708 28/03/05	H.No. 16-703, FZB Near Shoeb Library New Malakpet Hyderabad
103574	Malilela Radha Krishna M. Anjaneyulu	B.A.M.S. Univ. of Mysore, Mysore 1999	21325 05/11/04	H.No. 9-3/288, Ambedkar Nagar, Urava Konda Anantapur
103575	Manimohan A. Sudarshan	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21823 21/12/06	H.No. 2-2-361, Amberpet, Hyderabad
103576	Meengu Suresh Kumar M. Ramchander	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1722 28/03/05	H.No. 2-7-801, Alipura, Subedari Hanamkonda, Warangal
103577	Meesa Latha M. Muralalath	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1803 31/01/06	H.No. 2-12-423, Vidya Nagar City, Hanuma Konda, Warangal
103578	Mettar Sheetal Naryan Kamble Umesh Kumar	B.A.M.S. Mumbai Univ, Mumbai 2002	21393 29/10/05	H.No. 12-8-331, Alugadda Bave, Secunderabad
103579	Mittapally Rajani M. Vishwanadham	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1716 28/03/05	H.No. 3-9-91/1, Reddy Colony Adarsh Nagar, Hanamkonda, Warangal
103580	Moka Suresh Kumar M. Lakshminarayana	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1735 15/07/05	H.No. 3-3-172, Opp. Shivanand Hospital Savaran Street, Karimnagar
103581	Munjige Balakrishna Sri. Bhoomalath	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1768 17/10/05	Venkatapur (Po), Ellareddy (MD) Karimnagar
103582	Murusupally Ramana Rao M. Narasimha Rao	B.A.M.S. Delhi Univ, Delhi 1979	21395 05/12/05	H.No. 2-2-647/274, Srinivasnagar Bahghamberpet, Hyderabad Krishna (Dist)

103583	Mylayani Lavanya M. Cheralu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1817 07/02/06	H.No. 5-2-176, New Kaffur, Hanumakonda Distt, Warangal
103584	N. Anand Kumar R. Narayan Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1751 10/10/05	H.No. 4-11-22, Linewada Narayanpet Makdal, Mahaboobnagar
103585	N. Arun Kumar N. Bhaktavasalam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1685 03/01/05	H.No. 4-2-176, Kothur, Hanumakonda Warangal
103586	N. Eswari N. Nageswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21367 22/06/05	Lic. Development Officer, Ammavarpadu, Ongle, Prakasam
103587	N. Pavan Kumar S. Gangadhar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21499 19/07/06	H.No. 2-2-216, Weekly Bazar, Jagtlal, Karimnagar
103588	N. Payani N. Arjuna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21635 05/01/07	H.No. 20-4, Subhash Nagar, Yellandu, Khammam
103589	N. Sathya Narayana N. Bheemalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21856 05/01/07	Rukampally, Newabpet, Mahaboobnagar
103590	N. Sreedhya N. Shekaram	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21672 09/01/07	Pit.No. 181.S.S. Colony, Hydernagar Kukatpally, Hyderabad
103591	N. Sri Lakshmi N. Siva Shankara Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21744 07/03/07	Roual Brilliant, High School Behind, S.B.D.
103592	N. Sujatha N. Rambabu Goud	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1732 15/07/05	Ibrahimpattam, Krishna H.No. 6-7-4, Bhuktapur Street Adilabad
103593	N. Vijay Kumari N. Kumara Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1745 20/09/05	H. NO. 4-10-53, Kurnatapally, Hanumakonda, Warangal
103594	Nagaraju Sampathi Rao Gavarraju	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21365 22/06/05	Sattarunpet, Dthpuram (Po) Polako (MD) Srikakulam Distt
103595	Naidu Geeta Narayan N. Narayan Subramany	B.A.M.S Karnatak Univ, Dharwar 1989	1641 10/08/04	H.No. 12-10- 167&168, Uma Apts Seetha Phalimandi, Secunderabad
103596	Nalla Mythili Yadagi	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1818 07/02/06	Subedar Cty, Hanamkonda, Distt, Warangal
103597	Nanda Kumar K. Krishnalah Naidu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21318 28/07/04	Sangam (Post & Mn) Nellore

103598	Nanmela Geetha Nata Raj	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21339 03/01/05	H.NO. 6-2-3, Rao Var Street, Naidupet Dist, Nellore
103599	Narender Reddy R. Bhoppal Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1738 15/07/05	Flt. No. 301, Sri Balaji Nivas Apts. Sri Venkateswara City Rd. No. 12, Saroomagar, Hyderabad
103600	Natuva Vani Madhavi N. Venkatalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1639 30/07/04	Plt. No. 47, Padmavathi Colony, Ramgiri Nalgonda. R.R. (Dist)
103601	Navadoori Kalyani Sandhya N. Chalapati Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21337 22/12/04	Plot. No. 304, Vijayelaxmi Apts, Muralinagar Visakhapatnam
103602	Nishita Adapa Pydiraju	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21369 22/06/05	D. No. 16-8-18/19, Flt No. 12, Peenicer Paradise Official City, 3rd Lane, Mahesimipet, Visakhapatnam
103603	Nitesh Patil Muralidhar Rao Patil	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 2000	1707 25/06/05	Abbanda, Narayankhed Medak
103604	P. Chandrakanth P. Nagalah	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1764 28/10/05	Jalapuri (Vill), Narayanpet, Mahaboobnagar
103605	P. Chandrasekhar P. Vijayamma	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1736 15/07/05	H.No. 9-90, Sri Gayatri Colony Konda Ramalayam Valshalinagar, R.R.
103606	P. Damodar P. Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2007	21832 03/01/07	H.No. 11-283, Sanjay Gandhi Nagar, Shapurinagar IDA, Jeedipet, R.R. Dist
103607	P. Ganga Bhavani P. Sarithosham	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21876 18/01/07	S.A.P.S. Jr. College, Gorantla, Ananthapur (Dist)
103608	P. Gangulalah P. Chinna Subbalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21874 18/01/07	Vepamanupeta, Talupula, Ananthapur
103609	P. Hari Krishan Bugganna	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21828 27/12/06	H.NO. 6-8-46, Gandhi Nagar, Tandur. R.R. Dist
103610	P. Jahnsi Lakshmi PPN. Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21370 23/06/05	Divisional Engineer, APEPDCL, Korpa Guranna Bldgs, Siddharthanagar, Vizianagaram
103611	P. Praveen Kumar P. Venkat Ramulu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1644 23/06/04	H.No. 6-100, Srinivas Colony Mahaboobnagar
103612	P. Radha P. Venugopal Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21360 21/04/05	D.No. 26-3-1633, 5th Street, Chandramoulinagar, Nellore

103613	P. Ramakrishna Reddy P. Narsimha Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1663 04/12/04	R/o Eligandla (VIII) Marikati, Distt, Mahaboobnagar
103614	P. Ranjit Kumar P. Lakshmaiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21846 05/01/07	H.No. 2-4-102, Aam Bazar, Yellandu, Khammam
103615	P. Sai Reddy P. Kista Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1623 22/05/04	Antwar Doulatabad (Mn) Distt Mahaboobnagar
103616	P. Sampath Kumar P. Bhadrachari	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21857 05/01/07	Plt.No. 19D, R.D.L. City, Hashtinapuram Hyderabad
103617	P. Swapna P. Muneswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21839 05/01/07	Relangi, Penumantra West Godavari
103618	P. Veena P. Chandrashekar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1755 10/10/05	B- 1469, NGO'S Colony, Vanasthalipuram Hyderabad
103619	P. Veera Swarupa Sri. P. Veera Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21862 08/01/07	H.No. 11/166, Ramalayam Street, Chennur, Kadapa
103620	P. Vijaya P. Raji Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1744 20/09/05	H.NO. 2-9-156/1, Vikasnagar Hanumakonda, Warangal
103621	Padma Rao Refana Venkatesra Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21432 04/01/06	H.No. 41.41.28-60, Krishna Lanka, Vijayawada, Krishna Dist
103622	Palani Muthappa M. Velayudham Reddy	B.A.M.S SCSV, Kancheepuram (Deemed Univ.) 2003,	21354 07/03/05	Saravana Clinic, Varadaish Palem, Distt, Chittoor
103623	Palati Sudha L.M. Palati	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21465 15/01/06	C/o. Lingalah, Kothakotla, Distt Mahaboobnagar
103624	Pandrala Haritha P. Uma Sahankar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1820 07/02/06	H.No. 2-10-556, Teacher'S City, Subedar City/Hanamkonda, Warangal
103625	Panithi Rajasekhar P. Sangeeta Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21382 08/08/05	D.No. 9-230, Piduguralla Guntur Dist
103626	Paramkusam S. Leharava P. Satyanarayana Charyulu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1703 29/04/05	C/o Dr.N.Seshacharyulu, Plot. No. 5-A, Jayapriyanivas Apts,Behind ESI Hospital Bebanagar,Nacharam,Hyderabad
103627	Pasupuleti Raju P. Purushotham	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21866 08/01/07	Kanchanapalli, Thothambedu Chittoor

103628	Patan Salim Khan Hakim Khan	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21328 14/12/04	C/o Muall Khan (Advocate) Viswandhapuram X: Podili (P & M) Prakasham
103629	Patil Santosh Kumar Dattatraya Rao Patil	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1763 26/10/05	H.No. 4-11, Shamsadpur Nellayal, Voddi Narayankhed, Medak
103630	Patnam Ravi Kumar Venkata Ramulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1719 28/06/05	H.No. 1-3-79-1/2A, Sunkulamma Met Gadwal Distt. Mahabubnagar
103631	Pavan kumar Paran Kusa Rama krishna Param Kusam	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21447 24/02/06	Plt.No.5-A, Janapriya Niva Apts, Behind ESI Hospital, Babnagar, Nacharam, Hyderabad
103632	Perala Swapna P. Venkateswara Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1774 31/01/06	Huzurabad, Vidyanagar Distt Karimnagar
103633	Pinroji Santosh Kumar P. Jeevan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1739 15/07/05	H.No.2-11-11, Shivaji Road, Kamareddy Nizamabad
103634	Polepalli Mallikarjuna Rao P. Sambesindu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21413 02/01/06	KS.Palli, Giddalur, Prakasam (Dist)
103635	Poonam Vinod Kumar	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21727 29/01/07	H.No. 19-5-82/1/8C, Nandl Musalguda, Kishan Bagh, Hyderabad
103636	Pothi Reddy Mamilla M. Venkatesu Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1699 24/04/05	H.No.9-90, Sri Gayathri Colony Kondanda Ramlayam, Valsalinaga, R.R.
103637	Potu Mohan P. Darshanam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1795 31/01/06	H.No. 19-9-42, Rangasaipeet, Distt Warangal
103638	Prabhakar Paramboure P. Kishan	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1691 05/03/05	H.No. 5-1-1/4/1, Srinivas Nilayam Sahntinagar, Sangarreddy, Medak
103639	Prameela V. Krishna murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21512 21/07/06	H.No. 10-6-17/5, Gayatri Bavan Road Khammam
103640	Prasad Pentakota P.V. Appa Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21814 07/12/06	C/o. S.Simha Chalam, V.J.Naidu Street, Gavarpalem, Anakapalli, Vizag
103641	Prasanna Bollipogu B. Prakash Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21408 02/01/06	D.No. 36-7-15/D. Nehru Nagar, Woodpet Vijayawada
103642	Prashanath Kumar Goda Venkatesham Goda	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21460 21/04/06	Opp.Bus Stand Shankarampet Medak

103643	Prathasaradhi Kolla K. Narayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21340 04/01/05	H.No. 3-7-19, Rajagopalapuram Nayudupeyt, Distt, Nellore
103644	Praveen Kumar Atmakuru A. Nageswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21377 29/06/05	D.No. 3/260, Near Govt Junior College Atmakuru, Nellore Dist
103645	Prem Kumar Jenna Gunanidhi Jenna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21372 24/06/05	Manikyapuram (Vill) Srikakulam (Dist)
103646	Prema Kumar K K. Appanna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21420 02/01/06	BP Cly, Kanchili Somet R.S. Srikakulam
103647	Pujari Vijayalakshmi P. Naryana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1709 28/06/05	H.No. 480/2, Railway Qnts, Chilkalguda, Secunderbad
103648	Pushkala Anikode Raman A.N. Raman	B.A.M.S Dr. MGR. Med. Univ, Chennai 2004	21452 13/03/06	D.No. 5/A, Jana PriyaNivas Apts, Behind ESI Hospital, Babnagar]
103649	Pusupula Menaka Dr. P. Venkat Ramulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1804 31/01/06	Nacharam] Hyderabad H.No. 6-100, Srinivas. Cly, Mahaboobnagar
103650	Putakala Sankaralah P. Kondappa	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21376 29/06/05	D.No. 4-43, Yengilboonda (Vill) Gooty(MN) Anantapur
103651	R. Chandra Sekhar R. Kannam Naidu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21373 24/06/05	Govadaguram Panchayath, Chodavaram (MD) Visakhapatnam (Dist)
103652	R. Kalyani Veena Choudary G. Ramgopal Choudary	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21441 07/02/06	C/o. Sri Mohan photo Studio, SVBP Rd, Medak (Dist)
103653	R. Kranthi Rekha R. Mallalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21709 20/01/07	H.No. 12-10-587/15/1, Seethaphalmandi Secunderabad
103654	R. Prebhakar R. Meenalal	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21842 05/01/07	H.No. 3-1-131, Mothi Market, Kachiguda, Hyderabad
103655	R. Subhashini R. Nageseera Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21379 01/07/05	H.No. 5-5 321C Upstair Naidu Bld, SD Layout Triupathi, Chittoor (Dist)
103656	R. Sujatha R. Chinna Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21899 19/01/07	Godixharla, Nakkapalli, Vizag
103657	R. Susmita Sagar R. Vidyasagar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1656 01/10/04	H.No. 2-5-100, Ananhanagar Sircilla, Karimnagar

103688	S. Jyothsna S. Parameshwaraih	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21715 22/01/07	H.No. 3-116, Gopalpuram, Hanamkonda Warangal
103689	S. Mamatha S. Koteswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21503 19/07/06	Pit. No. 608, E.C. Nagar, Chertlapally, Hyderabad
103690	S. Manjula K. V. GreenVasa Murthy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21349 04/02/05	Sri Baleji Clinic, Main Road, Seva Mandri Kodigena Halli Hindupur Anantapur
103691	S. Nagehs Gupta S.B. Ramaligaiah	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21356 14/03/05	D.No. 17/88 Main Bazar, SBR. Ayur. Med Shop, Dharmavaram, Distt. Anantapur
103692	S. Srinivas Rao S. Ram Naidu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21451 07/03/06	Pulichala Street, Rajam Sricakulam Dist
103693	Sallaja B. Ramalingam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1776 31/01/06	H.No. B-593, NGO'S Colony S/4(6-3-593) Vanasthalipuram, Hyderabad
103694	Sajeeda Begum S. Masoom Ali	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1792 31/01/06	Fiat No. 205, Pit. No. 168, Brindawan Area Motinagar, Erragudda, Hyderabad
103695	Sanala Srujana S. Suryaprakash	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1807 31/01/06	Plot No. 31, ElnS, No. II, MCH City, Parsigutta, Hyderabad
103696	Sandrani Appala Raju S. Pentayya	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2006	21613 5/12/16	D.No. 32-2-70, Nathayyapalem, B. H.P. V. Post, Vishakapatnam
103697	Sangeetha Sharma S. Arun Sharma	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21706 19/01/07	H.No. 4-20, Bantapally, Jannaram, Medak
103698	Sangineni Vani S. Ilalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1814 07/02/06	H.No. 14-21, Hasanparthy, Distt. Warangal
103699	Sanjeev Kumar Jyoteppa Appa Rao Jyoteppa	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 2000	1653 16/10/04	Flt. No. 412, Seetaramaiah Towers, Shastrynagar Boardanda, Hyderabad
103700	Santosh Kumar A. Hanmalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1822 07/02/06	Damaluta Distt, Nizamabad
103701	Sarfraz Nawaz WM N.M. Abdul Majeed	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21347 24/01/05	H.NO. Type III B3 OFC/BSNL Qt., Opp Netaji Theatre, Kumool
103702	Sarifah Akarapu Sheshama Chary	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1684 03/01/05	Rajula Kothapally, Nellikodur Warangal



103658	R. Venkateswarlu R. Madhusudan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1728 15/07/05	H.No. 3-112/1, Srinagar Colony Ramnathpur, Hyderabad
103659	R. Yamini B. Rajendran	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21571 22/08/06	D.No. 4-1550(A) Upstair's Rajiv Gandhi Road, Greamipet, Chittoor
103660	RT Lakshmi Kumari R. Malakondala	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21409 02/01/06	Near TRR Govt College, Krishnanagar, Konduku kr, Prakasam (Dist)
103661	Radha Kumari Chinni S. Mallappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21392 25/10/05	D.No. 1-153, Bellary Road, Rayadurg Ananthapur (Dist)
103662	Raghal M. Mahendra Singh Bhupendra G. Bhadhari	B.A.M.S Gujarat Ay. Univ, Jamnagar 1989	1747 20/09/05	G-3, Harish Apts. officer Colony Ramakrishan Puram, Sec- Bad
103663	Raghavendracharyulu A. Adiseshalah	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21386 16/09/05	Peapully, Gudipadu Kurnool (Dist)
103664	Raja Ravi Kiran MCS MVP. Krishnamacharyulu	B.A.M.S Dr. MGR. Med. Univ, Chennai 2000	1765 27/10/05	Gokalenagar, D.No. 3-10-102/1/A Ramant Pur, Hyderabad
103665	Rajasekhara Babu Swarana Rameshwara Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21390 06/10/05	Pndra, Bantimilli, Krishna (Dist)
103666	Rajeswar Reddy Pulgar Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21438 03/02/06	Garlapahad (P) Kolkonda (M) Dist, Mahabubnagar
103667	Rakesh Kumar K K. Govindappa	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1662 04/12/04	H.No. 10-6, Pathapet Uttkur(P) & (m) Mahabubnagar
103668	Rama Bhavani Ramashanker Lingam	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1670 03/01/05	H.NO. 10-10-169, Ramavari Veedi Gimajipet, Warangal
103669	Rama krishna A.P. Subba Rayudu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21718 22/01/07	H.NO.6/791,Namate Board Colony, Sankarapuram, Kadapa
103670	Ramagiri Navakanth R.V. Ramnarasala	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21364 22/05/05	H.No.G-4,Nanda Towers, Pithalalah Street Labbipet, Vijayawada, Krishna (Dist)
103671	Ramakrishna Reddy Akk A. Narasimha Reddy	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1759 15/10/05	H.No.1-6-11/25/B4, Baraveewarachowle Narayanked, Medak
103672	Rambabu K K.Jali Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21693 18/01/07	H.No 6-167, Aruna Nagar Singaraya Konda, Prakasham

103673	Rambhakta Lakshmisudha R. Srinivas	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21439 06/02/06	C/o. R. Lakshman Rao, D.No. 10-38-4, Ramnagar Visakhapatnam H.No. 32-2-138, M.G. Road Koratla Karimnagar
103674	Ratnakar Mittapelli M. Shankar	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1680 03/01/05	
103675	Ravi Kumar S. Ramulu	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21488 13/07/06	H.No. 104, Shourya Avenue, Road 5, Alkapuri Kothapet, Hyderabad
103676	Ravi Kumar Beejapur Chenchalali	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21371 24/06/05	Chinna Bazar lalapet, D. No. 18-11-46, Guntur Dist
103677	Ravi Minnapuram M. Komuralah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1743 20/09/05	Jadapet, Chittyal (M) Warangal
103678	Reddi Pulla Rao R. Venkata Krishna Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21643 05/01/07	China Koru Kondi Kallor, Khammam
103679	Reddy Shetty Mahesh Kumar R. Chandralah	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1752 10/10/05	H.No. 3-1-69/D, Big, Bazar, Dist, Medak
103680	Renuka Diwakar Joshi Diwakar Dattatreya Joshi	B.A.M.S. Univ. Of Mumbai, Mumbai 2004	21669 09/01/07	H.No. 6-60, Sri Sai Ram Nilayam, Madhurapuri Shiridi Nagar, Aimarguda, Hyderabad
103681	Roshni Manoharrao Bhandekar M. Bhandekar	B.A.M.S. Nagpur Univ., Nagpur 2000	21629 28/12/06	H.NO. 6-8-46, Gandhi Nagar, Tandur, R.R. Dist
103682	Rudrama Devi K. Bali Reddy	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21717 22/01/07	H.No. 7/370, (Up Stair) Mochampet, Kadapa
103683	S. Archana S. Kirshnama Naidu	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	1661 23/11/04	H.No. 11-27/124, Kottawada Warangal
103684	S. Balakrishana S. Balalah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21485 12/07/06	H.No. 5-5-201, Vivekananda City, Kamareddy Nizamabad
103685	S. Begum Surayya Abdul Khadir	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21686 18/01/07	H.No. 48-9-12, Vishnu Nagar, Gunadala, Vijayawada
103686	S. Brahman Kumar Balasarayana	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21423 02/01/06	LIC Officer, Rayachoti, Kadapa
103687	S. Jayaprada Sathyanarayana	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1760 15/10/05	H.No. 7-1-617/H/2, Amserpet Hyderabad

103703	Saroj Ranjakrishnan Viswandi	B.A.M.S Nagpur Univ, Nagpur 2005	1741 20/07/05	Flat No.102, Prashanti Heights Prashant Nagar City A.S. Rao, Nagar, Sec-bad
103704	Saritha Avala A. Neeraja	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21454 23/03/06	H.No. Near Ramnagar (P) Pirala, Chirala
103705	Satyadeepa A. Gandhi GBH Rao	B.A.M.S Goa Univ, Goa 2000	1746 20/09/05	H.No. 3-6-187, Beside Ageasweets West Marrepally, Sec-bad
103706	Satyala Mrudula S.V. Narsingh Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1791 31/01/06	H.NO. 5-231, Deepthireenagar Chandraya (P), Hyderabad
103707	Savitha Holla Vasudeva Holla	B.A.M.S Karnataka Univ, Dharwar 2003	1697 15/04/05	H.No. 4, Block No.6 Suchitra, Medical Road, Secunderabad
103708	Sekurala Sridevi T. Balakishan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2002	1637 27/07/04	H.No.4-96, NGO S Colony Kamareddy, Nizamabad
103709	Shailaja Koosuru Prabhakar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21437 21/01/06	H. No. 1-7-653, Shantinagar Hanamkonda, Warangal
103710	Shailendar Kumar Dixit Laxminarayani Dixit	B.A.M.S Amravati Univ, Amravati 1989	1704 29/04/05	Plot No. 13, Chandragiri Colony, RK Puram Secunderbad
103711	Shirisha Devi Sandamala S. Varaprasad	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21427 03/01/06	H.No. 26-1-103, Gyathrinagar Nellore Dist
103712	Shirisha Kodamasimham K. Krishnamachary	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1677 03/01/05	H.No.2-7-436, Srisudhamam Exct City Subedari, Hanumakonda, Warangal
103713	Shiva Shankar Tammall T. Ramalah	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	1772 14/12/05	H.No. 12-92, Srivesnagar Ramchandrapuram Distt, Madak
103714	Shree Kishari Bhatnagar Dr. A.K. Bhatnagar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	1664 17/12/04	14-1-313, Bholguda, Kaman, Mangalhat Road, Hyderabad
103715	Shruti S. Baheti Satyanarayan	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1797 10/01/06	H.NO. 5-3-236/1, Goshamahall, Hyderabad
103716	Sifisha Avula A.V. Rao	B.A.M.S Dr. R. S. Sankula Univ, Raipur 2002	21566 19/08/06	Flt. No.204, Hoyasala Towers, P.S. City, Ganesh Nagar, Ramanthapur, Hyderabad
103717	Sireesha Utharavalli Suva Prakash	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21419 02/01/06	Dr. U.S. Prakash, Sreemuru Clinic, Penduthy Visakhapatnam

103718	Siriginathima Madhavi SMK. Mohan Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21416 02/01/06	D.No. 20/A-13-26, Subbavarapu Varl St, Gandhinagar, Eluru
103719	Sirisha Kasturi K. Krishna Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21357 4/1/05	C/o Sri Marketing Services, H. No. 29-37/149, Near Rama Mandir, Eluru Road, Vijayawada
103720	Sirisha Mallavarapu Sesha Sai	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21407 02/01/06	C/o Dr. KVS Sai Prasad, Behind Gopal Krishna Talkies, D. No. 7-371, Mangalagiri, Guntur
103721	Sirpercam Sunitha S. Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2002	1620 03/05/04	H.No. 29-1380/A 2 Deendayal Nagar Neredmet
103722	Sivanagesh Damera Pandurranga Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21385 16/08/05	H.No. 16-05-1 piduguralla Guntur Dist
103723	Sivarama Kirshna Samala S. Lakshmana Babu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21597 18/09/06	Jivaka Nagar, Angalakuduru Tenali, Guntur
103724	Snitah D D. Mohan Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21417 02/01/06	Plt. 67 PNT cly, VMC Rengunta Rd, Tirupathi, Chittoor (Dist)
103725	Sree Datta D. D.V. Raman Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21458 12/04/06	D.No. 2-428-235, Balaji Complex, Nandyal, Kumool
103726	Sreedhar Reddy Gutta G. Linga Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1678 03/01/05	H.No. 6-3-613, Gandhinagar Ramagiri Nalgonda
103727	Sri Lakshmi Bai S. Venkalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21440 08/02/06	C/o. Ramisetty, Venkata Subba Rao, Rangthota Sivaiyain, Ongle, Prakasam (Dist)
103728	Sri Lakshmi Penugonda Surya Chandra Rao.P	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2005	21675 18/01/07	Surya Chakra Hospital, Opp. Panchayat Office, Ungutur, Tadepalligudem, West Godavari
103729	Srinivas Boddula Rayamitu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1810 31/01/06	H.No. 1-62, Seethampally (Vill) Kammampally (p), Karimnagar
103730	Srinivasa Rao. T T. Sitranna Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21346 04/01/05	H.No. C/39, Podalada, Razole (TQ) East Distt, Godavari
103731	Srivalli A. Babu Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21736 20/02/07	H.No. 40-294/3, East Jawahar Nagar, Moula-Ali H.B. Colony, Hyderabad
103732	Srividya G Govind Muralidhar Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1778 31/01/06	H.No. 94/C, LIGH Old Santoshnagar Colony, Hyderabad

103733	Sudha Kumari K.G. C. Ashwinchandra	B.A.M.S. Univ. of Kerala 1999	1770 14/12/05	H.No. 29-1549/90, Kakathiya Nagar Neredmet, Secunderabad
103734	Sudheer Koturi K Rama Koteswara Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21333 22/12/04	H.No. 12-9-2/25, Prakashnagar, Narsarawpet Distt, Guntur
103735	Sugali Ramamurthy Naik Chakri Naik	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1631 20/07/05	C/O.S. Srinivas Reddy Katakinaipally Dharaniram, Distt. Kaminagar
103736	Sujatha Gunde G. Narsalah	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1809 31/01/06	Nekkina, Distt, Warangal
103737	Sumana Mounika S. Bhaskar	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1785 31/01/06	H.No. 2-7-372., Excise Colony, Hanumakonda Wamagal
103738	Sunku Gowi Sankar S. Radha Krishana	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21383 12/09/05	C/o Sunku DentalCare, H.No. 18/713, Near Venkateswara Talkies, Anantapur
103739	Suryakant Prakash	B.A.M.S. Gulbarga Univ, Gulbarga 1999	21404 31/12/05	Plt. No.52, Dattatreya Colony, Asif Nagar Hyderabad
103740	Swapna Ganji G. Ramdas	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1724 15/07/05	Rajayogi Textiles, Chiryal, Main Road Distt, Nalgonda
103741	Swargam Jayaprada Sadanandam	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1672 03/01/05	Mallampally (Adavi) Mullanger, Warangal
103742	Swati Ramchandra Borkar Prof. Ramchandra Borkar	B.A.M.S. Amravati Univ, Amravati 1997	21464 28/04/06	H.No. 265, CT Phase II Janapriya Nagar, Miyapur, Hyderabad
103743	Syed Nisar M.D. Badesab. M.D.	B.A.M.S. R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21446 20/02/06	JP Clinic, Amarchinta (P) Atmakur Mahaboobnagar
103744	T. Annapurna T. Ashok Kumar	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1681 03/01/05	H.No. 3-43, Perikawad, Akkenapalli Nangunur, Distt, Medak
103745	T. Durga Bhavani T.V. Ramana Rao	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21682 18/01/07	D.No. 41-8-31, Mantadavari Street, Hamathpuram Krishnalanka, Vijayawada
103746	T. Kanya Kumari T. Deva Reddy	B.A.M.S. NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1713 28/06/05	H.No. 1-1 750/B1, B2 & B3, Flt.No.402 Gandhinagar, Udays Surya Imperial, Hyderabad
103747	T. Naga Tanuja T. Suri Babu	B.A.M.S. SCSV, Kanchheepuram (Deemed Univ.) 2003	21361 20/04/05	MIG-II- 73, Near Housing Board City, Manchilipatnam, Krishna (Distt)

103748	T. Nagejyothi K. Kistanna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21605 10/11/06	D.No. 12/3/830, Jesue Nagar, Anantapur
103749	T. Prahallad T. Venkatesh	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1655 04/10/04	C/o Sri Venkateswara Medical Store Main Road, Makhata(Mn), Mahaboobnagar
103750	T. Prashanth Rao T. Narasimha Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21444 08/02/06	Amarchinta, Mahaboobnagar
103751	T. Raghavendar Shesha Raju	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1749 10/10/05	H.No. 1-125/5, Ramnagar Zirayathnagar Armoor, Nizamabad
103752	T. Raviknath T. Sanjeeva	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1627 02/06/04	H.NO. 5-1-32/3/6, Sainagar Colony Sangareddy, Distt, Medak
103753	T. Sudhakar Yadav T. Prabhakar Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21493 18/07/06	H.No. 12-8-2, Muthyalapeta, Chirala Prakasam
103754	T. Surender Bahadar T. Ramchander	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1823 07/02/06	H.No. 3-2-689, Reddy House Chappali Bazar, Kachiguda, Hyderabad
103755	T.M. Unni Krishna T.M. Raghava	B.A.M.S Univ. of Madras 1985	21463 26/04/06	Arya Vaidya Sale Branch, 1-1-39, Sarajidevi Road, Secunderabad
103756	T.V. Ramakrishna D. Venkatacharyulu	B.A.M.S Gulbarga Univ, Gulbarga 1998	1624 07/06/05	C/o Ravindranath, H.No. 42, Kishannagar Ciy, Old Safilguda Rk. Puram, Secunderabad
103757	T.V. Satyavathi T. Satyanarayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21700 19/01/07	Pedadu, Thimmarajupeta, Anakapalli, Vizag
103758	Tagore Tinnaluri Dr. T. Srinivas Suri	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	21362 02/05/05	Sangam Road, Tiruvur Krishna (Dist)
103759	Thalakoti Lavanya T. Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1711 23/06/05	H.No. 4514, BHEL- MIG Phase-II Ram Chandrapuram, Hyderabad
103760	Thanniru Chandra Sekhar Satyanarayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21421 02/01/06	Prake Medical's Ambedkar Street, Ulavapadu Prakasam (Dist)
103761	Thirupathi Kothapally K. Pocham	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1780 31/01/06	H.No. 28- 152/2, Gopalwada Mancheriali Adilabad
103762	Tippanti Arpitha T. Yadegiri Rao	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1690 09/02/05	Venkateswara Diagnostics JPN Road Wamagal

103763	Tonape Vinaya Tukaram	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21544 03/08/06	C/o. Venkateswara Nursing home, Yeldurthy, Medak
103764	Trilupathi K Venkat Ramulu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1650 16/10/04	H.No 4-11-43/1 Lenewada Narayanpet, Mahabubnagar
103765	Trivikram Reddy T. Madhusudan Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21496 18/07/06	Plt. No. 17/4, Saraswathi Nagar c/o, Lothkunta Secunderabad
103766	Tunnala Krishna Prasad T. Rama Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21801 10/05/06	Dosapadu, Pedaparupudi, Krishna
103767	U. Rajalakshmi U. Narsimhulu Goud	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21726 29/01/07	N.C.C. Colony, Vengal Rao Nagar, Nellore Dist
103768	UNSVL Himabindu U.S. Murthy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1676 03/01/05	Ct. No. 328/D Type IV, NHI BHEL Township, Hyderabad
103769	Ushadevi Tammannavar Kidnbi Bhargava	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2001	21477 03/07/06	H.No. 6-3-158/1, Opp. Aramghar, Shivarampally Rajendranagar, R.R Dist
103770	Uyyala Thirupathi U. Balaraju	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1801 31/01/06	Narsingapoor (VIII) Veenavaka Karimnagar
103771	Uzma Ahmed Mohiuddin Ahmed Mohiuddin	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21622 21/12/06	H.No. 2-2-361, Amberpet, Hyderabad
103772	V. Agni Shika V. Venu Madhu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21722 22/01/07	H.No. 7-1-455, M.M. Thota Karimnagar
103773	V. Haritha V. Ganga Raju	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21679 18/01/07	H.No. 20, Jainagar Colony, Annanayya Nagar, Tirupati
103774	V. Kiranthe Kumari V.V. S. Naidu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21665 08/01/07	H.No. A-53, Railway Qt, Mouli Ali, Hyderabad
103775	V. Muni Subrahmanyam V.M. Ramalah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21725 29/01/07	Vinnamala, Naldupeta, Nellore Dist
103776	V. Nava Venu Laxman Das Gandhi	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21678 18/01/07	Flt. No. 12, Dkya Apts, Brindavan, Gardens, 7th Line, Guntur
103777	V. Rudreswara Rao V. Koteswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21694 18/01/07	Nandivelugu, Tenali, Guntur

103778	V. Sandhya Rani Sadanadani	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1788 31/01/06	Vellampally (P), Parabel (Mn) Distt, Warangal
103779	V. Shyla S.A. Wahab	B.A.M.S Univ. of Kerala 2005	1694 12/04/05	C/o Mohd.Bin Mohmood, RTD, IPG, GP AP 10-2 289/11, Santhinagar, Hyderabad
103780	V.B. Pavani V. Balakrishna	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21542 03/08/06	D.No.10-778, Sashapeeran Street, Chittoor Dist
103781	V.L. Neelima Govinda Raju G. Hunnamantha Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	21332 22/12/04	D.No.60-3-9, RC Nagar, Adarsh Apts, Vijayawada
103782	Vallabdas Swapna Gangadhar Goud	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1712 28/06/05	Atmakur, Distt Mahaboobnagar (Distt)
103783	Vangapalli Geetha Vani V. Kotaiiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21415 02/01/06	D.No. 37-1-418, Ramnagar 3rd Lane Ongole, Prakasam (Dist)
103784	Vanitha Katkuri K. Krishna Goud	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1779 31/01/06	H.No.8-3-672/LA,(3-3) Sai Maruti Apts. Yellareddyguda, Ameerpet, Hyderabad
103785	Vankayalapati Mridula V. Raama Chandra Raav	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21845 05/01/07	H.No. 16-2-752/24/36, Triveninagar, Dilusknagar, Hyderabad
103786	Varalakshmi K. Tirupathi Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21803 26/10/06	W/o. Dr. P. Venkat Lingasamudram Parakasam
103787	Varaprasad K. Venatesh	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	21381 23/07/05	Mullepalli, Poddavudugur, Anantapur (Dist)
103788	Vardhiboyina MadhuriDin V. Vijaya Babu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1686 03/01/05	H.No.2-2-11 1108/1/9 Tilaknagar New Nallakunta, Hyderabad
103789	Vejemdia Priyanka Koteswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1701 24/04/05	C/o Dr.Y.Sekhar D-10,Vijay Pratap Apts. Streer, No.06,Vidyanagar,Hyderabad
103790	Velasiri Venkateswara Rao Koteswara Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1729 15/07/05	Gannavaram, WYRA Mandal Dsitt, Khammam
103791	Venkateswarlu Konda Kishnaiah	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1675 03/01/05	H.No. 8-2-233, Sundaralahnagar Manugur, Khammam
103792	Venkata J.C.H. Bhadram Venkata Ramanajacharyulu	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1647 16/10/04	H.No. 1-48-6, Mohan Nagar Colony Kathapeta, Hyderabad



103793	Venkata Ramana A A. Ganeswar	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2004	21443 08/02/06	H.No. 8-3-165, Erragadda Hyderabad
103794	Venu Annadate Hemachandria Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2003	1630 14/07/05	H.No. 18-161, Flat No. 301, Rd. No 6, Disuknagar, Hyderabad
103795	Venu Madhav K. Mohana Chary	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21650 05/01/07	H.No.9-97,Raghu Homti Colony, Balapur, R.R. Dist
103796	Venuopal K. Satya Narayana	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2002	21329 14/12/04	Near Raghavendra Temple, Halipet Shahapur (T) Distt Gulbharaga
103797	Vijay Kumar P. Venkata Swamy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21723 22/01/07	H.No. 2-10-1346, Opp. St. Johns High School Bhagyanagar, Karimnagar
103798	Vijaya Lakshmi R. Bixapathi	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21714 22/01/07	H.No. 1-20, Bramhanapally, Binlinagar, Nalgonda
103799	Vijaylakshmi B. Rani I. Suryanarayana Raju	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1642 11/08/04	H.No. Qt.No.3/A, A Block Old MLA Orts, Hyderguda, Hyderabad
103800	Vittal Champukavalli VSK Sarma	B.A.M.S R.G.U.H. Sciences, Bangalore 2003	1648 16/10/04	H.No. 1-1-44 Mohan Nagar Colony Kathapeta, Hyderabad
103801	Y. Anil Kumar Markandeyulu	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21648 05/01/07	Devanupula, Warangal
103802	Y. Bhavani Y. Jagan Mohan Rao	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21698 19/01/07	East Street, Bangarapet, Venkatagiri, Nellore Dist
103803	Y. Jaya Shree Y. Joshi	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21690 18/01/07	D.NO. 36-8-3/A, Woodpeta, Mogolra Puram, Vijayawada
103804	Y. Sukanya Bixma Reddy	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2005	21640 05/01/07	Pongugodu, Garidepally, Nalgonda
103805	Yeggoni Srinivas Y. Suryanarayana	B.A.M.S NTR Univ. of Health Science, Vijayawada 2004	1740 15/07/05	H.No. 13-6-434/C/116, Maruthnagar Sitapur Ring Road, Golkunda

P. R. SHARMA  
Registrar

**CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE**  
**ANDHRA PRADESH**  
**PART - II - UNNANI**

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
10104	Abdul Hasan Ashraf Ahmed Ashraf	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21399 29/12/05	H.No.8-16-13, Madhiravari Street, Wynchpet, Vijayawada
10105	Abdul Munag Shaik Shaik Mahabood Basha	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21513 21/07/06	H.No. 13-4-85/28, Pannipura, Karwan, Hyderabad
10106	Abdul Saeed Abdul Jabbar	B.U.M.S Devi Ahilya Univ, Indore 2004	21742 02/03/07	V-3-23-815, Yusufain Colony Phool Bagh Hyderabad
10107	Abdur Rajak Md Sri Abdur Samad	B.U.M.S Dr. MGR. Med. Univ, Chennai 2002	21321 18/08/04	H.NO. 4-55 A, Benayaz Mohalla (Ulavadibba) Sonasija Rd. Atmakur, Nellore
10108	Abida Begum S. A. Ameer	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21400 30/12/05	H.No. 68/37, A Near Urban Bank Road Kurmool (Dist)
10109	Afshan Jabeen Abdul Subhan Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21398 29/12/05	H.No.8-16-13, Madhiravari Street, Wynchpet, Vijayawada
10110	Aizaz Unnisa Begam Md. Qutubuddin Farooqui	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21534 28/07/06	H.No. 17-3-405/2, Imlibun, Yakurpura, Hyderabad
10111	Amatur Rahaman Summa Abdul Rahaman	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21429 04/01/06	H.No. 9-62-30, Islampet, Drain Street, Vijayawada, Kirsina Dist
10112	Ammathul Waseem Hajer Md. Khaleelur. Rahman	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21536 02/08/06	H.No. 16-4-650/4, Chanahaliguda, Hyderabad
10113	Arifa Basheer Syeda Syed Basheeruddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21575 22/08/06	H.No. 17-2-1136/A/28, Madannapet PS, Hyderabad
10114	Ajumanand Nazla M.K. Zahiriuddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21524 21/07/06	H.No. 14-1-109, Sitrapet, Hyderabad
10115	Asra Siddiqua Mohd, Abdul Lateef	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21558 18/08/06	Plot, No.393, Gulmohar Park Colony, Serilingam Pally, Hyderabad
10116	Ayesha Asma Farooqui Shoukat Mujeec Farooqui	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21563 19/08/06	H.No. 12-2-786/7, Rathibouli, Mehdipatnam, Hyderabad

10117	Azra Shaffin Abdul Jabbar	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21587 30/08/06	H.No. 12-2-709/C/66, Padmanabha Nagar, Mehdiapatnam, Hyderabad
10118	Bushra Zahoor Zahooruddin Yousuf	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21539 02/08/06	H.No. 20-4-229/11/2 A, Khilwath, Hyderabad
10119	Chandrasekhar K. Adinarayana	B.U.M.S. R.G.U.H. Science, Bangalore 2005	21572 22/08/06	D.No. 1/1189/83, NGO'S, Kadiri Anantapur
10120	Chedalaawada Venela Ch. Kondaliah	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2006	21627 23/12/06	H.NO.35-2-158 (1) Seetharampuram Ongole, Prakasam
10121	Faiz Shahni A. Shehni	B.U.M.S. Devi Ahilya Univ, Indore 2001	21535 31/07/06	H.No. D-4 Koh-E-Flza, B.D.A. Colony
10122	Faiza Fatima M.A. Hai Siddique	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21548 08/08/06	H.No. 11-4-338, Bazarghat, Red Hills, Hyderabad
10123	Fareha Tamkeen Anwar Ahmed Quadri	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21522 21/07/06	H.No.16-9-885/6/7, Old Malakpet, Hyderabad
10124	Fatma Fatima Abdullah Bin Sayeed	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21565 19/08/06	H.No.10-4-771/82/33/2, Owaisipura, Masabtank Hyderabad
10125	Fasahath Ruba Md. Sayeeduddin	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21502 19/07/06	H.No.22-41-Vivekananda Nagar, Dilsuknagar Hyderabad
10126	Fayaz Ahmed Khan Khuosheed Hussian	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21538 02/08/06	H.No. 1-10/9/1/A, S.S. Gutta Mahaboobnagar
10127	Humera Tehseen Md. Tameez Ahmed Siffiqui	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21490 15/07/06	H.No.19-2-21/D/15, Inside Bagh Amjed Daolah Misri Gunj, Hyderabad
10128	Hundekar Abdullah H. Abdullah Salam	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21619 15/12/06	H.No. 45/26-A, Ashok Nagar, Kurnool
10129	L. Mohammad Azam L. Khaleel Saheb	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21579 24/08/06	H.No. 4-112, Masq Street, Peddathippa, Samudram, Chittoor
10130	Laddaghi Gousia Begum L.M. Suleman	B.U.M.S. NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21621 18/12/06	H.No. 45/49-B, N. R. Nagar Kurnool

10131	M. Ramesh M. Rangalah	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2003	21316 14/07/04	H.No. 80-11-131-3-HIG (4) Anju Nilay AP H.B City, Abbas Nagar, Kumool h.No. 76, 111-18, Nirmal Nagar Kumool (Dist)
10132	M. Chaitanya Ram M. Durga Rao	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21484 06/07/06	H.NO. 41/96, N.R.Peta Kumool
10133	M. Dilawar Baig M. Altaf Hussain Baig	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21491 15/07/06	Pit. No. 47, Vidyuth Nagar Distt, Anantapur
10134	M. Kaleemoon M. Rahmatullah	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 1999	21330 20/12/04	H.NO. 29/126/126-C Part, Chunne Valli Gali Kumool
10135	M. Shabana Azmi M. Khaja Hussain	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2003	21322 23/08/04	D.NO. 9/185-13-3, Salpet, Nagar Alpha School Kadapa
10136	M. Tahir Ali M. Anjad Ali	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21625 22/12/06	D.No. 8/363/A, Momonabad Street, Hamunesh, Nagar, Guntakal, Anantapur
10137	M. Md. Asif H. Md Ibrahim	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21527 22/07/06	H.No. 9-10-25, Golconda Fort, Hyderabad
10138	Masrath Unissa Md. Abdul Hafeez	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21678 24/08/06	H.No. 9/27, Peta Pinjari Street, Kuenool, Kumool (Dist)
10139	Mazhar Hussain P. Md. Abdul Shakur	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21406 31/12/05	D.No. 4-1878-C-Block 1SI Lane, Chittoor
10140	Md. Faizulla H. Md. Karamathulla	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21630 29/12/06	H.No. 281/A, New Malakpet, Hyderabad
10141	Md. Jamsheed Ali Siddique Md. Tahaffuz Ali Siddiqui	B.U.M.S R.G.U.H. Science, Bangalore 2005	21741 28/02/07	H.No. 13-6-431/E/80, Moghal Nagar, Ring Road, Hyderabad
10142	Md. Siraj Ahmed Md. Shabeer Ahmed	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21585 29/08/06	D.No. 10/876-1, Vallisab Road, Kadiri, Anantapur
10143	Md. Zafar Ali Vemala Sardar Valli	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21519 21/07/06	H.No. 20-4-973/59, Khivath Chowk, Meerghana Road, Hyderabad
10144	Mehnaz Zahed Quaraishi Zahed Naseem Quaraishi	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21529 22/07/06	

10145	Mohammad Adeebur Rehman G.K. Anwar Basha	B.U.M.S R.G.U.H. Science , Bangalore 2005	21570 22/08/06	Main Road, Mahal Post, Chittoor
10146	Muhib Jahan Ni.Md. Iqbaluddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21584 29/08/06	H.No. 16-3-994/A/2/1/3, Opp, Officers Mess Function Hall, Malakpet, Hyderabad
10147	Mukaraam Jah Rizwan Ahmed	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2006	21626 23/12/06	H.No. 15-3-24, Adwarpet Eluru, West Godavari
10148	Munawar Fatima Md. Yousuf Aji	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21589 31/08/06	H.No. 5-9-32, Maniyam Cheika, Opp.Verefrinary Hospital Nalgonda
10149	Muthyala Rajkumar Muthyala Yelliah	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21562 19/08/06	H.No. 8-9-110, Manikanta Nagar, Near Head PO, Giddalur, Prakasam
10150	Muzammil Fatima Md. Balighuddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21530 22/07/06	H.No. 12-2-418/1A, Flt. No.8, 1st Floor Muradnagar, Mehdipatnam, Hyderabad
10151	N. Kavita N. Narasimham	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21505 19/07/06	H.No. 2-2-185/56/C72A, Somasunder Nagar Begh, Amberpet, Hyderabad
10152	Najam Unnasa Begum Md. Shafi Ahmed	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21521 21/07/06	H.No. 17-8-275, Chawani Nade Ali Baig Yakutpura, Hyderabad
10153	Najma Ghouse Unnisa Shaik Fareed Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21523 21/07/06	H.No. 158-8-118/1/20/C Mubarak - UD-Daula Civ, Edi Bazar, Hyderabad
10154	Nuzhat Sultana Mahammed Ali	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21525 21/07/06	H.No. 10-5-306/B Syed Nagar First Lancer's Hyderabad
10155	P. Nazia Farheen P.Zia-Uj Kareem	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21596 15/09/06	H.No. 6/14-A.Dr. Gaffar. Street. Osmania Coll, Rs, Kurnool
10156	P. Paramkusha Dass P. Ramanarayana	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21593 14/09/06	Palakurthy Distt, Warangal
10157	P. Shahid Khan P. Hussain Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2003	21350 02/02/05	D. No. 15/96, Peddabesta. Street Kadapa (P& M)
10158	P. Ugalakshmi Devi P. Obulesu	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21514 21/07/06	H.No. 46/311, Budhavarpet, Kurnool

10159	P. M. Umone Salma P. M. Shafiullah	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21483 06/07/06	H.No. 11-381, Society Ciy, Madenapalle, Chittoor
10160	Qathad Abdul Rasheed Khasame	B.U.M.S R.G.U.H. Science , Bangalore 2001	21533 26/07/06	H.No. 18-12-418/B-1, Tayyaba Manzil Beside Masjid-E-Alkauser Hafez, Babanagar, Hyderabad
10161	Rafath Fatima Mahamand Mohd. Abdul Azeez	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21402 31/12/05	Lebal Garden, Bandlaguda, Chandra Yangutta, Hyderabad
10162	Rafia Amjad Amjad Ali Siddiqui	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21580 24/08/06	Pt. No.121,Road No.3,Kakatiya, Colony LB.Nagar Hyderabad
10163	Rafiq Ahmed Bhat Gh. Mohiuddin Bhat	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21520 21/07/06	Col. Sai Sadhan No.9-1-34/30/ 59/B, Bapu Nagar Langar House, Hyderabad
10164	Rahamatullah Basha .S Hasan Basha	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21375 28/06/05	H.No. 15-7-77, Kummara Bazar , Old Guntur Dist
10165	Rasheeda Fatima Hafiz Hameed	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21551 14/08/06	H.No. 8-6-69, Barkatpura , Nizamabad
10166	Rehana Tasneem M.A. Razzak	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21594 14/09/06	H.No. 16-3-447/D, Chanchalguda Hyderabad
10167	Roohi Khatoon Md. Maharnood	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21537 20/08/06	H.No. 45/142/A-62, Azeeemuddin Nagar, V.R. Colony, Kumool
10168	Roshan Jehan Ara Shaik Shamsheer Islam	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2003	21317 27/07/04	C/o.Samar Nursing Home, Cherurkalli (P) Ponnur, Guntur
10169	S. Khader Basha S. Gouse Mohiuddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2003	21319 05/08/04	H.No. 11/772, Habeebullah Kadapa
10170	S.M.D. Jeelani S. Ghouse Basha	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21620 15/12/06	H.No. 6/170, Burhanuddin Street, Kadapa
10171	Sadia Yasmeen Syed Abdul Gafoor	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21550 11/08/06	H.No. 23-3-23, Sultan Shahi Hyderabad
10172	Salma Begum Md. Afsar	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21564 19/08/06	H.No. 18-12-418/A/92/4, Hafiz Baba Nagar Kanchanbagh, Hyderabad

10173	Sameena Farheen Md. Mujeed-ur- Rehman Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21583 29/08/06	H.No. 1-1-586, Opp, R&B, Guest House, Rakasipet, Bodhan, Nizamabad
10174	Sayyada Jeevanta Syed Abdur Razzack	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21528 22/07/06	H.No. 11-3-782, New Malleshpally, Hyderabad
10175	Shabana Khathoon N N. Rasool Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2002	21355 10/03/05	H.No. 28/2A, Nagar I Town Distt, Kurnool
10176	Shaik Safer Ahmed Shaik Omer	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21494 18/07/06	H.No. 12-11-630, Warisguda, Secunderabad
10177	Shaikh Abdul Rab Hafiz Abdul Jabbar	B.U.M.S M.U.H.S.Nashik 2003	21735 90/02/07	O/o S.M. Rahmataulla, Raja Nagar, Velgode, Kurnool
10178	Shameem Ara Ahmed Hussain	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21482 06/07/06	H.No. 25-640, Srinivasa Nagar, Nandya
10179	Syed Asiya Farheen B. Krishna	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21557 18/08/06	H.No. 23-1-704, Moghalpura Hyderabad
10180	Syed Baheerunnisa S.S. Yusuf Khundmiri	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21560 19/08/06	H.No. 16-8-784, New Malakpet, Hyderabad
10181	Syed Imran Shabbar Syed Amanullah	B.U.M.S R.G.U.H. Science, Bangalore 2002	21391 17/10/05	H.No. 21/223, Gunta Bazar, RS Road 2nd Floor Kadapa (Dist)
10182	Syed Parveen Babby Syed Chingeesha	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21509 20/07/06	H.No. 401, 4th. Floor, Sahithi Avenue Vedayapalem, Nellore
10183	Syed Rukunuddin Sheikhza Syed Aleemuddin	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21577 23/08/06	H.No. 20-7-63, Himmathapura, Hyderabad
10184	Syeda Afshan Jabeen Aziz Ali Bukhari	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21501 19/07/06	H.No. 17-5-397, Bi Bi Alawa Dabeerpura Hyderabad
10185	Syeda Rehana Kausar Syed Amanullah	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2004	21405 31/12/05	H.No. 21/223, Gunta Bazar, R.S. Rd. Kadapa
10186	T. Arshadali Khan R. Mubarak Ali Khan	B.U.M.S NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada 2005	21532 26/07/06	H.No. 8-155/2, Vali Sahib Road Kadiri Anantapur

H.No. 1/734-IB 1st. Flr] Bypass  
Rd, Kadiri Ananthapur

H.No. 1-181, Venkata Kishana  
Theatre Road, Melecturu  
Cehagallu, West Goadavari

21457  
12/04/06

21359  
19/04/05

B.U.M.S  
R.G.U.H. Science , Bangalore  
2004

B.U.M.S  
R.G.U.H. Science , Bangalore  
1997

T. Saifula Khan  
T. Shameer Khan

Y. Usha Kiran  
Y. Vasudev Murthy

10187

10188

P. R. SHARMA  
Registrar

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2008  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2008